

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

लेखाधिकारी

नगर निगम

गाजियाबाद

LAM/145
31.07.2024




सम्परीक्षा आख्या

वर्ष 2022-23

नगर निगम, गाजियाबाद ।

कार्यालय, उप निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र०
मेरठ मण्डल, मेरठ



टी-03

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज ।

सम्परीक्षा आख्या

लेखे का नाम :- नगर निगम, गाजियाबाद ।

अवधि :- वर्ष 2022-23

प्रस्तावना :- "यह आडिट रिपोर्ट भारत सरकार के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के पूर्ण तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण तथा इसके द्वारा निर्धारित सम्प्रेक्षण मापदण्ड एवं लेखा प्रमाणन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए राज्य अधिनियम/स्थानीय निकायो के नियमों के अन्तर्गत तैयार की गयी है।"

सम्परीक्षा तिथि :- नगर निगम, गाजियाबाद की वर्ष 2022-23 की सम्परीक्षा दिनांक-11.08.2023 को प्रारम्भ एवं दिनांक-26.03.2024 को समाप्त की गयी ।

प्रशासन : - आलोच्य अवधि में नगर निगम के महापौर के पद पर दिनांक-01.04.2022 से 23.01.2023 तक श्रीमती आशा शर्मा आसीन रहीं। दिनांक 24.01.2023 से 31.03.2023 तक श्री राकेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी, गाजियाबाद प्रशासक के रूप में आसीन रहे। नगर आयुक्त के पद पर निम्नवत व्यक्ति कार्यरत थे -

क्र0 नाम व पदनाम

अवधि

1- श्री महेन्द्र सिंह तवंर, नगर आयुक्त, 01.04.2022 से 18.09.2022 तक ।

2- श्री नितिन गौड़, नगर आयुक्त, 20.09.2022 से 31.03.2023 तक ।

लेखाधिकारी के पद पर श्री राजेश गौतम सम्पूर्ण अवधि में कार्यरत रहे। आलोच्य अवधि में विकास कार्यों के आहरण-वितरण का कार्य नगर आयुक्त, एवं लेखाधिकारी, द्वारा तथा वेतन भुगतान का कार्य लेखाधिकारी, एवं सहायक नगर आयुक्त, द्वारा संयुक्त रूप से सम्पादित किया गया ।

लेखा परीक्षा स्वरूप :- उप सम्परीक्षा ।

डिस्कलेमर :- "यह निरीक्षण प्रतिवेदन नगर निगम, गाजियाबाद के लेखाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/दी गयी सूचनाओं के आधार पर तैयार की गयी है। यदि इनके द्वारा कोई अभिलेख/तथ्य छिपाये गये हैं अथवा गलत प्रस्तुत किये गये हैं तो इसका उत्तर दायित्व कार्यालय, निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज का नहीं होगा।

भाग - "क"

लेखे की सम्परीक्षा में पायी गयी उल्लेखनीय आपत्तियों का विवरण :-

1- निधि की हानि, आर्थिक क्षति, राजस्व क्षति एवं धन के दुरुपयोग के प्रकरण :-

(क) - मै0 मीडिया वर्क शॉप की बी0 ओ0 टी0 पत्रावली में आय की कम प्राप्ति रू0 18,33,558=00 नगर निगम के 30 प्रतिशत भाग पर अनाधिकृत रूप से विज्ञापन करने के कारण रू0 10,00,000=00 अर्थदण्ड की वसूली न किया जाना, फुट ओवर ब्रिज के साथ विद्युत चलित स्केलेटर, रैम्प, अथवा लिफ्ट का निर्माण न किये जाने के कारण रू0 10,00,000=00 की नगर निगम को आर्थिक क्षति एवं अनुबन्ध में निर्धारित मूल्य के स्टाम्प न लगाये जाने के कारण रू0 4,66,440=00 की राजस्व क्षति, नगर निगम को कुल आर्थिक क्षति रू0 38,33,558=00 :-

उपरोक्त पत्रावली की जांच से प्रकाश में आया कि मै0 मीडिया वर्क शॉप के द्वारा तीन स्थलो यथा (1) मेरठ मोड निकट नन्द ग्राम कट (2) साहिबाबाद निकट नवीन सब्जी मण्डी लिंक रोड एवं (3) विजय नगर हेतु /परिवर्तित स्थल एन0 एच0 24 से गंगाजल/मेरठ रोड पर जाने वाले मार्ग पर फुट ओवर ब्रिज बनाने हेतु आवेदन किया गया था।

उक्त कार्य की स्वीकृति पत्रांक सं0-360/निर्माण/2012-13 दिनांक 27-01-12 द्वारा प्रदान की गयी थी एवं अधिशासी अभियंता यातायात नगर निगम, गाजियाबाद के पत्रांक सं0-211/निर्माण 2012-13 के द्वारा 3 कार्यों के अनुमोदन कराकर स्वीकृति प्रदान की गयी थी। किन्तु पत्रावली में संलग्न विवरणानुसार मै0 मीडिया वर्क शॉप द्वारा (1) मेरठ मोड निकट नन्दग्राम कट (2) साहिबाबाद निकट नवीन सब्जी मण्डी लिंक रोड, फुटओवर ब्रिज, का ही निर्माण कराया गया था। विजय नगर फुट ओवर ब्रिज जिसका स्थान परिवर्तन करके एन0 एच0 24 से गंगाजल मेरड रोड पर जाने वाले मार्ग किया गया था का निर्माण से सम्बन्धित कोई साक्ष्य पत्रावली में संलग्न नहीं था।

उक्त पत्रावली अनुसार फुटओवर ब्रिज निर्माण से सम्बन्धित अनुबन्ध दिनांक 15-01-2013 को किया गया था। उपरोक्त अनुबन्ध 30 वर्ष हेतु अर्थात् दिनांक 14-01-2043 तक के लिए किया गया था अनुबन्ध की धारा 3.6 के अनुसार विज्ञापन क्षेत्रफल 4900=00 वर्ग फीट के 70 प्रतिशत भाग अर्थात् 3400=00 वर्ग फीट का उपयोग फर्म द्वारा किया जाना था एवं 30 प्रतिशत भाग नगर निगम के उपयोग हेतु था जिस पर फर्म के व्यय पर जनहित विज्ञापनो का प्रसारण किया जाना

(9) अनुबन्ध की धारा 3.19 के अनुसार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण पी० डब्ल्यू० डी० एन० एच० ए० आई० व पुलिस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही फुटओवर ब्रिज का निर्माण किया जाना था। किन्तु फर्म द्वारा फुटओवर ब्रिजों का निर्माण बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये ही कराया गया था। जोकि पूर्णतः अनियमित था। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(10) फुट ओवर ब्रिजों के साथ विद्युत चलित स्केलेटर रैम्प अथवा लिफ्ट का निर्माण न किया जाना इस बात का द्योतक था कि इन फुट ओवर ब्रिजों का निर्माण जन – साधारण के उपयोग हेतु न करके मात्र विज्ञापनों से आय प्राप्त करने हेतु किया गया था। जन साधारण के उपयोगार्थ न होने के कारण इनके निर्माण का उद्देश्य ही समाप्त हो गया था इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

(11) पत्रावलीनुसार सम्परीक्षा अवधि तक किसी भी फुट ओवर बिज का हस्तान्तरण नगर निगम, गाजियाबाद को नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराया जाय।

(12) दर्शायी गयी जमा धनराशियों की निगम कोष व बैंक में जमा का सत्यापन कराया जाना अपेक्षित है।

(ख)– मै० एल०एस०टी०एल० मीडिया लिमिटेड की बी०ओ०टी० फुट ओवर ब्रिज की पत्रावली में आय की कम प्राप्ति रू० 2065456 नगर निगम को अनुबन्ध की शर्त संख्या 3,4,5,10 का अनुपालन न करने के कारण रू० 10,00,000 का अर्थ दण्ड से वंचित करना एवं इण्डियन रोड काग्रेस की धारा 6.8 तथा धारा 2.13.4 की बिन्दु संख्या 2 में उल्लिखित प्रावधानों की अवहेलना कर रैम्प निर्माण न करने के कारण रू० 10,00,000 का अर्थदण्ड फर्म द्वारा नगर निगम कोष में जमा न करना कुल अर्थदण्ड $10,00,000+10,00,000=20,00,000$ एवं अनुबन्ध में निर्धारित मूल्य के स्टाम्प न लगाये जाने के कारण रू० 7,83,260 की राजस्व क्षति।

कुल राजस्व क्षति रू० 7,83,260

कुल आर्थिक क्षति रू० 40,65,456

उपरोक्त पत्रावली की जाँच से प्रकाश में आया कि मै० एल०एस०टी०एल० मीडिया लिमिटेड द्वारा 2 स्थलों (1) साहिबाबाद गाँव (2) मोहन नगर बस स्टैण्ड के पास 2 फुट ओवर ब्रिज का

अवधि है	
विज्ञापन शुल्क (प्रति पंख वर्ष 5 प्रतिशत वृद्धि के साथ)	
प्रथम पंख वर्ष	3430×100×5 = 17,15,000
द्वितीय पंख वर्ष	3430×105×5 = 18,00,750

धति पट्टियाँ गयी थी। जिसका विवरण निम्नवत है -

जबकि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची-1, "ख" अनुच्छेद-35 के अनुसार उपरोक्त अनुबन्ध रु० 40 हजार व अंश की गणना के अनुसार निम्नवत रु० 4,66,640 के स्टाम्प पर अनुबन्ध किया जाना चाहिये था। ऐसा न किया जाने के कारण शासन की 4,66,440 की राजकीय राजस्व (4) उपरोक्त फर्म का अनुबन्ध रु० 100 एवं संशोधित अनुबन्ध रु० 100 पर करायें गये थे।

नगर निगम कोष में जमा करायें जाने हेतु कार्यवाही अपेक्षित है।

(3) अनुबन्ध की धारा 3.8 के अनुसार शहर से आसक्त/विकालांगी/रंगी व्यक्तियों व उपयोजिता के दृष्टिगत विधित चलित स्कैलेटर, रैम्प अथवा लिफ्ट का निर्माण किया जाना था। जिसका निर्माण फर्म द्वारा नहीं किया गया था। जिस हेतु नगर निगम, गालियाबाद के पत्रांक 395/न0310/2019-20 दिनांक 06-03-2020 द्वारा रु० 10,00,000 का अर्द्धपट्ट लमाया गया था जिसके जमा की पुष्टि पत्रावली से नहीं हुई थी। अतः उक्त धनराशि रु० 10,00,000 को तत्काल

नगर निगम कोष में जमा करायें जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रति किया गया था। किन्तु इसके जमा की पुष्टि पत्रावली से नहीं हो रही थी। अतः इसे तत्काल पत्रावली के पृष्ठ सं०-70 के अनुसार फर्म को रु० 10,00,000=00 के अर्द्धपट्ट का नोटिस

विवरण	
वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक हेतु 1470 वर्ग फीट × 100 × 4 वर्ष	5,88,000
+ 12 प्रतिशत ब्याज (4 वर्ष हेतु)	2,82,240
नगर निगम अधिनियम - 1959 की धारा 467 के अन्तर्गत अर्द्धपट्ट रु०	100
नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 467 के अन्तर्गत 25रु० का	36,475
अर्द्धपट्ट	
कुल 1459 दिवस हेतु कुल अर्द्धपट्ट की धनराशि	9,06,815

धनराशि

अर्थात् लनाया गया था।

क्षेत्रफल 1470 वर्ग फीट का उपयोग फर्म द्वारा स्वयं के विज्ञापन हेतु किया जाने के कारण निम्नवत 48/विधि/2020-21 दिनांक 15-06-2020 के अनुसार 30 प्रतिशत सरकारी विज्ञापन हेतु आरक्षित प्रसारण किया जाना था। पत्रावली में संलग्न नगर आयुक्त, नगर निगम, गालियाबाद के पत्रांक भाग 1470 वर्ग फीट क्षेत्र पर फर्म के खर्च पर नगर निगम की ओर से जन उपयोगी विज्ञापन का (2) अनुबन्ध की धारा 3.6 के अनुसार कुल विज्ञापन क्षेत्रफल 4900 वर्ग फीट के 30 प्रतिशत

निगम को आर्थिक क्षति पहुँचाई गई।

फर्म ने कम जमा कर नगर निगम को कुल ₹ 25,21,907 - 6,88,349 = ₹ 18,33,558 नगर विनियम पत्रावली के अनुसार फर्म द्वारा धरनाही 6,88,349=00 जमा किया गया था। इस प्रकार

वर्ष	वर्ग फीट 70 प्रतिशत	दर	विज्ञापन शुल्क (रुप)
2016-17	3430	100	3,43,000
2017-18	3430	105	3,60,150
2018-19	3430	105	3,60,150
2019-20	3430	105	3,60,150
2020-21	3430	105	3,60,150
2021-22	3430	105	3,60,150
2022-23	3430	110.25	3,78,157
			25,21,907

जाना प्रारम्भ किया गया था।

निगम में निम्नवत विज्ञापन शुल्क जमा करना था जोकि पत्रावलीनुसार वर्ष 2016-17 से जमा किया 4900=00 था। उपर्युक्त के अनुसार वर्ष 2022-23 तक की अवधि हेतु फर्म को शर्तों के अधीन नगर की जानी थी। विज्ञापन शुल्क 100/- प्रति वर्ग फीट प्रति वर्ष देय था। कुल वर्ग फीट कार्य था। साथ ही अनुबन्ध की धारा 3.7 के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष पर 5 प्रतिशत विज्ञापन शुल्क में वृद्धि

तृतीय पांच वर्ष	$3430 \times 110.25 \times 5 = 18,90,788$
चतुर्थ पांच वर्ष	$3430 \times 115.76 \times 5 = 19,85,284$
पंचम पांच वर्ष	$3430 \times 121.55 \times 5 = 20,84,583$
अन्तिम पांच वर्ष	$3430 \times 127.63 \times 5 = 21,88,855$
	योग = 116,65,260

देय स्टाम्प = $11,666 \times 40 = 4,66,640 - 200$ (लगाये गये स्टाम्प)

राजस्व क्षति रू0 = 4,66,440

उक्त एवं सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाना अपेक्षित है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में नगर निगम गाजियाबाद को रू0 18,33,558+10,00,000+10,00,000 = 38,33,558 की आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी थी एवं कम मूल्य के स्टाम्प पर अनुबन्ध किये जाने के कारण शासन को रू0 4,66,440 की राजस्व क्षति पहुंचायी गयी थी।

(5) अनुबन्ध की धारा 3.2 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शन का कार्य कम्पलिशन सर्टिफिकेट नगर निगम में प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त किया जाना था किन्तु सम्बन्धित फर्म द्वारा बिना पूर्णत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये ही विज्ञापन कार्य किया जाना प्रारम्भ कर दिया गया था जो कि अनुबन्ध की शर्तों का पूर्ण रूप से स्पष्ट उल्लंघन था। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाय।

(6) अनुबन्ध की धारा 3.9 के अनुसार निर्मित फुट ओवर ब्रिजों की ऊंचाई के सम्बन्ध में ट्रैफिक के संचालन हेतु स्मूथ प्लो का आई0 आर0 सी0 की गार्ड लाईन के अनुपालन के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं थी। इसे स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

(7) अनुबन्ध की धारा 3.12 के अनुसार निर्मित फुट ओवर ब्रिजों की रंगाई पुताई व साफ – सफाई प्रत्येक तीन माह में कराया जाना थी, किन्तु पत्रावलीनुसार यह स्पष्ट नहीं था कि रंगाई पुताई एवं साफ – सफाई करायी भी गयी थी अथवा नहीं। अतः इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाय अन्यथा की स्थिति में जुर्मानो इत्यादि की कार्यवाही अपेक्षित है।

(8) अनुबन्ध की धारा 3.16 के अनुसार विज्ञापन शुल्क छमाही रूप से विज्ञापन प्रदर्शन विवरण व साक्ष्य के साथ जमा किया जाना था, जोकि नहीं किया गया था इस हेतु कार्यवाही अपेक्षित है।

(9) अनुबन्ध की धारा 3.19 के अनुसार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण पी0 डब्ल्यू0 डी0 एन0 एच0 ए0 आई0 व पुलिस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही फुटओवर ब्रिज का निर्माण किया जाना था। किन्तु फर्म द्वारा फुटओवर ब्रिजों का निर्माण बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये ही कराया गया था। जोकि पूर्णतः अनियमित था। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(10) फुट ओवर ब्रिजों के साथ विद्युत चलित स्केलेटर रैम्प अथवा लिफ्ट का निर्माण न किया जाना इस बात का द्योतक था कि इन फुट ओवर ब्रिजों का निर्माण जन – साधारण के उपयोग हेतु न करके मात्र विज्ञापनों से आय प्राप्त करने हेतु किया गया था। जन साधारण के उपयोगार्थ न होने के कारण इनके निर्माण का उद्देश्य ही समाप्त हो गया था इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

(11) पत्रावलीनुसार सम्परीक्षा अवधि तक किसी भी फुट ओवर बिज का हस्तान्तरण नगर निगम, गाजियाबाद को नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराया जाय।

(12) दर्शायी गयी जमा धनराशियों की निगम कोष व बैंक में जमा का सत्यापन कराया जाना अपेक्षित है।

(ख)– मै0 एल0एस0टी0एल0 मीडिया लिमिटेड की बी0ओ0टी0 फुट ओवर ब्रिज की पत्रावली में आय की कम प्राप्ति रू0 2065456 नगर निगम को अनुबन्ध की शर्त संख्या 3,4,5,10 का अनुपालन न करने के कारण रू0 10,00,000 का अर्थ दण्ड से वंचित करना एवं इण्डियन रोड काग्रेस की धारा 6.8 तथा धारा 2.13.4 की बिन्दु संख्या 2 में उल्लिखित प्रावधानों की अवहेलना कर रैम्प निर्माण न करने के कारण रू0 10,00,000 का अर्थदण्ड फर्म द्वारा नगर निगम कोष में जमा न करना कुल अर्थदण्ड $10,00,000+10,00,000=20,00,000$ एवं अनुबन्ध में निर्धारित मूल्य के स्टाम्प न लगाये जाने के कारण रू0 7,83,260 की राजस्व क्षति।

कुल राजस्व क्षति रू0 7,83,260

कुल आर्थिक क्षति रू0 40,65,456

उपरोक्त पत्रावली की जाँच से प्रकाश में आया कि मै0 एल0एस0टी0एल0 मीडिया लिमिटेड द्वारा 2 स्थलों (1) साहिबाबाद गाँव (2) मोहन नगर बस स्टैण्ड के पास 2 फुट ओवर ब्रिज का

निर्माण कार्य कराया गया था। उक्त कार्यों का अनुबन्ध दिनांक 15.01.2010 में किया गया था एवं कार्य की स्वीकृति नगर निगम के पत्रांक 270/निर्माण/2011-12 दिनांक 09.09.2011 द्वारा प्रदान की गयी थी। उक्त कार्य के अनुबन्ध को 30 वर्षों हेतु किया गया था जिसमें अनुबन्ध की शर्तानुसार 2.1 के अनुसार विज्ञापन क्षेत्रफल $60 \times 10 \times 4 \times 2 = 4800$ वर्ग फीट था। अनुबन्ध की शर्त 2.1 के अनुसार विज्ञापन की दर 136 प्रतिवर्ग फीट निर्धारित की गयी थी जोकि प्रत्येक वर्ष नगर निगम को प्राप्त होगा। जिसका विवरण निम्नवत् था-

वर्ष	वर्ग फीट एरिया	दर	देय विज्ञापन शुल्क
2016-17	4800	136	652800
2017-18	4800	136	652800
2018-19	4800	136	652800
2019-20	4800	136	652800
2020-21	4800	136	652800
2021-22	4800	136	652800
2022-23	4800	136	652800
	योग		4569600

अनुबन्धानुसार नगर निगम को कुल रू0 45,69,600 वर्ष 2022-23 तक प्राप्त होना चाहिये था किन्तु मै0 एल0एस0टी0एल0 द्वारा मात्र रू0 25,22,416 पत्रावली अनुसार जमा किया गया था। इस प्रकार फर्म द्वारा कुल धनराशि रू0 45,69,600-25,22,416 = रू0 20,65,456 कम जमा किया गया था। यह नगर निगम को आर्थिक क्षति थी।

(2) पत्रावली की जाँच के समय प्रकाश में आया कि फर्म द्वारा आई0आर0सी0 (इण्डियन रोड कांग्रेस) नियमावली 2012 की धारा 6.8 तथा आई0आर0सी0 नियमावली की धारा 2.13.4 की बिन्दु संख्या 02 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुपालन में दोनो फुट ओवर ब्रिज क्रमशः साहिबाबाद गांव (2) मोहन नगर बस स्टैण्ड के पास पर शारिरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के आवागमन के उपयोग हेतु जनहित में रैम्प का निर्माण अनिवार्य रूप से कराना था। फुट ओवर ब्रिज पर रैम्प का निर्माण कराये बिना ही फुट ओवर ब्रिज विज्ञापन प्रदर्शित कर मात्र व्यवसायिक कार्य किया जा रहा था जिसके फलस्वरूप फर्म पर रू0 10,00,000 का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया गया था। किन्तु उक्त धनराशि को फर्म द्वारा नगर निगम कोष में जमा नहीं कराया गया था उक्त से सम्बन्धित नगर

निगम द्वारा कार्यालय आदेश संख्या 396/न0आ0/2019-20 दिनांक 06.03.2020 तदोपरान्त कार्यालय आदेश संख्या 4021/न0आ0/2019-20 दिनांक 16.03.2020 भी जारी किया गया था किन्तु उक्त के सापेक्ष भी फर्म द्वारा अर्थदण्ड की धनराशि कोष में जमा नहीं की गयी थी यह नगर निगम को आर्थिक क्षति थी।

(3) फर्म द्वारा अनुबन्ध की शर्त संख्या 3,4,5,10 का अनुपालन नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप नगर निगम के पत्रांक 169/बी0ओ0टी0/विज्ञापन/2020 दिनांक 21.11.2020 के द्वारा मै0 एल0एस0टी0एल0 पर रू0 10,00,000 का अर्थ दण्ड लगाया गया था एवं उक्त पत्र में यह भी व्यवस्था की गयी थी कि यदि फर्म उक्त अर्थदण्ड की धनराशि को जमा नहीं करती है तो फर्म को ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।

उक्त रू0 10,00,000 को फर्म द्वारा जमा कराया गया था अथवा नहीं इससे सम्बन्धित कोई साक्ष्य पत्रावली में संलग्न नहीं थे जिससे उक्त धनराशि के जमा का सत्यापन नहीं हो सका उक्त धनराशि रू0 10,00,000 की नगर निगम को आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी थी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि शर्त संख्या 3,4,5,10 का अनुपालन फर्म द्वारा नगर निगम के पत्र जारी करने के बाद भी अनुपालन कराया गया था अथवा नहीं एवं फर्म को ब्लैक लिस्ट करने के पश्चात् उन्हें किस प्रकार बिना अर्थदण्ड जमा कराये किस प्रकार विज्ञापन की धनराशि प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गयी। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय।

(4) उपरोक्त फर्म का अनुबन्ध रू0 100 एवं संशोधित अनुबन्ध भी रू0 100 पर कराये गये थे। जबकि भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899 की अनुसूचि-1 "ख" अनुच्छेद 35 के अनुसार उपरोक्त अनुबन्ध रू0 400 प्रति हजार व अंश की गणना के अनुसार निम्नवत् रू0 783360 के स्टाम्प पर किया जाना चाहिये था ऐसा न किये जाने के कारण शासन को रू0 783260 की राजस्व क्षति पहुँचायी गयी थी। जिसका विवरण निम्नवत् था।

अवधि हेतु	विज्ञापन क्षेत्रफल × दर	धनराशि
30 वर्ष	4800×136	1,95,84,000
स्टाम्प की वास्तविक धनराशि 19584×40	783360	
पत्रावली में संलग्न स्टाम्प(-)	100	
राजस्व क्षति	783260	

उक्त के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही करायी जानी अपेक्षित है।

(5) अनुबन्ध की शर्त संख्या-3 के अनुसार फर्म को फुट ओवर ब्रिज पर प्रकाश व्यवस्था करानी थी जो कि फर्म द्वारा नहीं करायी गयी। यह शर्त की अनुबन्ध का उल्लंघन था।

(6) फुट ओवर ब्रिज पर वी0एम0एस0 सर्विस की व्यवस्था नहीं करायी गयी थी। जो कि अनुबन्ध की शर्त संख्या-4 का स्पष्ट उल्लंघन था।

(7) फर्म द्वारा प्रत्येक वर्ष अग्रिम विज्ञापन शुल्क निगम कोष में जमा नहीं कराया जा रहा था। जबकि अनुबन्ध की शर्त संख्या-5 के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से बताया गया था कि विज्ञापन शुल्क प्रत्येक वर्ष अग्रिम जमा होगा।

(8) फर्म द्वारा सम्बन्धित विभाग/एजेन्सियों से फुट ओवर ब्रिज के निर्माण कार्यों के सम्बन्ध अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। जो की अनुबन्ध की शर्त का स्पष्ट उल्लंघन है।

प्रकरण पर कार्यवाही हेतु प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(ग)- मैसर्स नन्द इंक की बी0ओ0टी0 पत्रावली में आय की कम प्राप्ति रू0 21,85,388 नगर निगम के 30 प्रतिशत भाग पर अनाधिकृत रूप से विज्ञापन करने के कारण रू0 10,00,000 अर्थदण्ड की वसूली न किया जाना, फुट ओवर ब्रिज के साथ विद्युत चालित ऐकसेलेटर, रैम्प अथवा लिफ्ट का निर्माण न किये जाने के कारण कुल रू0 41,85,388 की नगर निगम को आर्थिक क्षति एवं अनुबन्ध में निर्धारित मूल्य के स्टाम्प न लगाये जाने के कारण रू0 5,31,200 की राजस्व क्षति :-

(1) उपरोक्त पत्रावली की जाँच में प्रकाश में आया कि मैसर्स नन्द इंक द्वारा तीन स्थलों पर फुट ओवर ब्रिज निर्माण हेतु आवेदन किया गया था। इसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता यातायात, नगर निगम गाजियाबाद के पत्रांक 0362/निर्माण/2012-13 द्वारा 03 फुट ओवर ब्रिज क्रमशः यू0पी0 गेट, अर्थला एवं मेरठ रोड पर ए0एल0टी0 सेन्टर क्रांसिंग स्थलों को आवंटन फर्म को किया गया था। जिसका अनुबन्ध दिनांक 15.01.2013 को किया गया था। उपरोक्त अनुबन्ध 30 वर्ष हेतु अर्थात् दिनांक 17.01.2043 तक के लिये था। अनुबन्ध की धारा-3.6 के अनुसार विज्ञापन क्षेत्रफल 5580 वर्ग फुट के 70 प्रतिशत भाग अर्थात् 3906 वर्ग फीट का उपभोग फर्म द्वारा किया जाना था एवं 30 प्रतिशत भाग नगर निगम के उपयोग हेतु था जिस पर फर्म के व्यय पर जनहित विज्ञापनों की प्रसारण किया जाना था। साथ ही अनुबन्ध की धारा-3.7 के अनुसार प्रत्येक पाँच वर्ष पर 5

प्रतिशत विज्ञापन शुल्क में वृद्धि की जानी थी। विज्ञापन शुल्क रू0 100 प्रतिवर्ग फीट प्रति वर्ष देय था। कुल वर्ग फीट 5580 थे।

उपर्युक्त के अनुसार वर्ष 2022-23 तक की अवधि हेतु फर्म को नगर निगम में निम्न विज्ञापन शुल्क का जमा करना था जो कि पत्रावलीनुसार वर्ष 2016-17 से जमा किया गया था।

वर्ष	वर्ग फीट एरिया	दर	देय विज्ञापन शुल्क
2016-17	3906	100	390600
2017-18	3906	105	410130
2018-19	3906	105	410130
2019-20	3906	105	410130
2020-21	3906	105	410130
2021-22	3906	105	410130
2022-23	3906	110.25	430636
	योग		2871886

पत्रावली के अनुसार फर्म द्वारा धनराशि रू0 686498 जमा किया गया था। इस प्रकार फर्म द्वारा रू0 (2871886-686498)=2185388 कम जमा कर नगर निगम को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई थी।

(2) अनुबन्ध की धारा-3.6 के अनुसार कुल विज्ञापन क्षेत्रफल 5580 वर्ग फीट के 30 प्रतिशत भाग 1674 वर्ग फीट क्षेत्र पर फर्म के खर्चे पर नगर निगम की और जन उपयोगी विज्ञापनों का प्रसारण किया जाना था। पत्रावली में संलग्न नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद के पत्रांक-45/विचि/2020-21 दिनांक 15.06.2020 के अनुसार 30 प्रतिशत सरकारी विज्ञापन हेतु आरक्षित क्षेत्रफल 1674 वर्ग फीट का उपयोग फर्म द्वारा स्वयं के विज्ञापनों हेतु किये जाने के कारण निम्नवत् अर्थदण्ड लगाया गया था-

वर्ष 2016-17 से 2019-20 हेतु = 1674 वर्गमी0×100×4	6,69,600
(+) 12 प्रतिशत ब्याज (4 वर्ष हेतु)	3,21,408
नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा 467 के अन्तर्गत अर्थदण्ड	100
नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा 467 के अन्तर्गत रू0 25 का अर्थदण्ड प्रतिदिन कुल 1459 दिवस हेतु	36,475
योग	10,27,583

नैसर्गिक न्याय के दृष्टिगत फर्म को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त आकलित धनराशि रू0 1027583 से कम करते हुये रू0 10,00,000 किया गया था। बिना इसके जमा की पुष्टि पत्रावली में से नहीं हो पा रही थी। अतः इसे तत्काल निगम कोष में जमा कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

(3) अनुबन्ध की धारा 3.8 के अनुसार शरीर से अशक्तता/विकलौंगों/रोगी व्यक्तियों व उपयोगिता के दृष्टिगत विद्युत चालित एक्सेलेटर, रैम्प अथवा लिफ्ट का निर्माण किया जाना था। जिनका निर्माण फर्म द्वारा विभिन्न प्रकार के बहाने बनाकर नहीं किया गया था जिस हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम गाजियाबाद के पत्रांक 394/न0आ0/2019-20 दिनांक 06.03.2020 द्वारा रू0 10,00,000 का अर्थदण्ड लगाया गया था जिसके जमा की पुष्टि पत्रावली से नहीं हुई थी। अतः उक्त धनराशि को तत्काल नगर निगम कोष में जमा कराये जाने हेतु कार्यवाही अपेक्षित है।

(4) उपरोक्त कार्य का अनुबन्ध रू0 100 एवं संशोधित अनुबन्ध भी रू0 100 पर कराये गये थे। जबकि भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899 की अनुसूचि-1 "ख" अनुच्छेद-35 के अनुसार उपरोक्त अनुबन्ध रू0 40 प्रति हजार व अंश की गणना के अनुसार निम्नवत् रू0 531200 के स्टाम्प पर किया जाना चाहिये था। ऐसा न किये जाने के कारण शासन को रू0 531200 की राजस्व क्षति पहुँचायी गयी थी। विवरण निम्नवत् है :-

अवधि हेतु	विज्ञापन शुल्क (प्रति पाँच वर्ष+5 प्रतिशत वृद्धि के साथ)
प्रथम पाँच वर्ष	$3906 \times 100 \times 5 = 19,53,000$
द्वितीय पाँच वर्ष	$3906 \times 105 \times 5 = 20,50,650$
तृतीय पाँच वर्ष	$3906 \times 110.25 \times 5 = 21,53,182$
चतुर्थ पाँच वर्ष	$3906 \times 115.76 \times 5 = 22,60,793$
पंचम पाँच वर्ष	$3906 \times 121.55 \times 5 = 23,73,871$
अन्तिम पाँच वर्ष	$3906 \times 127.63 \times 5 = 24,92,614$
योग	1,32,84,110

देय स्टाम्प $13285 \times 40 = 531400 - 200 = 531200$ राजकीय राजस्व की क्षति हुई। उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जानी अपेक्षित है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में नगर निगम गाजियाबाद को $21,85,388 + 10,00,000 + 10,00,000 = 41,85,388$ की आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी थी

एवं कम मूल्य के स्टाम्प पर अनुबन्ध किये जाने के कारण शासन को रू0 5,31,200 की राजस्व की क्षति पहुँचायी गयी थी।

(5) अनुबन्ध की धारा 3.2 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शन का कार्य कम्प्लीशन सर्टिफिकेट नगर निगम में प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त किया जाना था किन्तु सम्बन्धित फर्म द्वारा बिना पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये ही विज्ञापन कार्य किया जाना प्रारम्भ कर दिया गया था। जो कि अनुबन्ध की शर्तों का पूर्ण रूप से स्पष्ट उल्लंघन था। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाय।

(6) अनुबन्ध की धारा-3.9 के अनुसार निर्मित फुट ओवर ब्रिजों की उर्चोई के सम्बन्ध में ट्रैफिक के संचालन हेतु स्मूथ फलों का आई0आर0सी0 की गार्ड लाईन्स के अनुपालन के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं थी। इसे स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

(7) अनुबन्ध की धारा-3.12 के अनुसार निर्माण फुट ओवर ब्रिजों की रंगाई पुताइ व साफ सफाई प्रत्येक तीन माह में करायी जानी थी, किन्तु पत्रावली के अनुसार यह स्पष्ट नहीं था कि रंगाई पुताई एवं साफ सफाई करायी भी गयी थी अथवा नहीं। अतः इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाय अन्यथा की स्थिति में जुर्माने इत्यादि की कार्यवाही अपेक्षित है।

(8) अनुबन्ध की धारा-3.16 के अनुसार विज्ञापन शुल्क छः माह रूप से विज्ञापन प्रदर्शन विवरण व साक्ष्य के साथ जमा किया जाना था जो कि नहीं किया गया था। इस हेतु कार्यवाही अपेक्षित है।

(9) अनुबन्ध की धारा-3.19 के अनुसार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, पी0डब्लू0डी0, एन0एच0ए0आई0 व पुलिस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाना था। किन्तु फर्म द्वारा सभी फुट ओवर ब्रिजों का निर्माण बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये ही कराया गया था। जो कि पूर्णतः अनियमित था। इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रभावी कार्यवाही लिया जाना अपेक्षित है।

(10) फुट ओवर ब्रिजों के साथ विधत चालित एक्सेलेटर, रैम्प अथवा लिफ्ट का निर्माण न किया जाना इस बात का द्योतक था कि इन फुट ओवर ब्रिजों का निर्माण जन साधारण के उपयोग हेतु न करके मात्र विज्ञापनों से आय प्राप्त करने हेतु किया गया था। जन साधारण के उपयोगार्थ न होने के कारण इनके निर्माण का उद्देश्य ही समाप्त हो गया था। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

(11) अधिशासी अभियन्ता यातायात नगर निगम गाजियाबाद के पत्रांक 0362/निर्माण /2012-13 द्वारा 03 फुट ओवर ब्रिज क्रमशः यू0पी0गेट, अर्थला एवं मेरठ रोड पर ए0एल0टी0 सेन्टर क्रांसिंग स्थलों का आवंटन फर्म को किया था। जिसका अनुबन्ध दिनांक 18.01.2013 को किया गया था। दिनांक 17.10.2015 को पूर्व आवंटित स्थलों को परिवर्तित किया गया। जिसमें पूर्व आवंटित अर्थला को पार्श्वनाथ कालोनी के सामने मोहननगर व मेरठ रोड पर ए0एल0टी0 सेन्टर क्रांसिंग को राजनगर एक्सटेंशन किया गया था। प्रभारी बी0ओ0टी0 गाजियाबाद नगर निगम के पत्रांक 570/बी0ओ0टी0/2022-23 दिनांक 11.04.2022 के अनुसार 03 स्थलों पर फुट ओवर ब्रिजों का निर्माण कार्य की अनुमति प्रदान की गयी थी। जिसमें यू0पी0गेट निकट पुष्पांजली हास्पिटल पर तथा पार्श्वनाथ कालोनी के सामने मोहन नगर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया गया है तीसरे राजनगर ए0एल0टी0 सेन्टर को परिवर्तित कर जी0टी0 रोड हज हाऊस से हिण्डन पुलिस चौकी के पास स्थल पर फुट ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। प्रभारी बी0ओ0टी0 गाजियाबाद नगर निगम के पत्रांक 749/बी0ओ0टी0/2022-23 दिनांक 19.09.2022 द्वारा प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग गाजियाबाद का पत्र लिखा गया कि हज हाऊस निकट हिंडन नदी के पास फुट ओवर ब्रिज कि निर्माण कार्य में अवरोध उत्पन्न कर रहे पेड़ों को हटाने एवं किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट कराने के सम्बन्ध में लिखा गया था। इससे स्पष्ट होता है कि दिनांक 19.09.2022 तक तीसरे फुट ओवर ब्रिज का निर्माण नहीं किया गया था।

प्रकरण में कार्यवाही हेतु प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(घ)– मै0 कैप्रिकोर्न इन्फ्रा0 प्रा0लि0 की बी0ओ0टी0 की पत्रावली में आय की कम प्राप्ति रू0 28,28,200 नगर निगम को अनुबन्ध की शर्त संख्या 1,2,3,4,9 का अनुपालन न करने के कारण एवं रैम्प न बनवाने के कारण रू0 10,00,000+10,00,000=कुल रू0 20,00,000 के अर्थदण्ड की धनराशि प्राप्त न होने से आर्थिक क्षति एवं अनुबन्ध में निर्धारित मूल्य के स्टाम्प न लगाये जाने के कारण रू0 7,82,960 की राजस्व क्षति/नगर निगम को कुल आर्थिक क्षति रू0 38,28,200 :- उपरोक्त पत्रावली की जाँच से प्रकाश में आया कि मै0 कैप्रिकोर्न इन्फ्रा0 इन्जी0 प्रा0लि0 द्वारा तीन स्थलों यथा (1) पैसेफिक मॉल (कौशाम्बी) (2) डाबर भूषण स्टील क्रांसिंग (3) मोहन नगर फुट ओवर ब्रिज

कुल तीन फुट ओवर ब्रिज के लिये आवेदन किया था जिसमें से (1) पैसेफिक माल कौशाम्बी एवं (2) डाबर भूषण स्टील क्रांसिंग का निर्माण कार्य मै0 कैप्रिकोर्न इन्फ्रा0 द्वारा किया गया था।

उक्त की स्वीकृति पत्रांक संख्या 273/निर्माण/2010-11 दिनांक 14.07.2010 द्वारा प्रदान की गयी थी।

(1) उक्त कार्य के अनुबन्ध को दिनांक 14.07.2010 को किया गया था उपरोक्त अनुबन्ध 30 वर्षों हेतु किया था जिसमें अनुबन्ध की शर्तानुसार 2.1 विज्ञापन का क्षेत्रफल $60'' \times 10'' \times 4 \times 2 = 4800$ वर्ग फीट था। अनुबन्ध की शर्तानुसार 2.1 के अनुसार उक्त क्षेत्रफल हेतु रू0 136 प्रति वर्ग फीट विज्ञापन शुल्क प्रतिवर्ष नगर निगम को प्राप्त होगा। जिसका विवरण निम्नवत् था।

वर्ष	वर्ग फीट एरिया	दर	देय विज्ञापन शुल्क
2014-15	4800	136	652800
2015-16	4800	136	652800
2016-17	4800	136	652800
2017-18	4800	136	652800
2018-19	4800	136	652800
2019-20	4800	136	652800
2020-21	4800	136	652800
2021-22	4800	136	652800
2022-23	4800	136	652800
	योग		58,75,200

अनुबन्धानुसार नगर निगम को रू0 58,75,200 वर्ष 2022-23 तक प्राप्त होना चाहिये था किन्तु मै0 कैप्रिकोर्न द्वारा रू0 30,47,000 पत्रावली अनुसार जमा किया गया था इस प्रकार रू0 $58,75,200 - 30,47,000 = 28,28,200$ रू0 कम जमा किया गया था। इस प्रकार रू0 28,28,200 की नगर निगम को आर्थिक क्षति उठानी पड़ी थी।

(2) उपरोक्त फर्म का अनुबन्ध रू0 100 एवं संशोधित अनुबन्ध भी रू0 100 पर कराये गये थे। जबकि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची-1"ख" अनुच्छेद 35 के अनुसार उपरोक्त

अनुबन्ध रू0 40 प्रति हजार व अंश की गणना के अनुसार निम्नवत् रू0 7,83,360 के स्टाम्प पर किया जाना चाहिये था ऐसा न किया जाने के कारण शासन को रू0 7,82,960 की राजस्व क्षति पहुँचायी गयी थी जिसका विवरण निम्नवत् है।

अवधि हेतु	विज्ञापन क्षेत्रफल × दर	धनराशि
30	4800×136	1,95,84,000

स्टाम्प की वास्तविक धनराशि (19584×40) = 783360

पत्रावली में संलग्न स्टाम्प = (-) 400

782960

उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

मै0 कैप्रिकोर्न द्वारा जमा धनराशि रू0 30,47,000 डी0डी0 द्वारा जमा दर्शाये गये थे किन्तु उक्त जमा का सत्यापन लेखा विभाग द्वारा पत्रावली में सत्यापित कराकर नहीं दिखाया गया था जिससे यह भी ज्ञात न हो सका कि धनराशि वास्तवमें निगम लेखे में जमा हुई थी अथवा नहीं स्थिति स्पष्ट करायी जाय।

(3) फर्म द्वारा अनुबन्ध की शर्त संख्या 1,2,3,4,9 का अनुपालन नहीं किया गयाथा तथा अनुबन्ध में वर्णित जन सुविधा के कार्य पूर्ण नहीं किये गये यथा शौचालय का निर्माण प्रकाश की व्यवस्था, वी0एम0एस0 सर्विस की व्यवस्था, शुल्क जमा न करना, आई0 आर0सी0 की गाईड लाईन का अनुपालन न करना उक्त कार्यों की अनदेखी करने के कारण नगर निगम के पत्रांक 70/बी0ओ0टी0/विज्ञापन/2020-21 दिनांक 21.11.2020 को फर्म मै0 कैप्रिकोर्न पर रू0 10,00,000 का अर्थदण्ड लगाया गयाथा एवं उक्त पत्र में यह भी व्यवस्था की गयी थी कि यदि फर्म उक्त अर्थदण्ड की धनराशि को जमा नहीं करती है तो फर्म को ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा। उक्त रू0 10,00,000 को फर्म द्वारा जमा कराया गया अथवा नहीं इससे सम्बन्धित साक्ष्य पत्रावली में संलग्न नहीं थे जिससे उक्त जमा धनराशि का सत्यापन नहीं हो सका। अतः उक्त धनराशि रू0 10,00,000 नगर निगम को आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी थी।

(4) अनुबन्ध की शर्त (1) के अनुसार मै0 कैप्रिकोर्न द्वारा शौचालय व स्नानाघर की व्यवस्था करनी थी। किन्तु उक्त शर्त को फर्म द्वारा पूरा नहीं किया गया था यह अनुबन्ध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन था।

(5) फुट ओवर ब्रिज पर प्रकाश व्यवस्था की जानी थी किन्तु फर्म द्वारा प्रकाश व्यवस्था नहीं की गई थी बिना प्रकाश व्यवस्था के नागरिकों को असुविधा होना स्वाभाविक है।

(6) फुट ओवर ब्रिज पर वी0एम0एस0 की सर्विस कराने की व्यवस्था भी फर्म द्वारा अनुबन्धित थी किन्तु यह भी नहीं करायी गयी थी। यह अनियमित था।

(7) अनुबन्ध की शर्त-4 के अनुसार अग्रिम विज्ञापन शुल्क निगम कोष में जमा करना था किन्तु फर्म द्वारा यह जमा नहीं कराया गया था। यह अनुबन्ध की शर्तों का खुला उल्लेघन था।

(8) फर्म द्वारा संगत विभाग/एजेन्सियों से फुट ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जोकि अनुबन्ध की शर्त संख्या-9 का सपष्ट उल्लेघन था।

(9) आई0आर0सी0 (इण्डियन रोड काग्रेस) नियमावली 2012 की धारा 6.8 तथा आई0आर0सी0 नियमावली की धारा 2.12.4 की बिन्दु संख्या-2 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुपालन में दो फुट ओवर ब्रिजों क्रमशः पैसेफिक माल (कौशाम्बी) (2) डाबर भूषण स्टील क्रानिंग के पास पर शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के आवागमन के उपयोग हेतु जनहित में रैम्प का निर्माण कराये बिना ही फुट ओवर ब्रिज पर विज्ञापन प्रदर्शित कर मात्र व्यवसायिक कार्य किया जा रहा था जिसके फलस्वरूप फर्म पर रू0 10,00,000 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया था किन्तु उक्त धनराशि को फर्म द्वारा नगर निगम कोष में जमा कराया गया था अथवा नहीं इससे सम्बन्धित साक्ष्य/पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं था। इस प्रकार फर्म को नगर निगम द्वारा पत्रांक 393/न0आ0/2019-20 दिनांक 06.03.2020 जारी किया गया था किन्तु फर्म द्वारा उक्त पत्रांक के सापेक्ष भी धनराशि नगर निगम कोष में जमा नहीं करायी। इस प्रकार नगर निगम को रू0 10,00,000 की आर्थिक क्षति उठानी पड़ी थी।

प्रकरण में कार्यवाही हेतु प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(ड)- मैसर्स पाईनियर पब्लिसिटी कारपोरेशन प्रा0लि0 का विज्ञापन क्षेत्रफल कम दर्शाकर रू0 8,01,993 की नगर निगम को आर्थिक क्षति, चैक द्वारा जमा धनराशि रू0 7,93,500 का सत्यापन न होना एवं निर्धारित मूल्यों के स्टाम्पों पर अनुबन्ध न किये जाने से शासन को रू0 2,95,140 की राजस्व क्षति तथा फर्म पर रू0 5,40,013 का जुर्माना न लगाया जाना अनियमित:- (1) उपरोक्त

पत्रावली की जाँच में प्रकाश में आया कि मैसर्स पाईनियर पब्लिसिटी कारपोरेशन प्रा०लि० की अधिशासी अभियन्ता यातायात, नगर निगम गाजियाबाद के पत्रांक 136/निर्माण/2012-13 दिनांक 23.02.2013 के द्वारा पुराना बस अड्डा (अम्बेडकर रोड) एवं एन०एच०-24 सी०आई०एस०एफ० कर स्थलों पर फुट ओवर ब्रिज निर्माण की अनुमति प्रदान की गयी थी। जिसका रू० 100 के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध दिनांक 22.02.2012 को कराया गया था। तत्पश्चात् सम्बन्धित फर्म के पत्र दिनांक 06.06.2013 द्वारा पुराना बस अड्डा (अम्बेडकर रोड) पर स्थल की अनुपलब्धता दर्शाते हुये फुट ओवर ब्रिज हापुड़ रोड पर फ्लाइ ओवर से जी०डी०ए० की तरफ गीता संजय पार्क के सामने बनाये जाने हेतु प्रस्तावित किया था। प्रभारी बी०ओ०टी० नगर निगम गाजियाबाद के पत्रांक 682/निर्माण/2014-15 दिनांक 26.09.2014 के अनुसार फुट ओवर ब्रिज के साथ रैम्प, लिफ्ट, एक्सेलेटर तीनों में से एक भी व्यवस्था का निर्माण नहीं किया गया था।

नगर निगम गाजियाबाद के पत्रांक 1054/अ०न०आ०/2019-20 दिनांक 12.06.2019 के अनुसार वर्ष 2016-17 से 3100 वर्ग फीट क्षेत्रफल पर रू० 100 प्रतिवर्ग फीट की दर से विज्ञापन शुल्क की माँग की गयी थी। जिस पर फर्म द्वारा अपने पत्र दिनांक 02.07.2019 के द्वारा विज्ञापन हेतु मात्र 1700 वर्ग फीट स्थान उपलब्ध होने का उल्लेख किया गया। जिसके क्रम में प्रभारी बी०ओ०टी० नगर निगम गाजियाबाद द्वारा अपने पत्रांक 1426/अ०न०आ०/ 2019-20 दिनांक 15.07.2019 द्वारा संयुक्त सर्वे कराकर विज्ञापन शुल्क जमा किये जाने के आदेश दिये गये एवं पत्रांक 244/न०आ०/2019-20 दिनांक 23.09.2019 के द्वारा विज्ञापन क्षेत्र के 70 प्रतिशत स्थान की बजाय 100 प्रतिशत स्थान का उपयोग किये जाने के कारण वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक की अवधि हेतु कुल रू० 930000 की माँग रू० 183000 समायोजन उपरान्त रू० 747000 की गयी। जिस हेतु पुनः पत्रांक 370/न०आ०/2019-20 दिनांक 20.02.2020 जारी किया गया।

जहाँ एक और उपरोक्त पत्र फर्म को निरन्तर जारी किये जा रहे थे वही दूसरी ओर नोटिंग पृष्ठ-35 पर दिनांक 26.12.2019 को बोर्ड की माप को त्रुटिपूर्ण बताते हुये क्षेत्रफल को 1800 वर्ग फीट किया गया था जबकि इसे उपरान्त भी नगर निगम गाजियाबाद के पत्रांक 392/न०आ०/2019-20 दिनांक 06.03.2020 एवं पत्रांक 09/न०आ०/2020-21 दिनांक 20.05.2020 द्वारा एफ०ओ०बी० के 30 प्रतिशत जन उपयोगी सन्देशों का प्रसारण न करने एवं रैम्प का निर्माण न किये जाने के कारण रू० 10,00,000 का अर्थदण्ड लगाया गया था। जिसे सुनावार्ड के

समय, मात्र एक फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किये जाने के आधार पर रू0 5,00,000 कर दिया गया था।

उपरोक्त पत्राचार से स्पष्ट था कि माह दिसम्बर 2019 से पूर्व सम्पूर्ण विज्ञापन क्षेत्रफल 3100 वर्ग मीटर का उपयोग सम्बन्धित फर्म द्वारा किया गया था जिस पर अन्य फर्मों की भांति 30 प्रतिशत क्षेत्रफल हेतु अनाधिकृत उपयोग हेतु निम्नवत् जुर्माना की वसूली नोटिस जारी नहीं किया गया था।

अवधि	क्षेत्रफल दर	विज्ञापन शुल्क (रूपये)
2016-17 से दिसम्बर 2019	930×100×3 वर्ष 09 माह	3,48,750
(+) 12 प्रतिशत ब्याज (3 वर्ष 09 माह हेतु)		1,56,938
(+) नगर निगम अधिनियम 1959 कीधारा 467 के अन्तर्गत दण्ड		100
उपरोक्त धारा के अन्तर्गत रू0 25 प्रतिदिन 1369 दिन हेतु		34,225
योग		5,40,013

(2) विज्ञापन क्षेत्र 3100 वर्ग फीट क्षेत्रफल के अनुसार 70 प्रतिशत क्षेत्रानुसार नगर निगम को विज्ञापन शुल्क के रूप में निम्न आय प्राप्त होनी चाहिये थी।

अवधि	70 प्रतिशत वर्गफीट दर	देय विज्ञापन शुल्क (रूपये)
2016-17	2170×100	2,17,000
2017-18	2170×105	2,27,850
2018-19	2170×105	2,27,850
2019-20	2170×105	2,27,850
2020-21	2170×105	2,27,850
2021-22	2170×105	2,27,850
2022-23	2170×110.25	2,39,243
योग		15,95,493

पत्रावलीनुसार जमा विज्ञापन शुल्क	7,93,500
कम प्राप्त विज्ञापन शुल्क	8,01,993

(3) उपरोक्त कार्य का अनुबन्ध रू0 100 के स्टाम्प पेपर पर कराया गया था। जबकि भारतीय अधिनियम 1899 की अनुसूची 1"ख" अनुच्छेद-35 के अनुसार उपरोक्त अनुबन्ध रू0 40 प्रति हजार तथा उसके अंश पर की गणनानुसार रू0 2,95,240 के स्टाम्प पर किया जाना चाहिये था। ऐसा न करके शासन को निम्नवत् रू0 2,95,140 की राजस्व क्षति पहुंचायी गयी थी।

अवधि	विज्ञापन शुल्क	प्रति पाँच वर्ष 5 प्रतिशत वृद्धि के साथ
प्रथम पाँच वर्ष	2170×100×5	10,85,000
द्वितीय पाँच वर्ष	2170×105×5	11,39,250
तृतीय पाँच वर्ष	2170×110.25×5	11,96,213
चतुर्थ पाँच वर्ष	2170×115.76×5	12,55,996
पंचम पाँच वर्ष	2170×121.55×5	13,88,818
अन्तिम पाँच वर्ष	2170×127.63×5	13,84,786
योग		73,80,063

देय स्टाम्प $7381 \times 40 = 2,95,240 - 100$ (लगभग स्टाम्प)

राजस्व क्षति रू0 2,95,140

इसके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही की जाय।

(4) अनुबन्ध की धारा-3.2 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शन का कार्य कम्पलिशन सर्टीफिकेट नगर निगम में प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त लिया जाना था किन्तु सम्बन्धित फर्म द्वारा बिना पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये ही विज्ञापन कार्य किया जा रहा था, जो कि अनुबन्ध की शर्तों के विपरित था। अतः पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

(5) अनुबन्ध की धारा 3.15 के अनुसार प्रत्येक छः माह में विज्ञापन प्रदर्शन की विवरण प्रस्तुत करते हुये विज्ञापन शुल्क जमा किया जाना था। जो कि नहीं किया जा रहा था।

(6) अनुबन्ध की धारा-3.19 के अनुसार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, पी0डब्लू0डी0, एन0एच0ए0आई0 व पुलिस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही फुट ओवर

ब्रिज का निर्माण किया जाना था, किन्तु फर्म द्वारा फुट ओवर ब्रिज का निर्माण बिना आपत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये ही कराया गया था। यह अनियमित था। इस सम्बन्ध में कार्यवाही अपेक्षित है।

(7) फुट ओवर ब्रिज के साथ रैम्प आदि का निर्माण न किये जाने के कारण फर्म पर रू0 5,00,000 का अर्थदण्ड लगाया था जो कि फर्म द्वारा भविष्य में अण्डर प्रोटेस्ट या लाइसेंस शुल्क में समायोजन की शर्त के साथ जमा किये गये थे, यह जुर्माना की धनराशि थी। इसका समायोजन लाइसेंस शुल्क में किया जाना अनियमित होगा।

(8) फुट ओवर ब्रिज का हस्तान्तरण नगर निगम गाजियाबाद को नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में कार्यवाही अपेक्षित है।

(9) जमा धनराशियों का लेखा विभाग से सत्यापन नहीं किया गया था। अतः इसकी निगम कोष में जमा की पुष्टि करायी जाय।

(10) प्रभारी बी0ओ0टी0 नगर निगम गाजियाबाद के पत्रांक 495/बी0ओ0टी0/2021-22 दिनांक 06.01.2022 द्वारा सी0आई0एस0एफ0 कट पर फुट ओवर ब्रिज का स्थल बदलकर हिण्डन नदी शमशान घाट गाजियाबाद के पास फुट ओवर ब्रिज के निर्माण की अनुमति प्रदान की गयी थी किन्तु उक्त के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र पूर्णता प्रमाण पत्र विज्ञापन क्षेत्रफल व स्टाम्प पर अनुबन्ध का अभाव था। पत्रावली में फर्म द्वारा उक्त के सम्बन्ध में कोई आय जमा नहीं था। अतः अभिलेखों के आधार पर उक्त का सत्यापन कराया जाना अपेक्षित है।

(च) – बी0 ओ0 टी0 सिस्टम के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृति दरों से भी निम्न दरों की स्वीकृति प्रदान किये जाने के कारण नगर निगम को रू0 2,55,12,819/- की आर्थिक क्षति एवं निर्धारित मूल्य के स्टाम्प न लगाये जाने के कारण रू0 54,70,700/- की राजस्व क्षति :-

बी0ओ0टी0 से सम्बन्धित पत्रावलियों की जांच से प्रकाश में आया कि नगर निगम द्वारा बी0ओ0टी0 के अन्तर्गत वर्ष 2010 में मैसर्स एल0एस0टी0एल0 मीडिया लिमिटेड एवं मैसर्स कैप्ती कोर्न कन्स0 से दिनांक 15-01-2010 एवं 14-07-2010 में प्रत्येक से 4800 वर्ग फीट क्षेत्रफल के 100 प्रतिशत भाग के उपयोग हेतु रू0 136 प्रति वर्ग फीट की दर पर अनुबन्ध किया गया था इसके सापेक्ष वर्ष 2013 में 6 फर्मों से बी0ओ0टी0 के अन्तर्गत रू0 100/- प्रति वर्ग फीट की दर से 70 प्रतिशत स्थान के उपयोग हेतु अनुबन्ध किया गया था। जब पूर्व में रू0 136/- प्रति वर्ग

फीट की दर से 100 प्रतिशत स्थान के उपयोग हेतु अनुबन्ध किया गया था तो तीन वर्ष के बाद मात्र 70 प्रतिशत भाग के उपयोग हेतु कम दरों पर अनुबन्ध किया जाना अनियमित था। वर्ष 2013 में पूर्व दरों के आधार पर न्यूनतम 136×100

$70 = 194.29$ अर्थात् कम से कम रू० 200/- प्रति वर्ग फीट की दरों पर अनुबन्ध किया जाना चाहिये था। ऐसा न किये जाने के कारण निगम अधिकारियों द्वारा नगर निगम को निम्नवत न्यूनतम आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी थी -

(क) मैसर्स डी०सी० एड० कॉम	(1) आर्थिक क्षति	देय विज्ञापन शुल्क
वर्ष	वर्ग फीट(70प्रतिशत भाग)×देय दर (प्रति 5 वर्ष पर 5 प्रतिशत वृद्धि के अनुसार)	
2016-17	5019×200	10,03,800
2017-18	5019×210	10,53,990
2018-19	5019×210	10,53,990
2019-20	5019×210	10,53,990
2020-21	5019×210	10,53,990
2021-22	5019×210	10,53,990
2022-23	5019×220.50	11,06,690
	योग	73,80,440

पत्रावलीनुसार जमा धनराशि रू० 10,62,098 (बिना जी०एस०टी) व्यय जमा/आर्थिक क्षति =
 $73,80,440 - 10,62,098 = 63,18,342$

(2) भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची-01, ख, अनुच्छेद - 35 के अनुसार रू० 40 प्रति हजार पर अनुबन्ध न किये जाने के कारण राजस्व क्षति

अवधि	विज्ञापन शुल्क (प्रति 5 वर्ष 5 प्रतिशत के साथ)
प्रथम पांच वर्ष	$5019 \times 200 \times 5 = 50,19,000$
द्वितीय पांच वर्ष	$5019 \times 210 \times 5 = 52,69,950$
तृतीय पांच वर्ष	$5019 \times 220.50 \times 5 = 55,33,448$
चतुर्थ पांच वर्ष	$5019 \times 231.53 \times 5 = 58,10,245$
पंचम पांच वर्ष	$5019 \times 243.10 \times 5 = 61,00,595$
अन्तिम पांच वर्ष	$5019 \times 255.26 \times 5 = 64,05,750$
	योग = 3,41,38,988

देय स्टाम्प = $34139 \times 40 = 13,65,560$ लगाये स्टाम्प 200 राजस्व क्षति = 13,65,360

(ग) मैसर्स नन्द इंक

अवधि	देय विज्ञापन शुल्क का आगणन
2016-17	$3906 \times 200 = 7,81,200$
2017-18	$3906 \times 210 = 8,20,260$
2018-19	$3906 \times 210 = 8,20,260$
2019-20	$3906 \times 210 = 8,20,260$
2020-21	$3906 \times 210 = 8,20,260$
2021-22	$3906 \times 210 = 8,20,260$
2022-23	$3906 \times 220.50 = 8,61,273$
	योग = 57,43,773

पत्रावलीनुसार जमा धनराशि = 6,86,498

आर्थिक क्षति = $57,43,773 - 6,86,498 = 50,57,275$

(2) भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची -01 ख, अनुच्छेद-35 के अनुसार रू0 40 प्रति हजार पर अनुबन्ध न किये जाने के कारण राजस्व क्षति

अवधि	विज्ञापन शुल्क (प्रति 5 वर्ष 5 प्रतिशत वृद्धिनुसार)
प्रथम पांच वर्ष	$3906 \times 200 \times 5 = 39,06,000$
द्वितीय पांच वर्ष	$3906 \times 210 \times 5 = 41,01,300$
तृतीय पांच वर्ष	$3906 \times 220.50 \times 5 = 43,06,365$
चतुर्थ पांच वर्ष	$3906 \times 231.53 \times 5 = 45,21,781$
पंचम पांच वर्ष	$3906 \times 243.10 \times 5 = 47,47,743$
अन्तिम पांच वर्ष	$3906 \times 255.26 \times 5 = 49,85,228$
	योग = 2,65,68,417

देय स्टाम्प = $26569 \times 40 = 10,62,760 - 200$ (लगाये गये स्टाम्प राजस्व क्षति = 10,62,560)

(ख) मैसर्स अभिनव एडवर्टाईजिंग

अवधि	देय विज्ञापन शुल्क का आगणन
2016-17	$4655 \times 200 = 9,31,000$
2017-18	$4655 \times 210 = 9,77,550$
2018-19	$4655 \times 210 = 9,77,550$
2019-20	$4655 \times 210 = 9,77,550$
2020-21	$4655 \times 210 = 9,77,550$
2021-22	$4655 \times 210 = 9,77,550$
2022-23	$4655 \times 220.50 = 10,26,428$
	योग = 68,45,178

पत्रावलीनुसार फर्म द्वारा जमा धनराशि = 8,28,492

आर्थिक क्षति = $68,45,178 - 8,28,492 = 60,16,686$

(2) भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची -01 ख, अनुच्छेद-35 के अनुसार रू0 40 प्रति हजार पर अनुबन्ध न किये जाने के कारण राजस्व क्षति -

अवधि	विज्ञापन शुल्क (प्रति 5 वर्ष 5 प्रतिशत वृद्धि के साथ)
प्रथम पांच वर्ष	$4655 \times 200 \times 5 = 46,55,000$
द्वितीय पांच वर्ष	$4655 \times 210 \times 5 = 48,87,750$
तृतीय पांच वर्ष	$4655 \times 220.50 \times 5 = 51,32,138$
चतुर्थ पांच वर्ष	$4655 \times 231.53 \times 5 = 53,88,861$
पंचम पांच वर्ष	$4655 \times 243.10 \times 5 = 56,58,153$
अन्तिम पांच वर्ष	$4655 \times 255.26 \times 5 = 59,41,177$
	योग = 3,16,63,079

देय स्टाम्प = $31664 \times 40 = 12,66,560 / - 200$ (लगाये गये स्टाम्प राजस्व क्षति = 12,66,360)

(घ) मैसर्स पाईनियर पब्लिसिटी कारपोरेशन प्रा०लि०

अवधि	देय विज्ञापन शुल्क का आगणन
2016-17	$3100 \times 200 = 6,20,000$
2017-18	$3100 \times 210 = 6,51,000$
2018-19	$3100 \times 210 = 6,51,000$
2019-20	$3100 \times 210 = 6,51,000$
2020-21	$3100 \times 210 = 6,51,000$
2021-22	$3100 \times 210 = 6,51,000$
2022-23	$3100 \times 220.50 = 6,83,550$
	योग = 45,58,550

पत्रावलीनुसार जमा धनराशि = 7,93,500

आर्थिक क्षति = $45,58,550 - 7,93,500 = 37,65,050$

(2) भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची -01 ख, अनुच्छेद-35 के अनुसार रू० 40 प्रति हजार पर अनुबन्ध न कराये जाने के कारण राजस्व क्षति -

अवधि	विज्ञापन शुल्क (प्रति 5 वर्ष 5 प्रतिशत वृद्धि के अनुसार)
प्रथम पांच वर्ष	$3100 \times 200 \times 5 = 31,00,000$
द्वितीय पांच वर्ष	$3100 \times 210 \times 5 = 32,55,000$
तृतीय पांच वर्ष	$3100 \times 220.50 \times 5 = 34,17,750$
चतुर्थ पांच वर्ष	$3100 \times 231.53 \times 5 = 35,88,715$
पंचम पांच वर्ष	$3100 \times 243.10 \times 5 = 37,68,050$
अन्तिम पांच वर्ष	$3100 \times 255.26 \times 5 = 39,56,530$
	योग = 2,10,86,045

देय स्टाम्प = $21087 \times 40 = 8,43,480$ - रू0 100 (लगाये गये स्टाम्प राजस्व क्षति = 8,43,380)

(ङ) मैसर्स मीडिया वर्क शॉप

अवधि	देय विज्ञापन शुल्क का आगणन
2016-17	$3430 \times 200 = 6,86,000$
2017-18	$3430 \times 210 = 7,20,300$
2018-19	$3430 \times 210 = 7,20,300$
2019-20	$3430 \times 210 = 7,20,300$
2020-21	$3430 \times 210 = 7,20,300$
2021-22	$3430 \times 210 = 7,20,300$
2022-23	$3430 \times 220.50 = 7,56,315$
	योग = 50,43,815

पत्रावलीनुसार जमा धनराशि = 6,88,349/-

आर्थिक क्षति = $50,43,815 - 6,88,349 = 43,55,466$ /-

(2) भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची -01 ख, अनुच्छेद-35 के अनुसार रू0 40/- प्रति हजार पर अनुबन्ध न किये जाने के कारण राजस्व क्षति -

अवधि	विज्ञापन शुल्क (प्रति 5 वर्ष 5 प्रतिशत वृद्धि के अनुसार)
प्रथम पांच वर्ष	$3430 \times 200 \times 5 = 34,30,000$
द्वितीय पांच वर्ष	$3430 \times 210 \times 5 = 36,01,500$
तृतीय पांच वर्ष	$3430 \times 220.50 \times 5 = 37,81,575$
चतुर्थ पांच वर्ष	$3430 \times 231.53 \times 5 = 39,70,740$
पंचम पांच वर्ष	$3430 \times 243.10 \times 5 = 41,69,165$
अन्तिम पांच वर्ष	$3430 \times 255.26 \times 5 = 43,77,709$
	योग = 233,30,689

देय स्टाम्प = $23331 \times 40 = 9,33,240 - 200$ (लगाये गये स्टाम्प राजस्व क्षति = 9,33,040)

उपर्युक्त के आधार पर कुल आर्थिक क्षति व राजस्व क्षति की कुल गणना जांच में उपलब्ध पत्रावलियों के अनुसार निम्नवत है -

क्र0	फर्म का नाम	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति
1	मै0 डी0 सी0 एड0 कॉम	63,18,342 / -	13,65,360 / -
2	मै0 अभिनव एडवरटाइजिंग	60,16,686 / -	16,66,360 / -
3	मै0 नन्द इन्द	50,57,275 / -	10,62,560 / -
4	मै0 पाइनियर पब्लिसिटी कारपोरेशन प्रा0लि0	37,65,050 / -	8,43,380 / -
5	मै0 मीडिया वर्क शॉप	43,55,466 / -	9,33,040 / -
	योग =	2,55,12,819 / -	54,70,700 / -

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही हेतु प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(छ) - मैसर्स डी0 सी0 एड0 कॉम की बी0 ओ0 टी0 पत्रावली में आय की कम प्राप्ति रू0 26,28,122=00 नगर निगम के 30 प्रतिशत भाग पर अनाधिकृत कय से विज्ञापन करने के कारण

रू0 10,00,000 अर्थ दण्ड की वसूली न किया जाना, फुट ओवर ब्रिज के साथ विद्युत चलित स्केलेटर, रैम्प अथवा लिफ्ट का निर्माण न किये जाने के कारण दण्ड रू0 10,00,000 जमा न कराये जाने के कारण कुल रू0 46,28,122 की नगर निगम को आर्थिक क्षति एवं अनुबन्ध में निर्धारित मूल्य के स्टाम्प न लगाये जाने के कारण रू0 6,82,600=00 की राजस्व क्षति —:

(1) उपरोक्त पत्रावली की जाँच में प्रकाश में आया कि मैसर्स डी0सी0एड0 कॉम द्वारा दो स्थलों 1 – एन0एच0,24 कासिंग रिपब्लिक कट, 2 – सी0आई0 एस0एफ0 कट स्थानों पर फुट ओवर ब्रिज निर्माण हेतु आवेदन किया गया था। इसके क्रम में अधिशासी अभियंता यातायात, नगर निगम गाजियाबाद के पत्रांक 0361/निर्माण/2012-13 दिनांक 27-11-2012 द्वारा 03 फुट ओवर ब्रिज क्रमशः कलेक्ट्रेट, नोएडा मोड छिजारसी एवं लाल कुंआ स्थलों का आबंटन फर्म को किया गया था। जिसका अनुबन्ध दिनांक 15-01-2013 को किया गया था। उपरोक्त अनुबन्ध 30 वर्ष हेतु अर्थात् दिनांक 14-01-2043 तक के लिये था। अनुबन्ध की धारा – 3.6 के अनुसार विज्ञापन क्षेत्रफल 7170 वर्ग फीट के 70 प्रतिशत भाग अर्थात् 5019 वर्ग फीट का उपयोग फर्म द्वारा किया जाना था एवं 30 प्रतिशत भाग नगर निगम के उपयोग हेतु था जिस पर फर्म के व्यय पर जनहित विज्ञापनों का प्रसारण किया जाना था। साथ ही अनुबन्ध की धारा – 3.7 के अनुसार प्रत्येक पाँच वर्ष पर 5 प्रतिवर्ष विज्ञापन शुल्क में वृद्धि की जानी थी। विज्ञापन शुल्क रू0 100 प्रति वर्ग फीट प्रति वर्ष देय था। कुल वर्ग फीट 7170 थे। उपर्युक्त के अनुसार वर्ष 2022-23 तक की अवधि हेतु फर्म को नगर निगम में निम्नवत विज्ञापन शुल्क जमा करना था जो कि पत्रावलीनुसार वर्ष 2016-17 से जमा किया जाना प्रारम्भ किया गया था।

वर्ष	वर्ग फीट (70प्रतिशत)×दर	विज्ञापन शुल्क(देय)
2016-17	5019×100	5,01,900
2017-18	5019×105	5,26,995
2018-19	5019×105	5,26,995
2019-20	5019×105	5,26,995
2020-21	5019×105	5,26,995
2021-22	5019×105	5,26,995

2022-23	5019×110.25	5,53,345
		योग = 36,90,220

पत्रावलीनुसार फर्म द्वारा कुल धनराशि रू0 10,62,098 जमा की गई थी। इस प्रकार फर्म ने कुल रू0 36,90,220 - 10,62,098 = रू0 26,28,122 कम जमा कर नगर निगम को क्षति पहुंचाई गई।

(2) अनुबन्ध की धारा 3.6 के अनुसार कुल विज्ञापन क्षेत्रफल 7170 वर्ग फीट के 30 प्रतिशत भाग 2151 वर्ग फीट क्षेत्र पर फर्म के खर्चे पर नगर निगम की ओर जन उपयोगी विज्ञापनो का प्रसारण किया जाना था। पत्रावली में संलग्न नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद के पत्रांक-46/विधि/2020-21 दिनांक 15-06-2020 के अनुसार 30 प्रतिशत सरकारी विज्ञापन हेतु आरक्षित क्षेत्रफल 2151 वर्ग फीट का उपयोग फर्म द्वारा स्वयं के विज्ञापनो हेतु किये जाने कारण निम्नवत अर्थदण्ड लगाया गया था -

विवरण	धनराशि
वर्ष 2016-17 से 2019-20 हेतु = 2151 वर्गफीट×100×4 वर्ष	8,60,400
(+) 12 प्रतिशत ब्याज (4वर्ष हेतु)	4,12,992
नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 467 के अन्तर्गत अर्थदण्ड	100
नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 467 के अन्तर्गत रू0 25 का अर्थदण्ड प्रतिदिन कुल 1459 दिवस हेतु	36475
योग	13,09,967

नैसर्गिक न्याय के दृष्टिगत फर्म को सुनवाई का प्रयाप्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त आकलित धनराशि रू0 13,09,967=00 से कम करते हुए रू0 10,00,000=00 किया गया था किन्तु इसके जमा की पुष्टि पत्रावली से नहीं हो रही थी। इसे तत्काल निगम कोष में जमा कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

(3) अनुबन्ध की धारा 3.8 के अनुसार शरीर से आशक्त/विकलांगो/रोगी व्यक्तियों व उपयोगिता के दृष्टिगत विधुत चलित स्केलेटर, रैम्प अथवा लिफ्ट का निर्माण किया जाना था। जिनका निर्माण फर्म द्वारा विभिन्न प्रकार के बहाने बनाकर नहीं किया गया था जिस हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम गाजियाबाद के पत्रांक-391/न0आ0/2019-20 दिनांक 06-03-2020 द्वारा 10,00,000=00 का अर्थ दण्ड लगाया गया था जिसके जमा की पुष्टि पत्रावली से नहीं हुयी थी। अतः उक्त धनराशि को तत्काल नगर निगम कोष में जमा कराये जाने हेतु कार्यवाही अपेक्षित है।

(4) उपरोक्त कार्य का अनुबन्ध रू0 100=00 एवं संशोधित अनुबन्ध भी रू0 100 के स्टाम्प पर कराये गये थे। जबकि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची-01 ,ख, अनुच्छेद-35, के अनुसार उपरोक्त अनुबन्ध रू0 40 प्रति हजार व अंश की गणना के अनुसार निम्नवत रू0 6,82,800 के स्टाम्प पर किया जाना चाहिये था। ऐसा न किये जाने के कारण शासन को रू0 6,82,600 की राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी थी। विवरण निम्नवत है -

अवधि हेतु	विज्ञापन शुल्क (प्रति पांच वर्ष 5 प्रतिशत वृद्धि के साथ)
प्रथम पांच वर्ष	$5019 \times 100 \times 5 = 25,09,500$
द्वितीय पांच वर्ष	$5019 \times 105 \times 5 = 26,34,975$
तृतीय पांच वर्ष	$5019 \times 110.25 \times 5 = 27,66,724$
चतुर्थ पांच वर्ष	$5019 \times 115.76 \times 5 = 29,05,060$
पंचम पांच वर्ष	$5019 \times 121.55 \times 5 = 30,50,297$
अन्तिम पांच वर्ष	$5019 \times 127.63 \times 5 = 32,02,875$
	योग = 1,70,69,431

देय स्टाम्प = $17070 \times 40 = 6,82,800$ - रू0 200=00 (लगाये गये स्टाम्प)

राजस्व क्षति रू0 6,82,600=00 उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाना अपेक्षित है।

इस प्रकार उक्त प्रकारण में नगर निगम, गाजियाबाद को रू0 26,28,122+10,00,000+10,00,000 = 46,28,122=00 की आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी थी एवं कम मूल्य के स्टाम्प पर अनुबन्ध किये जाने के कारण शासन को रू0 6,82,600=00 की राजस्व क्षति पहुंचायी गयी थी।

(5) अनुबन्ध की धारा-3.2 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शन का कार्य कम्पलिशन सर्टिफिकेट नगर निगम में प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त किया जाना था किन्तु सम्बन्धित फर्म द्वारा बिना पूर्णता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये ही विज्ञापन कार्य किया जाना प्रारम्भ कर दिया गया था जो कि अनुबन्ध की शर्तों का पूर्ण रूप से स्पष्ट उल्लंघन था। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाय।

(6) अनुबन्ध की धारा-3.9 के अनुसार निर्मित फुटओवर ब्रिजों की ऊंचाई के सम्बन्ध में ट्रैफिक के संचालन हेतु स्मूथ फ्लो का आई. आर. सी. की गाईड लाईन्स के अनुपालन के सम्बन्ध

में स्थिति स्पष्ट नहीं थी। इसे स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

(7) अनुबन्ध की धारा-3.12 के अनुसार निर्मित फुट ओवर ब्रिजों की रंगाई-पुताई व साफ-सफाई प्रत्येक तीन माह में करायी जानी थी, किन्तु पत्रावलीनुसार यह स्पष्ट नहीं था कि रंगाई पुताई एवं साफ - सफाई करायी भी गयी थी अथवा नहीं। अतः इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाय अन्यथा की स्थिति में जुर्माने इत्यादि की कार्यवाही अपेक्षित है।

(8) अनुबन्ध की धारा-3.15 के अनुसार विज्ञापन शुल्क छमाही रूप से विज्ञापन प्रदर्शन विवरण व साक्ष्य के साथ जमा किया जाना था, जोकि नहीं किया गया था। इस हेतु कार्यवाही अपेक्षित है।

(9) अनुबन्ध की धारा-3.19 के अनुसार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, पी0 डब्लू डी0 एन0 एच0 ए0 आई0 व पुलिस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही फुटओवर ब्रिज का निर्माण किया जाना था। किन्तु फर्म द्वारा सभी फुटओवर ब्रिजों का निर्माण बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये ही कराया गया था। जोकि पूर्णतः अनियमित था। इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रभावी कार्यवाही लिया जाना अपेक्षित है।

(10) फुट ओवर ब्रिजों के साथ विद्युत चलित स्केलेटर, रैम्प, अथवा लिफ्ट का निर्माण न किया जाना इस बात का घोटक था कि इन फुटओवर ब्रिजों का निर्माण जन - साधारण के उपयोग हेतु न करके मात्र विज्ञापनों से आय प्राप्त करने हेतु किया गया था। जन - साधारण के उपयोगार्थ न होने के कारण इनके निर्माण का उद्देश्य ही समाप्त हो गया था। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

(11) पत्रावलीनुसार सम्परीक्षा अवधि तक किसी भी फुट ओवर ब्रिज का हस्तान्तरण नगर निगम, गाजियाबाद, को नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाय।

(12) दर्शायी गयी जमा धनराशियों की निगम कोष व बैंक में जमा का सत्यापन कराया जाना अपेक्षित।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही हेतु प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(ज) - मैसर्स अभिनव एडवर्टाईजिंग की बी0 ओ0 टी0 पत्रावली में आय की कम प्राप्ति ₹0 25,94,097 नगर निगम के 30 प्रतिशत भाग पर अनाधिकृत रूप से विज्ञापन किये जाने के कारण

रू0 10,00,000 की वसूली न किया जाना, फुट ओवर ब्रिज के साथ विद्युत चलित स्केलेटर, रैम्प अथवा लिफ्ट का निर्माण न किये जाने के कारण अर्थ दण्ड रू0 10,00,000 की आर्थिक क्षति एवं अनुबन्ध में निर्धारित मूल्य के स्टाम्प न लगाये जाने के कारण शासन को रू0 6,33,080 की राजस्व क्षति एवं अन्य अनियमितार्येँ -:

सम्परीक्षा में उपलब्ध बी0ओ0टी0 पत्रावलियों की जांच में प्रकाश में आया कि मैसर्स अभिनव एडवरटाईजिंग द्वारा दो स्थलों हापुड चुंगी एवं चौधरी मोड स्थलो पर फुट आवेर ब्रिजों के निर्माण हेतु आवेदन किया गया था किन्तु जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता - यातायात , नगर निगम गाजियाबाद के पत्रांक -363/निर्माण/2012-13 दिनांक 27-11-2012 के द्वारा 03 स्थलो हापुड चुंगी, चौधरी मोड, एवं खोडा-एन एच-24 की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जिन्हे बाद में पत्रांक-569/बी0ओ0टी0/निर्माण/2015-16 दिनांक 15-10-2015 द्वारा चौधरी मोड के स्थान पर , साहिबाबाद मै0 क्षे0 व वसुन्धरा से इन्दिरापुरम सडके चौराहे पर मण्डी समिति की ओर जाने वाली सडक पर तथा खोडा के स्थान पर "टावर चौराहे से यू0पी0 गेट को जाने वाले मार्ग पर राज रेजीडेन्सी के समीप" एवं हापुड चुंगी को यथावत रखा गया था। दो स्थलो के आवेदन किये जाने पर तीन स्थलो हेतु स्वीकृति किये जाने का कोई आधार नही था, इसका कारण स्पष्ट कराया जाय। तत्पश्चात दिनांक 15-01-2013 को रू0 100/- पर अनुबन्ध कराया गया था एवं इसी के क्रम में दिनांक 17-10-2015 को संशोधित अनुबन्ध रू0 100 के स्टाम्प पर कराया गया था। अनुबन्धानुसार कार्यवधि 30 वर्ष अर्थात दिनांक 14-01-2043 तक के लिये था। अनुबन्ध की धारा 3.6 के अनुसार विज्ञापन क्षेत्रफल 6650 वर्ग फीट के 70 प्रतिशत भाग अर्थात 4655 वर्ग फीट का उपयोग फर्म द्वारा किया जाना था एवं 30 प्रतिशत भाग नगर निगम के उपयोग हेतु था। जिस पर फर्म के खर्चे पर जनहित सन्देशों/विज्ञापनों का प्रसारण किया जाना था। साथ ही अनुबन्ध की धारा - 3.7 के अनुसार प्रत्येक 05 वर्ष पर विज्ञापन शुल्क रू0 100 प्रति वर्ग फीट में 5 प्रतिशत की वृद्धि की जानी थी। उपर्युक्त के अनुसार 2022-23 तक की अवधि हेतु सम्बन्धित फर्म को वर्ष 2016-17 से प्रारम्भ करते हुए निम्नवत विज्ञापन शुल्क जमा किया जाना था -

वर्ष	वर्ग फीट (70 प्रतिशत) × दर	देय विज्ञापन शुल्क
2016-17	4655×100	4,65,500

2017-18	4655×105	4,88,775
2018-19	4655×105	4,88,775
2019-20	4655×105	4,88,775
2020-21	4655×105	4,88,775
2021-22	4655×105	4,88,775
2022-23	4655×110.25	5,13,214
	योग	34,22,589

पत्रावलीनुसार फर्म द्वारा विज्ञापन शुल्क की कुल धनराशि = ₹0 8,28,492 जमा की गई थी। अतः फर्म ने कम जमा कर नगर निगम को ₹0 34,22,589 - 8,28,492 = 25,94,097 आय की क्षति पहुंचायी।

(2) अनुबन्ध की धारा-3.6 के अनुसार विज्ञापन क्षेत्रफल 6650 वर्गफीट के 30 प्रतिशत भाग, 1995 वर्ग फीट क्षेत्र पर फर्म के खर्चे पर नगर निगम की ओर से जन - उपयोगी विज्ञापनों का प्रसारण किया जाना था। पत्रावली में सलंगन नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद के पत्रांक-47/विधि/2020-21 दिनांक 15-06-2020 के अनुसार उपर्युक्त 30 प्रतिशत सरकारी विज्ञापन हेतु आरक्षित क्षेत्रफल 1995 वर्ग फीट का उपयोग फर्म द्वारा स्वयं के व्यावसायिक विज्ञापनों हेतु किये जाने के कारण निम्नवत अर्थदण्ड लगाया गया था -

विवरण	धनराशि
वर्ष 2016-17 से 2019-20 हेतु = 1995 वर्गफीट×100×4 वर्ष	7,98,000
(+) 12 प्रतिशत ब्याज (4 वर्ष हेतु)	3,83,040
(+) नगर निगम अधिनियम - 1959 की धारा 467 के अन्तर्गत अर्थ दण्ड	100
एवं उपरोक्त धारा के अन्तर्गत ₹0 25/- प्रतिदिन 1459 दिन हेतु अर्थदण्ड	36,475
योग	12,17,615

नैसर्गिक न्याय के दृष्टिगत फर्म को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त आकलित धनराशि रू0 12,17,615 से कम करते हुए रू0 10,00,000 किया गया था। किन्तु इसके जमा की पुष्टि पत्रावली से नहीं हो सकी। अतः इसे तत्काल निगम कोष में जमा कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

(3) अनुबन्ध की धारा-3.8 के अनुसार शरीर से आशक्त/विकलांगों/रोगी व्यक्तियों व उपयोगिता के दृष्टिगत विद्युत चलित स्केलेटर, रैम्प, अथवा लिफ्ट का निर्माण किया जाना था। जिनका निर्माण सम्बन्धित फर्म द्वारा विभिन्न प्रकाश के बहाने बनाकर नहीं किया गया। जिस हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद के पत्रांक-367/न0आ0/2019-20 दिनांक 20-02-2020 के द्वारा 10,00,000=00 का अर्थदण्ड लगाया गया था। जिसके जमा की पुष्टि पत्रावली से नहीं हुयी। अतः उक्त धनराशि को तत्काल नगर निगम कोष में जमा कराये जाने हेतु कार्यवाही अपेक्षित है।

(4) उपरोक्त कार्य का अनुबन्ध रू0 100=00 एवं संशोधित अनुबन्ध भी रू0 100 के स्टाम्प पर कराये गये थे। जबकि भारतीय स्टाम्प अधिनियम - 1899 की अनुसूची - 01 "ख" अनुच्छेद-35 के अनुसार उपरोक्त अनुबन्ध रू0 40 प्रति हजार अथवा उसके अंश पर की गणना के अनुसार निम्नवत रू0 6,33,280=00 के स्टाम्प पर किया जाना चाहिये था। ऐसा न किये जाने के कारण शासन को रू0 6,33,080=00 की राजस्व क्षति पहुंचायी गयी थी। विवरण निम्नवत है -

अवधि	विज्ञापन शुल्क (प्रति 5 वर्ष, 5 प्रतिशत वृद्धि के साथ)
प्रथम पांच वर्ष	$4655 \times 100 \times 5 = 23,27,500$
द्वितीय पांच वर्ष	$4655 \times 105 \times 5 = 24,43,875$
तृतीय पांच वर्ष	$4655 \times 110.25 \times 5 = 25,66,069$
चतुर्थ पांच वर्ष	$4655 \times 115.76 \times 5 = 26,94,314$
पंचम पांच वर्ष	$4655 \times 121.55 \times 5 = 28,29,076$
अन्तिम पांच वर्ष	$4655 \times 127.63 \times 5 = 29,70,588$
योग	1,58,31,422

देय स्टाम्प = $15832 \times 40 = 6,33,280$ - रू 200 (लगाये गये स्टाम्प)

राजस्व क्षति = 6,33,080 उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही की जाय।

इस प्रकार उक्त प्रकरण में नगर निगम, गाजियाबाद को रू0 25,94,097+10,00,000+10,00,000 = कुल रू0 45,94,097 की आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी थी एवं कम मूल्य के स्टाम्पों पर अनुबन्ध किये जाने के कारण शासन को भी रू0 6,33,080=00 की राजस्व क्षति पहुंचायी गयी थी।

(5) अनुबन्ध की धारा - 3.2 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शन का कार्य कम्पलिशन सर्टीफिकेट नगर निगम में प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त किया जाना था किन्तु सम्बन्धित फर्म द्वारा बिना पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये बिना ही विज्ञापन कार्य किया जाना किया जा रहा था जो कि अनुबन्ध की शर्तों का पूर्ण रूप से स्पष्ट उल्लंघन था। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाय।

(6) अनुबन्ध की धारा - 3.9 के अनुसार निर्मित फुट ओवर ब्रिजों की ऊंचाई के सम्बन्ध में ट्रैफिक के संचालन हेतु स्मूथ फ्लो का आई0 आर0 सी0 की गाईड लाईन के अनुपालन में स्थिति स्पष्ट नहीं थी। इसे स्पष्ट कराया जाय।

(7) अनुबन्ध की धारा-3.12 के अनुसार निर्मित फुट ओवर ब्रिजों की रंगाई-पुताई व साफ-सफाई प्रत्येक तीन माह में करायी जानी थी, किन्तु पत्रावलीनुसार यह स्पष्ट नहीं था कि रंगाई पुताई एवं साफ-सफाई कभी भी करायी गयी थी अथवा नहीं। अतः इस सम्बन्ध में स्थिति अभिलेखों द्वारा स्पष्ट कराया जाय अन्यथा की स्थिति में जुर्माने इत्यादि की कार्यवाही अपेक्षित है।

(8) अनुबन्ध की धारा-3.16 के अनुसार विज्ञापन शुल्क छमाही रूप से विज्ञापन प्रदर्शन विवरण व साक्ष्य के साथ जमा किया जाना था, जोकि नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

(9) अनुबन्ध की धारा-3.19 के अनुसार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, पी0 डब्लू0 डी0, एन0 एच0 ए0 आई0 व पुलिस विभाग से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाना था, किन्तु फर्म द्वारा सभी फुट ओवर ब्रिजों का निर्माण बिना अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त किये ही कराय गया था जो कि पूर्णतः अनियमित एवं अनुबन्धों की शर्तों का पूर्ण उल्लंघन था। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। कुल 03 स्थान हापुड चुंगी, डाबर चौराहा से यू0पी0 गेट मार्ग पर राज रेजीडेन्सी के समीप एवं साहिबाबाद औ0 क्षे0 व वसुन्धरा से इन्दिरापुरम चौराहे पर मण्डी समिति तक।

(10) फुट ओवर ब्रिजों के साथ विद्युत चलित स्केलेटर, रैम्प अथवा लिफ्ट का निर्माण न

किया जाना इस बात का द्योतक था कि इन फुट ओवर ब्रिजो का निर्माण जन - साधारण के उपयोग हेतु न करके मात्र विज्ञापनो से आय प्राप्त करने हेतु किया गया था। जन - साधारण के उपयोगार्थ न होने के कारण इनके निर्माण का वास्तविक उद्देश्य ही समाप्त हो गया था। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(11) पत्रावलीनुसार सम्परीक्षा अवधि तक किसी भी फुट ओवर ब्रिज का हस्तान्तरण नगर निगम, गाजियाबाद को नहीं किया गया था। इस ओर आवश्यक एवं प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

(12) दर्शायी गयी जमा धनराशियों का निगम कोष में जमा का सत्यापन कराया जाना अपेक्षित है।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही हेतु प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(झ) - नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थलों पर दिशा सूचक बोर्ड स्थापन सम्बन्धी विज्ञापन शुल्क मैसर्स गैट मोर से रू0 3,89,36,172 कम लिया जाना, रू0 25,34,120 के कम स्टाम्पों पर अनुबन्ध कराये जाने के कारण राजस्व क्षति, रू0 3,60,000 जी0एस0टी0 जमा न कराया जाना, बिलम्ब ब्याज की स्थिति स्पष्ट न किया जाना एवं अनुबन्ध की शर्तों का अनुपालन न किया जाना एवं कुल विज्ञापन क्षेत्रफल स्पष्ट न कराया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक -:

नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थलों पर दिशा सूचक बोर्ड स्थापित करने के सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में प्रकाश में आया कि उपर्युक्त कार्य हेतु मैसर्स गैट मोर (प्रोपराईटर - कु0 दिव्या सांगवान) प्लॉट नं0-325, शक्तिखण्ड - तृतीय, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद के साथ दिनांक 02-01-2016 को रू0 1200/- के स्टाम्प पेपरों पर अनुबन्ध किया गया था। अनुबन्ध की तिथि से प्रथम 02 वर्ष पर्यवेक्षा अवधि तथा आगामी 03 वर्ष कार्यावधि, अर्थात् कुल अवधि 05 वर्ष होगी। जमानत धनराशि के रूप में एफ0डी0आर0 संख्या- 852517 दिनांक 14-12-2015 रू0 1,50,000=00 जमा करायी गयी थी, जो कि कार्य सन्तोषजनक पूर्ण कर लिये जाने के उपरान्त अनुबन्ध अवधि समाप्त होने के उपरान्त वापस की जानी थी। अनुबन्ध की शर्त - 02 के अनुसार कुल पाँच वर्ष का कार्य सन्तोषजनक होने पर सशर्त 05 वर्ष का विस्तार किया जा सकता था। शर्त संख्या- 04 के अनुसार विज्ञापन पर के सम्मुख आधे भाग पर विज्ञापन व आधे भाग में साइनेज, पृष्ठ भाग में पूरे पर विज्ञापन किया जाना था। शर्त संख्या-10 के अनुसार विज्ञापन शुल्क रू0

2200=00 प्रति वर्ग मीटर, विद्युत अथवा प्रकाशयुक्त होने पर रू0 3300/- प्रति वर्ग मीटर की दर से विज्ञापन शुल्क देय था।

शर्त संख्या-12 के अनुसार अग्रिम शुल्क जमा करने की निर्धारित तिथि प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से 10 अप्रैल भी तथा विलम्ब की दशा में उक्त पर 16 प्रतिशत दण्ड ब्याज देय था एवं शर्त संख्या-25 के अनुसार अंकित स्थानों पर साइनेज/विज्ञापन लगाने से पूर्व नगर निगम, गाजियाबाद से स्थलों की सूची अनुमोदित करायी जायेगी तथा नगर निगम अनुमति प्रदान करने से पूर्व गणना कराकर पूरे वर्ष का विज्ञापन शुल्क अग्रिम जमा कराने के उपरान्त अनुमति प्रदान की जायेगी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि शर्त संख्या-21 के अनुसार किसी भी नियम का उल्लंघन एवं कार्यों के समय एवं सुचारू रूप से संचालित न कर पाने के कारण बताओं नोटिस देकर एक माह के अन्दर पक्ष द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण का संज्ञान लेते हुए अनुबन्ध को निरस्त करने की कार्यवाही निष्पादित कर दी जायेगी। अनुबन्ध में दिये गये विवरणानुसार फर्म को विभिन्न स्थानों पर 102 कैंटीलिवर व गेट एन्ट्री कुल 150 स्थल आंबटित किये गये थे।

(1) पत्रावली नोट शीट- 136 के अनुसार नगर निगम सीमान्तर्गत बी0 ओ0 टी0 के आधार पर चौराहों एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर दिशासूचक बोर्ड की स्थापना हेतु तत्कालीन नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 01-12-2015 के अनुपालन में निविदा आमंत्रण सूचना का गाजियाबाद नगर निगम के पत्रांक - 724/बी0ओ0टी0/2015-16 दिनांक 08-12-2015 के द्वारा दैनिक समाचार पत्रों राष्ट्रीय सहारा, अवम-ए-हिन्द व युग करवट में दिनांक 10-12-2015 को प्रकाशन कराया गया था। दिनांक 26-12-2015 को अपराह्न 12 बजे अपर नगर आयुक्त कार्यालय में निविदा समिति एवं निविदादाताओं के समक्ष खोली गयी निविदाओं में प्राप्त 05 निविदाओं में मैसर्स गैट मोर की दरें उच्चतम प्राप्त दर्शायी गयी थीं, हालांकि उपरोक्त विज्ञापन व निविदायें पत्रावली में संलग्न नहीं थी। जिनके अभाव में कार्य की शर्तों व अन्य महत्वपूर्ण नियमों का सत्यापन सम्भव न हो सका।

(2) अनुबन्ध की शर्त संख्या - 25 के अनुसार स्थलों पर साइनेज/विज्ञापन लगाने से पूर्व नगर निगम, गाजियाबाद से स्थलों की सूची अनुमोदित कराकर अनुमति से पूर्व गणना कराकर पूरे वर्ष का विज्ञापन शुल्क अग्रिम जमा कराने के उपरान्त अनुमति प्रदान की जानी थी। किन्तु पत्रावली में ऐसी कोई भी स्थलो की सूची, विज्ञापन शुल्क की गणना, अनुमति एवं अग्रिम शुल्क जमा का

विवरण उपलब्ध नहीं था।

पत्रावली नोट शीट-134 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01-01-2021 अर्थात् 09 माह को पूर्ण होने तक वार्षिक अनुपातिक दर के अनुसार अंकन रू0 95,07,435=00 की गणना की गयी थी। यदि उर्पुयक्त 09 माह अवधि व रू0 95,07,435 के आधार पर गणना की जाय तो नगर निगम को निम्नवत धनराशि प्राप्त होनी चाहिये थी -

अनुबन्धानुसार अवधि हेतु = रू0 95,07,435×12/9 ×05 वर्ष = 6,33,82,900

फर्म द्वारा योजित वाद के कारण अतिरिक्त अवधि 02-01-2021 से 30-06-21 हेतु = 63,38,290

योग = 6,97,21,190

यह धनराशि बिना बिलम्ब दण्ड ब्याज एवं जी0एस0टी0 के थी, अर्थात् नगर निगम को फर्म से प्राप्त होने वाली शुद्ध विज्ञापन की आय थी। जिसके सापेक्ष पत्रावली में नोट शीट के अनुसार निम्नवत धनराशि जमा की गयी थी -

क्र0	डी0डी0/चैक संख्या/ दिनांक	मूल धनराशि	18 प्रतिशत जी0एस0टी0	योग
1	001842 / 30-09-2019	12,71,187	2,28,813	15,00,000
2	001841 / 15-10-2019	12,71,187	2,28,813	15,00,000
3	000213 / 05-11-2019	10,00,000	----	10,00,000
4	000211 / 10-11-2019	10,00,000	----	10,00,000
5	000226 / 30-12-2019	8,47,458	1,52,542	10,00,000
6	001874 / 31-12-2019	33,89,830	6,10,170	40,00,000
7	000227 / 04-01-2020	34,71,019	6,24,784	40,95,803
8	000225 / 09-01-2020	38,13,559	6,86,441	45,00,000
9	000494 / 04-05-2020	25,42,373	4,57,627	30,00,000
10	000506 / 06-06-2022	25,42,373	4,57,627	30,00,000
11	RTGS / 16-06-2022	21,18,644	3,81,356	25,00,000

12	RTGS / 29-06-2022	25,42,373	4,57,627	30,00,000
13	RTGS / 01-07-2022	24,32,642	4,37,875	28,70,518
14	RTGS / 10-05-2022	25,42,373	4,57,627	30,00,000
	विज्ञापन शुल्क की शुद्ध प्राप्ति	3,07,85,018		

इस प्रकार नगर निगम को विज्ञापन शुल्क की आय रू0 6,97,21,190 के सापेक्ष रू0 3,07,85,018 ही जमा कराये गये थे। इस प्रकार रू0 6,97,21,190-3,07,85,018 = 3,89,36,172 नगर निगम को कम प्राप्त हुए थे। इस सम्बन्ध में अभिलेख द्वारा स्थिति स्पष्ट करायी जाये अन्यथा की स्थिति में यह नगर निगम को आर्थिक क्षति पहुंचाये जाने का प्रकरण था।

(3) उर्पयुक्त जमा दशाये गये 3,07,85,018 की नगर निगम निधि में जमा की पुष्टि लेखानुभाग से नहीं करायी गयी थी। इसकी जमा का सत्यापन कराया जाना अपेक्षित है।

(4) कार्य का अनुबन्ध रू0 1200 के स्टाम्पों पर कराया गया था। जबकि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची-01, ख, अनुच्छेद-35 के अनुसार उपरोक्त अनुबन्ध रू0 40 प्रति हजार की दर से पांच वर्ष की कार्य धनराशि रू0 6,33,82,900 पर रू0 25,35,320 का स्टाम्प पेपर लगाकर अनुबन्ध किया जाना चाहिये था। ऐसा न किये जाने के कारण शासन को निम्नवत रू0 25,34,120 की राजस्व क्षति पहुंचायी गयी थी।

आगणन	धनराशि
63383×40	25,35,320
प्रयुक्त स्टाम्प (-)	1200
राजकीय राजस्व क्षति	25,34,120

उर्पयुक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। उक्त के अतिरिक्त यदि कोई अन्य धनराशियां जमा करायी गयीं हो तो उनका सत्यापन सम्परीक्षा में कराया जाना अपेक्षित है।

(5) फर्म द्वारा जमा धनराशि में चैक संख्या- 000213 दिनांक 05-11-2019 द्वारा रू0 10,00,000 एवं चैक संख्या- 000211 दिनांक 10-11-2019 द्वारा रू0 10,00,000 कुल रू0 20,00,000 जमा किये गये थे किन्तु उक्त धनराशि पर 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 जमा नहीं की गयी थी। जबकि सम्पूर्ण देय में दिनांक 01-07-2017 से जी0एस0टी0 प्रभावी किया गया

था। अतः उपरोक्त रू0 20,00,000 पर देय 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 रू0 3,60,000 जमा न कराये जाने की स्थिति स्पष्ट करायी जाय अन्यथा की स्थिति में यह राजस्व क्षति का प्रकरण था।

(6) फर्म द्वारा अपने पत्र दिनांक 02-05-2022 द्वारा देय अवशेष धनराशि रू0 1,18,71,505=00 में सम्मिलित ब्याज रू0 23,64,080=00 के सम्बन्ध में छूट मांगी गयी थी। जिस हेतु पत्रावली नोट शीट - 155 के अनुसार निगम हित में उक्त छूट प्रदान नहीं की गयी। "अनुबन्ध की धारा - 12 के अनुसार अग्रिम विज्ञापन प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से 10 अप्रैल तक जमा किया जाना था, विलम्ब की दशा में उक्त पर 16 प्रतिशत दण्ड ब्याज देय था। " नगर निगम द्वारा उक्त ब्याज धनराशि रू0 23,64,080=00 कितनी बकाया धनराशि पर किस अवधि हेतु आरोपित किया गया था, स्पष्ट नहीं था।

अतः फर्म द्वारा अनुबन्ध प्रारम्भ की तिथि से कार्य समाप्ति तक देय धनराशि की देय तिथि के सापेक्ष जमा का विवरण तैयार कर आरोपित ब्याज रू0 23,64,080=00 की शुद्धता की पुष्टि करायी जाय अन्यथा की स्थिति में ब्याज के त्रुटिपूर्ण गणना किये जाने के कारण फर्म को आर्थिक लाभ पहुंचाये जाने की पूर्ण सम्भावना थी।

(7) पत्रावली में संलग्न नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद के पत्रांक - 2162/न0आ0/2019-20 दिनांक 24-09-2019 के विशेष सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन को उर्पयुक्त दिशासूचक बोर्ड ठेके के सम्बन्ध में माननीय विधायक, 55 - साहिबाबाद के सम्बन्ध में अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करने को स्वीकार किया गया था एवं अन्य कई शिकायतों के सम्बन्ध में भी नगर निगम अधिकारियों द्वारा बार - बार यह स्वीकार किया गया था कि फर्म द्वारा निरन्तर अनुबन्धों की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा था। इसके बावजूद भी निगम द्वारा फर्म से पत्राचार कर कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी थी। अवैध रूप से विज्ञापन किये जाने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

(8) अनुबन्ध की शर्त - 5 के अनुसार साइनेज की स्थापना हेतु साइनेज केपिलर, केन्टीलिवर एवं गेट एन्ट्री की मजबूती हेतु उसकी डिजाईन स्ट्रक्चल इंजीनियर से अनुमोदित होनी चाहिये थी एवं साइनेज का डिजाईन मान्यता प्राप्त ट्रान्सपोटेशन इंजीनियर से भी प्रमाणित होना चाहिये था। किन्तु पत्रावली में उक्त शर्त के अनुपालन किये जाने सम्बन्धी अभिलेख संलग्न न होने के कारण उक्त शर्त के अनुपालन किये जाने की पुष्टि न हो सकी। इसे अभिलेखों द्वारा स्पष्ट

कराया जाय।

(9) पत्रावली में संलग्न नगर आयुक्त, नगर निगम के पत्रांक- 2162/न0आ0/2019-20 दिनांक 24-09-2019 के अनुसार सम्बन्धित फर्म द्वारा वैशाली, इन्दिरापुरम, सिद्धार्थ विहार, सिल्वर सिटी मॉल, यू0पी0 बार्डर, तिगरी मोड आदि क्षेत्र में कैंटीलिवर के स्थान पर निर्धारित माप 20×10 की माप से अधिक माप में 40×10 के यूनियोपल लगाये जाने एवं इन अधिक मापों पर, निगम द्वारा जारी नोटिस दिनांक 30-08-2019 में विज्ञापन शुल्क आगणन न किये जाने का उल्लेख किया गया था। पत्रावली से यह स्पष्ट नहीं हो रहा था कि उपरोक्त नोटिस के उपरान्त इन अधिक मापों पर अनुबन्ध की शर्तानुसार विज्ञापन शुल्क की गणना कर निगम निधि में जमा कराया गया था। उक्त स्थलों की वास्तविक मापों, यूनियोपलों की संख्या एवं आरोपित विज्ञापन शुल्क की जमा का सत्यापन कराया जाय अन्यथा की स्थिति में यह नगर निगम को आर्थिक क्षति पहुंचा कर, फर्म मैसर्स गेट मोर को आर्थिक लाभ पहुंचाये जाने का प्रकरण था।

(ज)-आउटसोर्सिंग ऑफ मैन पावर के सम्बन्ध में शासनादेश निर्गत किये जाने के उपरान्त भी आउटसोर्सिंग कर्मियों की आपूर्ति जैम (GEM) से न लेकर शहरी अजिविका केन्द्र से लिये जाने के फलस्वरूप निधि को रू 7,91,92,189 की क्षति पहुँचाया जाना :-

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या- 374/2016/771/69-1-2016-14(56)/2016 दिनांक 20 मई, 2016 द्वारा विभिन्न सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागों, उपक्रमों, प्राधिकरणों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से ली जा रही सेवाये शहरी आजीविका केन्द्र के माध्यम से लिये जाने के निर्देश दिये गये थे। तत्पश्चात उपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-8/2019/20/1/91-का-2/2019 दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 द्वारा उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उसके अधीनस्थ संस्थाओं में मैन पावर के क्रय (आउटसोर्सिंग ऑफ मैनपावर) के लिये भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेन्ट-मार्केट प्लेस, जैम (GEM) की व्यवस्था लागू किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-8 में निर्देशित किया गया था कि "वर्तमान में प्रचलित आउटसोर्सिंग के अनुबन्ध इस नई व्यवस्था के लागू होने से स्वतः समाप्त नहीं होंगे बल्कि प्रश्नगत अनुबन्ध की वैधता अथवा 06 माह, जो भी कम हो, तक क्रियाशील रहेंगे।" तत्पश्चात शासनादेश संख्या-5/2020/20/1/ 91-का-2/2020

दिनांक 25 जून, 2020 द्वारा उपरोक्त शासनादेश में उल्लिखित आउटसोर्सिंग के अनुबन्ध की वैधता अवधि 02 माह और बढ़ा दी गयी।

इसके पश्चात शासनादेश संख्या- 31/2020/273/18-2-2020-97(ल0उ0)/2016 टी0सी0 दिनांक 25 अगस्त, 2020, शासनादेश संख्या-42/2020/ई-153/18-2-2020-97 (ल0उ0)/2016 टी0सी0 दिनांक 07 दिसम्बर, 2020 एवं शासनादेश संख्या-3/2021/103/18-2-2021-92(ल0उ0)/2016 टी0सी0-1 दिनांक 19 फरवरी, 2021 द्वारा जैम पोर्टल की नयी व्यवस्था भी लागू की गयी थी, किन्तु इसके उपरान्त भी नगर निगम द्वारा निरन्तर मैन पावर आउटसोर्सिंग शहरी आजीविका केन्द्र से ली जा रही थी। जबकि जैम के माध्यम से आपूर्ति प्राप्त किये जाने से सम्बन्धित फर्म पर समय से भुगतान करने, कर्मियों से जबरदस्ती कोई धनराशि लेने इत्यादि के सम्बन्ध में स्पष्ट प्राविधान किये गये थे। इसके बावजूद भी जैम पोर्टल से आउटसोर्सिंग कर्मियों की आपूर्ति न लिया जाना अनियमित एवं शासनादेशों का स्पष्ट उल्लंघन था। अतः इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए आवश्यक एवं प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है। सम्परीक्षा माहों में दिये गये भुगतानों रु 7,91,92,189 का विवरण संलग्न परिशिष्ट '22' पर दिया गया है।

(ट)-शासनादेश की व्यवस्था के विरुद्ध मात्र बोर्ड प्रस्ताव पारित कर ठेका श्रमिक सफाई व सीवर कर्मियों की अपूर्ति लेकर नगर निगम निधि को रु 4,26,92,420 की क्षति पहुँचाया जाना :-

व्यय प्रमाणकों की जांच में प्रकाश में आया है कि सम्परीक्षा हेतु चयनित माहों में ठेका श्रमिक सफाई एवं सीवर कर्मियों को रूपये 4,26,92,420 का भुगतान किया गया था। उक्त भुगतान नगर निगम की बोर्ड बैठक दिनांक 07.04.2018 के प्रस्ताव संख्या- 06 के क्रम में किया गया था, जबकि नगर निकायों में सफाई कर्मियों की संविदा पर भर्ती के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-5417/9-1-15-185-सा0/10 टी0सी0 दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 एवं शासनादेश संख्या- 133/9-1-16-185सा0/10 टी0सी0 दिनांक 19 जनवरी, 2016 को अवक्रमित करते हुए तथा भर्ती एवं नियुक्ति पर लगे प्रतिबन्ध में कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-20/1/91-का-2-2012 दिनांक 15 मार्च, 2012 एवं नगर निकायों में दैनिक वेतन/संविदा पर लगे प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में नगर विकास अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 3988/9-1-2010-203/2010 दिनांक 07 दिसम्बर के प्रस्ताव-2 तथा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त होने

वाले पदों के सम्बन्ध में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-2052/उस-59(एम)/2008 दिनांक 08 दिसम्बर, 2010 के प्रस्तर-2 में निर्धारित की गयी व्यवस्था/निर्देशों को सफाई कर्मियों के पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2021/9-1-16-185सा0/10 टी0सी0 नगर विकास अनुभाग दिनांक 04 जुलाई, 2016 के द्वारा संविदा के आधार पर भर्ती/नियुक्ति की व्यवस्था की गयी। इसके अतिरिक्त नगर निगम द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम को भी प्रतिमाह शहरी आजीविका केन्द्र के माध्यम से भी 201 सफाई कर्मचारियों की आपूर्ति की जा रही थी एवं साथ में 399 स्थायी कर्मचारी भी नगर निगम में नियुक्त थे।

इस प्रकार दैनिक वेतन/ठेका कर्मियों की भर्ती/नियुक्ति पर शासनादेशों के द्वारा रोक लगाये जाने के बावजूद भी मात्र बोर्ड प्रस्ताव पारित कर दैनिक वेतन/ठेका कर्मियों से कार्य लिया जाना अनियमित था। उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई अन्य शासनादेश अथवा शासन की अनुमति हो तो उसे सम्परीक्षा में प्रस्तुत कर भुगतानों की स्थिति स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है। भुगतानों का विवरण संलग्न परिशिष्ट '23' पर दिया गया है।

(ठ)-शासनादेश की व्यवस्था के विरुद्ध मात्र बोर्ड प्रस्ताव पारित कर ठेका श्रमिक सफाई व सीवर कर्मों की अपूर्ति लेकर निधि को रू 7,49,81,169 की क्षति पहुँचाया जाना :-

व्यय प्रमाणकों की जांच में प्रकाश में आया कि सम्परीक्षा हेतु चयनित माहों में ठेका श्रमिक सफाई व सीवर कर्मियों को रू 7,49,81,169 का भुगतान किया गया था। उक्त भुगतान नगर निगम की बोर्ड बैठक दिनांक 07.04.2018 के प्रस्ताव संख्या- 06 के क्रम में की गयी स्वीकृति के आधार पर किये गये थे। जबकि नगर निकायों में सफाई कर्मियों की संविदा पर भर्ती के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या- 5417/9-1-15-185स/10 टी0सी0 दिनांक 21.12.2015 एवं शासनादेश संख्या- 133/9-1-16-185सा/10 टी0सी0 दिनांक 19 जनवरी,2016 को अवक्रमिक करते हुए तथा भर्ती एवं नियुक्ति पर लगे प्रतिबन्ध में कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 20-1-91-का-2-2012 दिनांक 15 मार्च, 2012 एवं नगर निकायों में दैनिक वेतन/संविदा पर लगे प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में नगर विकास अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 3988/9-1-2010-203/2010 दिनांक 07 दिसम्बर के प्रस्तर-2 तथा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त होने

वाले पदों के सम्बन्ध में वित्त वेतन आयोग अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-2052/दस-59एम/2008, दिनांक 08 दिसम्बर 2010 के प्रस्तर-2 में निर्धारित की व्यवस्था/निर्देशों को सफाई कर्मियों के पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2021/9-1-16-185सा0/10 टी0सी0 नगर विकास अनुभाग-1 दिनांक 4 जुलाई 2016 के द्वारा संविदा के आधार पर भर्ती/नियुक्ति की व्यवस्था की गयी। इसके अतिरिक्त नगर निगम द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी विभिन्न पदों पर कर्मियों की आपूर्ति ली गयी थी।

इस प्रकार दैनिक वेतन/ठेका कर्मियों की भर्ती/नियुक्ति पर शासनादेश द्वारा रोक लगाये जाने के बावजूद मात्र बोर्ड प्रस्ताव पारित कर दैनिक वेतन/ठेका कर्मिक से कार्य लिया जाना अनियमित था। उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई अन्य शासनादेश अथवा शासन की अनुमतिहो तो सम्परीक्षा में प्रस्तुत कर स्थिति स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। विवरण संलग्न परिशिष्ट '24' पर दिया गया है।

2- अनियमित, अधिक, अपव्यय एवं आपत्तिजनक भुगतान के विभावार प्रकरण :-

(क) निर्माण विभाग :-

1-निगम द्वारा करये गये निर्माण कार्यों में ठेकेदारों द्वारा विलम्ब से कार्य पूर्ण किये जाने पर ठेकेदारों से अर्थदण्ड की वसूली न करने के कारण ठेकेदारों को अधिक भुगतान रु 4,08,10,885 :-

निगम द्वारा आलोच्य अवधि में नगम निधि, चौदहवें वित्त आयोग एवं अवस्थापना विकास निधि से कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियां की जाँच से प्रकाश में आया कि निगम, द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में जिसमें ठेकेदारों द्वारा कार्यादेश में दी गयी अवधि के अन्तर्गत कार्य को पूर्ण न करके विलम्ब से कार्य पूर्ण किया गया था। वहाँ पर निगम द्वारा ठेकेदार पर अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार या तो विलम्ब हेतु आर्थिक दण्ड लगाया ही नहीं गया था या बहुत कम लगाया गया था जिस कारण ठेकेदारों को अधिक भुगतान हो गया था। अनुबन्ध की शर्त संख्या-2 के अनुसार कार्य में देरी करने के लिए ठेकेदार पर कार्य की आगणन राशि पर प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा बिना अर्थदण्ड की यह धनराशि आगणित धनराशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। ठेकेदारों पर अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार अर्थदण्ड आरोपित न करने के कारण ठेकेदारों को रूपया 4,08,10,885 का अधिक भुगतान हो गया था। वर्ष 2022-23

तक देशी से किये गये कार्यों पर ठेकेदारों पर अनुबन्ध की शर्त-2 के अनुसार अर्थदण्ड की धनराशि की गणना करके ठेकेदारों से वसूल की जाय। सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट '10' में अंकित है।

2-निर्माण कार्यों में बिलों की धनराशि में 1 प्रतिशत अतिरिक्त लेबर सेस जोड़े जाने के कारण ठेकेदारों को रू 10,41,613 का अधिक भुगतान :-

निर्माण कार्यों की जाँच में पाया गया कि समस्त बिलों की धनराशियों में 1 प्रतिशत लेबर सेस अतिरिक्त जोड़ने के पश्चात ही लेबर सेस की धनराशि की कटौती की गयी थी जबकि लेबर सेस से सम्बन्धित एक्ट में इसके पूर्ण भुगतान का उत्तरदायित्व ठेकेदार का था। वह भी ठेकेदार के बिल से कटौती कर किया जाना था।

लोक निर्माण विभाग, लखनऊ सामान्य वर्ग के पत्रांक- 9755 एम0टी0/सामान्य वर्ग/40 एस0टी0-45/2017 दिनांक 19.12.2017 कार्यालय ज्ञाप में अंकित "भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सड़क कार्यों में अनुबन्ध प्रबन्ध पर निष्पादन लेखा परीक्षा में उल्लिखित प्रसार 4.2 में अनुमंसा की गयी है। कि शासन द्वारा समस्त खण्डों को तत्काल यह निर्देश निर्गत किया जाना चाहिए कि कर्मकार उपकर की कटौती ठेकेदार के बिलों से की जाए एवं समस्त समावेशी अनुबन्धों में उपकर के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जाये।

बिड डाक्यूमेंट में लेबर सेस की देयता के सम्बन्ध में पूर्व व्यवस्था पूर्णतया स्पष्ट है जिसके अनुसार लेबर सेस के भुगतान का दायित्व ठेकेदार का है। उक्त के क्रम में एतद् द्वारा आदेश दिये जाते हैं कि कर्मकार उपकर की कटौती ठेकेदारों के बिलों से की जाए एवं समस्त समावेशी अनुबन्धों में कर्मकार उपकर के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जाये।

अतः परिशिष्ट 'ट- पर संलग्न सूची के अनुसार बिल में रूपये 10,41,613 लेबर सेस के रूप में जोड़े गये थे जिनका भुगतान ठेकेदार को किया गया था। अतः लेबर सेस की जोड़ी गयी धनराशि अंकन रूपये 10,41,613,00 का भुगतान अधिक/अनियमित था। इसकी वसूली सम्बन्धित/उत्तरदायी से कराया जाना अपेक्षित है। उक्त का विवरण परिशिष्ट '11' में दिया गया है।

3-निर्माण कार्यों में इंटरलॉकिंग टाईल्स का परीक्षण कराये बिना कार्य कराये जाने से अनियमित एवं आपत्तिजनक भुगतान रूपया- 45,33,579 :-

नगर निगम द्वारा वर्ष 2022-23 में कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जाँच से प्रकाश में आया कि जिन कार्यों में इंटरलॉकिंग टाईल्स का कार्य कराया गया था उनमें इंटरलॉकिंग टाईल्स की गुणवत्ता की जाँच प्रयोगशाला में नहीं करायी गयी थी, जिस कारण गुणवत्ताहीन कार्य कराया गया ।

मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक - सी०ई०सी०जेड० सा०/7 दिनांक 31.01.2007 द्वारा सड़को में प्रयुक्त होने वाली इंटरलॉकिंग टाईल्स की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु व्यापक निर्देश दिये गये थे। इनके अनुसार इंटरलॉकिंग टाईल्स का प्रयोग करने से पूर्व प्रत्येक 500 से 1000 टाईल्स में से एक टाईल्स गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में भेजी जानी चाहिए। गुणवत्ता जाँच की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही सही गुणवत्ता वाली टाईलों का प्रयोग इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण में किया जाना चाहिए।

निर्माण पत्रावलियों में इंटरलॉकिंग टाईल्स की लेब टैस्टिंग सम्बन्धी प्रयोगशाला की कोई रिपोर्ट संलग्न नहीं थी। बिना टैस्ट रिपोर्ट के सम्परीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निम्नलिखित विवरणों में दर्शाये गये रूप में निर्मित निर्माण कार्यों में गुणवत्ता इंटरलॉकिंग सड़कों के निर्माण या टाईल्स के उपयोग से पूर्व लैब टैस्टिंग कराया जाना था, जो नहीं कराया गया था। इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य में टाईल्स का प्रयोग बगैर परीक्षा के कराये जाने के कारण रूपया-45,33,579=00 का अनियमित भुगतान किया गया था। उक्त का विवरण सम्परीक्षा आख्या के परिशिष्ट '12' पर दिया गया है।

4-नगर निगम द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में स्टोन बैलास्ट के कार्यों पर 10 प्रतिशत बॉयडस न काटे जाने से ठेकेदारों को अधिक भुगतान रूपया- 7,72,060 :-

नगर निगम द्वारा आलोच्य अवधि में निगम निधि, चौदहवें वित्त आयोग एवं अवस्थापना विकास निधि की जाँच से प्रकाश में आया कि निगम द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में संलग्न विवरण के अनुसार स्टोन बैलास्ट की मात्रा पर 10 प्रतिशत बॉयडस की मात्रा नहीं घटायी गयी थी, जिस कारण ठेकेदारों को रूपया- 7,72,060 का अधिक भुगतान कर दिया गया था। 10 प्रतिशत

बॉयडस न काटे जाने का कारण स्पष्ट करते हुए वर्ष 2022-23 में निगम द्वारा कराये गये समस्त कार्यों में नियमानुसार 10 प्रतिशत बॉयडस की कटौती सुनिश्चित किया जाए एवं इस धनराशि की गणना कराकर ठेकेदारों से वसूली करने हेतु निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। इससे सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट '13' में संलग्न है।

5-निगम द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में मिट्टी व 12.5 प्रतिशत सैटलमेन्ट चार्ज न काटे जाने से ठेकेदारों को अधिक भुगतान रूपया- 3,60,451 :-

नगर निगम द्वारा आलोच्य अवधि में निगम निधि, चौदहवें/15 वित्त आयोग एवं अवस्थापना विकास निधि में कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच से प्रकाश में आया कि निगम द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में संलग्न के विवरण के अनुसार कराये गये कार्यों में मिट्टी की मात्रा पर 12.5 प्रतिशत सैटलमेन्ट चार्ज की मात्रा नहीं घटायी गयी थी। जिस कारण ठेकेदारों को रूपये का अधिक भुगतान कर दिया गया था। 12.5 प्रतिशत सैटलमेन्ट चार्ज न काटे जोन का कारण स्पष्ट करते हुए वर्ष 2022-23 में निगम द्वारा कराये गये समस्त निर्माण कार्यों में नियमानुसार 12.5 प्रतिशत सैटलमेन्ट चार्ज की कटौती सुनिश्चित किया जाय उक्त धनराशि की गणना कराकर ठेकेदारों से वसूली हेतु निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। इससे संबंधित विवरण संलग्न परिशिष्ट '14' में दिया गया है।

6-निर्माण कार्यों में निर्धारित अवधि से अधिक समय में पूर्ण किये जाने के कारण 12 प्रतिशत के स्थान पर 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 का भुगतानों किये जाने के कारण रु 32,80,906 का अधिक भुगतान :-

निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में प्रकाश में आया कि निर्माण कार्यों हेतु जारी कार्यादेश की तिथि एवं कार्य पूर्ण किये जाने के समय की अवधि हेतु उपरोक्त कार्यों के भुगतानों पर 12 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 देय थी।

जी0एस0टी0 काउंसिल की 47 वीं बैठक में निर्माण कार्यों हेतु उपरोक्त जी0एस0टी0 दर 12 प्रतिशत के स्थान पर 18 प्रतिशत कर दी गयी थी। वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा अपनी अधिसूचना संख्या- 03/2022 सैन्ट्रल टैक्स (रेट) दिनांक 13.07.2022 के द्वारा निर्माण कार्यों में

लागू जी0एस0टी0 की दरें 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गयी थी। जिसके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के वित्त (व्यय -नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या- 2/2022/ई-8-292/दस-2022 दिनांक 18 सितम्बर, 2022 के द्वारा जी0एस0टी0 की दरों में परिवर्तन की स्थिति में जी0एस0टी0 की प्रचलित दरों को उनके प्रभावी होने की दिनांक से लागू करते हुए जी0एस0टी0 की गणना किये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे।

उपर्युक्त पत्रावलियों के अनुसार निम्नांकित कार्यों की समाप्ति की तिथि जी0एस0टी0 की बढ़ी हुई दरों के लागू होने से पूर्व की थी। किन्तु सम्बन्धित फर्मों द्वारा कार्य समय पर समाप्त न किये जाने के कारण 12 प्रतिशत के स्थान पर 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 का भुगतान नहीं करना पड़ा था। यदि फर्मों द्वारा कार्य समयान्तर्गत समाप्त कर लिये जाते तो इनके भुगतानों में अतिरिक्त $18-12=6$ प्रतिशत जी0एस0टी0 का भुगतान नहीं करना पड़ता। सम्बन्धित अवर अभियन्ताओं के द्वारा कार्यों को समय से समाप्त कराये जाने हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही न लिया जाना भी इन कार्यों के विलम्ब से समाप्त किये जाने का एक प्रमुख कारण था। जिसके कारण अनुदानों/निगम निधि का उपयोग अनावश्यक रूप से करों की देयता हेतु किया गया था। इस सम्बन्ध में उत्तरदायिम्ब का निर्धारण करते हुए उत्तरदायी के विरुद्ध प्रभावी एवं आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ कार्यों में कार्य जी0एस0टी0की दरें बढ़ाये जाने के पूर्व समाप्त कर दिया गया था किन्तु समय से भुगतान न किये जाने के कारण भी 6 प्रतिशत जी0एस0टी0 का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा था। उक्त के सम्बन्ध में भी स्थिति सपष्ट कराया जाना अपेक्षित है। विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट '15' पर दिया गया है।

7-50 लाख से अधिक के कार्यों हेतु डी0पी0आर0 (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) न बनाये जाने के कारण अनियमित भुगतान रूपये- 4,01,98,856 :-

सम्परीक्षा के समय 14 वॉ/15 वॉ वित्त आयोग एवं अवस्थापना विकास निधि की पत्रावलियों की जाँच से प्रकाश में आया कि 50 लाख से ऊपर के कार्यों हेतु डी0पी0आर0 (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) नहीं बनायी गयी थी एवं संलग्न विवरण के दर्शाये गये कार्यों की पत्रावलियों में संलग्न नहीं थी जबकि आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ की अध्यक्षता में 14 वें वित्त आयोग एवं अवस्थापना विकास निधि की कार्य योजना स्वीकृत हेतु गठित समिति दिनांक 17.07.2017 एवं दिनांक 27.10.

2018 को हुई मीटिंग भी निर्देशित किया गया था कि 50 लाख से ऊपर के कार्यों हेतु डी0पी0आर0 (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार कराकर पत्रावली में संलग्न किया जाए। लेकिन उक्त दिये निर्देश के बावजूद भी संलग्न विवरणनुसार रूपये 4,01,98,856 का भुगतान बिना डी0पी0आर0 तैयार कर संलग्न किये ही कार्यों हेतु किया गया था जो अनियमित एवं आपत्तिजनक था। अतएवं बिना डी0पी0आर0 तैयार कर पत्रावली में संलग्न किये ही कार्यों हेतु किये गये अनियमित भुगतान रूपयों के सम्बन्ध में आवश्यक/प्रभावी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। एवं बिना डी0पी0आर0 के किये गये भुगतान रूपये 4,01,98,856 के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय। विवरण संलग्न परिशिष्ट '16' पर दिया गया है।

8-निर्माण कार्य पत्रावलियों में डी0पी0आर0, डिजायन एवं ड्राइंग्स बनाये जाने हेतु अनियमित एवं आपत्तिजनक भुगतान रु 4,75,000 :-

नगर निगम की आलोच्य अवधि की निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में प्रकाश में आया कि निम्नांकित विवरणानुसार निर्माण कार्य पत्रावलियों में ठेकेदार के बिलों में डि0पी0आर0 (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट), डिजाइन एवं ड्राइंग्स तैयार किये जाने हेतु भुगतान किये गये थे, जबकि डी0पी0आर., डिजाइन एवं ड्राइंग्स तैयार किये जाने का दायित्व नगर निगम के इंजीनियरिंग अनुभाग का था। उक्त के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि डि0पी0आर0, डिजाइन एवं ड्राइंग्स तैयार किये जाने का कार्य आगणन एवं निविदा आमन्त्रण किये जाने के पूर्व किया जाना चाहिये था। ऐसी स्थिति में उक्त मद हेतु धनराशि आगणन में एवं ठेकेदार के बिलों में सम्मिलित किये जाने का क्या औचित्य था। यदि उक्त कार्य ठेकेदार द्वारा किया गया था तो यह आपत्तिजनक था। इस सम्बन्ध में यदि कोई सक्षम अधिकारी के आदेश/शासनादेश हो तो उसे प्रस्तुत कर स्थिति स्पष्ट की जाय अन्यथा की स्थिति में रु 4,75,000 के किये गये अनियमित भुगतान की प्रतिपूर्ति उत्तरदायी से कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही लिया जाना अपेक्षित है। विवरण संलग्न परिशिष्ट '17' पर दिया गया है।

9-नगरीय क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों के भवनों में कराये गये निर्माण/मरम्मत कार्यों में शासनादेश द्वारा निर्धारित दरों के सापेक्ष अधिक दरों पर टाईल्स का कार्य कराये जाने के कारण रू 56,41,333 का अनियमित भुगतान :-

नगर निगम अनुभाग-9 के शासनादेश संख्या- 1202/नौ-9-2020 दिनांक 01 जुलाई, 2020 के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षिक सत्र 2019-20 को " शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन वर्ष " के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया था। जिस हेतु " आपरेशन कायाकल्प " के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र के परिषदीय विद्यालय भवनों के अनुरक्षण हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, स्मार्ट सिटी फण्ड, निकाय निधि/ निगम निधि तथा अवस्थापना विकास निधि आदि का उपयोग उर्पयुक्त योजनाओं/आयोगों/निधियों की गाईड लाईन्स के अन्तर्गत कार्यों पर भी किया जा सकता था।

उपरोक्त शासनादेश में सलंग्न आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने वाले कार्यों/इण्डिकेटर्स हेतु आगणन में टाईल्स कार्य हेतु निम्नांकित दरें निर्धारित की गयी थी -

(1) दीवार टाईल्स - रू 807.84 प्रति वर्ग मीटर (जी0एस0टी0 छोड़कर)

(2) फर्श टाईल्स - रू 868.43 प्रति वर्ग मीटर (जी0एस0टी0 छोड़कर)

सम्बन्धित शासनादेश में स्पष्ट रूप से नोट दिया गया था कि " उपरोक्त आगणन में आकलित धनराशि प्राथमिक विद्यालयों हेतु कायाकल्प के अन्तर्गत निर्धारित इंडिकेटर्स को पूर्ण कराने हेतु अधिकतम धनराशि है।" उक्त नोट होने के बावजूद भी सम्बन्धित अवर अभियन्ताओं द्वारा टाईल्स कार्यों हेतु शासनादेश द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमओं का पालन न करते हुए अधिक दरों पर टाईल्स कार्य कराये गये थे। जो कि पूर्णतः अनियमित एवं शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन थे।

सम्बन्धित पत्रावलियों में अभियन्ताओं द्वारा टाईल्स मद पर अधिक दरों पर कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में न तो कोई कारण ही दिया गया था और न ही सक्षम अधिकारी से शासनादेश में दी गयी दरों से अधिक दरों पर कार्य कराने हेतु कोई स्वीकृति/अनुमोदन ही लिया गया था। इस प्रकार मनमाने रूप से अधिक दरों पर टाईल्स कार्य कराया जाना शासनादेश की स्पष्ट रूप से अवहेलना किया जाना था। जिसके कारण शासनादेश में निर्धारित दरों से अधिक दरों पर विट्रीफाइड टाईल्स एवं चार्ना सफेद ग्लास टाईल्स लगवाये जाने के कारण अधिक भुगतान किया

गया था। अतः अधिक दरों पर कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाय अन्यथा की दशा में उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए उत्तरदायी से अधिक भुगतान की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही लिया जाना अपेक्षित है। अधिक भुगतानों का विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट '18' पर दिया गया है।

10-वसुन्धरा जोन के अर्न्तगत गुर्जर चौक से मेवाड़ कालेज होते हुए सै0-1 कट तक सड़क साईड पटरी पर ग्रास पेवर व कोवल टाईल्स लगाने के कार्य में कार्यादेश जारी होने के उपरान्त रिवाईज्ड आगणन बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के तैयार कर, कार्य कराये जाने के कारण कराया गया कार्य अनिमित रू 7,89,120.00 एवं अधिक भुगतान रू 1,65,561 :-

कार्य की पत्रावली की जांच में प्रकाश में आया कि उपरोक्त कार्य हेतु 06 मदों का आगणन रू 1,00,48,274 दिनांक 21.10.2021 को तैयार कर दिनांक 20.11.2021 की सायं 5.00 बजे तक निविदा आमत्रित की गयी थी। जिसके क्रम में कुल 04 निविदायें प्राप्त हुईं। उक्त मदों के आधार पर यह कार्य आगणन से 26.06 प्रतिशत निम्न दरों पर मैसर्स दर्शन कन्सट्रक्शन को स्वीकृत किया गया। जिस हेतु आमन्त्रण/कार्यादेश संख्या-079/2021-22 दिनांक 13.12.2021 जारी कर दिया गया। कार्य पूर्ण करने की अवधि 01 माह अर्थात् दिनांक 12.01.2022 थी। उक्त कार्य समाप्ति की विधि तक कार्य प्रारम्भ ही नहीं किया गया और फर्म द्वारा अनुबन्ध भी नहीं कराया गया।

इसके उपरान्त बिना किसी आधार के दिनांक 06.05.2022 को 09 मदों का रिवाईज्ड स्टीमेट रू 1,00,46,136.00 तैयार किया गया जिस पर केवल अवर अभियंता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे। इस रिवाईज्ड आगणन को अधिशासी अधिकारी एवं मुख्य अभियन्ता से स्वीकृत नहीं कराया गया था। इससे यह स्वतः ही स्पष्ट हो रहा था कि सम्बन्धित अभियंताओं द्वारा अपने इस कृत्य को उच्चाधिकारियों की जानकारी में लाये बिना ही कार्य की मदों में मरम्मत परिवर्तन कर फर्म को लाभ पहुंचाया गया था।

क्र०सं०	कार्य की कुल मदें (मूल आगणनुसार)	मूल आगणन में मात्रा	वास्तव में कराया गया कार्य	अन्तरX दर	कम कराया कार्य
1	अर्थ वर्क कटिंग	2048	1634.19	413.81 X 175	72417

2	मिट्टी डिस्पोजबर (अर्थ कटिंग का 75)	1536	1634.19	230.10	—
3	जी0एस0टी0	768	635.14	132.86 X 2405	3,19,528
4	80 एम0एम0 थिक एम 40 कलर्ड पेवर बलॉक	8560	1541.55	1018.45 X 1015	1033727
5	80 एम0एम0 थिक एम 30 ग्रे कलर्ड ग्रास पेवर बलॉक	5120	3341.59	1778.41 X 675	12,00,427
6	सीमेन्ट कंक्रीट (1'2'4)	51.20	74.60	7000	—
				योग	26,26,099

क्र0सं0	मूल आगणन में स्वीकृत से पृथक मदें। अतिरिक्त मद	कार्य की मात्रा X दर	मूल आगणन से अधिक कराया कार्य
1	ब्रिक वर्क (1:4)	83.94 X 4950	4,15,503
2	इन्टरलॉकिंग टाईल्स 80 एम0एम0	387.26 X 780	3,02,063
3	रिलेईगं मर0 टाईल्स	257.39 X 278	71,554
		योग	7,89,120

इस प्रकार मूल आगणन के आधार पर स्वीकृत कार्य के सापेक्ष रू 26,26,099 का कम कार्य स्वीकृत मदों के अनुरूप न कराकर मनमाने रूप से तैयार किये गये पुर्नरीक्षित आगणन के सापेक्ष अनियमित रूप से रू 7,89,120 का कार्य कराया गया था।

(2)– कार्य के मूल आगणन में खुदाई से प्राप्त मिट्टी के 75 प्रतिशत भाग का ही डिस्पोजल किया जाना था किन्तु सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा मनमाने रूप से 100 प्रतिशत मिट्टी के डिस्पोजल हेतु भुगतान कर फार्म को निम्नवत् लाभ पहुँचाया गया था –

खुदाई प्राप्त मिट्टी की मात्रा = 1634 घन मीटर

ठेकेदार को मलबे के रूप में फेकने हेतु भुगतान = 1634.19 X रू 230 = रू 3,76,027

मूल आगणनुसार देय भुगतान = 1634.19 X 75% X 230 = रू 2,82,020

अधिक भुगतान

$$= \text{रु } 3,76,027 - 2,82,020 = 94,007$$

(3)– सम्बन्धित अवर अभियन्ता माप पुस्तिका संख्या– 14458 के पृष्ठ संख्या –08 पर 257.39 वर्ग मीटर इन्टरलॉकिंग टाईल्स की रिलेयिंग हेतु रु 278 प्रति वर्ग मीटर की दर से रु 71,554.00 का भुगतान किया गया था। उपरोक्त कार्य में इन्टरलॉकिंग डिस्मेंटलिंग का कार्य कराया ही नहीं गया था तो इसके रिलेयिंग कराये जाने का कोई आधार ही नहीं था साथ ही सथ यह भी उल्लेखनीय है कि टाईल्स की रिलेयिंग दर रु 78 प्रति वर्ग मीटर थी तो फिर 278 प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान किस प्रकार किया गया था। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वास्तव में स्थल पर इन्टरलॉकिंग रिलेयिंग का कार्य हुआ ही नहीं था सम्बन्धित ठेकेदार को सीधे–सीधे रु 71,554.00 का अधिक भुगतान किया गया था।

$$\text{कुल अधिक भुगतान} = (2) 94,007 + (3) 71,554 = 1,65,561$$

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में अभिलेखों द्वारा स्थिति स्पष्ट करायी जाय अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी से रुपये 1,65,561 की वसूली कर निगम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

11-वार्ड- 86 चूना भट्टी मार्ग पर अधूरे बने नाले को पूर्ण करने एवं आन्तरिक सड़कों के निर्माण कार्य में आगणन के सापेक्ष अधिक दुलाई दिये जाने के कारण रु 4,55,974 का अधिक/अनियमित भुगतान :-

उर्पयुक्त कार्य हेतु 15 वॉ वित्त के अन्तर्गत रु 10,98,800 का आगणन तैयार कर निविदा आमत्रित की गयी थी। प्राप्त निविदाओं में न्यूनतम आगणन से 9.10 प्रतिशत निम्न रु 9,98,809 पर मैसर्स बालाजी इन्फ्रा इन्जीनिरिंग प्रा०लि० को कार्य स्वीकृत किया गया था।

कार्य के आगणन में मद संख्या – 19 पर 8 कि०मी० दूरी पर मलबा फेंकने हेतु 1120 घन मीटर मलबा रु 230.10 प्रति घन मीटर की दर से प्राविधान किया गया था जो कि मद संख्या-01 का 70 प्रतिशत भाग दर्शाया गया था यह मद पुरानी आर०सी०सी० की डिस्मेंटलिंग थी। यह मद भी आगणन में त्रुटिपूर्ण ली गयी थी। क्योंकि कार्य का कुल क्षेत्रफल 1600 वर्ग मीटर था। तथा डिस्मेंटलिंग की मात्रा 160 घन मीटर थी जिसका 70 प्रतिशत भाग 112 घन मीटर मलबा फेंकने का प्रविधान किया जाना चाहिए था।

कार्य की माप पुस्तिका संख्या— 16095, 21500 एवं 22087 के अनुसार 104.50 घन मीटर आर0सी0सी0 डिस्मेन्टलिंग का कार्य कराया गया था। जिसका 70 प्रतिशत चार्ज अर्थात् 104.50 X 70% = 73.15 घन मीटर मलबे के रूप में फेंका जाना चाहिए था। जिसके सापेक्ष 1920.62 घन मीटर मलबा फेंका जाना दर्शाया गया था। इस प्रकार 1920.62—73.15 =1847.47 घन मीटर अधिक मलबा फेंकने का भुगतान किया गया था। अधिक भुगतान का विवरण है —

1847.47 घन मीटर X 230.10 = रु 4,25,103

(-) 9.10%निम्न स्वीकृत = रु 38,684

= रु 3,86,419

(+) 18% जी0एस0टी0 = रु 69,555

कुल योग = रु 4,55,974

अतः उपर्युक्त क सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाय अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए अधिक भुगतान की वापसी कराया जाना अपेक्षित है। विवरण संलग्न परिशिष्ट '16' पर दिया गया है।

12-वार्ड -74 सै0- 15 वसुन्धरा टाईप-1 एवं ड्यूप्लैक्स सोसायटी की आन्तरिक सड़को का डैन्स द्वारा सुधार कार्य में डिस्मेन्टलिंग से प्राप्त टाईल्स की रेलियंग न कराने से रु 4,70,556 एवं आगणन के प्रतिधान के विपरीत मलबा ढुलाई अधिक दिये जाने के कारण रु 22,604 कुल रु 4,93,160 का अधिक भुगतान :-

उपरोक्त कार्य हेतु रु 1,81,09,326 का आगणन तैयार कर निविदायें आमत्रित की गयी थी। प्राप्त कुल 05 निविदायें में आगणन से 9.90 प्रतिशत निम्न रु 1,63,17,110 मैसर्स बालाजी इन्फ्रा इन्जीनियरिंग प्रा0लि0 को पत्रांक-निर्माण/200/2021-22 दिनांक 17.12.2021 द्वारा कार्य स्वीकृत किया गया था। कार्य की माप पुस्तिका संख्या—24059 के पृष्ठ संख्या—13 के अनुसार 659.95 वर्ग मीटर पुरानी टाईल्स की डिस्मेंटलिंग की गयी थी। पुरानी टाईल्स के मूल्य के रूप में प्राप्त 5500 नग टाईल्स की रु 4 प्रति टाईल्स की दर से कुल रु 22,000 की कटौती संबंधित बिल से की गयी

थी। अवशेष टाईल्स की न तो फर्म से कोई कटौती की गयी थी, न ही मलबे के रूप में फेंका गया था और न ही इन्हें नगर निगम के भण्डार में जमा कराया गया था। जिससे यह स्पष्ट था कि उक्त सभी टाईल्स सही स्थिति में थी एवं इन्हें रिलेयिंग कराकर उपयोग में लाया जाना चाहिये था। ऐसा न किये जाने के कारण उक्त मद में निम्नवत अधिक भुगतान किया गया था—

नई टाईल्स लेयिंग व पुरानी टाईल्स रिलेयिंग प्रति वर्ग मीटर में अन्तर= 780-78=रु 702

पुरानी टाईल्स की मात्रा, जो रिलेयिंग कि जानी चाहिये थी = 659.95 वर्ग मीटर

नई टाईल्स की लेयिंग = 6159.97 वर्ग मीटर

अधिक भुगतान = 659.95 X 702 = रु 4,63,285

(-) 9.90% आगणन में निम्न स्वीकृत = रु 45,865

= रु 4,17,420

(+) 18% जी०एस०टी०

= रु 75,136

= रु 4,92,556

(-) की गई कटौती = रु 22,000

कुल = रु 4,70,556

(2) कार्य के आगणन में दिये गये प्राविधानों के अनुसार पुराने आर०सी०सी० रैम्प डिस्मेंटलिंग की मात्रा का 90% डिस्पोजल मलबे के रूप में फेंकने का भुगतान किया जाना था। किन्तु उक्त के सापेक्ष में पुराने आर०सी०सी० रैम्प डिस्मेंटलिंग की 100 प्रतिशत मात्रा (6159.97 वर्ग मीटर) 923.99 घन मीटर का रु 230.10 प्रति घन मीटर की दर से भुगतान किया गया था। जिसके कारण निम्नवत अधिक भुगतान किया गया था—

डिस्पोजल की अधिक मात्रा = 923.99 X 10 % = 92.40 घन मीटर

= 92.40 X रु 230.10 = रु 21,261

(-) 9.90% आगणन में निम्न स्वीकृत = रु 2,105

= रु 19,156

$$(+)\ 18\% \text{ जी०एस०टी०} = \text{रु } 3,448$$

$$\text{योग} = \text{रु } 22,604$$

$$\text{कुल अधिक भुगतान} = \text{रु } 4,70,556 + 22,604 = \text{रु } 4,93,160$$

उक्त के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए वसूली हेतु कार्यवाही अपेक्षित है।

13- वार्ड-90 शहीद नगर एच० ब्लाक में मन्दिर से नेता वजीर चौक होते हुए जयपाल चौक तक सी०सी० रोड़ निर्माण कार्य में डिस्मेंटलिंग से प्राप्त पुरानी टाईल्स के मूल्य की कटौती न किये जाने के कारण रु 6,48,603 का अधिक भुगतान :-

उपरोक्त कार्य की पत्रावली की जांच में प्रकाश में आया कि उक्त कार्य हेतु रु 1,03,81,000 का आगणन तैयार दिया गया था। कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में न्यूनतम आगणन से 6.00 प्रतिशत निम्न पर मैसर्स मलिक कन्सट्रक्शन को कार्य स्वीकृत किया गया था। कार्य की माप पुस्तिका संख्या-15124 के पृष्ठ-01 पर 833 वर्ग मीटर एवं पृष्ठ-04 के अनुसार 975.18 वर्ग मीटर, कुल 1808.18 वर्ग मीटर पुरानी टाईल्स डिस्मेंटलिंग का कार्य कराया गया था। जिसमें से 14000 टाईल्स के मूल्य की कटौती रु 12.50 प्रति टाईल्स की दर से की यगी। शेष टाईल्स 1808.18 X 35 = 63286 - 14000 = 49286 को न तो नगर निगम के स्टोर में वापस ही जमा कराया गया था और यदि यह टाईल्स पूर्ण रूप से खराब थी तो मलबे के रूप में फेंका नहीं गया था तो इसकी कटौती भी रु 12.50 प्रति टाईल्स की दर से ठेकेदार से की जानी चाहिये थी।

अतः यदि 49286 टाईल्स को निगम के स्टोर में वापस जमा कराया गया था तो इसकी अभिलेखिय पुष्टि करायी जाय अन्यथा की स्थिति में फर्म को निम्नवत् पुरानी टाईल्स के मूल्य की कटौती न किये जाने के कारण अधिक भुगतान किया गया था। जिस हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए वसूली हेतु कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है-

$$49286 \text{ टाईल्स} \text{ रु } 12.50 \text{ प्रति टाईल्स} = \text{रु } 6,16,075$$

$$(-) 6 \text{ प्रति } 0 \text{ निम्न स्वीकृति} = \text{रु } 36,965$$

$$= \text{रु } 5,79,110$$

+) 12% जी०एस०टी०	=	रु 69,493
कुल योग	=	रु 6,48,603
(-) 6% निम्न स्वीकृत	=	रु 36,965

14- वार्ड-66 मौसम विहार शिव मन्दिर से एसरफोर्स की बाउन्ड्री के साथ-साथ कब्रिस्तान तक आर०सी०सी० द्वारा नाला निर्माण में 1500 मीटर के स्थान पर मात्र 200 मीटर नाला निर्माण के कारण निष्प्रायोज्य व्यय रु 32,94,336, पुरानी टाईल्स की डिस्मेंटलिंग न कराने से रु 27,642 का अधिक भुगतान एवं अलिखित मद के रूप में दुलाई का भुगतान किये जाने के कारण रु 4,67,420 का अधिक भुगतान :-

(1) उर्पयुक्त कार्य, 15 वॉ वित्त के अर्न्तगत, हेतु रु 1,29,79,000 का आगणन 1500 मीटर लम्बे नाले के निर्माण हेतु तैयार किया गया। उक्त विषयक कार्य हेतु स्थलीय निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद के निर्देशों के क्रम में अवर अभियन्ता द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया। पत्रावली नाट शीट -1 के अनुसार निरीक्षण में पाया गया कि स्थल पर कच्चा नाला है। कच्चे नाले के नव निर्माण के कार्य का आगणन पी०डब्लू०डी० एस०ओ०आर०२०२० के आधार पर तैयार किया गया था। कार्य हेतु प्राप्त 04 निविदाओं में न्यूनतम, आगणन से 16.99 प्रतिशत निम्न रु 10,773,868.69 पर कार्यादेश संख्या-निर्माण 1223/2021-22 दिनांक 07.01.2022 जारी किया गया। कार्य की अवधि 04 माह थी।

उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य रु 50.00 लाख से अधिक का होने के बावजूद भी कार्य की डी०पी०आर० तैयार नहीं करायी गयी थी। कार्य की माप पुस्तिका संख्या-16056 के अनुसार कार्य दिनांक 15.03.2022 को प्रारम्भ किया गया। प्रथम चालू बिल का कार्य दिनांक 29.06.2022 तक कराया गया था। जिसकी धनराशि रु 29,41,371.71 + 12% जी०एस०टी० = रु 32,94,336 थी। इसका भुगतान व्यय प्रमाणक संख्या-968 दिनांक 25.07.2022 रु 29,16,800 का किया गया था। जहाँ एक ओर माप पुस्तिका के अनुसार प्रथम बिल से सम्बन्धित निर्माण कार्य दिनांक 29.06.2022 तक कराया गया था वहीं दूसरी ओर पत्रावली की नोट शीट 12, जो कि सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा दिनांक 02.05.2022 में हस्ताक्षरित थी, के अनुसार स्थल पर 200 मीटर लम्बाई में ही

नाले का निर्माण हो पाया। क्षेत्रीय जनता द्वारा कब्रिस्तान से नाला नहीं गुजरने दिया गया। जिस कारण नाला कम लम्बाई 200 मीटर में ही बन पाया। प्रस्तावित कार्य के सिकन्दरपुर रोड एवं एयरफोर्स की बाउन्ड्रीवॉल के बीच की कच्ची गलियों में नाले निर्माण एवं मिट्टी भराव का कार्य भी प्रस्तावित था। उक्त कच्ची गलियों की जल निकासी निर्मित होने वाले नाले से की जानी थी। अब उक्त गलियों की जन निकासी सिकंदरपुर मुख्य मार्ग पर को नाले से करनी पड़गी। "तत्पश्चात कार्य का पुनरीक्षित आगणन रू 1,27,38,654.88 स्वीकृत निम्न 16.99% रू 1,05,74,357 तैयार किया गया जो कि स्वीकृत आगणन धनराशि रू 1,07,73,868 से 1.85% निम्न था।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय जनता के विरोध के सम्बन्ध में न तो स्थानीय पार्षद का कोई पत्र संलग्न था और न ही सम्बन्धित अभियन्ताओं द्वारा ही नगर आयुक्त को उक्त विरोध के सम्बन्ध में अवगत कराया गया था। जिसके कारण 200 मीटर निर्मित नाले का कोई उद्देश्य ही रह गया था। उक्त 200 मीटर नाला निर्माण की धनराशि रू 32,94,336 निष्प्रेज्य ही रह गयी। यह अनुदानों के दुरुपयोग का प्रकरण था। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(2) कार्य के आगणन में 1134.00 वर्ग तीटर अर्थात् 68.04 घनमीटर पुरानी इन्टरलॉकिंग आईल्स की डिस्मेंटलिंग हेतु रू 60 प्रति घनमीटर की दर का प्राविधान किया गया था। जिसमें से 30% पुरानी टाईल्स के मूल्य की कटौती का प्राविधान किया गया था। क्योंकि कूल आगणन में नई टाईल्स लगाये जाने की कोई मद सम्मिलित नहीं थी। जो कि पत्रावली में संलग्न फोटोग्राफों से स्पष्ट था कि गजियों में पुरानी टाईल्स विद्यमान थी। किन्तु पुनरिक्षित आगणन में पुरानी टाईल्स की मद को पूर्ण रूप से अनदेखा कर नयी टाईल्स की लेयिंग 3057.72 वर्ग मीटर का प्रावधान रू 780 प्रति वर्ग मीटर की दर से किया गया था। कार्य की माप पुस्तिका के अनुसार कुल 3026.90 वर्ग मीटर नयी टाईल्स का कार्य रू 780 प्रतिवर्ग मीटर की दर से कराया गया था। इस प्रकार पुनरीक्षित आगणन में पुरानी टाईल्स डिस्मेंटलिंग की मद को विलुप्त कर दिये जाने के कारण इस मद में निम्नवत अधिक भुगतान किया गया था—

पुरानी टाईल्स की रिलेयिंग = रू 78 प्रति वर्ग मीटर

कुल आगणन में पुरानी टाईल्स की मात्रा = 1134 वर्ग मीटर

डिस्मेंटलिंग हेतु देय भुगतान = 1134 X 0.06 = 68.04 घनमीटर X 60 = रू 4082

पुरानी टाईल्स की प्रयुक्त होने योग्य मात्रा = 1134 X 30% = 40.20 वर्ग मीटर

उपरोक्त न दर्शाये जाने के कारण अधिक भुगतान =

नयी टाईल्स की लेयिंग - पुरानी टाईल्स की रिलेयिंग = रू 780 - 78 = रू 702.00

अधिक भुगतान = 40.20 वर्ग मीटर X 702 = रू 28,220

(-) 16.99% निम्न स्वीकृत = रू 4,795

= रू 23,425

(-) 18% जी०एस०टी० = रू 4,217

अधिक भुगतान = रू 27,642

(3) कार्य सभी मदों यथा अर्थ फिलिंग, सामान आपूर्ति, आदि में लोडिंग अनलोडिंग सम्मिलित रहते हैं। किन्तु उक्त कार्य में (एक्स्ट्रा फोर हेड लोड) सर पर ढुलाई मद का प्रविधान कर 7790.34 घन मीटर X रू 60/- प्रति घन मीटर = रू 4,67,420 का भुगतान किया गया था। उक्त मद का पृथक से प्रविधान कर भुगतान किये जाने का औचित्य स्पष्ट कराया जाय अन्यथा की स्थिति में रू 4,67,420 का अधिक भुगतान था। इस सम्बन्ध में कार्यवाही अपेक्षित है।

15-प्रेरणा योजना के अन्तर्गत वार्ड-63 उच्च माध्यमिक विद्यालय की मरम्मत, पुताई, शौचालय, बाउन्ड्रीवॉल आदि कार्य के आगणन के प्राविधान किये जाने के बावजूद सबमरसेबिल का अधिष्ठापन न किये जाने के कारण मरम्मत आदि कार्य औचित्यहिन व्यय रू 18,75,611 :-

कार्य की पत्रावली की जांच में प्रकाश में आया कि उक्त कार्य हेतु रू 22,91,198 का आगणन तैयार किया गया था। कार्य की मद संख्या-23 पर 1.50 हॉर्स पावर सबमरसेबिल पम्प के अधिष्ठापन हेतु रू 94,683 का प्राविधान किया गया था। कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं के आगणन में 17.86% निम्न पर उक्त कार्य रू 18,81,990 का मैसर्स दर्शन कन्स० को स्वीकृत किया गया था।

कार्य की माप पुस्तिका संख्या-16107 व सम्बन्धित बिलों की जांच में पाया गया कि सम्बन्धित फर्म व अभियन्ताओं द्वारा सबमरसेबिल पम्प अधिष्ठान का कार्य कराया ही नहीं गया था। सी०सी०कार्य, ब्रिक वर्क, मिट्टी भराई इन्टरलॉकिंग टाईल्स एवं चित्रकारी आदि की मात्रा को बढ़ाये जाने के कारण, कार्य को उसकी स्वीकृती धनराशि की सीमान्तर्गत ही पूर्ण किये जाने के कारण

सबमरसेबिल अधिष्ठान कार्य नहीं कराया गया था। यहां यह उल्लेखनीय है कि कार्य के आगणन में ही सबमरसेबिल का प्रविधान किया गया था जिससे स्पष्ट है कि विद्यालय में पूर्व में सबमरसेबिल पम्प नहीं लगा था एवं पीने के पानी की व्यवस्था सुचारु रूप में नहीं थी। जहां एक ओर विद्यालय को सुदृढ़ एवं सुन्दर बनाने पर, यूरोपियन टॉयलेट बनाने, किचन यूनिट तैयार करने इत्यादि पर रु 18,75,611 का व्यय कर दिया गया था वंही दूसरी ओर विद्यालय के अध्यापकों एवं बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हुए सबमरसेबिल पम्प अधिष्ठापन कार्य नहीं कराया गया था। यह औचित्य पूर्ण नहीं था।

अतः सबमरसेबिल पम्प हेतु रु 94,683 का व्यय प्राविधान था तथा कार्य में किचन व यूरोपियन शौचालय का कार्य न करा कर सबमरसेबिल अधिष्ठापन का कार्य कराया जाना ज्यादा उपयोगी होता। कार्य समाप्ति में रु 6,378.00 की बचत भी दर्शायी गयी थी। अतः विद्यालय में सबमरसेबिल अधिष्ठापन का कार्य न कराया जाना कहां तक उचित था, स्पष्ट कराया जाये अन्यथा की स्थिति में कार्य पर किया गया व्यय रु 18,75,611 औचित्यहीन था।

16—मोहन नगर जोन में वार्ड—73,78, 80 एवं 86 के मध्य कान्हा काम्पलैक्स से शिव चौक होते हुए बजीराबाद रोड तक कच्ची सम्पूर्ण पट्टरी पर कट स्टोन एवं ग्लास पेवर कार्य में एस0ओ0आर के स्थान पर डी0एस0 आर0 की दरों पर कार्य कराये जाने के कारण अधिक भुगतान रु 5,79,545 :-

उपर्युक्त कार्य हेतु रु 96,45,960 का आगणन तैयार कर निविदायें आमंत्रित की गयी थी। प्राप्त निविदायें में न्यूनतम, आगणन से 14.67% निम्न पर मैसर्स नार्थ इण्डिया डेवलेपर्स को रु 82,30,897.00 पर स्वीकृत किया गया था।

कार्य के आगणन में निम्नांकित मदों की दरें डी0एस0आर0 2021 के आधार पर ली गयी थी, जबकि उक्त मदें उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग की दर—अनुसूची में भी उपलब्ध थी। नियमानुसार एस0ओ0आर0 में मदें न होने अथवा दर—विश्लेषण तैयार न हो पाने की स्थिति में ही डी0एस0आर0 की मदों एवं दरों पर कार्य कराया जा सकता था। किन्तु उक्त प्रकारण में एस0ओ0आर0 में मदें उपलब्ध होने के बावजूद भी डी0एस0आर0 की दरों पर आगणन तैयार कर भुगतान किया जाना अनियमित था। जिसके कारण अधिक भुगतान कर नगर निगम को आर्थिक

क्षति पहुंचायी गयी थी। इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए अधिक भुगतान की वापसी कराया जाना अपेक्षित है। अधिक भुगतान का विवरण निम्नवत् है—

क्र०सं०	मद का विवरण	(भुगतान दर) डी०एस०आर की दर —	(भुगतान दर) एस०ओ०आर की दर	अन्तर X मात्रा	= अधिक भुगतान
1	इन्टरलॉकिंग की डिस्मेन्टलिंग	90	20	70 X 750	52,500
2	अर्थ कटिंग	175	90	85 X 2055. 44	1,74,712
3	80 एम०एम० थीक एम-40 कलर टाईल्स	1015	850	165 X 2111. 30	3,48,365
				योग	5,75,577
				(-) 14.67% निम्न दर पर स्वीकृत	84,837
					4,91,140
				(+) 18% जी०एस०टी०	88,405
				कुल योग	5,79,545

17—अर्थ कटिंग से प्राप्त मिट्टी का समायोजन अर्थ फिलिंग मद में न किये जाने के कारण रु 2,97,717 का अधिक भुगतान :-

निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में प्रकाश में आया कि निम्नांकित कार्यों में अर्थ फिलिंग के साथ-साथ अर्थ कटिंग का कार्य भी कराया गया था किन्तु अर्थ कटिंग से प्राप्त मिट्टी का समायोजन अर्थ फिलिंग में नहीं किया गया था। जबकि अर्थ कटिंग से प्राप्त मिट्टी का समायोजन अर्थ फिलिंग में किया जाना चाहिये था। सम्बन्धित कार्यों की माप पुस्तिकाओं में एवं आगणन में अर्थ कटिंग से प्राप्त मिट्टी का समायोजन अर्थ फिलिंग में किये जाने का कोई प्राविधान नहीं किया गया था। ऐसा न किये जाने के कारण अर्थ कटिंग से प्राप्त मिट्टी की मात्रा तक अर्थ फिलिंग मद में अधिक भुगतान किया गया था। जो कि पूर्णतः अनियमित था। सम्बन्धित अवर अभियन्ताओं द्वारा ऐसा न किये जाने के कारण नगर निगम निधि/अनुदानों का अधिक भुगतान

किया गया था। इस सम्बन्ध में अभिलेखों के आधार पर स्थिति स्पष्ट करायी जाये अन्यथा की स्थिति में अधिक भुगतान हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए अधिक भुगतान की वापसी कराया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है—

क्र०सं०	कार्य का विवरण व फर्म का नाम	अर्थ फिलिंग की मात्रा	अर्थ कटिंग की मात्रा	भुगतान दर अर्थ फिलिंग	अधिक भुगतान
1	विजय नगर में कम्पोजिट विद्यालय प्रताप विहार का जिर्णोधर कार्य। मै० डी०एस० इन्फ्रा० प्रा०लि	312.71	2.88X	257 =	740
2	प्रेरणा योजनान्तर्गत वार्ड-20, भौपुरा प्रा०वि० में पुताई, शौचालय, टाईल्स कार्य। मै० दर्शन कन्स०	98.64	4.90X	257 =	1,259
3	वार्ड-92 प्रा०वि० इस्लामनगर का भौतिक उन्नयन कार्य। मै० महिमा कन्स०	44.84	16.67X	229 =	3,817
4	वार्ड-19 प्रा०वि० शिबनपुरा में शौचालय व टाईल्स कार्य। मै० आकाश कन्स०कं०	159.60	297X	320 =	950
5	प्रेरणा योजनान्तर्गत वार्ड-63 पसैंडा प्रा०वि० 02 में पुताई व टाईल्स आदि कार्य। मै० दर्शन कन्स०	59.18	9.91X	257 =	2,547
6	वार्ड-01 लठठमार कालोनी प्रा०वि० भवन, बाउन्ड्रीवॉल व शौचालय मरम्मत। मै० शाकुम्भरी कन्स०	1074.59	6.76X	229 =	1,548

7	प्रेरणा योजनान्तर्गत वार्ड-83 श्याम पार्क एक्स, इन्द्रा कालोनी प्रा०वि० में पुताई, बाउन्ड्रीवॉल, टाईल्स कार्य आदि। मै० दर्शन कन्स०	23.08	7.67X	257 =	2,023
8	वार्ड-24 महरौली में नगर निगम बालिका ई०कालेज नवीनीकरण। मै० ए०के०कन्स०	316.47	475.74X	(316.47 X 323.90) =	1,02,505
9	वार्ड-57 मकरनपुर बालिका विद्यालय में पांच कमरे व चारदिवारी। मै० प्रेम०कन्स०	349.34	1020.46	(349.34 X 307) =	1,07,247
(जबकि आगणन में समायोजन का प्रविधान किया गया था)					
10	आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत वार्ड-16 प्रा०वि० गढ़ी गुलधर का सृदणीकरण कार्य। मै० चौधरी एसोसिएट।	77.30	131.62X	(77.30X 307) =	23,731
11	विजय नगर जोन के अन्तर्गत कम्पोजिट वि० डुडांहेड़ा का जीणोद्वार। मै० शाकुम्भरी कन्स०	939.74	12.73X	257 =	3,272
12	वार्ड-50, नुर नगर एवं सद्दीक नगर विजय किराना स्टोर एवं डा० पुरुषोत्तम त्यागी के मकान के पास नाली व पुलिया निर्माण। मै० नरेश कुमार	79.06	14.85X	301 =	4,470

13	मोहन नगर जोन के राजेन्द्र नगर हैल्थ स्टोर स्थित गौराज की बाउन्ड्रीवॉल, इन्टरलॉकिंग व नाला निर्माण। मै० बिजेन्द्र सिंह।	364.35	161.51X	270 =	43,608
				योग	2,97,717

18-वार्ड-82 जवाहर पार्क शहीद नगर में ए-ब्लाक की बाबर खों से असलम ए-25 शमशेर से आला मस्जिद तक नाली व टाईल्स का कार्य में डिस्मैन्टलिंग से प्राप्त सही इन्टरलॉकिंग टाईल्स की रिलेयिंग न कराने से 2,26,160 का अधिक भुगतान :-

निगम निधि से कराये गये उपरोक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में प्रकाश में आया कि कार्य का आगणन रु 13,47,800.00 का तैयार कर कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गयी थी। कार्य हतु प्राप्त 05 निविदाओं में आगणन से 24.47 प्रतिशत कम पर रु 10,17,993 में मैसर्स मिवा कन्स० को स्वीकृत किया गया था।

कार्य के आगणन में डिस्मैन्टलिंग आफ टाईल्स का कार्य 714.40 वर्ग मीटर दर्शाया गया था। माप पुस्तिका सं०-16144 के पृष्ठ सं०-01 के अनुसार डिस्मैन्टलिंग टाईल्स का कार्य 595.12 वर्ग मीटर किया गया था। डिस्मैन्टलिंग से प्राप्त 7500 नग टाईल्स को 214.28 वर्ग मीटर रिलेयिंग किया गया था। डिस्मैन्टलिंग से प्राप्त अवशेष इन्टरलॉकिंग कार्य 380.84 (595.12-214.28) वर्ग से प्राप्त इन्टरलॉकिंग टाईल्स को न तो स्टोर में जमा किया गया था न ही उनकी लागत को बिल से घटाया गया था एवं इनका डिस्पोजल भी नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट था कि उक्त अवशेष 380.84 वर्ग मीटर की टाईल्स सही स्थिति में थी। डिस्मैन्टलिंग से प्राप्त 380.84 वर्ग मीटर पुरानी इन्टरलॉकिंग टाईल्स का प्रयोग रिलेयिंग के लिये किया जा सकता था। पुरानी इन्टरलॉकिंग टाईल्स की रिलेयिंग न कराकर नयी टाईल्स की दरों के अनुसार भुगतान किया गया था जिसके कारण निम्नवत् रु 2,66,160.00 का अधिक भुगतान हुआ था।

अवशेष पुरानी इन्टरलॉकिंग टाईल्स की मात्रा = 380.84 वर्ग मीटर

रिलेयिंग का व्यय = 380.84 X 78 प्रति वर्ग मीटर = 29,706

नयी टाईल्स हेतु किया गया भुगतान	= 780 X 380.84	= 2,97,055
अधिक भुगतान	= 297055 - 29706	= 2,67,349
(-) 24.47% कम पर		= (-) 65,420
		= 2,01,929
(+) 12% जी०एस०टी०		= 24,231
कुल अधिक भुगतान		= 2,26,160

उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाय अन्यथा स्थिति में अधिक भुगतान हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुये अधिक भुगतान की वापसी हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

19- वार्ड-64 गरिमा गार्डन में उमर मस्जिद से शमशाद स्कूल तक, मुनफैद, रियाज, एवं रिजवान वाली गलियों में नाली व इन्टरलॉकिंग टाईल्स कार्य में अधिक मात्रा में इन्टरलॉकिंग बिछाया जाना दर्शाकर अधिक भुगतान रू 2,00,037 :-

उपरोक्त कार्य हेतु रू 26,23,802 का आगणन तैयार कर प्राप्त 05 निविदाओं में न्यूनतम आगणन से 24.56 प्रतिशत निम्न रू 19,79,397 पर मैसर्स उज्ज्वल कन्सो को कार्य का आंवटन किया गया था। कार्य के आगणन के अनुसार जितने वर्ग मीटर क्षेत्रफल में स्टोन बैलास्ट फैलाया जाना था उसी के ऊपर इन्टरलॉकिंग टाईल्स की लेयिंग की जानी थी।

कार्य की माप पुस्तिका संख्या- 15154 के पृष्ठ -04 के अनुसार 22.40 से 53 एम०एम० के स्टोन बैलास्ट की आपूर्ति $1533.80 \times 0.10 = 153.38$ घन मीटर दर्शायी गयी थी जिसको भुगतान के समय परिवर्तित कर 124.84 घन मीटर कर दिया गया था एवं इसी मात्रा हेतु कन्सोलिडेशन का भुगतान किया गया था। इस प्रकार वास्तव में $124.84 \div 0.10 = 1248.40$ वर्ग मीटर क्षेत्र में स्टोन बैलास्ट को फैलाया गया था एवं इसी क्षेत्र हेतु इन्टरलॉकिंग टाईल्स की लेयिंग की जानी चाहिये थी। जबकि इसके सापेक्ष माप पुस्तिका में 1560.50 वर्ग मीटर हेतु एम० 30 ग्लेड 80 एम०एम० थिक रबर मोलडिंग रंगीन टाईल्स की आपूर्ति एवं लेयिंग हेतु रू 720/- प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान किया गया था, जो कि अनियमित था। वास्तव में स्टोन बैलास्ट आपूर्तित क्षेत्र 1248.40 वर्ग

मीटर हेतु ही इन्टरलॉकिंग टाईल्स का भुगतान किया जाना चाहिये था। ऐसा न किये जाने के कारण निम्नवत् अधिक भुगतान किया गया था—

अधिक क्षेत्र टाईल्स का = 1560.50 – 1248.40 = 312.10 वर्ग मीटर

अधिक भुगतान = 312.10 X रू 720 = रू 2,24,712

(-) 24.56 निम्न पर स्वीकृत = रू 55,189

= रू 1,69,523

(+) 18% जी०एस०टी० = रू 30,514

कुल अधिक भुगतान = रू 2,00,037

उक्त के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए आवश्यक कार्यावाही अपेक्षित है।

20—विजय नगर जोन में कम्पोजिट विद्यालय डुडहैड़ा के जीर्णोद्धार कार्य में डिस्मेन्टलिंग से प्राप्त पुरानी टाईल्स की रिलेयिंग न किये जाने के कारण रू 1,70,593 का अधिक भुगतान :-

उपरोक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में प्रकाश में आया किकार्य का आगणन रू 47,07,950 का तैयार कर कार्य हेतु निविदा आमंत्रित कि गयी थी। कार्य हेतु प्राप्त 03 निविदाओं में आगणन से 15.28 प्रतिशत निम्न रू 39,88,810.64 की मैसर्स शाकुम्भरी कन्स० को स्वीकृत की गयी थी। कार्य की माप पुस्तिका संख्या—16272 की जांच में पाया गया कि कार्य में आर०सी०सी० स्लेब की डिस्मेन्टलिंग 20.19 घन मीटर एवं पुराना प्लाटर 518.09 वर्ग मीटर तथा सीमेंट कंक्रीट फर्श की डिस्मेन्टलिंग 699.71 वर्ग मीटर कराकर इसे मलबे के रूप में फेंकने हेतु रू 217 प्रति घन मीटर की दर से 25.97 घन मीटर मात्रा का भुगतान किया गया था।

उर्पयुक्त के अतिरिक्त कार्य की मद संख्या—02 पर पुरानी इन्टरलॉकिंग टाईल्स की डिस्मेन्टलिंग 265.80 वर्ग मीटर की गयी थी जिसकी कोई भी कटौती सम्बन्धित ठेकेदार से नहीं की गयी थी और न ही इसका डिस्पोजल ही किया गया था।

कार्य की मद संख्या—23 पर 1227.32 वर्ग मीटर नयी इन्टरलॉकिंग टाईल्स का कार्य दर्शाना कराया गया था किन्तु इसमें डिस्मेन्टलिंग प्राप्त टाईल्स की रिलेयिंग नहीं दर्शायी गयी थी। जिससे

स्पष्ट था कि पुरानी इन्टरलॉकिंग टाईल्स की रिलेयिंग कराकर नयी टाईल्स की दरों के अनुसार भुगतान किया गया था। जिसके कारण निम्नवत् अधिक भुगतान हुआ था—

पुरानी टाईल्स की मात्रा = 265.80 वर्ग मीटर

रिलेयिंग का व्यय = 265.80 X रू 78 प्रति वर्ग मीटर = रू 20,732

उक्त मात्रा तक नयी टाईल्स हेतु भुगतान = 265.80 X रू 720 प्रति वर्ग मीटर = रू 1,91,376

अधिक भुगतान = रू 1,91,376 - 20,732 = रू 1,70,644

(-) 15.28% आगणन के निम्न स्वीकृत = रू 26,074

रू 1,44,570

(+) 18% जी०एस०टी० = रू 26,023

कुल अधिक भुगतान = रू 1,70,593

उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाय अन्यथा की स्थिति में अधिक भुगतान हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए अधिक भुगतान की वापसी हेतु आवश्यक कार्यावाही अपेक्षित है।

21-वार्ड-32 हरबंश नगर में पुष्पा से रेखा, शेखर से जयवीर एवं सुनीता से राजेन्द्र के मकान तक इन्टरलॉकिंग टाईल्स व नाली निर्माण कार्य में आगणन में प्राविधान किये जाने के बावजूद भी पुरानी इन्टरलॉकिंग टाईल्स की रिलेयिंग न दर्शाये जाने के कारण रू 1,69,824 का अधिक भुगतान :-

उर्पयुक्त कार्य हेतु रू 9,97,880 का आगणन तैयार कर निविदायें आमन्त्रित की गयी थी। प्राप्त 06 निविदाओं में न्यूनतम आगणन से 23.85 प्रतिशत निम्न रू 7,59,885.77 पर मैसर्स भगवती कान्स्ट्रक्टर को कार्य स्वीकृत किया गया था। कार्य के आगणन की मद संख्या-19 के अनुसार डिस्मेंटलिंग से प्राप्त टाईल्स के 80 प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिये थी। इसमें स्पष्ट हो रहा था कि स्थल पर डिस्मेंटलिंग की गयी टाईल्स का 80 प्रतिशत भाग सही स्थिति में था। सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या- 15348 के पृष्ठ -01 की मद संख्या 03 के अनुसार 379.02 वर्ग मीटर इन्टरलॉकिंग टाईल्स की डिस्मेंटलिंग की गयी थी। जिसके 80 प्रतिशत भाग, 379.02 X 80% = 303.22 वर्ग मीटर से प्राप्त टाईल्स हेतु कोई कटौती नहीं की गयी थी। ताकि इन्हे मलबे के रूप में फेंकने हेतु पृथक से रू 183.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान भी किया गया था। यदि इन सही टाईल्स की रिलेयिंग करयी जाती तो नगर निगम के निम्नवत् अधिक भुगतान नहीं करना

पड़ता । नयी टाईल्स 512.51 वर्ग मीटर में रू 720/- प्रति वर्ग मीटर की दर से लेयिंग दर्शायी गयी थी।

नयी टाईल्स लेयिंग व पुरानी टाईल्स रिलेयिंग का अन्तर = 720-78 = रू 642 प्रति व0मी0

अधिक भुगतान = 303.22 व0मी0 × रू 642 = 1,94,667

पृथक से दुलाई भुगतान हेतु किये

जाने के कारण अधिक भुगतान

= 303.22 × 0.08 = 24.26 घ0मी0

= 24.26 × 183.50 = रू 4,452

= रू 1,99,119

(-) 23.85% आगणन के निम्न स्वीकृत = रू 47,490

= रू 1,51,629

(+) 12% जी0एस0टी0 = रू 18,195

कुल अधिक भुगतान = रू 1,69,824

उक्त के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

22-वार्ड-91, कविनगर के0जे0-01 से सर्वोदय हॉस्पिटल होते हुए शास्त्री नगर चौक तक डैन्स द्वारा सड़क सुधार में पुरानी टाईल्स के मूल्य की कटौती न किये जाने व पुरानी टाईल्स की कम मात्रा में रिलेयिंग कराये जाने के कारण कुल रू 1,44,632 का अधिक भुगतान :-

(1) उर्पयुक्त कार्य हेतु रू 21,08,517 का आगणन तैयार कर निविदा आमंत्रित की गयी थी। जिसके क्रम में प्राप्त 03 निविदाओं में न्यूनतम आगणन से 05 प्रतिशत निम्न (नेगोशियेशन के उपरान्त) रू 20,03,091 पर मैसर्स आर0जी0 बिल्डटैक इन्जीनियर्स को कार्य स्वीकृत किया गया था।

कार्य के आगणन के अनुसार कुल 760.00 वर्ग मीटर पुरानी टाईल्स की डिस्मेंटलिंग कराया जानी थी। जिसमें से 380 वर्ग मीटर टाईल्स की रिलेयिंग करायी जानी थी एवं शेष 380 वर्ग मीटर क्षेत्र में नयी कलर टाईल्स की लेयिंग की जानी थी। जिसके सापेक्ष सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या-15557 के अनुसार 560.98 वर्ग मीटर पुरानी टाईल्स की डिस्मेंटलिंग करायी गयी थी। आगणन के

प्राविधान के अनुसार इसके आधे क्षेत्र में नयी कलर टाईल्स एवं आधे क्षेत्र में पुरानी टाईल्स की रिलेयिंग करायी जानी चाहिये थी। किन्तु ऐसा न करके $560.98 \times 50\% = 280.49$ वर्ग मीटर के स्थान पर 384.06 वर्ग मीटर क्षेत्र में नयी टाईल्स की लेयिंग दर्शायी गयी थी जिसके कारण निम्नवत् अधिक भुगतान किया गया था -

नयी टाईल्स लेयिंग व पुरानी टाईल्स रिलेयिंग की दरों का अन्तर = $780 - 78 = 702$

नयी टाईल्स की अधिक मात्रा = $384.06 - 280.49 = 103.57$ वर्ग मीटर

अधिक भुगतान = $103.57 \times 702 = \text{रु } 72,706$

(-) 5% निम्न स्वीकृत = रु 3,635
= रु 69,171

(+) 12% जी०एस०टी० = रु 8,301

कुल अधिक भुगतान = रु 77,472

(2) डिस्मेन्टलिंग से प्राप्त अवशेष पुरानी टाईल्स का न तो मलबे के रूप में डिस्पोजल किया गया था और न ही इन्हें निगम स्टोर में जमा कराया गया था। इससे स्पष्ट था कि उक्त टाईल्स सही स्थिति में थी और सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा इनका अन्यत्र उपभोग कर लिया गया था। इनके मूल्य की न्यूनतम रु 5 प्रति टाईल्स की दर से कटौती न किये जाने के कारण भी निगम को निम्नवत् आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी थी -

डिस्मेन्टलिंग टाईल्स की मात्रा = 560.98 वर्ग मीटर

रिलेयिंग के उपरान्त अवशेष टाईल्स = $560.98 - 177.22 = 383.76$ वर्ग मीटर

टाईल्स का कटौती योग्य मूल्य = $383.76 \times 35 = 13432$ टाईल्स

= $13432 \times \text{रु } 5 = \text{रु } 67,160$

कुल अधिक भुगतान = रु 77,472 + 67160 = रु 1,44,632

23-वार्ड-47 महेन्द्र एन्कलेव में जे-01 से शान्ति देवी के मकान होते हुए वासुदेव के मकान तक आर0सी0सी0 नाली व इन्टरलॉकिंग टाईल्स का कार्य में डिस्मेन्टलिंग से प्राप्त पुरानी ईंटों का मूल्य बिल से न घटाये जाने से ठेकेदार को अधिक भुगतान रू 1,17,946 :-

उपरोक्त कार्य की पत्रावली की जांच में प्रकाश में आया कि कार्य का आगणन रू 21,69,632 का तैयार कर कार्य हेतु 03 निविदाओं में आगणन से 26.80 प्रतिशत कम पर 15,88,170 पर मै0 आर0जी0 बिल्डटैक इन्जी0 लि0 को स्वीकृत किया गया था। कार्य की माप पुस्तिका सं0- 15939 के पृष्ठसं0- 1 के अनुसार 41.40 घन मीटर डिस्मेन्टलिंग आफ ऑकड आर0सी0सी0 रैम्प/ईंट की गयी थी। जिसकी कोई भी कटौती सम्बन्धित ठेकेदार से नहीं की गयी थी। और न ही इसका डिस्पोजल ही किया गया था और न ही डिस्पोजल से प्राप्त ईंटों को स्टोर में ले जाकर जमा किया गया था। पत्रावली में संलग्न कार्य से पूर्व फोटोग्राफस के अनुसार डिस्मेन्टलिंग से 41.40 घन मीटर ईंट ठेकेदार को प्राप्त हुई थी। जिनकी धनराशि ठेकेदार के बिल से न घटाये (कटौती) जाने से निम्न विवरणानुसार रू 91,642 का अधिक भुगतान हुआ था

पुरानी ईंटों की डिस्मेन्टलिंग से प्राप्त मात्रा = 41.40 घन मीटर

50% साबुत ईंटों की धनराशि = 41.40 घ0मी0 X 50% X 6000

20.70 घन मीटर की मूल्य = रू 1,24,200.00

50% बैट्स (ईंटों) की धनराशि

= 41.40 घन मीटर X 50% = 20.70 घन मीटर @ 950 = रू 19665

=रू 1,43,865

(-) 26.80% आगणन से निम्न स्वीकृत = रू 38,556

= रू 1,05,309

(+) 12%जी0एस0टी0 = रू 12,637

कुल अधिक भुगतान = रू 1,17,946

उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाय अन्यथा स्थिति में अधिक भुगतान हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुये अधिक भुगतान की वापसी हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

24-वसुन्धरा जोन के अर्न्तगत गुर्जर चौक से मेवाड़ कालेज होते हुए सै0-1 कट तक सड़क साईड पटरी पर ग्लास पेपर न केवल टाईल्स लगाने के कार्य में अर्थ कटिंग की दरें पी0डब्लू0डी0 शिड्यूल के स्थान पर डी0एस0आर0 की दरों से कार्य कराये जाने के कारण रू 1,14,065 का अधिक भुगतान :-

उपरोक्त कार्य का आगणन रू 1,00,48,274 का तैयार कर कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में न्यूनतम, आगणन से 26.06 प्रतिशत निम्न रू 74,29,694 पर मै0 दर्शन कन्स0 को स्वीकृत किया गया थी। कार्य के आगणन में अर्थ कटिंग की दर डी0एस0आर0 2021 की मद संख्या 2.6.1 के आधार पर रू 175 प्रति घन मीटर ली गयी थी, जबकि उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग के शिड्यूल ऑफ रेट्स की मद संख्या 253(9) के अनुसार अर्थ कटिंग की दर रू 95 प्रति घन मीटर उपलब्ध थी। नियमानुसार जिस कार्यो की दरें एस0ओ0आर0 में उपलब्ध न हो केवल उन्हीं कार्यो हेतु दर विश्लेषण अथवा डी0एस0आर0 की दरों का उपयोग किया जाना चाहिये था। इस प्रकार अर्थ कटिंग की दरें एस0ओ0आर0 में उपलब्ध होने के बावजूद भी डी0एस0आर0 की दरों पर कार्य कराये जाने के कारण नगर निगम को निम्नवत् आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी थी -

प्रति घन मीटर अधिक दर = रू 175 - 95 = 80/-

माप पुस्तिका संख्या 14458 के पृष्ठ संख्या -07 के अनुसार अर्थ कटिंग का कुल कार्य = 1634.

19 घन मीटर

अधिक भुगतान = 1634.19 घन मीटर X रू 80/- प्रति घन मीटर = रू 1,30,735

(-) 26.06% निम्न स्वीकृत = रू 34,070

= रू 96,665

(+) 18%जी0एस0टी0 = रू 17,400

कुल अधिक भुगतान = रू 1,14,065

उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाय अन्यथा स्थिति में अधिक भुगतान हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुऐ अधिक भुगतान की वापसी हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

25-वार्ड-53, रईसपुरम में सोदान सिंह से वीर सिंह कुमार तक इन्टरलॉकिंग टाईल्स व नाली निर्माण का कार्य में डिस्मेन्टलिंग से प्राप्त पुरानी टाईल्स की रिलेयिंग न किये जाने के कारण रु 1,09,078 का अधिक भुगतान :-

उपरोक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में प्रकाश में आया कि कार्य का आगणन रु 4,07,388 का तैयार कर कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गयी थी। कार्य हेतु प्राप्त 03 निविदाओं में आगणन से 20.99 प्रतिशत कम पर रु 3,21,877 में मै0 अनुपमा एसो0 को स्वीकृत किया गया था। कार्य की माप पुस्तिका सं0- 14876 के पृष्ठ सं- 01 के अनुसार 192 वर्ग मीटर पुरानी इन्टरलॉकिंग टाईल्स की डिस्मेन्टलिंग की गयी थी जिसकी कोई भी कटौती सम्बन्धित ठेकेदार से नहीं की गयी थी और न ही इसका डिस्पोजल ही किया गया था। पत्रावली में संलग्न आगणन के अनुसार डिस्मेन्टलिंग से प्राप्त पुरानी इन्टरलॉकिंग टाईल्स को कविनगर स्थित स्टोर में जाकर जमा कराया जाना था। माप पुस्तिका के अनुसार कार्य की मद संख्या-4 पर 192 वर्ग मीटर नयी इन्टरलॉकिंग टाईल्स का कार्य दर्शाया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि डिस्मेन्टलिंग से प्राप्त पुरानी टाईल्स को स्टोर में जमा नहीं किया गया था और न ही उनकी टाईल्स लागत मूल्य को बिल से घटाया गया था। डिस्मेन्टलिंग से प्राप्त पुरानी टाईल्स का प्रयोग रिलेयिंग के लिये किया गया जा सकता था। पुरानी इन्टरलॉकिंग टाईल्स की रिलेयिंग न कराकर नयी टाईल्स की दरों के अनुसार भुगतान किया गया। जिसके कारण निम्नवत् अधिक भुगतान हुआ था -

पुरानी टाईल्स की मात्रा = 192 वर्ग मीटर

रिलेयिंग का व्यय = 192 X 78 प्रति वर्ग मीटर = 14,976

नयी टाईल्स हेतु देय भुगतान = 720 X 192 = 1,38,240

अधिक भुगतान = 1,38,240 - 14,976 = 1,23,264

(-) 20.99% आगणन से निम्न = रु 25,873

= रु 97,391

(+) 12% जी0एस0टी0 = रु 11,687

कुल अधिक भुगतान = रु 1,09,078

उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाय अन्यथा स्थिति में अधिक भुगतान हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुये अधिक भुगतान की वापसी हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

26-वसुन्धरा जोन के अन्तर्गत आवास विकास गेस्ट हाउस से अटल चौक होते हुए नहर सर्विस रोड तक साईड पटरी पर ग्रास पेवर टाइल्स लगाने के कार्य के आगणन में अर्थ कटिंग की दरें एस0ओ0आर0 के स्थान पर डी0एस0आर0 के आधार पर तैयार किये जाने के कारण रू 99,335 का अधिक भुगतान :-

उपरोक्त कार्य का आगणन रू 49,06,384 का तैयार कर निविदा आमंत्रित की गयी थी। प्राप्त निविदाओं में न्यूनतम आगणन से 1.77 प्रतिशत निम्न रू 48,19,541 मै0 प्रधान कान्ट्रै0 को स्वीकृत किया गया था। कार्य के आगणन में मिट्टी खुदाई का दर डी0एस0आर0-2021 की मद संख्या-2.6.1 के आधार पर रू 175 प्रति घन मीटर की गयी थी, जबकि उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग के शिड्यूल ऑफ रेटस की मद संख्या 253(9) के अनुसार मिट्टी खुदाई की दर रू 95 प्रति घन मीटर उपलब्ध थी। सम्बन्धित एस0ओ0आर0 के अनुसार जो दरें एस0ओ0आर0 में उपलब्ध नहीं थी केवल उन्हीं मदों हेतु दर विश्लेषण अथवा डी0एस0आर0 की दरों का प्रयोग किया जा सकता था। इस प्रकार मिट्टी खुदाई की दरें एस0ओ0आर0में उपलब्ध होने के बावजूद भी डी0एस0आर0 की दरों पर आगणन तैयार किये जाने के कारण सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा नगर निगम को निम्नवत् आर्थिक क्षति पहुंचायी गई थी-

प्रति घन मीटर अधिक दर = रू 175- 95 = रू 80

माप पुस्तिका संख्या- 14433 के पृष्ठ संख्या- 08 के अनुसार अर्थ कटिंग का

कुल कार्य = 1071.24 घन मीटर

अधिक भुगतान = 1071.24 घन मीटर रू 80 प्रति घन मीटर

= रू 85,699

(-) 1.77% आगणन से निम्न = रू 1,517

= रू 84,182

(+) 18%जी0एस0टी0 = रू 15,153

कुल अधिक भुगतान = रू 99,335

उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाय अन्यथा स्थिति में अधिक भुगतान हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए अधिक भुगतान की वापसी हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

27-वार्ड-28, राजीव कालोनी हर्षा कम्पाउन्ड इन्ड0, एरिया में प्लॉट नं0- 33/16 से प्लॉट नं0- 33 तक क्षतिग्रस्त सड़क का सुधार एवं साईड पटरी पर इन्टरलॉकिंग टाईल्स का कार्य में सी0डब्ल्यू0डी0 शिडयूल के स्थान पर डी0एस0आर0 की दरों से कार्य कराये जाने के कारण रू 5,31,256 का अधिक भुगतान :-

निगम निधि से कराये गये उपरोक्त कार्य की पत्रावली की जॉच से प्रकाश में आया कि कार्य का आगणन रू 29,93,100 का तैयार कर कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गयी थी। कार्य हेतु 04 निविदाओं में आगणन से 25.7 प्रतिशत निम्न पर रू 22,42,730 में, मैसर्स डी0के0एस0 इन्फ्रा0 इण्डिया प्रा0लि0 स्वीकृत किया गया था। कार्य के आगणन में मद संख्या-02 सप्लाई एण्ड लेंडिंग स्पीडिंग कम्पैक्टिंग 40 एम0एम0 से 63 एम0एम0 की दर 2160 प्रति घनमीटर व मद संख्या-03 सप्लाई एण्ड लेयिंग स्पीडिंग एण्ड कम्पैक्टिंग 22.4 एम0एम0 से 53 एम0एम0 की दर 2340 प्रति घन मीटर डी0एस0आर0 2021 के आधार दी गयी थी। नियमनुसार जिन कार्यों की दरें एस0ओ0आर0 में उपलब्ध न हो केवल उन्ही कार्यों हेतु दर विश्लेषण अथवा डी0एस0आर0 की दरों का उपयोग किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार उपरोक्त मदों की दरें एस0ओ0आर0 के स्थान पर डी0एस0आर0 दिये जाने से निम्न विवरणानुसार रू 5,31,256 का भुगतान ठेकेदार को अधिक किया गया था-

मद सं0	मद का नाम	डी0एस0आर0 की दरें	एस0ओ0आर0 की दरें	मात्रा	अधिक भुगतान
2	सप्लाई एण्ड लेयिंग स्पीडिंग एण्ड कम्पैक्टिंग 40 एम0एम0 व 63 एम0एम0 स्टोन एग्रीगेट	2160/-	873 (688 +185)	193.68 घन मीटर	1287 X 193.68 = 249266. 00

3	सप्लाई एण्ड लेयिंग स्प्रीडिंग एण्ड कम्पैक्टिंग 22.4 एम0एम0 व 53 एम0एम0 स्ओन एग्रीगेट	2340 / -	928 (743 + 185)	199.71 घन मीटर	1412 X 199.71 = 281990. 00
				योग	531256.00

उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाय अन्यथा स्थिति में अधिक भुगतान हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुये अधिक भुगतान की वापसी हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(ख) स्वास्थ्य विभाग :-

1-नगर निगम के पास स्वयं के वाहन उपलब्ध होने के बावजूद भी मशीन द्वारा रोड व नाली सफाई और हाई प्रेशन वाशिंग फुटपाथ, डिवाईडर एवं सैन्ट्रल वर्ज आदि की सफाई कार्य हेतु आगणन तैयार न करके सीधे फर्म की दरों को स्वीकृत कर कार्य कराया जाना अनियमित भुगतान रू 6,01,15,100 :-

स्वास्थ्य विभाग की पत्रावलियों की जांच में प्रकाश में अया कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी के पत्रांक- 8617/स्था0/2021-22/ दिनांक 01.12.2021 द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु दो अखबारो अमर उजाला एवं दैनिक जागरण में दिनांक 02 दिसम्बर, 2021 को ई-निविदा सूचना जारी की गयी थी। नगर आयुक्त के कार्यालय आदेश संख्या-2682/न0आ0/20-21 दिनांक 01.03.2021 द्वारा गठित निविदा समिति नगर निगम के अन्तर्गत कराये जाने कार्यों के सम्बन्ध में आमन्त्रित निविदाओं का तकनीकी परीक्षण किये जाने हेतु निम्नवत समिति का गठन किया गया था-

- 1- श्री शिवपूजन यादव- अपर नगर आयुक्त/अध्यक्ष
- 2- श्री मिथलेश कुमार - नगर स्वास्थ्य अधिकारी/सचिव
- 3- श्री राकेश कुमार गौतम -लेखाधिकारी/सदस्य
- 4-श्री योगेन्द्र सिंह - अधिशासी अभियन्ता (जल)/सदस्य

उक्त समिति द्वारा दिनांक 30.12.2021 को प्राप्त तीन निविदायें खोली गयीं। जो कि निम्नवत थी-

- 1- मैसर्स अमीन सोलिड बेस्ट सर्विस।
- 2- मैसर्स ओम स्वच्छता कारपोरेशन।
- 3- मैसर्स मोनिष एसोसिएट्स।

उर्पयुक्त तीन फर्मों में से मैसर्स मोनिष एसोसिएट्स अयोग्य पायी गयी जिसके उपरान्त दिनांक 07.01.2022 को दोनों आई निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोली गयी। जो कि निम्नवत थी-

- 1- मैसर्स ओम स्वच्छता कारपोरेशन रू 71,400/- प्रति किलोमीटर
- 2- मैसर्स अमीन सोलिड बेस्ट सर्विसेज रू 74,500/- प्रति किलोमीटर

उर्पयुक्त दोनों निविदाओं के आधार पर ही नगर स्वास्थ्य अधिकारी के पत्रांक-3501ए/स्वा0/2021-22 दिनांक 07.01.2022 कार्यादेश निर्गत कर दिया गया ।

नगर निगम के प्रस्ताव में प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स के क्रमांक -5 पर वाहन/उपकरण क्रय का दायित्व बिडदाता का था। जो की नगर निगम के स्वयं के 10 ट्रक व 05 रोड स्वीपिंग मशीन के अतिरिक्त था अर्थात 10 ट्रक व 05 रोड स्वीपिंग मशीन नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी थी। यहां पर उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित फर्म द्वारा स्वयं का कोई वाहन क्रय न करके नगर निगम के वाहनों का उपयोग करते हुए यह कार्य कराया गया था। इस बात की पुष्टि पत्रावली के नोट शीट -16 पर की गयी नोटिंग से हो रही थी कि टिप्पणी संख्या-4 पर उल्लेख किया गया था कि कार्य मार्च, 2022 में प्रारम्भ किया गया था तो नगर निगम द्वारा 09 रोड स्वीपिंग मशीनों में 04 रोड स्वीपिंग मशीने खराब होने के कारण फर्म को माह मार्च, 2022 में केवल 05 मशीने ही हस्तगत की गयी थी एवं शेष 04 मशीनें मरम्मत के उपरान्त विभिन्न चरणों में माह जुलाई 2022 तक हस्तगत की गयी थी। फर्म द्वारा अपने वाहनों का क्रय एवं उपयोग न किये जाने की पुष्टि उक्त आंकड़ों से स्वयं हो रही थी-

क्र०	माह	स्वीकृत सफाई कि०मी०	कराया गया कार्य	= कम सफाई कि०मी०	कम प्रतिशत
1	मार्च, 2022	154	58.10	95.90	62.27%
2	अप्रैल, 2022	154	76.70	77.30	50.20%
3	मई, 2022	154	90.60	63.40	41.17%
4	जून, 2022	154	92.90	61.10	39.68%
5	जुलाई, 2022	154	114.10	39.90	25.91%
6	अगस्त, 2022	154	114.10	39.90	25.91%
7	सितम्बर, 2022	154	114.10	39.90	25.91%

8	अक्टूबर, 2022	154	114.10	39.90	25.91%
9	नवम्बर, 2022	154	114.10	39.90	25.91%
10	दिसम्बर, 2022	154	114.10	39.90	25.91%
11	जनवरी, 2023	154	114.10	39.90	25.91%
12	फरवरी, 2023	154	114.10	39.90	25.91%
13	मार्च, 2023	154	114.10	39.90	25.91%

उपरोक्त से स्पष्ट था कि सम्बन्धित फर्म द्वारा कभी भी प्रस्तावित सफाई कार्य पूर्ण नहीं किया गया था। मात्र नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहनों/मशीनों का उपयोग करके जितना कार्य हो सकता था, उतना ही कार्य किया गया था। स्वयं के वाहन फर्म द्वारा खरीदे नहीं गये थे। नगर निगम द्वारा प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स में मात्र दिखाने हेतु बिडदाता द्वारा वाहन क्रय का प्राविधान किया गया था। जबकि इसके स्थान पर वाहनों के ईंधन एवं चालक इत्यादि का व्यय जोड़ते हुये स्वयं के वाहनों से सफाई कार्य हेतु प्रति किलों मीटर की दरों का आगणन करते हुए कार्य कराया जाना चाहिये था। प्रति किलोमीटर आगणन की दरें न तैयार कर मात्र दो निविदाओं के आधार पर कार्य कराया जाना पुर्णतः अनियमित था। वर्ष 2022-23 में किये गये भुगतानों का विवरण निम्नवत है—

क्र०	वा०सं० / दिनांक	भुगतान की गयी धनराशि (रु)
1	921 / 15-09-2022	1,00,00,000.00
2	1696 / 22-10-2022	1,22,72,000.00
3	2265 / 31-03-2023	75,84,600.00
4	2266 / 31-03-2023	75,84,600.00
5	2267 / 31-03-2023	75,84,600.00
6	2268 / 31-03-2023	75,84,600.00
7	2269 / 31-03-2023	75,04,700.00
	योग	6,01,15,100.00

उपर्युक्त के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। सम्बन्धित कार्यादेश में कार्यावधि का उल्लेख नहीं किया गया था। कार्य की अवधि को स्पष्ट किया जाय।

2-नगर निगम के विभिन्न जोनों में रात्रिकालीन एवं दिन की सफाई व्यवस्था पर व्यय/भुगतान रु 3,27,06,600 में पायी गयी अनियमिततायें :- सम्परीक्षा में उपलब्ध रात्रिकालिन सफाई व्यवस्था की पत्रावलियों के अनुसार मैनुयल रोड, फुटपाथ, डिवाईडर्स, सैन्ट्रल वार्ज, धूल एकत्रिकरण व्यवसायिक

एरिया में किये जाने हेतु कार्यालय नगर आयुक्त के पत्रांक- 8617/स्वा0/2021-22 दिनांक 01.12.2021 के द्वारा समाचार-पत्र दैनिक जागरण/अमर उजाला में विज्ञापन प्रकाशित कराकर दिनांक 29.12.2021 को निविदा आमंत्रित की गयी। जिसमें निविदा समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त योग्य निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोलने की आख्या प्रस्तुत की गयी। जिसकी स्वीकृती नगर आयुक्त के आदेश दिनांक 05.01.2022 के क्रम में दिनांक 07.01.2022 को वित्तीय बिड खोली गयी। जिसमें प्राप्त 02 निविदाओं में न्यून मैसर्स नार्थ इण्डिया डवलेपर्स की रू 79,900 प्रति किलोमीटर/प्रतिमाह प्राप्त हुयी। दरें अधिक प्रतीत होने के कारण पत्रांक-3497/स्वा0/2021-22 दिनांक 07.01.2022 द्वारा फर्म से नेगोशियेशन किया गया। जिसे क्रम में फर्म के पत्रांक-1092 दिनांक 07.01.2022 द्वारा दरें रू 5,400 कम करते हुए दर रू 74,500 प्रति कि०मी०/प्रति माह कर दी गयी। जिसके क्रम में कार्यालय आदेश-3498/स्वा0/2021-22 दिनांक 07.01.2022 द्वारा फर्म को कार्यादेश जारी किया गया था। उक्त स्थिति पत्रावली में संलग्न नोट शीटों के आधार पर थी। पत्रावली में सम्बन्धित समाचार पत्र, निविदाये एवं कार्यादेश संलग्न नहीं थे।

सम्बन्धित कार्य का आगणन, कार्य की धनराशि, कार्य का क्षेत्र, कितने किलोमीटर कार्य कराया जाना था, का कोई विवरण संलग्न नहीं किया गया था। सम्बन्धित फर्म के दिनांक 25.02.2022 को अनुबन्ध किया गया था। अनुबन्ध की शर्त संख्या-17 के अनुसार अनुबन्ध तीन वर्ष हेतु था, कार्य सन्तोषजनक होने की दशा में दो वर्ष का विस्तार किया जा सकता था। अनुबन्ध में कार्य क्षेत्रफल अर्थात् कुल किलोमीटर का उल्लेख नहीं किया गया था। सम्बन्धित पत्रावलियों के अनुसार कराये गये कार्यों का विवरण निम्नवत था -

क्र०	जोन	सफाई कार्य की लम्बाई (कि०मी०) प्रतिमाह
1	सिटी जोन	13.40 कि०मी० (छः स्थानो हेतु)
2	वसुन्धरा जोन	12.50 कि०मी० (छः स्थानो हेतु)
3	वसुन्धरा जोन	11.20 कि०मी० (पांच स्थानो हेतु)
4	मोहन नगर जोन	12.40 कि०मी० (पांच स्थानो हेतु)
5	मोहन नगर जोन	7.25 कि०मी० (तीन स्थानो हेतु)
6	मोहन नगर जोन	9.75 कि०मी० (पांच स्थानो हेतु)
7	विजय नगर जोन	1.77 कि०मी० (तीन स्थानो हेतु)
8	विजय नगर जोन	1.95 कि०मी० (तीन स्थानो हेतु)
9	कवि नगर जोन	2.00 कि०मी० (चार स्थानो हेतु)

उक्त के सम्बन्ध में सम्परीक्षा माहों में निम्नवत भुगतान किये गये थे-

क्र०	फर्म का नाम	वा०सं० /दिनांक	अवधि	स्थान का विवरण	भुगतान
1	मै० नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	270 से 273 / 21-02-2023	माह सितम्बर से दिसम्बर 2022 तक	विजय नगर जोन में सुन्दर पुरी मेन मार्केट से भूड भारत, सी०एस०डी० कैन्टीन, नये व पुराने रेलवे पुल तक रात्रिकालिन सफाई (1.77 कि०मी०)	5,16,800
2	मै० नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	274 से 277 / 21-03-2023	---"---	विजय नगर जोन में गऊशाला फाटक रोड से गांधी चौक तक सादिक की पुलिया से भुसा टाल व अन्य सड़के (1.95) रात्रिकालिन सफाई	5,69,200
3	मै० नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	278 से 281 / 21-02-2023	---"---	विजय नगर जोन सैन चौक से उत्सव भवन होते हुए रेलवे रोड व पार्श्व के मकान तक व अन्य गलियो में रात्रिकालिन साफ सफाई (1.77 कि०मी०)	5,16,800
4	मै० नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	282 से 285 / 21-02-2023	---"---	मोहन नगर जोन वार्ड-60, श्याम पार्क साहिबाबाद रेलवे स्टेशन मार्केट जी०टी० रोड, स्टेशन मोड़ कर से जल निगम कालोनी रोड होते हुए शिव मन्दिर तक रात्रिकालिन सफाई (2.05 कि०मी०)	5,98,400
5	मै० नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	286 से 289 / 21-02-2023	---"---	मोहन नगर जोन वार्ड-83 श्याम पार्क एक्सटेशन से रिझावन मार्केट होते हुए पुलिस चौकी से महावीर पार्क	5,84,000

				तक रात्रिकालिन सफाई (2 कि०मी०)	
6	मै० नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	290 से 293/ 21-02-2023	---"---	मोहन नगर जोन वार्ड-45 करहैडा मार्केट से वाल्मीकि बस्ती बिजली घर चौराहे तक रात्रिकालिन सफाई (1.9 कि०मी०)	5,54,800
7	मै० नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	294 से 297/ 21-02-2023	---"---	मोहन नगर जोन वार्ड-73 शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-2 में गोल प्लाजा मार्केट होते हुए गौर प्लाजा से एस०एम० वर्ल्ड के आस-पास रात्रिकालिन सफाई (1.95 कि०मी०)	5,69,200
8	मै० नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	298 से 301/ 21-02-2023	---"---	मोहन नगर जोन वार्ड-75 लाजपत नगर में शनि मन्दिर मार्केट से जिन्दल रोड आस-पास की सड़को पर रात्रिकालीन सफाई (1.85 कि०मी०)	5,40,000
9	मै० नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	302 से 305/ 21-02-2023	---"---	वसुन्धरा जोन में वैशाली सै०-4 की समस्त सड़के, बिहारी मार्केट सै०-3 में लिंक रोड काली मन्दिर तक रात्रिकालीन सफाई (2.2 कि०मी०)	6,32,600
10	मै० नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	306 से 309/ 21-02-2023	---"---	वसुन्धरा जोन बुद्ध चौक से इन्दिरापुरम थाना चौक से अग्रसेन चौक होते हुए रीज्वाइंट तक व वसुन्धरा सै०-17 मार्केट सड़क के	7,83,500

				दोनो साईड रात्रिकालीन सफाई (2.7 कि०मी०)	
11	मै० नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	310 से 313 / 21-02-2023	---"---	वसुन्धरा जोन वार्ड-72 कौशाम्बी टैम्पो स्टैण्ड से मेट्रो स्टेशन होते हुये. यशोदा अस्पताल तक रात्रिकालीन सफाई (2.10कि०मी०)	6,08,300
12	मै० नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	314 से 317 / 21-02-2023	---"---	वसुन्धरा जोन वार्ड-41 आनन्द विहार बस स्टैण्ड से डाबर चौक तक रात्रिकालीन सफाई (2.10 कि०मी०)	6,08,300
13	मै० नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	318 से 321 / 21-02-2023	---"---	वसुन्धरा जोन वार्ड-43 पुरानी मेगनम से मंगल बाजार रोड शिव मन्दिरगोल कुआं मैन बाजार व आस-पास लगने वाली मार्केट की रात्रिकालीन सफाई (2.10 कि०मी०)	6,08,300
14	मै० नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	322 से 327 / 21-02-2023	माह जुलाई 22 से दिसम्बर 2022 तक	मोहन नगर जोन जिंदल रोड व मार्केट तथा अन्य गलियों मे दिन के समय सफाई (2.50 कि०मी०)	10,90,100
15	मै० नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	328 से 333 / 21-02-2023	---"---	मोहन नगर जोन में राजीव कालोनी व मार्केट एवं आस पास की गलियों में दिन की सफाई (2.50 कि०मी०)	10,95,000

16	मै० नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	334 से 339/ 21-02-2023	---"---	मोहन नगर जोन में 150 फुटा रोडसे शालीमार गार्डन एक्सटेंशन पुलिस चौकी से मार्केट 80 फुटा तक दिन में सफाई कार्य (2.25 कि०मी०)	9,85,200
17	मै० नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	340 से 343/ 21-02-2023	माह सितम्बर 22 से दिसम्बर 2022 तक	कवि नगर जोन वार्ड-84 आर०डी०सी० फलाई ओवर से गौर मॉल से हिंट चौक होते हुए सै०-10 रात्रिकालीन सफाई (2 कि०मी०)	5,79,100
18	मै० नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	344 से 347/ 21-02-2023	---"---	कवि नगर जोन वार्ड-18 शास्त्री नगर चौक से सी० ब्लाक की मार्केट हापुड़ रोड तक रात्रिकालीन सफाई (1.50कि०मी०)	4,38,000
19	मै० नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	348 से 351/ 21-02-2023	---"---	कवि नगर जोन वार्ड-79 शास्त्री नगरचौक से रामलीला मैदान से कबीर पार्क होते हुए शनि मन्दिर तक रात्रिकालीन सफाई कार्य (1.70 कि०मी०)	4,96,400
20	मै० नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	352 से 355/ 21-02-2023	माह सितम्बर 22 से दिसम्बर 2022 तक	कविनगर जोन सै०-23 संजय नगर मैन मार्केट व आस-पास रात्रिकालीन सफाई (2 कि०मी०)	5,84,000
21	मै० नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	356 से 359/ 21-02-2023	---"---	सिटी जोन रमते राम रोड लेबर चौक से डासना गेट होते हुए सब्जी मण्डी तक रात्रिकालीन सफाई (1.90 कि०मी०)	5,49,900
22	मै० नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	360 से 363/ 21-02-2023	---"---	सिटी जोन वार्ड-88 दिल्ली जूस कार्नर से तुराबनगर मार्केट व आस-पास रात्रिकालीन सफाई (2 कि०मी०)	5,64,400

23	मै० नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	364 से 367 / 21-02-2023	---"---	सिटी जोन में एम०एम०जी से गऊशाला फाटक, जस्सीपुरा से ईदगाह देवी मन्दिर होते हुए जी०टी० रोड तक रात्रिकालीन सफाई (2 कि०मी०)	5,84,000
24	मै० नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	368 से 371 / 21-02-2023	---"---	सिटी जोन नवयुग मार्केट व निगम आफिस तथा आस-पास गलियों में रात्रिकालीन सफाई (2.70 कि०मी०)	7,78,600
25	मै० नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	372 से 375 / 21-02-2023	---"---	सिटी जोन वार्ड-33 बजरिया से रेलवे स्टेशन तक जी०टी० रोड आस-पास गलियों में रात्रिकालीन सफाई (1.70 कि०मी०)	4,83,600
26	मै० नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	376 से 379 / 21-02-2023	---"---	सिटी जोन वार्ड-39 राकेश मार्ग से नासिरपुर फाटक, शनि मन्दिर से ब्लड बैंक तक रात्रिकालीन सफाई (1. 60 कि०मी०)	4,55,400
27	मै० नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	380 से 383 / 21-02-2023	---"---	सिटी जोन वार्ड-8 मालीवाड़ा से बंसत चौक, पुराना बस अड्डा से नया गाजियाबाद तक रात्रिकालीन सफाई (1.5 कि०मी०)	4,38,000
28	मै० नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	384 से 388 / 21-02-2023	माह अगस्त 22 से दिसम्बर 2022 तक	मोहन नगर जोन वार्ड-70 जनकपुरी सी० ब्लाक व आस-पास रात्रिकालीन सफाई (2.50 कि०मी०)	9,12,500

29	मै० नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	389 से 393/ 21-02-2023	---"---	राजैन्द्र नगर सै०-5 व जी०टी० रोड मार्केट व अन्य गलियों में रात्रिकालीन सफाई (1.85 कि०मी०)	6,75,000
30	मै० नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	394 से 398/ 21-02-2023	---"---	कटोरी मिल गौपालन से मोहन नगर चौक होते हुए नरेन्द्र मोहन अस्पताल तक रात्रिकालीन सफाई (2.05 कि०मी०)	7,48,000
31	मै० नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	399 से 403/ 21-02-2023	---"---	मोहन नगर जोन वार्ड-37 शालीमार गार्डन मैन में भारतमाता चौक, विक्रम एन्कलेव व पप्पू कालोनी व आस-पास रात्रिकालीन सफाई (4.00 कि०मी०)	14,60,000
32	मै० नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	404 से 408/ 21-02-2023	---"---	मोहन नगर जोन डी०एल०एफ० पुलिस चौकी से डि०एल०एफ० गेट एवं सैन्ट्रल पार्क के आस-पास गलियों में रात्रिकालीन सफाई (2. 00 कि०मी०)	7,30,000
33	मै० नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	409 से 412/ 21-02-2023	माह सितम्बर 22 से दिसम्बर 2022 तक	वसुन्धरा जोन वार्ड-21 भौवापुर चौक से दिल्ली कट तक रात्रिकालीन सफाई (1.90 कि०मी०)	5,54,800
34	मै० नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	413 से 416/ 21-02-2023	---"---	वसुन्धरा जोन सै०-1 मैक्स हास्पिटल से पुलिया तक वार्ड-72 व सड़क के दोनों ओर रात्रिकालीन सफाई (2.10 कि०मी०)	6,13,200
35	मै० नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	417 से 420/ 21-02-2023	---"---	वसुन्धरा जोन वैशाली मदर डेयरी रोड से सै०-2 व वार्ड-76 सड़क के दोनों ओर रात्रिकालीन सफाई (2 कि०मी०)	5,84,000

36	मै० नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	421 से 424 / 21-02-2023	---"---	वसुन्धरा जोन मोहन ढाबे से शाप्रिक्स मॉल तक सड़क के दोनों ओर रात्रिकालिन सफाई (2.30 कि०मी०)	6,66,700
37	मै० नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	425 से 428 / 21-02-2023	---"---	वसुन्धरा जोन वैशाली टी पाईन्ट से महावीर चौक तक रात्रिकालीन सफाई (2.10 कि०मी०)	6,08,300
38	मै० नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	429 से 432 / 21-02-2023	---"---	वसुन्धरा जोन वार्ड-68 ब्रजविहार चौक से राधाकुंज फाटक व आस-पास गलियों में रात्रिकालीन सफाई (2.10 कि०मी०)	6,08,300
39	मै० नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	2289 / 31-03-2023	जनवरी 23 व फरवरी 23	वसुन्धरा जोन के अन्तर्गत 05 स्थलों पर रात्रिकालीन सफाई (11.2 कि०मी०)	16,30,500
40	मै० नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	2290 / 31-03-2023	---"---	वसुन्धरा जोन के अन्तर्गत 06 स्थलों पर विभिन्न 06 स्थलों पर रात्रिकालीन सफाई कार्य (12.50 कि०मी०)	18,17,400
41	मै० नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	2291 / 31-03-2023	---"---	मोहन नगर जोन के अनतर्गत विभिन्न 05 स्थानों पर रात्रिकालीन सफाई कार्य (8.40 कि०मी०)	18,05,700
42	मै० नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	2292 / 31-03-2023	---"---	मोहन नगर जोन में विभिन्न 03 स्थानों पर दिन के समय सफाई कार्य (7.75 कि०मी०)	10,58,600
43	मै० नार्थ इण्डिया डेवलपर्स	2293 / 31-03-2023	---"---	मोहन नगर जोन में विभिन्न 05 स्थानों पर रात्रिकालीन सफाई कार्य (9.75 कि०मी०)	14,21,700
				योग =	3,27,06,600

इस प्रकार माह फरवरी, 2023 में किये गये भुगतानों से सम्बन्धित बिलों के अनुसार नगर निगम के कुल 79.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में मैसर्स नार्थ इण्डिया डवलपर्स से दिन एवं रात्रिकालीन सफाई कार्य माह जुलाई-2022 एवं इसके पश्चात प्रारम्भ कराते हुए आलोच्य सम्बन्धित माहों में कुल रू 3,27,06,600 का शुद्ध भुगतान उक्त कार्य हेतु किया गया था। निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार नगर निगम के इन क्षेत्रों में निम्न विवरणानुसार नगर निगम के सफाई कर्मचारी पूर्व वर्षों से वर्तमान तक निरन्तर कार्यरत रहे-

क्र०	जोन का नाम	स्थाई कर्मचारी	बोर्ड प्रस्ताव कर्मी	सी०एल०सी० अपूर्तित कर्मी
1	वुसन्धरा जोन	91	329	197
2	विजय नगर जोन	96	419	128
3	मोहन नगर जोन	125	660	196
4	कवि नगर जोन	105	623	153
5	सिटी जोन	399	697	201
	योग =	816	2728	875

इस प्रकार सफाई कार्य हेतु विभाग के पांचो जोनों में 816 स्थाई कर्मचारी, 2728 बोर्ड प्रस्ताव द्वारा कार्यरत कर्मचारी एवं सी०एल०सी० से आपूर्तित 875, कुल 4,419 कर्मचारी निरन्तर कार्यरत थे। जिनके वेतन इत्यादि पर वर्ष में करोड़ों रुपये का व्यय भी किया गया था इसके बावजूद भी ऐसी क्या आवश्यकता उत्पन्न हो गयी थी जिसके कारण निगम को निजी फर्म से सफाई कार्य प्रति किलोमीटर की दर से कराना पड़ रहा था। उपरोक्त पत्रावलियों में इन कारणों का कोई उल्लेख नहीं दिया गया था। जिसके अभाव में निजी फर्म से सफाई कराकर भुगतान किये जाने का औचित्य स्पष्ट न हो सका।

(2) उपरोक्त प्रति किलोमीटर दर रू 74,500 का निर्धारण किस आधार किया गया था इसका कोई दर विश्लेषण नहीं बनाया गया था। इसे अभिलेखों द्वारा स्पष्ट किया जाय।

(3) निजी फर्म द्वारा सफाई किये जाने वाले क्षेत्रों से पूर्व में कार्यरत स्थाई/बोर्ड प्रस्तावित/सी०एल०सी० से आपूर्तित कर्मचारियों को अन्य किन क्षेत्रों में तैनात किया गया था अथवा क्या कार्य लिया जा रहा था, की स्थिति अभिलेखों द्वारा स्पष्ट करायी जाय।

(4) निजी फर्म से कार्य कराये जाने के उपरान्त देश एवं प्रदेश स्तर पर सफाई व्यवस्था के सम्बन्ध में गाजियाबाद की रेंक में कितनी बढ़ोत्तरी हुयी थी, का भी सत्यापन कराया जाना अपेक्षित है।

3-15 वॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत मोरटा प्रोसेसिंग प्लान्ट के संचालन/रख-रखाव कार्य में शत-प्रतिशत प्रोसेसिंग न होने, प्रोसेसिंग क्षमता का सत्यापन न किये जाने एवं आर0डी0एफ0 (रिफ्यूज डिवाइड फयूल) का निस्तारण न किये जाने के बावजूद भी भुगतान किया जाना अनियमित भुगतान रू 11,38,14,700 :-

अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में अवस्थापना विकास निधि एवं 15 वॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत आमन्त्रित निविदाओं के तकनीकी परीक्षणोपरान्त दिनांक 16.06.2022 के आधार पर महापौर द्वारा दिनांक 17.08.2023 की बैठक के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र से उत्सर्जित ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन, प्रसंस्करण एवं निपटान कार्य हेतु रू 23,04,00,000 की स्वीकृति किया गया था। पत्रावली की नोट शीटों के अनुसार पत्रांक -3935/स्वा0/2022-23 दिनांक 16.06.2022 द्वारा निविदायें आमन्त्रित की गयी थी। जिसके क्रम में तीन तकनीकी बिड प्राप्त हुई। जिनके परीक्षण उपरान्त वित्तीय निविदाओं में न्यूनतम दर रू 447 प्रति टन मै0 जिरोन इन्जी0 प्रा0लि0 की प्राप्त हुई थी। जिसको कार्यालय पत्रांक- 4012/स्वा0/2022-23 दिनांक 21.06.2022 के द्वारा नेगोशियेसन किये जाने उपरान्त न्यूनतम रू 447 प्रति टन को कम करते हुए से 425 प्रति टन प्रस्तावित किया गया था। जिसको स्वीकृत करते हुए पत्रांक-4020/स्वा0/2022-23 दिनांक 22.06.2022 कार्यादेश जारी कर दिया गया। उक्त कार्य की समयावधि 05 वर्ष अथवा गालंद में बनाये जाने वाले वेस्ट टू एनर्जी प्लान्ट के बनने तक थी। फर्म द्वारा दिनांक 01.07.2022 से कार्य प्रारम्भ किया गया था। सम्बन्धित अनुबन्ध पत्रावली में संलग्न न होने के कारण कार्य की शर्तों एवं प्रतिबन्धों की स्थिति अस्पष्ट रही। पत्रावली में संलग्न विवरण के अनुसार प्लान्ट पर प्राप्त कूड़े, फर्म द्वारा प्रोसेसिंग किये गये कूड़े की मात्रा एवं अवशेष कूड़े की मात्रा निम्नवत थी-

(मीट्रिक टन में)			
माह	प्राप्त कूड़े की मात्रा -	प्रोसेसिंग कूड़ा =	अवशेष कूड़ा
जुलाई 2022	36,913.20	21,029.30	15,883.90
अगस्त 2022	38,341.00	29,800.00	8,541.00
सितम्बर 2022	42,564.80	33,496.00	9,068.80
अक्टुबर 2022	44,592.30	30,680.00	13,912.30
नवम्बर 2022	53,958.187	40,023.00	13,935.187
दिसम्बर 2022	53,277.529	41,945.00	11,332.529
जनवरी 2023	47,353.198	45,006.00	2,347.198

फरवरी 2023	46,285.197	49,060.00	(-) 2,774.803
मार्च 2023	45,282.50	50,433.00	(-) 5,150.50
योग =	4,08,567.911	3,41,472.30	67,095.611

उक्त सापेक्ष सम्बन्धित फर्म को निम्नवत भुगतान किया गये थे—

प्रथम बिल = 2,16,02,245

(-) आयकर = 4,32,049

(-) भूमि किराया = 13,80,000

व0सं0 1739 दिनांक 22.10.2022 द्वारा भुगतान = रू 1,97,90,400

द्वितीय भुगतान = 3,93,75,230

(-) आयकर = 7,87,506

(-) भूमि किराया = 9,20,000

व0सं0 633 दिनांक 31.12.2022 द्वारा भुगतान = रू 3,76,67,600 का भुगतान।

तृतीय भुगतान = 1,24,78,637

(-) आयकर = 2,49,573

व0सं0 403 दिनांक 02.03.2023 द्वारा भुगतान = रू 1,22,29,0000

चतुर्थ भुगतान = 4,50,28,523

(-) आयकर = 9,00,572

व0सं0 2271 दिनांक 31.03.2023 द्वारा भुगतान = रू 1,59,44,600

व0सं0 2272 दिनांक 31.03.2023 द्वारा भुगतान = रू 1,73,48,800

व0सं0 2273 दिनांक 31.03.2023 द्वारा भुगतान = रू 1,08,34,300

सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में फर्म को शुद्ध लाभ = रू 11,38,14,700

इस प्रकार वर्षान्त प्लान्ट पर 67095.611 मिट्रिक टन कूड़ा प्रोसेसिंग हेतु अवशेष था साथ ही पत्रावली में संलग्न आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ. के पत्रांक— यू0आर0सी0/आर0सी0यू0ई0एस0/1300 दिनांक 19.10.2023 के अनुसार साईट पर 534.15 मिट्रिक टन आर0डी0एफ0 (रिफ्यूल डिवाइण्ड फयूल) भी मौजूद था जो कि घरेलू एवं व्यावसयिक कचरे से उत्पन्न होता है। इसमें बायोडिग्रेडेबल सामग्री के साथ

प्लास्टिक भी शामिल होता है। इस प्रकार प्रति माह प्राप्त समस्त कूड़े का निस्तारण न किये जाने एवं रिफयूल डिवाइण्ड फयूल का निस्तारण न किये जाने के बावजूद भी निरन्तर फर्म को भुगतान किया जा रहा था। समस्त कूड़े का निस्तारण न किये जाने के कारण जहां एक ओर नगर निगम का प्लान्ट स्थापित करने का उद्देश्य निष्फल हो रहा था वहीं दूसरी ओर वातावरण में वायु प्रदुषित होने के कारण जन सामान्य को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा था। जिससे भविष्य में उक्त प्लान्ट के विरुद्ध जन आक्रोश बढ़ने एवं प्लान्ट हटाने की भी स्थिति आ सकती है।

अतः सम्बन्धित फर्म प्रोसेसिंग क्षमता का आंकलन किये बिना ही अनुबन्ध का कार्य कराया जाना अनियमित था साथ ही आर0डी0एफ0 (रिफयूल डिवाइण्ड फयूल= का निस्तारण न किये जाने के बावजूद भी आलोच्य अवधि में रू 11,38,14,700 का भुगतान किये जाने के बावजूद भी प्लान्ट स्थापना के उद्देश्यो की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पत्रावली में मात्र माह नवम्बर व दिसम्बर 2023 एवं माह जनवरी, 2024 में दिनांक 27.01.2023 तक ही तौल/वजन की रसीदें संलग्न थी। उक्त के अतिरिक्त अवधि के कूड़े का वजन किस आधार पर निर्धारित किया गया था, इसे भी स्पष्ट नहीं किया गया था। अतः उक्त के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। साथ ही स्पष्ट कराया जाय कि कार्य हेतु धनराशि के प्राविधान किये जाने से पूर्व कार्यादेश जारी किये जाने का नया औचित्य था।

4-नगर निगम द्वारा विभिन्न फर्मों से अपूर्णित कर्मचारियों हेतु किये गये ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 की धनराशियों के जमा की पुष्टि न कराया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक रू 1,24,60,491 :-

व्यय प्रमाणकों की जांच में पाया कि नगर निगम द्वारा आलोच्य अवधि में शहरी आजीविका केन्द्र, मैसर्स एस0सी0एम0 प्रोजेक्शन प्रा0लि0 एवं मैसर्स समाजोत्थान सेवा संस्थान से विभिन्न प्रकार के कर्मियों की आपूर्ति विविध कार्यों हेतु प्राप्त की गयी थी। सम्बन्धित बिलों में कर्मियों देय भुगतान के अतिरिक्त 13 प्रतिशत ई0पी0एफ0 एवं 3.25 प्रतिशत ई0एस0आई0 की धनराशियों को जोड़कर सम्बन्धित फर्मों को भुगतान किया जा रहा था। सम्परीक्षा मदों में निम्नवत भुगतान किये गये थे-

क्र०	फर्म का नाम	13% ई०पी०एफ०	3.25% ई०एस०आई०सी०
1	शहरी अजीविका केन्द्र	85,61,848	21,40,462
2	मै० समाजोत्थान सेवा संस्थान	9,45,949	2,36,487
3	मै० एस०सी०एम प्रोजेक्शन प्रा०लि०	5,75,745	(ई०एस०आई०सी० सहित)
	योग =	1,00,83,542 / -	23,76,949 / -
	कुल योग =	रु 1,24,60,491 / -	

नगर निगम द्वारा उक्त धनराशियों का भुगतान फर्मों को तो निरन्तर किया जाता रहा था किन्तु इन धनराशियों के सम्बन्धित कर्मचारियों के खातों में जमा की पुष्टि कभी नहीं करायी जाती थी। जबकि नियमतः पूर्व धनराशियों की जमा की पुष्टि के उपरान्त ही अगले बिल का भुगतान किया जाना चाहिये था। बिना जमा की पुष्टि के निरन्तर इन मदों सहित बिलों का भुगतान किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक था। इससे जहां एक ओर कर्मचारियों की मिलने वाले ब्याज एवं सुविधाओं की क्षति हो रही थी वहीं दूसरी ओर इन धनराशियों के व्ययहरण किये जाने की पूर्ण सम्भावना थी। उपरोक्त धनराशियां मात्र सम्परीक्षा माहों से सम्बन्धित भुगतानों की थी। अतः सम्पूर्ण वर्ष में भुगतान धनराशियों की गणना निगम स्तर पर करते हुए देय धनराशियों के सम्बन्धित कर्मियों के ई०पी०एफ० व ई०एस०आई०सी० खातों में जमा किये जाने की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। संलग्न परिशिष्ट '21' पर अंकित है।

5-बिना आगणन, जस्टिफिकेशन एवं निविदा की दर के " वसुन्धरा जोन के अन्तर्गत विभिन्न 06 स्थलों पर रात्रिकालीन सफाई का कार्य में रु 91,77,700 अमान्य एवं आपत्तिजनक भुगतान एवं अनियमितताएं :-

नगर निगम निधि के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग की पत्रावली की जांच में प्रकाश में आया कि नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद के कार्यालय आदेश सं०- 2682/न०आ०/19-20 दिनांक 04.12.2020 एवं समायोजित पत्रांक- 2622/नगर आयुक्त/2020-21 दिनांक 01.03.2021 के द्वारा गठित निविदा समिति द्वारा आमंत्रित निविदायें की तकनीकी परीक्षण हेतु दिनों 30.12.2021 को बैठक की गयी। बैठक में निम्न लिखित अधिकारीगण उपस्थिति हुए-

1- श्री शिवपूजन यादव- उपर नगर आयुक्त/अध्यक्ष

2- श्री मिथलेश कुमार – नगर स्वास्थ्य अधिकारी/सचिव

3- श्री राकेश कुमार गौतम –लेखाधिकारी/सदस्य

4-श्री योगेन्द्र सिंह – अधिशासी अभियन्ता/सदस्य

नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद के कार्यालय पत्रांक- 8617/स्वा0/2021-22 दिनांक 01.12.2021 के निर्देशानुसार विभिन्न समाचार पत्रों में "वसुन्धरा जोन के अन्तर्गत विभिन्न 06 स्थलों पर रात्रिकालीन सफाई का कार्य" हेतु निविदा- 29.12.2021 को आमन्त्रित की गयी। जिसमें उक्त कार्य की दो निविदायें प्राप्त हुई। दो निविदाओं में से मै0 नोर्थ इण्डिया की प्रथम न्यूनतम दर रूपये 79900 प्रति कि०मी०/प्रति माह की दर से प्राप्त हुई। मै0 नोर्थ इण्डिया डेवलपर्स से नेगोशियेसन के उपरान्त रू 74,500 प्रति कि०मी०/प्रति माह की दर से कार्य की दिनांक 07.01.2022 को स्वीकृति नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद द्वारा दी गयी। उक्त कार्य का कार्यादेश संख्या- 3498/स्वा0/2021-22 दिनांक 07.01.2022 को जारी किया गया था। वसुन्धरा जोन के रात्रिकालीन सफाई को छः भागों में बाँटकर कर दिया गया था।

क्र०	रात्रिकालीन सफाई के कार्य का विवरण	सफाई कार्य की कुल लम्बाई	निविदा की स्वीकृत दर
1	ब्रज विहार चौक से राधाकुंज फाटक तक तथा आस-पास लगने वाली मार्केट व सड़क के दोनों साईड तक	2100मी० (2.10 कि०मी०)	74,500
2	वैशाली की पॉइन्ट से महावीर चौक तक तथासड़क के दोनों साईड तक	2100मी० (2.10 कि०मी०)	74,500
3	मोहन ढाबे से शॉप्रिक्समॉल तक वैशाली व सड़क के दोनों साईड तक	2300मी० (2.3 कि०मी०)	74,500
4	वैशाली मदर डेयरी रोड से सै०-02 व वार्ड-76 तक सड़क के दोनों साईड तक	2000मी० (2.00 कि०मी०)	74,500
5	सै०-01 मैक्स हॉस्पिटल से पुलिया तक वार्ड-72 व सड़के के दोनों साईड तक	2100मी० (2.1 कि०मी०)	74,500
6	वार्ड-21 भोवापुर चौक से दिल्ली	1900मी० (1.9 कि०मी०)	74,500

उपरोक्त कार्य हेतु व्यय प्रमाणक सं०- 409 से 432 दिनांक 21.02.2023 रू 36,35,300 व व्यय प्रमाणक संख्या -2290 दिनांक 31.03.2023 रू 18,17,400 फर्म को भुगतान किया गया था। उपरोक्त कार्य में निम्नलिखित अनियमितताएँ प्रकाश में आयी।

(1) रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था करने हेतु मांगी गयी निविदाओं की दर, कार्य का जस्टिफिकेशन, आगणन आदि नहीं बनाया गया था। जिसमें 74500 प्रतिमाह /प्रति कि०मी० कार्य की दर का सत्यापन न हो सका। जिससे वर्ष 2022-23 में रू 91,77,700 कुल धनराशि मैसर्स नोर्थ इण्डिया डेवलेपर्स को किया गया भुगतान सम्परीक्षा की दृष्टि से आपत्तिजनक/अमान्य था।

(2) उपरोक्त कार्य हेतु नगर स्वास्थ्य अधिकारी एवं फर्म के मध्य दिनांक 09.07.2022 को अनुबन्ध किया गया था जिसमें कार्य की अवधि दिनांक 01.09.2022 से 31.12.2022 तक दी गयी थी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई अनुबन्ध पत्रावली में नहीं था। जबकि कार्य पत्रावली के अनुसार दिनांक 01.05.2022 से 31.03.2023 तक सम्परीक्षा अवधि में किया गया था। दिनांक 01.05.2022 से 31.08.2022 व दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2023 तक बिना अनुबन्ध के कार्य कराया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक था।

(3) पत्रावली के नॉटिंग पृष्ठ सख्या-8,10,12 के अनुसार दिनांक 01.05.2022 से 31.08.2022 तक फर्म द्वारा निविदा की स्वीकृत दर रू 74,500 प्रति कि०मी०/प्रति माह की दर से रू 46,56,250 कार्य के बिल प्रस्तुत किये गये थे। उपरोक्त भुगतान हेतु ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये गये बिल व व्यय प्रमाणकों की छायाप्रति पत्रावली में संलग्न नहीं थी। जिससे फर्म को किया गया भुगतान असत्यापित था।

(4) व्यय प्रमाणक सख्या-409 से 432 दिनांक 21.02.2023 रू 36,35,300 व व्यय प्रमाणक सख्या- 2290 दिनांक 31.03.2023 रू 18,17,400 द्वारा भुगतान विभिन्न कटौतियों उपरान्त फर्म को किया गया था। उपरोक्त भुगतान दिनांक 01.09.2022 से 31.12.2022 व दिनांक 01.01.2023 से 28.02.2023 तक के लिए किया गया था उपरोक्त भुगतानों में मुख्य सफाई निरीक्षक द्वारा रू 23,000 की कटौती की गयी थी। यह कटौती किस आधार पर की गयी थी। स्पष्ट किया जाय। पत्रावली में रात्रिकालीन सफाई के कार्य में लगे सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति नहीं लगायी थी जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य निरन्तर व समयानुसार किया गया था। कार्य पर लगे कर्मचारियों के दैनिक कार्य चित्रों के अनुसार सभी कर्मचारी कार्य पर उपस्थित नहीं थे। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय।

6-बिना आगणन, जस्टिफिकेशन एवं रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था हेतु निविदाओं की दर के रू 82,09,100 अमान्य एवं आपत्तिजनक भुगतान एवं अन्य अनियमितताये :-

नगर निगम निधि के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग की पत्रावली की जांच में प्रकाश में आया कि नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद के कार्यालय आदेश संख्या-2682/न0आ0/19-20 दिनांक 04.12.2020 एवं संशोधित पत्रांक- 2622/नगर आयुक्त/20-21 दिनांक 01.03.2021 के द्वारा गठित निविदा समिति द्वारा आमंत्रित निविदाओं की तकनीकी परिक्षण हेतु दिनांक 30.12.2021 को बैठक की गयी। बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों उपस्थित हुए।

- 1- श्री शिवपूजन यादव- उपर नगर आयुक्त/अध्यक्ष
- 2- श्री मिथलेश कुमार - नगर स्वास्थ्य अधिकारी/सचिव
- 3- श्री राकेश कुमार गौतम -लेखाधिकारी/सदस्य
- 4-श्री योगेन्द्र सिंह - अधिशासी अभियन्ता/सदस्य

नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद के कार्यालय पत्रांक- 8617/स्वा0 2021-22 दिनांक 01.12.2021 के निर्देशानुसार विभिन्न समाचार पत्रों में "वसुन्धरा जोन के अन्तर्गत विभिन्न 05 स्थलों पर रात्रिकालीन सफाई का कार्य" हेतु दिनांक 29.12.2021 को निविदा आमन्त्रित की गयी। जिसमें उक्त कार्य की दो निविदायें प्राप्त हुई। दो निविदाओं में से मै0 नोर्थ इण्डिया डेवलेपर्स की प्रथम न्यूनतम दर रूपये 79900 प्रति कि0मी0/प्रति माह की दर से प्राप्त हुई। मै0 नोर्थ इण्डिया डेवलेपर्स से नेगोशियेसन के उपरान्त रू 74,500/- प्रति कि0मी0/प्रति माह की दर से कार्य की दिनांक 07.01.2022 को स्वीकृति नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद द्वारा दी गयी। उक्त कार्य को कार्यादेश संख्या- 3498/स्वा0/2021-22 दिनांक 07.01.2022 को जारी किया गया था। वसुन्धरा जोन के रात्रिकालीन सफाई कार्य को पाँच भागों में बांट कर दिया गया था।

क्र0	रात्रिकालीन सफाई के कार्य का विवरण	सफाई कार्य की कुल लम्बाई	निविदा की स्वीकृत दर
1	वैशाली सै-04 की समस्त सड़के व गलियां तथा बिहारी मार्केट सै-03 वैशाली में लिंक रोड से काली मन्दिर तक सफाई का कार्य	2200मी0 (2.20 कि0मी0)	74,500
2	बुद्ध चौक से इन्दिरापुरम थाना चौक होते हुए अग्रसेन चौक होते हुए टी0-प्वाइंट तक की सड़क व इसके साथ लगने वाली मार्केट व वसुन्धरा सै-17 के आस-पास लगने वाली	2700मी0 (2.70 कि0मी0)	74,500

	मार्किट व सड़क के दोनों साइड सफाई का कार्य		
3	वार्ड-72 कौशाम्बी टेम्पो स्टेन्ड से मेट्रो स्टेशन होते हुए यशोदा अस्पताल तक सफाई का कार्य	2100मी० (2.10 कि०मी०)	74,500
4	वार्ड-41 आनन्द विहार बस स्टैन्ड से डाबर चौक तक सफाई का कार्य	2100मी० (2.10 कि०मी०)	74,500
5	वार्ड-43 में पुरानी मेग्नम से मंगल बाजार रोड शिव मन्दिर गोल कुआं मैन बाजार तक तथा आस-पास लगने वाली मार्किट व सड़क के दोनो साइड का कार्य	2100मी० (2.10 कि०मी०)	74,500

उपरोक्त कार्य हेतु व्यय प्रमाणक संख्या-302 से 321 दिनांक 21.02.2023 रू 32,41,000 व व्यय प्रमाणक संख्या-2289 दिनांक 31.03.2023 रू 16,30,500 फर्म को भुगतान किया गया था। उपरोक्त कार्य में निम्नलिखित अनियमितताएं प्रकाश में आयी-

(1) रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था करने हेतु मांगी गयी निविदाओं की दर, कार्य का जस्टिफिकेशन, आगणन आदि नहीं बनाया गया था। जिसमें 74500 प्रतिमा/प्रति कि०मी० कार्य की दर का सत्यापन न हो सका। जिससे वर्ष 2022-23 में रू 82,09,100 कुल धनराशि मैसर्स नोर्थ इण्डिया डेवलेपर्स को किया गया भुगतान सम्परीक्षा की दृष्टि से आपत्तिजनक/अमान्य था।

(2) उपरोक्त कार्य हेतु नगर स्वास्थ्य अधिकारी एवं फर्म के मध्य दिनांक 09.07.2022 को अनुबन्ध किया गया था जिसमें कार्य की अवधि दिनांक 01.09.2022 से 31.12.2022 तक दी गयी थी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई अनुबन्ध पत्रावली में नहीं था। जबकि कार्य पत्रावली के अनुसार दिनांक 01.05.2022 से 31.03.2023 तक सम्परीक्षा अवधि में किया गया था। दिनांक 01.05.2022 से 31.08.2022 व दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2023 तक बिना अनुबन्ध के कार्य कराया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक था

(3) पत्रावली के नॉटिंग पृष्ठ संख्या-8,10,12 के अनुसार दिनांक 01.05.2022 से 31.08.2022 तक फर्म द्वारा निविदा की स्वीकृत दर रू 74,500 प्रति कि०मी०/प्रति माह की दर से रू 33,37,600 कार्य के बिल प्रस्तुत किये गये थे। उपरोक्त भुगतान हेतु ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये गये बिल व व्यय प्रमाणकों की छायाप्रति पत्रावली में संलग्न नहीं थी। जिससे फर्म को किया गया भुगतान असत्यापित था।

(4) व्यय प्रमाणक संख्या— 2289 दिनांक 31.03.2023 रू 16,30,500 व व्यय प्रमाणक संख्या— 302 से 321 दिनांक 21.02.2023 रू 32,41,000 द्वारा भुगतान विभिन्न कटौतियों उपरान्त फर्म को किया गया था। उपरोक्त भुगतान दिनांक 01.09.2022 से 31.12.2022 व दिनांक 01.01.2023 से 28.02.2023 तक के लिए किया गया था। उपरोक्त भुगतानों में मुख्य सफाई निरीक्षक द्वारा रू0 35,000 की कटौती की गयी थी। यह कटौती किस आधार पर की गयी थी। स्पष्ट किया जाय। पत्रावली में रात्रिकालीन सफाई के कार्य में लगे सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति नहीं लगायी थी। जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य निरन्तर व समयानुसार किया गया था।

7—मोहन नगर जोन के अन्तर्गत विभिन्न 05 स्थानों श्याम पार्क, साहिबाबाद स्टेशन, हिण्डन एयर फोर्स, गौर प्लाजा, लाजपत नगर पर रात्रिकालीन सफाई के कार्य के बिल में रू 4,83,587 कम कटौती किये जाने से फर्म को अधिक भुगतान एवं अनियमितताएँ :-

नगर निगम निधि के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग की पत्रावली की जाँच में प्रकाश में आया कि नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद के कार्यालय पत्रांक— 8617/स्वा0/2021-22 दिनांक 01.12.2021 के निर्देशानुसार विभिन्न समाचार पत्रों में "मोहन नगर जोन के अन्तर्गत विभिन्न 05 स्थलों श्याम पार्क, साहिबाबाद स्टेशन, हिण्डन एयर फोर्स, गौर प्लाजा, लाजपत नगर रात्रिकालीन सफाई का कार्य हेतु दिनांक 29.12.2021 को निविदा आमन्त्रित की गयी। जिसमें उक्त कार्य की दो निविदाएँ प्राप्त हुई। दो निविदाओं में से मै0 नोर्थ इण्डिया डेवलेपर्स की प्रथम न्यूनतम दर रू 79900/- प्रति कि0मी0/प्रति माह की दर से प्राप्त हुई मै0 नोर्थ इण्डिया डेवलेपर्स से नेगोशियेसन के उपरान्त रू 74500/- प्रति कि0मी0/प्रति माह की दर से कार्य की दिनांक 07.01.2022 को स्वीकृति नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद द्वारा दी गयी। उक्त कार्य का कार्यादेश संख्या— 3498/स्वा0/2021-22 दिनांक 07.01.2022 को जारी किया गया था। मोहन नगर जोन को रात्रिकालीन सफाई कार्य को पाँच भागों में बाँटकर दिया गया था—

क्र0	रात्रिकालीन सफाई के कार्य का विवरण	सफाई कार्य की कुल लम्बाई	निविदा की स्वीकृत दर
1	श्याम पार्क एक्सटेशन से रिझावन मार्केट होते हुए पुलिस चौकी से रिझावन इलेक्ट्रोनिक लाल स्कूल से होते हुए महावीर पार्क तक सफाई का कार्य	2000मी0 (2.00 कि0मी0)	74,500

2	श्याम पार्क के अन्तर्गत साहिबाबाद रेलवे स्टेशन मार्किट जी0टी0 स्टेशन रोड कट से सुलभ षौचालय होते हुए जल निगम कालोनी रोड तक सफाई का कार्य	2050मी0 (2.05 कि0मी0)	74,500
3	करहैड़ा मार्किट जिसमें हिन्दन एयर फोर्स चौराहे से बाल्मीकि बस्ती बिजली घर चौराहे तक सफाई का कार्य	1900मी0 (1.90 कि0मी0)	74,500
4	शालीमार गार्डन एक्सटेंशन -2 के अन्तर्गत गौर प्लाजा मार्किट होते हुए जिसमें गौर प्लाजा से एस0एम0 वर्ल्ड व आस-पास की सड़के सहित तक सफाई का कार्य	1950मी0 (1.95 कि0मी0)	74,500
5	लाजपत नगर-1 के अन्तर्गत शनि मन्दिर मार्किट जिसमें शनि चौक से जिन्दल रोड व आस-पास की सड़के सहित तक सफाई का कार्य	1850मी0 (1.85 कि0मी0)	74,500

उपरोक्त कार्य हेतु व्यय प्रमाणक संख्या-282 से 301 दिनांक 21.02.2023 रू 28,46,400 व व्यय प्रमाणक संख्या- 2293 दिनांक 31.03.2023 रू 14,21,700 फर्म को भुगतान किया गया था। उपरोक्त कार्य में निम्नलिखित अनियमितताएं प्रकाश में आयी-

(1) रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था करने हेतु मांगी गयी निविदाओं की दर, कार्य का जस्टीफिकेशन, आगणन आदि नहीं बनाया गया था। जिसमें 74500 प्रतिमाह/प्रति कि0मी0 कार्य की दर का सत्यापन न हो सका। जिससे वर्ष 2022-23 में रू 10805475 कुल धनराशि मैसर्स नोर्थ इण्डिया डेवलेपर्स को किया गया भुगतान सम्परीक्षा की दृष्टि से आपत्तिजनक/अमान्य था।

(2) उपरोक्त कार्य हेतु नगर स्वास्थ्य अधिकारी एवं फर्म के मध्य दिनांक 09,07,2022 को अनुबन्ध किया गया था जिसमें कार्य की अवधि दिनांक 01.09.2022 से 31.12.2022 तक दी गयी थी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई अनुबन्ध पत्रावली में नहीं था। जबकि कार्य सम्परीक्षा वर्ष 2022-23 तक किया गया था। दिनांक 01.04.2022 से 31.08.2023 तक किया गया था। दिनांक 01.04.2022 से 31.08.2022 व दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2023 तक बिना अनुबन्ध के कार्य कराया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक था

(3) पत्रावली के नोटिंग पृष्ठ संख्या-8,11,14,16,18 के अनुसार दिनांक 01.04.2022 से 31.08.2022 तक फर्म द्वारा निविदा की स्वीकृत दर रू 74,500/- प्रति कि0मी0/प्रति माह की दर से रू 36,31,875.00 कार्य के बिल प्रस्तुत किये गये थे। उपरोक्त भुगतान हेतु वित्तिय स्वीकृति, नगर

स्वास्थ्य अधिकारी, उप नगर आयुक्त एवं नगर आयुक्त निगम द्वारा दी गयी थी। उपरोक्त भुगतान हेतु ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये गये बिल व व्यय प्रमाणकों की छायाप्रति पत्रावली में संलग्न नहीं थी। जिससे रु 36,31,875 फर्म को किया गया भुगतान असत्यापित था।

(4) व्यय प्रमाणक संख्या- 2293 दिनांक 31.03.2023 रु 14,21,700 द्वारा भुगतान विभिन्न कटौतियों उपरान्त फर्म को किया गया था। उपरोक्त भुगतान दिनांक 01.01.2023 से 28.02.2023 तक के किए गये कार्य हेतु किया गया था। उपरोक्त अवधि के फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये बिल संख्या- एन0आई0डी0/22-23/0419 दिनांक 01.03.2023 रु 14,52,750 में मुख्य सफाई निरीक्षक द्वारा रु 2,000 कटौती की संस्तुति के आधार पर भुगतान किया गया था। फर्म द्वारा बिल के साथ कार्य पर लगे कर्मचारियों की कार्य उपस्थिति के अनुसार निम्न विवरणानुसार रु 4,85,587 की कटौती किया जाना था। इस प्रकार फर्म को रु 4,83,587 का अधिक भुगतान किया गया था। रु 4,83,587 की वसूली फर्म से किया जाना अपेक्षित है।

1- श्याम पार्क एक्सटेंशन से रिझावन मार्किट होते हुए पुलिस चौकी से रिझावन इैलेक्ट्रोनिक लाल स्कूल से होते हुए महावीर पार्क तक सफाई का कार्य -

$$\text{कटौती जनवरी 23 माह} = 55/155 \times 74500 \times 2 = 52,871$$

$$\text{कटौती फरवरी 23 माह} = 42/140 \times 74500 \times 2 = \underline{44,700}$$

$$97,571$$

2- श्याम पार्क के अन्तर्गत साहिबाबाद रेलवे स्टेशन मार्किट जी0टी0रोड स्टेशन रोड कट से सुलभ शौचालय होते हुए जल निगम कालोनी रोड तक सफाई का कार्य -

$$\text{कटौती जनवरी माह} = 57/155 \times 74500 \times 2.05 = 56,163$$

$$\text{कटौती फरवरी माह} = 44/140 \times 74500 \times 2.05 = \underline{47,999}$$

$$1,04,162$$

3- करहैडा मार्किट जिसमें हिण्डन एयर फोर्स चौराहे से बाल्मीकि बस्ती बिजली घर चौराहे तक सफाई का कार्य-

$$\text{कटौती जनवरी माह} = 42/124 \times 74500 \times 1.9 = 47,944$$

$$\text{कटौती फरवरी माह} = 34/112 \times 74500 \times 1.9 = \underline{42,971}$$

90,915

4- शालीमार गार्डन एक्सटेंशन -2 के अन्तर्गत गौर प्लाजा मार्किट होते हुए जिसमें गौर प्लाजा से एस0एम0 वर्ल्ड व आस-पास की सड़के सहित तक सफाई का कार्य -

कटौती जनवरी माह 2023 = $58 / 155 \times 74500 \times 1.95 = 54,361$

कटौती फरवरी माह 2023 = $44 / 140 \times 74500 \times 1.95 = 45,658$

1,00,019

5- लाजपत नगर-1 के अन्तर्गत शनि मन्दिर मार्किट जिसमें शनि चौक से जिन्दल रोड व आस-पास की सड़के सहित तक सफाई का कार्य-

कटौती जनवरी माह 2023 = $58 / 155 \times 74500 \times 1.85 = 51,573$

कटौती फरवरी माह 2023 = $42 / 140 \times 74500 \times 1.85 = 41,347$

92,920

कुल कटौती = $485587 - 2000 = 483587$

8-मोहन नगर जोन के अन्तर्गत विभिन्न 03 स्थलों पर रात्रिकालीन सफाई के कार्य के बिल में रु 3,91,877 की कटौती न किये जाने से फर्म को अधिक भुगतान एवं अन्य अनियमितताएं :-

नगर निगम निधि के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग की पत्रावली की जाँच में प्रकाश में आया कि नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद के कार्यालय आदेश संख्या- 2682/न0आ0/19-20 दिनांक 04.12.2020 एवं संशोधित पत्रांक- 2622/नगर आयुक्त/20-21 दिनांक 01.03.2021 के द्वारा गठित निविदा समिति द्वारा आमंत्रित निविदाओं की तकनीकी परिक्षण हेतु दिनांक 30.12.2021 को बैठक की गयी। बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित हुए।

- 1- श्री शिवपूजन यादव- उपर नगर आयुक्त/अध्यक्ष
- 2- श्री मिथलेश कुमार - नगर स्वास्थ्य अधिकारी/सचिव
- 3- श्री राकेश कुमार गौतम -लेखाधिकारी/सदस्य
- 4-श्री योगेन्द्र सिंह - अधिशासी अभियन्ता/सदस्य

नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद के कार्यालय पत्रांक- 8617/स्वा0/2021-22 दिनांक 01.12.2021 के निर्देशानुसार विभिन्न समाचार पत्रों में "मोहन नगर जोन के अन्तर्गत विभिन्न 03 स्थलों पर रात्रिकालीन सफाई के कार्य" हेतु दिनांक 29.12.2021 को निविदा आमंत्रित की गयी। जिसमें उक्त कार्य की दो निविदायें प्राप्त हुईं। दो निविदाओं में से मै0 नोर्थ इण्डिया डेवलेपर्स की प्रथम न्यूनतम दर रूपये 79900/- प्रति कि०मी०/प्रति माह की दर से प्राप्त हुई मै0 नोर्थ इण्डिया डेवलेपर्स से नेगोशियेशन के उपरान्त रू 74,500/- प्रति कि०मी०/प्रति माह की दर से कार्य की दिनांक 07.01.2022 को स्वीकृति नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद द्वारा दी गयी। उक्त कार्य को कार्यादेश संख्या- 3498/स्वा0/2021-22 दिनांक 07.01.2022 को जारी किया गया था। मोहन नगर जोन के रात्रिकालीन सफाई कार्य को तीन भागों में बांट कर दिया गया था।

क्र०	रात्रिकालीन सफाई के कार्य का विवरण	सफाई कार्य की कुल लम्बाई	निविदा की स्वीकृत दर
1	मोहन नगर जोन में जिंदल रोड एवं आस-पास की गलियों सहित तक सफाई का कार्य	2500मी० (2.50 कि०मी०)	74,500
2	मोहन नगर जोन में राजीव कालोनी व मार्केट एवं आस-पास की गलियों सहित तक सफाई का कार्य	2500मी० (2.50 कि०मी०)	74,500
3	मोहन नगर जोन में 150 फुटा रोड से होते हुए शालीमार गार्डन एक्सटेंशन पुलिस चौकी से मार्केट 80 फुटा तक सफाई का कार्य	2250मी० (2.250 कि०मी०)	74,500

उपरोक्त कार्य हेतु व्यय प्रमाणक संख्या-322 से 339 दिनांक 21.02.2023 रू 31,70,300 व व्यय प्रमाणक संख्या- 2292 दिनांक 31.03.2023 रू 10,58,600 फर्म को भुगतान किया गया था। उपरोक्त कार्य में निम्नलिखित अनियमितताएँ प्रकाश में आयी-

(1) रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था करने हेतु मांगी गयी निविदाओं की दर, कार्य का जस्टीफिकेशन, आगणन आदि नहीं बनाया गया था। जिसमें 74500 प्रतिमाह/प्रति कि०मी० कार्य की दर का सत्यापन न हो सका। जिससे वर्ष 2022-23 में रू 55,10,482 कुल धनराशि मैसर्स नोर्थ इण्डिया डेवलेपर्स को किया गया भुगतान सम्परीक्षा की दृष्टि से आपत्तिजनक/अमान्य था।

(2) उपरोक्त कार्य हेतु नगर स्वास्थ्य अधिकारी एवं फर्म के मध्य दिनांक 20.06.2022 को अनुबन्ध किया गया था जिसमें कार्य की अवधि दिनांक 08.04.2022 से 31.05.2022 तक दी गयी थी एवं दिनांक 09.07.2022 को किये गये अनुबन्ध के अनुसार दिनांक 01.07.2022 से 31.12.2022

कार्य किया गया था। इसके अतिरिक्त अन्य कोई अनुबन्ध पत्रावली में नहीं था। जबकि सम्परीक्षा वर्ष 2022-23 तक किया गया था। दिनांक 01.06.2022 से 30.06.2023 व दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2023 तक बिना अनुबन्ध के कार्य कराया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक था

(3) पत्रावली के नॉटिंग पृष्ठ संख्या-8,10, के अनुसार दिनांक 08.04.2022 से 30.06.2022 तक फर्म द्वारा निविदा की स्वीकृत दर रु 74,500 प्रति कि०मी०/प्रति माह की दर से रु 11,94,482 कार्य के बिल प्रस्तुत किये गये थे। उपरोक्त भुगतान हेतु ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये गये बिल व व्यय प्रमाणकों की छायाप्रति पत्रावली में संलग्न नहीं थी। जिससे रु 11,94,482 फर्म को किया गया भुगतान असत्यापित था।

(4) व्यय प्रमाणक संख्या- 2292 दिनांक 31.03.2023 रु 10,58,600 द्वारा भुगतान विभिन्न कटौतियों उपरान्त फर्म को किया गया था। उपरोक्त भुगतान दिनांक 01.01.2023 से 28.02.2023 तक के किए गये कार्य हेतु किया गया था। उपरोक्त अवधि के लिए फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये बिल संख्या- एन०आई०डी०/22-23/0421 दिनांक 01.03.2023 रु 10,80,250 में मुख्य सफाई निरीक्षक द्वारा कोई कटौती नहीं की गई थी। फर्म द्वारा बिल के साथ कार्य पर लगे कर्मचारियों की कार्य उपस्थिति के अनुसार निम्न विवरणानुसार रु 3,91,877 की कटौती किया जाना था। इस प्रकार फर्म को रु 3,91,877 का अधिक भुगतान किया गया था। रु 3,91,877 की वसूली फर्म से किया जाना अपेक्षित है।

1- मोहन नगर जोन में राजीव कॉलोनी व मार्किट एवं आस-पास की गलियों सहित तक

कटौती जनवरी 2023 माह = $55 / 155 \times 2.5 \times 74500 = 66,089$

कटौती फरवरी 2023 माह = $44 / 140 \times 2.5 \times 74500 = 58,536$

1,24,625

2- मोहन नगर जोन में जिंदल रोड व मार्किट एव आस-पास की गलियों सहित तक

कटौती जनवरी 2023 माह = $57 / 155 \times 74500 \times 2.5 = 68,492$

कटौती फरवरी 2023 माह = $43 / 140 \times 74500 \times 2.5 = 57,205$

1,25,697

3- मोहन नगर जोन में 150 फुटा रोड से होते हुए शालीमार गार्डन एक्सटेंशन पुलिस चौकी से मार्किट 80 फुटा रोड तक

कटौती जनवरी 2023 माह = $56 / 124 \times 2.25 \times 74500 = 75,702$

कटौती फरवरी 2023 माह = $44 / 112 \times 2.25 \times 74500 = 65,853$

1,41,555

कुल कटौती = $124625 + 125697 + 141555 = 3,91,877$

9—मोहन नगर जोन के अन्तर्गत विभिन्न 05 स्थलों पर रात्रिकालीन सफाई के कार्य के बिल में रू0 7,46,885 कम कटौती किये जाने से फर्म को अधिक भुगतान एवं अन्य अनियमितताएँ :-

नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद के कार्यालय पत्रांक— 8617/स्वा0/2021—22 दिनांक 01.12.2021 के निर्देशानुसार विभिन्न समाचार पत्रों के "मोहन नगर जोन में रात्रिकालीन सफाई का कार्य" हेतु दिनांक 29.12.2021 को निविदा आमन्त्रित की गयी। जिसमें उक्त कार्य की दो निविदाये प्राप्त हुई। दो निविदाओं में से मै0 नोर्थ इण्डिया डेवलेपर्स की प्रथम न्यूनतम दर रूपये 79900 प्रति कि0मी0/प्रति माह की दर से प्राप्त हुई मै0 नोर्थ इण्डिया डेवलेपर्स से नेगोशियेसन के उपरान्त रू 74,500 प्रति कि0मी0/प्रति माह की दर से कार्य की दिनांक 07.01.2022 को स्वीकृति नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद द्वारा दी गयी। उक्त कार्य को कार्यादेश संख्या— 3498/स्वा0/2021—22 दिनांक 07.01.2022 को जारी किया गया था। मोहन नगर जोन के रात्रिकालीन सफाई कार्य को पांच भागों में बांट कर दिया गया था।

क्र0	रात्रिकालीन सफाई के कार्य का विवरण	सफाई कार्य की कुल लम्बाई	निविदा की स्वीकृत दर
1	वार्ड नं—70 जनकपुरी रोड सी0ब्लाक में व आस—पास की गलियों सहित तक सफाई का कार्य	2500मी0 (2.50 कि0मी0)	74,500
2	राजेन्द्र नगर सै—05 व जी0टी0 रोड मार्केट व आस—पास की गलियों सहित सफाई का कार्य	1850मी0 (1.85 कि0मी0)	74,500
3	कटोरी मिल शौचालय से मोहन नगर चौक होते हुए नरेन्द्र मोहन अस्पताल तक मय सर्विस लेन दोनों साईड तक सफाई का कार्य	2050मी0 (2.05 कि0मी0)	74,500
4	मोहन नगर जोन में वार्ड—37 शालीमार गार्डनमैन में भारत माता चौक के आस—पास विक्रम एनकलेव प्रयास पार्क के आस—पास, छाबड़ा चौक पप्पू कालोनी रोड, विवेकानन्द चौक के आस—पास तक सफाई का कार्य	4000मी0 (4.00 कि0मी0)	74,500

5	मोहन नगर जोन में डी0एल0एफ0 पुलिस चौकी से भगत सिंह चौक से होते हुए डी0एल0एफ0 गेट तक एवं सेन्ट्रल पार्क के आस-पास की गलियो सहित तक सफाई का कार्य	2000मी0 (2.00 कि0मी0)	74,500
---	--	--------------------------	--------

उपरोक्त कार्य में निम्नलिखित अनियमितताएँ प्रकाश में आयीं।

1- उपरोक्त कार्य हेतु प्रथम बार अनुबन्ध दिनांक 25.02.2022 को नगर स्वास्थ्य अधिकारी एवं फर्म के मध्य बिना समय अवधि व द्वितीय बार अनुबन्ध दिनांक 01.08.2022 से 31.12.2022 तक किया गया था जबकि कार्य सम्परीक्षा अवधि 31.03.2023 तक किया। अनुबन्ध से कार्य दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2023 तक कराये जाना अनिवार्य एवं आवश्यक था।

2- रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था करने हेतु मांगी गयी निविदाओं की दर, कार्य का जस्टीफिकेशन, आगणन आदि नहीं बनाया गया था। जिसमें 74500 प्रतिमाह/प्रति कि0मी0 कार्य की दर का सत्यापन न हो सका। जिससे वर्ष 2022-23 में रु 1,00,26,400 कुल धनराशि मैसर्स नोर्थ इण्डिया डेवलेपर्स को किया गया भुगतान सम्परीक्षा की दृष्टि से आपत्तिजनक/अमान्य था।

3- पत्रावली के नॉटिंग पृष्ठ संख्या-8,9,10,11 के अनुसार दिनांक 01.04.2022 से 31.07.2022 तक फर्म द्वारा निविदा की स्वीकृत दर रु 74,500 प्रति कि0मी0/प्रति माह की दर से रु 36,95,200 कार्य के बिल प्रस्तुत किये गये थे। उपरोक्त भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, गाजियाबाद एवं सहायक लेखाकार द्वारा दी गयी थी। उपरोक्त भुगतान हेतु ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये गये बिल व व्यय प्रमाणकों की छायाप्रति पत्रावली में संलग्न नहीं थी। जिससे रु 36,95,200 फर्म को किया गया भुगतान असत्यापित था।

4- व्यय प्रमाणक संख्या- 2291 दिनांक 31.03.2023 रु 1805700 द्वारा भुगतान विभिन्न कटौतियों उपरान्त फर्म को किया गया था। उपरोक्त भुगतान दिनांक 01.01.2023 से 28.02.2023 तक के किए गये कार्य हेतु किया गया था। उपरोक्त अवधि के लिए फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये बिल संख्या- एन0आई0डी0/22-23/0420 दिनांक 01.03.2023 रु 18,47,600 में मुख्य सफाई निरीक्षक द्वारा रु 5,000.00 कटौती की संस्तुति के आधार पर भुगतान किया गया था। फर्म द्वारा बिल के साथ कार्य पर लगे कर्मचारियों की कार्य उपस्थिति के अनुसार निम्न विवरणानुसार रु 2,97,717 की कटौती किया जाना था। इस प्रकार फर्म को रु 2,97,717 का अधिक भुगतान किया गया था। रु 2,97,717 की वसूली फर्म से किया जाना अपेक्षित है।

1- जनकपुरी रोड सी0 ब्लाक में व आस-पास की गलियों सहित तक

माह जनवरी सफाई कर्मचारी 04 57 दिवस अनुपस्थिति

माह फरवरी सफाई कर्मचारी 04 45 दिवस अनुपस्थिति

कटौती जनवरी 2023 माह = $57/124 \times 74500 \times 2.5 = 85,615$

कटौती फरवरी 2023 माह = $45/112 \times 74500 \times 2.5 = \underline{74,833}$

1,60,448

2- राजेन्द्र नगर सै-5 व जी0डी0ए0 मार्किट व आस-पास की गलियों सहित तक

माह जनवरी 2023 सफाई कर्मचारी 04 57 दिवस अनुपस्थिति

माह फरवरी 2023 सफाई कर्मचारी 04 41 दिवस अनुपस्थिति

कटौती जनवरी 2023 माह = $57/124 \times 74500 \times 1.85 = 63,355$

कटौती फरवरी 2023 माह = $41/112 \times 74500 \times 1.85 = \underline{50,454}$

1,13,809

3- कटोरी मिल शौचालय से मोहन नगर चौक होते हुए नरेन्द्र मोहन अस्पताल तक मय सर्विस लेन दोनों साईड तक

माह जनवरी 2023 सफाई कर्मचारी 04 43 दिवस अनुपस्थिति

माह फरवरी 2023 सफाई कर्मचारी 04 57 दिवस अनुपस्थिति

कटौती जनवरी 2023 माह = $57/124 \times 74500 \times 2.05 = 70,204$

कटौती फरवरी 2023 माह = $43/112 \times 74500 \times 2.05 = \underline{58,635}$

1,28,839

4- डी0एल0एफ0 पुलिस चौकी से भगत सिंह चौक से होते हुए डी0एल0एफ0 गेट तक एवं सेन्ट्रल पार्क के आस-पास की गलियों सहित तक

माह जनवरी 2023 सफाई कर्मचारी 04 59 दिवस अनुपस्थिति

माह फरवरी 2023 सफाई कर्मचारी 04 41 दिवस अनुपस्थिति

कटौती जनवरी 2023 माह = $59/124 \times 74500 \times 4 = 1,41,790$

कटौती फरवरी 2023 माह = $41/112 \times 74500 \times 4 = \underline{1,09,089}$

2,50,879

5- शालीमार गार्डन मैन में भारत माता चौक के आस-पास विक्रम एन्कलेव प्रयास पार्क के आस-पास, छाबड़ा चौक पप्पू कालोनी रोड, विवेकानन्द चौक के आस-पास तक।

माह जनवरी 2023 सफाई कर्मचारी 04 43 दिवस अनुपस्थिति

माह फरवरी 2023 सफाई कर्मचारी 04 31 दिवस अनुपस्थिति

कटौती जनवरी 2023 माह = $43/124 \times 74500 \times 2 = 51,669$

कटौती फरवरी 2023 माह = $31/112 \times 74500 \times 2 = 41,241$

92,910

कुल कटौती = $1,60,448 + 1,13,809 + 1,28,839 + 2,50,879 + 92,910 = \text{रु } 7,46,885$

बिल से काटी गयी कटौती = रु 5,000

रु 7,41,885

10-स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्रय किये गये डीजल तथा आयल हेतु किये गये भुगतान, स्टॉक पंजिका/उपभोग पंजिका/लॉगबुक के अभाव में असत्यापित रु 3,82,52,856 :-

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में उप सम्परीक्षा माहों के व्यय प्रमाणकों की जाँच के समय प्रकाश में आया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा निम्नलिखित विवरणानुसार डीजल व आयल आदि के क्रय हेतु रु 3,82,52,856.00 का भुगतान मात्र उप सम्परीक्षा माहों में किया गया था। परन्तु नगर निगम द्वारा उक्त क्रय के सत्यापनार्थ/पुष्टि हेतु डीजल/आयल की स्टॉक पंजिका/उपभोग पंजिका/लॉगबुक आदि सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी और न ही डीजल/आयल की आवश्यकता/मांग के सत्यापनार्थ कोई अभिलेख व्यय प्रमाणक के साथ संलग्न थे जिससे उक्त क्रय हेतु किये गये भुगतान/व्यय का सत्यापन/पुष्टि नहीं किया जा सका। अतएव डीजल/आयल की आवश्यकता/उपयोग से सम्बन्धित अभिलेख स्टॉक पंजिका/उपभोग पंजिका/लॉगबुक/मांग पत्र आदि अभिलेख सम्परीक्षा में आगामी अवसर पर प्रस्तुत कर तत्सम्बन्धी आवश्यक जाँच करायी जाय। उप सम्परीक्षा माहों में किये गये डीजल/आयल हेतु भुगतान का विवरण निम्नवत है।

क्र०	वा०सं० /दिनांक	धनराशि	विवरण
------	----------------	--------	-------

1	119 / 02-02-2023	3,08,400	मै0 राज ट्रेडिंग कम्पनी को भुगतान
2	120 / 02-02-2023	2,57,100	---"---
3	121 / 02-02-2023	98,750	मै0 साईजन ऐन्ट0
4	122 / 02-02-2023	5,88,000	---"---
5	212 / 09-02-2023	17,73,225	मै0 एस0जी0फिल पॉइन्ट को डीजल हेतु भुगतान
6	07 / 02-02-2023	17,73,325	---"---
7	08 / 02-02-2023	23,16,920	मै0 हिडन फिलिंग सेन्टर को पेट्रोल एवं डीजल का भुगतान
8	09 / 02-02-2023	56,02,317	---"---
9	10 / 02-02-2023	45,13,668	---"---
10	11 / 02-02-2023	35,653	मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0
11	98 / 02-02-2023	4,33,600	मै0 श्री राम ट्रेडर्स
12	99 / 02-02-2023	4,33,600	---"---
13	487 / 22-02-2023	17,73,225	मै0 एस0जी0फिल पॉइन्ट
14	488 / 22-02-2023	4,43,306	---"---
15	498 / 22-02-2023	19,30,346	मै0 बजाज प्राइम फयूल्स
16	499 / 22-02-2023	5,06,074	---"---
17	500 / 22-02-2023	2,84,465	मै0 हिडन फिलिंग सेन्टर
18	626 / 28-03-2023	29,368	---"---
19	627 / 28-03-2023	20,277	---"---
20	628 / 28-03-2023	23,974	---"---
21	629 / 28-03-2023	18,181	---"---

22	630 / 28-03-2023	23,174	---
23	631 / 28-03-2023	9,656	---
24	632 / 28-03-2023	30,154	---
25	633 / 28-03-2023	28,016	---
26	634 / 28-03-2023	14,484	---
27	635 / 28-03-2023	29,368	---
28	636 / 28-03-2023	12,113	---
29	637 / 28-03-2023	10,056	---
30	638 / 28-03-2023	16,151	---
31	639 / 28-03-2023	15,450	---
32	643 / 28-03-2023	57,95,979	---
33	644 / 28-03-2023	15,89,897	---
34	645 / 28-03-2023	15,69,304	मै0 बजाज प्राइम फ्यूल्स
35	646 / 28-03-2023	95,245	---
36	647 / 28-03-2023	2,42,760	---
37	1618 / 31-03-2023	2,44,500	मै0 महाकाल ओटो मोबाइल
38	1619 / 31-03-2023	1,46,880	---
39	263 / 01-03-2023	28,072	मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0
40	275 / 01-03-2023	22,56,894	मै0 हिडन फिलिंग स्टेशन
41	276 / 01-03-2023	29,30,929	---
	योग =	3,82,52,856. 00	

उल्लेखनीय है कि उक्त के सम्बन्ध में अधियाचन सं0-28 दिनांक 06.09.2023, 60 दिनांक 06.11.2023, उपनिदेशक मेरठ मण्डल, मेरठ के पत्रांक संख्या- 1436 दिनांक 22.08.2023 एवं जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, गाजियाबाद के पत्रांक संख्या- 610 दिनांक 10.10.2023 निर्गत किये जाने

के बावजूद भी वाहनों की एवं अन्य लॉग बुकें सम्परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने से स्पष्ट था कि इनमें गम्भीर अनियमितताएँ विद्यमान होने की पूर्ण सम्भावना थी। अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

3- राजकीय राजस्व क्षति के प्रकरण :-

1-नगर निगम, गाजियाबाद में निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उप-खनिजों पर रायल्टी की कम/न कटौती किये जाने के कारण शासन को रु 2,57,68,480 की राजस्व हानि :-

उ0प्र0 शासन के भूतत्व एवं खनिज अनुभाग के शासनादेश सं0-3385/88-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 द्वारा निर्देशित किया गया था कि सार्वजनिक निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उप-खनिजों को आपूर्ति प्राप्त कराते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्राप्त किये जाने वाले उप-खनिज नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र (एम0एम0-11) के आधार पर परिवहन किये गये हैं, जिन मामलों में राँयल्टी का भुगतान किये बिना उप-खनिजों की आपूर्ति हुई है। उनके बिलों का भुगतान करने से पूर्व निर्धारित दर पर राँयल्टी की धनराशि की कटौती कर लेखा शीर्षक में अवश्य जमा कर दी जाय।

शासनादेश के बिन्दु संख्या- 2, द्वारा यह भी इंगित किया गया था। कि उक्त शासनादेश की आड़ में कार्यदायी संस्था के संबंधित ठेकेदारों द्वारा ऐसे स्थान अथवा ऐसे जनपदों में जहाँ उप-खनिजों के खनन के लिए खनन पट्टे स्वीकृत हैं एवं वैध अभिवहन प्रपत्र किया जा सकता है, उन स्थानों पर भी उप-खनिज यथा बालू, मौरंग आदि का अवैध रूप से खनन कर निर्माण कार्यों में प्रयोग कर लेते हैं ठेकेदारों के द्वारा इस प्रकार से खनिज उपलब्ध किये जाने से न सिर्फ अवैध खनन की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, अपितु अनियमित खनन से पर्यावरण एवं परिस्थिति के भी प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है।

उक्त अधिनियम की धारा-21(5) के प्रावधानों के अनुसार खनिजों का अवैध खनन कर उसका उपभोग कर लिया गया है, तो अवैध खननकर्ता से राँयल्टी के साथ-साथ खनिज मूल्य सामान्यता: राँयल्टी का पाँच गुना की कटौती ठेकेदार के बिल से करते हुए निर्धारित लेखा-शीर्षक- 0853 अलौह खनन तथा धातु कर्म अद्योग 102 खनिज रियामत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क में जमा करा लिया जाए तथा ट्रेजरी चालान की एक प्रति जिलाधिकारी को भेज दी जायेगी।

नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्माण कार्य पत्रावलियों की नमूना जाँच में पाया गया कि निगम द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में उपभोग किये गये खनिजों के सापेक्ष ठेकेदार द्वारा अभिवहन प्रपत्र-11 प्रस्तुत नहीं किये गये थे और न ही निगम द्वारा ठेकेदार के बिल से रॉयल्टी की कटौती की गयी थी तथा उस पर लगायी गयी पैनल्टी, और रॉयल्टी दर का पाँच गुना होती है उसकी कटौती भी नहीं की गयी थी।

जिससे शासन को धनराशि रूपये- (विवरण संलग्न) की हानि हुई। शासनादेश सं०-243/86-2016-200/77टी०सी०-ग्यारह दिनांक 19.01.2016 के द्वारा खनिजों पर रॉयल्टी की दरें निर्धारित की गयी थी। उक्त अधिनियम की धारा 21(5) के अनुसार उक्त काटी गयी रॉयल्टी की धनराशि रू० 51,53,696 का पाँच गुना पैनल्टी लगाने पर 2,57,68,480 की राजस्व क्षति परिलक्षित हुई। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय। ऐसे प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट '9' में दिया गया है।

2- नगर निगम की उदासीनता के कारण ठेका पार्किंग न उठाये जाने के कारण नगर निगम को रू० 4,24,17,155 की आर्थिक क्षति एवं जी०एस०टी० तथा टी०सी०एस० के रूप में रू० 84,83,431 की राजस्व क्षति :-

सम्परीक्षा में प्रस्तुत ठेका पार्किंग की पत्रावलियों की जाँच में प्रकाश में आया कि नगर निगम गाजियाबाद सीमान्तर्गत संचालित सामान्य पार्किंग स्थलों एवं औद्योगिक क्षेत्रान्तर्गत खड़े होने वाले वाहनों से पार्किंग शुल्क की वसूली हेतु ठेका पार्किंग स्थलों का ठेका छोड़े जाने की व्यवस्था थी। सरस्वती शिशु मन्दिर क्रीड़ा स्थल पार्किंग की पत्रावली में संलग्न पार्किंग प्रभारी नगर निगम गाजियाबाद के पत्रांक 139/पार्किंग/2023-24 दिनांक 06.05.2023 द्वारा जोनल प्रभारी सिटी जोन नगर निगम गाजियाबाद से उक्त पार्किंग स्थल का निरीक्षण किये जाने एवं प्रतिदिन निगम कोष में पार्किंग शुल्क की जमा करायी गयी धनराशि का विवरण मॉगा गया था। जिसके क्रम में जोनल प्रभारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 08.06.2023 द्वारा अवगत कराया गया था कि सिटी जोन की सूची में 06 पार्किंग स्थल चिन्हित किये गये हैं, में वसूली कार्य हेतु जोन में कोई स्टाफ उपलब्ध न होने के कारण वसूली किया जाना सम्भव नहीं है तथा पार्किंग स्थलों की पूर्व में कोई जानकारी नहीं है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आलोच्य वर्ष की सम्परीक्षा में नगर निगम स्तर से पार्किंग शुल्क की वसूली से सम्बन्धित कोई भी एम०एस०टी०-5 की रसीदें प्रस्तुत नहीं की गयी थी।

जिससे यह स्वतः ही स्पष्ट हो रहा था कि नगर से स्तर से पार्किंग की वसूली नहीं की गयी थी। इस प्रकार समयान्तर्गत जान बूझकर पार्किंग स्थलों के ठेके न उठाये जाने के कारण नगर निगम को निम्नवत् रू0 2,55,69,655 की आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी थी।

क्र0	पार्किंग स्थल का विवरण	बेस प्राईस (रू0)	
1	शिवा टावर के बाहर	2,39,544	
2	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क के बाहर	2,92,000	
3	नवयुग मार्केट पंजाब नेशनल बैंक व इलाहाबाद बैंक के बाहर	4,20,000	
4	टार0टी0ओ0 कार्यालय के बाहर	11,11,111	
5	मुख्य कार्यालय नवयुग मार्केट पोस्ट आफिस से स्टेट बैंक तक	4,20,000	
6	ठाकुर द्वारा फलाई ओवर के नीचे स्थित पार्किंग	6,57,000	
7	मोहन नगर सीदार पटेल संस्थान के बराबर में सड़क के दोनो ओर	7,30,000	
8	कविनगर जोन औद्योगिक क्षेत्र स्थित पार्किंग	1,06,25,000	
9	विजय नगर जोन औद्योगिक क्षेत्र स्थित पार्किंग	29,43,750	
10	सिटी जोन औद्योगिक क्षेत्र स्थित पार्किंग	81,31,250	
11	आराधना सिनेमा से अप्सरा बार्डर तक टैम्पो पार्किंग	5,47,500	वर्ष 2021-22 के अनुसार बेस प्राईस
12	मोहन नगर जोनान्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र	78,00,000	
13	कविनगर जोनान्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र बुलन्दशहर रोड	85,00,000	
	योग	4,24,17,155	

साथ ही उक्त पर देय 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 रू0 76,35,088 एवं 2 प्रतिशत टी0डी0एस0 रू0 8,48,343 कुल रू0 84,83,431 की न्यूनतम राजस्व क्षति भी हुयी थी। अतः उक्त के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुये आवश्यक/प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

3- ठेका पार्किंग में ठेकेदारों से निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पर अनुबन्ध न किये जाने के कारण शासन को रू0 4,29,500 की राजस्व क्षति :- वर्ष 2022-23 के ठेका पार्किंग की पत्रावलियों की जाँच में प्रकाश में आया कि आलोच्य अवधि हेतु नगर निगम द्वारा विभिन्न स्थानों पर ठेका पार्किंग

से सम्बन्धित कुल 11 पत्रावलियों समपरीक्षा हेतु प्रस्तुत की गयी थी। उक्त ठेकों से सम्बन्धित उच्चतम ई-निविदा/खुली बोली के आधार पर यह ठेके स्वीकृत किये गये थे। सम्बन्धित ठेकेदारों से प्रभारी पार्किंग नगर निगम गाजियाबाद द्वारा तमत्र रू0 100 के ई-स्टाम्प पर अनुबन्ध कराये गये थे। जबकि भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899 की अनुसूची 1'ख' अनुच्छेद-35 के अनुसार रू0 40 प्रति हजार की दर से तथा उसके अंश की गणनानुसार रू0 10 के पूर्णांक के मूल्य के स्टाम्प पर अनुबन्ध कराया जाना चाहिये था। अतः नियमानुसार निर्धारित मूल्यों के स्टाम्प पर अनुबन्ध न कराये जाने के कारण शासन को निम्नवत् राजस्व क्षति पहुचायी गयी थी।

क्र0	पार्किंग स्थल	ठेकेदार का नाम	ठेका धनराशि	देय स्टाम्प	लगाया स्टाम्प	राजस्व क्षति (रू0)
1	यशोदा अस्पताल नेहरू नगर	मै0 भारद्वाज ट्रेडिंग कम्पनी	16,50,000	66,000	100	65,900
2	आपुलेन्ट मॉल के बाहर पार्किंग	मै0 दुर्गाशी इन्टरप्राइजेज	16,11,000	64,440	100	64,340
3	आर0के0 टावर वैशाली संख्या-4	मै0 विस्तार डवलपर्स	7,68,000	30,720	100	30,620
4	पुरानी सब्जी मण्डी पार्किंग	मै0 नार्थ इण्डिया डवलपर्स	6,21,000	24,840	100	24,740
5	मीटा कम्पनी वर्ल्ड स्क्वायर मॉल मोहन नगर	मै0 जे0बी0जे0एस0 इन्टरप्राइजेज	9,00,000	36,000	100	35,900
6	गौर मॉल गेट के सामने पार्किंग	मै0 आर0के0 कान्द्रैक्टर्स	12,37,786	49,520	100	49,420
7	तहसील कम्पाउण्ड मदर डेयरी पार्किंग	मै0 शिव कन्सट्रक्शन	6,71,000	26,840	100	26,740
8	सरस्वती शिशु मन्दिर क्रीड़ा स्थल पार्किंग	मै0 पवन कुमार शर्मा	9,62,800	38,520	0	38,520
9	गौर मॉल के बराबर से एप्पल ट्री को जाने वाली सड़क पार्किंग	मै0 आर0के0 कान्द्रैक्टर्स	11,37,786	45,520	100	45,420

10	साईट-1 इन्डस्ट्रियल एरिया बुलन्दशहर रोड	मै0 एलिन इलेक्ट्रनिक्स	4,00,000 (बिना टेण्डर के)	16,000	0	16,000
11	श्री कृष्ण वाटिका संख्या-4 वैशाली	मै0 अरविन्द कुमार	8,00,000	32,000	100	31900
	योग					4,29,500

अतः उपर्युक्त के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुये उत्तरदायी के विरुद्ध आवश्यक कार्य कर राजस्व क्षति की प्रतिपूर्ति कराया जाना अपेक्षित है।

4- वार्ड-19 पटेल नगर तृतीय स्थित संजय गीता पार्क के सौन्दर्यकरण का कार्य में ठेकेदार के बिल से रू0 4,21,018 बिलम्ब दण्ड, रू0 1,20,625 रायल्टी की कटौती न किया जाना व रू0 1,81,689 परफोरमेन्स गारन्टी कम लिया जाना एवं रू0 68,633 का अधिक भुगतान :-

दिनांक 26-12-2020 को महापौर की अध्यक्षता में 15 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत सिटी जोन वार्ड सं0-19 पटेल नगर तृतीय संजय गीता पार्क के सौन्दर्यकरण का कार्य को पारित किया गया जिसकी स्वीकृति नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद द्वारा दिनांक 05-02-2021 को दी गयी। जिसकी सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर दिनांक 20-09-2021 को ई निविदा आमन्त्रित की गयी। उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त 04 निविदाओं में सर्वन्यूनतम निविदाता मैसर्स लीसा कन्सट्रक्शन को आगणन धनराशि 42,10,181 पर 26.50 प्रतिशत कम पर रू0 30,94,483=10 में उघान प्रभारी नगर निगम गाजियाबाद के कार्य आदेश सं0-355/1/उघान/2022-23 दिनांक 30-07-2022 द्वारा कार्य आवंटन किया गया था। उपरोक्त कार्य हेतु ठेकेदार को व्यय प्रमाणक सं0-2318 दिनांक 31-03-2023 रू0 11,16,000 का भुगतान किया गया था। उपरोक्त कार्य में निम्न अनियमितारें प्रकाश में आयी।

(1) कार्य की प्रारम्भ तिथि-30-7-22 तथा कार्य समाप्ति तिथि 30-08-2022 थी। पत्रावली व माप पुस्तिका के अनुसार कार्य दिनांक 27-12-2022 को समाप्त हुआ। इस प्रकार कार्य 119 दिवस विलम्ब से पूर्ण हुआ। अनुबन्ध की शर्त सं0-02 के अनुसार कार्य में देरी के लिए ठेकेदार पर कार्य की आगणन राशि पर 01 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड लिया जाना था बिना अर्थदण्ड की यह राशि आगणित धनराशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार 4210181×10

प्रतिशत विलम्ब दण्ड रू0 4,21,018 ठेकेदार से वसूल लिया जाय।

(2) उ0प्र0 शासन के भूत्व एवं खनिज अनुभाग के शासनादेश सं0-3385/88-2015-292/2015 दिनांक 15-10-2015 द्वारा निर्देशित किया गया था कि सार्वजनिक निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्राप्त किये जाने वाले उप खनिज नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर अभिवहन प्रपत्र-11 (एम0एम0-11) के आधार पर परिवहन किये गये बिना उप खनिजों की आपूर्ति हुई हो, उनके बिलों का भुगतान करने से पूर्व निर्धारित दर पर रायल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्षक में अवश्य जमा की जाय।

इस निर्माण कार्य में उपभोग किये गये खनिजों के सापेक्ष ठेकेदार द्वारा अभिवहन प्रपत्र-11 (एम0एम0-11) प्रस्तुत नहीं किये गये और न ही निगम ठेकेदार के बिल से रायल्टी की कटौती की गयी थी तथा उस पर लगायी गयी पेनाल्टी जो रायल्टी दर का पाँच गुना होती है। उसकी कटौती भी नहीं की गयी थी। जिससे शासन को निम्न विवरणानुसार रूपये 1,20,625 की क्षति हुई।

मद	दर (घन मी0)	धनराशि
102.48 फाइन सैंड	65/-	6661
54.58 कोर्स सैंड	100/-	5458
109.15 स्टोन बैलास्ट	110/-	12006
		24125×5 = 1,20,625

(3) कार्य में अतिरिक्त परफॉरमेन्स गारन्टी आगणन धनराशि पर 10 प्रतिशत से अधिक ब्लो (न्यून) पर ठेकेदार द्वारा निविदा/टेण्डर डाले जाने की स्थिति में 10 प्रतिशत बिलो (न्यून) तक 50 प्रतिशत 01 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से कम दर पर ली गयी थी। इस प्रकार रूपये 7,23,500 अतिरिक्त परफॉरमेन्स गारन्टी ली गयी थी। उपरोक्त नियमानुसार उक्त कार्य पर रू0 905189 अतिरिक्त परफॉरमेन्स गारन्टी ली जानी थी इस प्रकार रू0 1,81,689 अतिरिक्त परफॉरमेन्स गारन्टी कम ली गयी थी। रू0 1,81,689 अतिरिक्त परफॉरमेन्स गारन्टी कम लिये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

(4) आगणन की मद सं0-06 "एम0 150 ब्रिक वर्क-एफ0 एम0 मोर्टर s.1-no-305" कार्य की दर 4950 प्रति घन मी0 दी गयी थी जिसके अनुसार 207.98 घन मी0 कार्य की रू0 1029501

(207.98×4950) का भुगतान किया गया था। उ0प्र0 पी0डब्ल्यू डी0 शैड्यूल 2020 के अनुसार सीड्यूल मद सं0-305 के अनुसार उपरोक्त मद के कार्य की दर 4620 प्रति घन मी0 दी गयी थी रू0 4950 प्रति घन मी0 की दर से उक्त मद के कार्य का भुगतान किये जाने का कारण स्पष्ट किया जाय अन्यथा स्थिति में रू0 68,633 (4950-4620 = 330×207.98) अधिक भुगतान की वसूली ठेकेदार से किया जाना अपेक्षित है।

5 – मैसर्स मेरठ स्केप ट्रेडिंग कम्पनी को निगम निधि से जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 34,20,000 भुगतान किये जाने का औचित्य स्पष्ट न किया जाना :-

व्यय प्रमाणकों एवं बही की जांच के प्रकाश में आया कि व्यय प्रमाणक संख्या – 600 दिनांक 21-3-2023 द्वारा मैसर्स स्केप ट्रेडिंग कम्पनी को 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 34,20,000 का भुगतान किया गया था। निगम द्वारा उक्त जी0एस0टी0 धनराशि की धनराशि फर्म द्वारा निगम कोष में जमा करायी गयी धनराशि के सापेक्ष वापस किया जाना दर्शाया गया था। नगर निगम द्वारा न तो इस धनराशि के निगम कोष में जमा की पुष्टि करायी गयी और न ही यहा स्पष्ट किया गया कि उक्त धनराशि , जो कि जी0एस0टी0 की धनराशि वापसी दर्शायी गयी थी, किन कारणों/नियमों के अधीन मैसर्स मेरठ स्केप ट्रेडिंग कम्पनी को वापस की गयी थी, स्पष्ट नहीं कराया गया। जिसके कारण जी0एस0टी0 धनराशि 34,20,000 की वापसी का औचित्य स्पष्ट न हो सका। अतः सम्बन्धित शासनादेश/अभिलेखों के आधार पर इसे स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में रू0 34,20,000 का भुगतान किया जाना अनियमित था।

6- वार्ड सं0-22 अमृत स्टील कम्पाउन्ड जी0एस0 इंजीनियरिंग के सामने पार्क को विकसित करने का कार्य में ठेकेदार के बिल से रू0 2,49,474 बिलम्ब दण्ड की कटौती न किया जाना व रू0 91694 परफोरमेन्स गारन्टी कम लिया जाना एवं रू0 62692 का अधिक भुगतान व रू0 44,356 जी0एस0टी0 का भुगतान अधिक किया जाना --:

दिनांक 26-12-2020 को महापौर की अध्यक्षता में 15 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वार्ड-22 अमृत स्टील कम्पाउन्ड जी0एस0 इंजीनियरिंग के सामने पार्क को विकसित करने का कार्य को पारित किया गया जिसकी स्वीकृति नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद द्वारा दिनांक

01-01-2022 को दी गयी। ई निविदा के माध्यम से सर्व न्यूनतम निविदातात मैसर्स मारुति बिल्डर एण्ड कान्स्ट्रक्टर को आगणन धनराशि 2494743 पर 20.70 प्रतिशत कम दर रू0 1978331 में उघान प्रभारी नगर निगम गाजियाबाद के कार्य आदेश सं0-891/उघान/2022-23 दिनांक 25-05-2022 द्वारा कार्य आवंटन किया गया था। उपरोक्त कार्य हेतु ठेकेदार के द्वितीय एवं अन्तिम बिल का भुगतान व्यय प्रमाणक सं0-2326/31-03-2023 रू0 790600 किया गया था। उपरोक्त कार्य में निम्न अनियमितताएँ प्रकाश में आयीं -

(1) उपरोक्त कार्य की प्रारम्भिक तिथि 25-05-2022 तथा कार्य की समाप्ति तिथि 25-06-2022 थी। माप पुस्तिका सं0-21188 के पृष्ठ सं0-09 के अनुसार कार्य दिनांक 09-03-2023 समाप्त हुआ। इस प्रकार कार्य 257 दिवस बिलम्ब से पूर्व हुआ। अनुबन्ध की शर्त सं0-02 के अनुसार कार्य में देरी करने के लिए ठेकेदार पर कार्य से आगणन राशि पर 1 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड लिया जाना था किन्तु अर्थदण्ड की यह धनराशि आगणन धनराशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार रू0 2,49,474 (249474×10 प्रतिशत) बिलम्ब दण्ड ठेकेदार से वसूल किया जाय।

(2) पत्रावली के नोटिंग पृष्ठ सं0-1 के अनुसार आगणन उ0प्र0 पी0 डब्ल्यू0 शैडयूल 2020 की निर्धारित दरों के आधार पर तैयार किया गया था। जिससे आगणन की मद सं0-03 एम0 150 ब्रिक वर्क एफ0 एम0 मोर्टर s.1-no-305 कार्य की दर 4620 प्रति घन मी0 दी गयी थी। परन्तु आगणन में उक्त मद के कार्य की दर 4950 प्रति घन मी0 दर्शायी गयी थी। जिसके अनुसार एम0बी0 में अंकित मद सं0-03 203.02 घन मी0 4950 प्रति घन मी0 की दर से रू0 1004949 का भुगतान ठेकेदार को किया गया था। इस प्रकार ठेकेदार को निम्न विवरणानुसार रू0 62692 का अधिक भुगतान किया गया था। जिसके ठेकेदार से वसूली किया जाना अपेक्षित है।

उ0प्र0 पी0 डब्ल्यू डी0 शैडयूल 2020 के अनुसार 4620 प्रति घन मी0

मद सं0-03 एम0 150 ब्रिक वर्क s.1-no-305 की दर

ठेकेदार को भुगतानित उपरोक्त मद की दर 4950

कार्य की मात्रा = 203.02 घन मी0

अधिक भुगतान = $330(4950-4620) \times 203.02$

$$= 66,997$$

$$(-) 20.70 \text{ निम्न दर पर } = (-) 13,868$$

$$53129$$

$$+ \text{ जी0एस0टी0 18 प्रतिशत } + 9563$$

$$62692$$

(3) शासनादेश सं0-622/23-12-2012-2 आडिट/08 टी0 सी0 दिनांक 08-06-2012 के अनुसार अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी आगणन धनराशि पर 10 प्रतिशत से अधिक बिलो (न्यून) पर ठेकेदार द्वारा निविदा/टेण्डर डाले जाने की स्थिति में 10 प्रतिशत बिलो तक .50 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलो (न्यून) दर पर 01 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत दर पर रू0 3,00,000 ली गयी थी। जबकि निम्नलिखित सही गणनानुसार रू0 391674 अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी आगणित होती है।

$$10 \text{ प्रतिशत बिलो (न्यून) तक } .50 \text{ प्रतिशत } 2494743 \times 5 \text{ प्रतिशत } = 124737$$

$$10 \text{ प्रतिशत से अधिक बिलो (न्यून) तक } 1 \text{ प्रतिशत } = 2494743 \times 10.7 \text{ प्रतिशत}$$

$$= 266937$$

$$391674$$

इस प्रकार रू0 91674 (391674-3,00,000) अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी कम ली गयी थी रू0 91674 अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी कम लिये जाने का औचित स्पष्ट किया जाय।

(4) उपरोक्त कार्य के द्वितीय एवं अन्तिम बिल के अनुसार ठेकेदार को रू0 1,33,068=60 एवं 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 का भुगतान किया गया था। कार्यादेशानुसार उपरोक्त कार्य की समाप्ति तिथि 25-06-2022 थी। जबकि माप पुस्तिका के अनुसार कार्य की वास्तविक समाप्ति तिथि 09-03-2023 थी। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0-03/2022 सैन्डल /रेट दिनांक 13-07-2022 द्वारा दिनांक 18-07-2022 से जी0एस0टी0 की दरों को 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत बढ़ाकर किया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि यदि ठेकेदार द्वारा कार्य को निर्धारित समय (कार्यअवधि) पर पूर्ण किया जाता तो नगर निगम गाजियाबाद को ठेकेदार को भुगतानित 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 रू0 1,33,068=60 के स्थान पर रू0 88,712=40 (1,33,068 = 60 × 2) 12 प्रतिशत 3 जीएस0टी0 का भुगतान करना होता। इस प्रकार रू0 44,356 का भुगतान

जी0एस0टी0 के रूप में ठेकेदार को किया गया था। इससे नगर निगम को प्राप्त अनुदान रू0 44,356 का अपव्यय हुआ था। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किया जाय।

7 – विजय नगर जोन वार्ड सं0-15, प्रताप बिहार संतोष मेडिकल के पास स्थित मदर डेयरी के सामने स्थित ग्रीन बैल्ट को पार्क के रूप में विकसित करने का कार्य में ठेकेदार के बिल से रू0 5,66,867 बिलम्ब दण्ड, रू0 2,86,625 रॉयल्टी की कटौती न किया जाना व रू0 61,697 ठेकेदार को अधिक भुगतान किये जाने –:

उद्यान विभाग की पत्रावली की सम्परीक्षा में प्रकाश में आया कि 15 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत विजयनगर जोन के अन्तर्गत वार्ड सं0-15 प्रताप बिहार सं0-15 संतोष मेडिकल स्थित ग्रीन बैल्ट की पार्क के रूप में विकसित करने का कार्य की स्वीकृति नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद द्वारा दिनांक 05-01-2021 को दी गयी थी। जिसकी सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर दिनांक 07-06-2021 को ई-निविदा आमन्त्रित की गयी। उपरोक्त कार्य को सर्वन्यूनतम निविदादाता में लीली कन्स0 को आगणन धनराशि 58,68,672 पर 26.50 प्रतिशत कम पर 43,13,474=39 में उद्यान प्रभारी नगर निगम गाजियाबाद के कार्य आदेश सं0-344/उद्यान/2022-23 दिनांक 13-7-22 द्वारा कार्य आवंटन किया गया था। उपरोक्त कार्य हेतु ठेकेदार को व्यय प्रमाणक सं0-2317 दिनांक 31-03-2023 रू0 20,66,600 का भुगतान किया गया था। उपरोक्त कार्य में निम्न अनियमितताएँ प्रकाश में आयीं –

(1) उपरोक्त कार्य की प्रारम्भिक तिथि 13-07-2022 तथा कार्य की समाप्ति तिथि 12-08-2022 थी। माप पुस्तिका सं0-25401 के पृष्ठ सं0-02 के अनुसार कार्य 447 दिन विलम्ब से पूर्ण हुआ। अनुबन्ध की शर्त सं0- 2 के अनुसार कार्य में देरी करने के लिए ठेकेदार पर कार्य की आगणन राशि पर 1 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड लिया जाना था किन्तु अर्थदण्ड की यह धनराशि आगणन धनराशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार रू0 5,86,867 (58,68,672×10 प्रतिशत) विलम्ब दण्ड लिया जाना चाहिए था। ठेकेदार के बिल से केवल 20,000 की कटौती की गयी थी। इस प्रकार ठेकेदार के 56,68,67 (58,68,67-20,000) विलम्ब दण्ड वसूल किया जाय।

(2) उ0प्र0 शासन के भूतत्व एवं खनिज अनुभाग के शासनादेश सं0-3385/88-2015-

292/2015 दिनांक 15-10-15 द्वारा निर्देशित किया गया था कि सार्वजनिक निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्राप्त किये जाने वाले उप खजिन नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर अभिवहन प्रपत्र-11 (एम0एम0-11) के आधार पर परिवहन किये गये बिना उप खजिजो की आपूर्ति हुई हो, उनके बिलो का भुगतान करने से पूर्व निर्धारित दर पर रायल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्षक में अवश्य जमा की जाय। इस निर्माण कार्य मे उपभाग किये गये खनिजो के सापेक्ष ठेकेदार द्वारा अभिवहन प्रपत्र-11 (एम0एम0-11) प्रस्तुत नहीं किये गये और न ही निगम ठेकेदार के बिल से रॉयल्टी की कटौती की गयी थी तथा उस पर लगायी गयी पेनाल्टी जो रॉयल्टी दर का पाँच गुना होती है। उसकी कटौती भी नहीं की गयी थी जिससे शासन को निम्नविवरणानुसार रूपये 2,866,25 की क्षति हुई।

मद	दर(घन मी0)	धनराशि
161.89 फाइन सैंड	65 / -	10,523
96.29 कोर्स सैंड	100 / -	9629
337.94 श्टोन बैलास्ट/ग्रीट	110 / -	12,006
		57,325 × 5 = 2,86,625

(3) आगणन की मद सं0-5 एम0-150 ब्रिक वर्क -एफ0 एम0 मोर्टर s.1-no-305 कार्य की दर 4950 प्रति घन मी0 दी गयी थी जिसके अनुसार 186.96 घन मी0 कार्य का रू0 925452 (186.96×4950) का भुगतान किया गया था। उ0प्र0 पी0 डब्ल्यू0 डी शैड्यूल 2020 के अनुसार उपरोक्त मद के कार्य की दर 4620 प्रति घन मी0 दी गयी थी। रू0 4950 प्रति घन मी0 की दर से उक्त मद के कार्य का भुगतान किये जाने से रू0 61,697 (4950-4620 =330×186.96) अधिक भुगतान की वसूली ठेकेदार से कियाना अपेक्षित है।

8- 02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क रूपये 6,33,27,58,530 की वसूली न होना -

आलोच्य अव ध की सम्परीक्षा में 02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क सम्बन्धी जांच में प्रकाश में आया क आलोच्य अव ध में नगर निगम को 02% स्टाम्प शुल्क की मद में रु 1,75,40,64,541 निगम अशं 0.75 प्रतिशत की दर से प्राप्त होने थे। परन्तु आलोच्य वर्ष में उक्त मद के अन्तर्गत मात्र रु 33,89,75,621 ही प्राप्त हुए थे। जिसके कारण आलोच्य वर्ष की धनरा श रु 141,50,88,920 वसूली हेतु अवशेष थी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त गत एवं वगत वर्षों की वसूली योग्य धनराश का ववरण निम्नवत था। इसकी वसूली न होने से नगर निगम को रु 6332758530 की आर्थक क्षति हुयी थी। इसकी शीघ्र वसूली हेतु निगम के उच्चाधिकारियों का दयान वशेष रूप से आकृष्ट कया जाता है।

02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की वसूली हेतु अवशेष धनराश का ववरण निम्नवत है-

अवध	प्राप्त होने योग्य धनराश	प्राप्त धनराश	अवशेष धनराश
2010-11	456680688	349663915	107016773
2011-12	679633562	617217611	62415951
2012-13	518911042	शून्य	518911042
2013-14	515507730	53602154	461905576
2014-15	695123783	407572439	287551344
2015-16	632142610	459796577	172346033
2016-17	633656344	596965201	36691143
2017-18	740057145	684124973	55932172
2018-19	873654686	245765328	627889358
2019-20	829994610	शून्य	829994610
2020-21	729085429	शून्य	729085429
2021-22	1054088798	26158619	1027930179
2022-23	1754064541	338975621	1415088920

योग 10112600968 = 6332758530 - 3779842438 -

4- भण्डार/जेम एवं क्रय सम्बन्धी अनियमितताएँ :-

1-लॉग बुकों के अभाव में गाड़ियों की मरम्मत हेतु किया गया भुगतान आपत्तिजनक रु 50,73,870:-

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा के उप सम्परीक्षा माहों के व्यय प्रमाणकों की जांच के समय प्रकाश में आया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा निम्नलिखित विवरणानुसार विभिन्न गाड़ियों की मरम्मत/सर्विस हेतु रु 50,73,870 का भुगतान मात्र उप सम्परीक्षा माहों में किया गया था। परन्तु नगर निगम द्वारा उक्त मरम्मत के सत्यापनार्थ/पुष्टि हेतु लॉग बुक सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि मरम्मत/सर्विस की गयी गाड़ी की गत/पूर्व में कब मरम्मत/सर्विस की गयी थी। गाड़ी की मरम्मत/सर्विस गारन्टी/वारन्टी अवधि में थी या नहीं इसका निर्धारण गाड़ियों की लॉग बुकों के अभाव में नहीं हो सका। अतएव मरम्मत/सर्विस की गयी गाड़ियों से सम्बन्धित लॉग बुकों को आगामी अवसर पर प्रस्तुत कर सम्बन्धित आवश्यक जांच

करायी जाय। उप सम्परीक्षा माहों में किये गये गाड़ियों की मरम्मत/सर्विस हेतु भुगतान का विवरण निम्नवत है।-

क्र०	वा०सं० /दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	वाहन संख्या
1	2	3	4	5
1	102/02-02-2023	1,45,700	मै० भारत ऐन्ट०	UP14 CU-3403 UP14 ST-2852 JCB UP14 AG-0397
2	103/02-02-2023	1,13,800	---"---	UP14 S-7617 UP14 JT-6077 UP14 CT-8435
3	104/02-02-2023	2,47,700	---"---	UP14 N-7595 UP14 DT-6313 UP14 S-7615 UP14 DT-6315 UP14 DT-5257
4	105/02-02-2023	1,28,600	मै० बालाजी ट्रेडर्स	UP14 GT-5304 UP14 AT-0507 UP14 JT-6079
5	106/02-02-2023	92,900	---"---	UP14 GT-8090 UP14 JT-6706 UP14 JT-6215 UP14 JT-6078 UP14 FT-5531
6	107/02-02-2023	69,500	मै० क्लासिक मोटर्स	UP14 AM-9999 UP14 AV-8888 UP14 FT-8213
7	108/02-02-2023	42,900	मै० क्लासिक मोटर्स	UP14 F-9424 UP14 AM-6666
8	109/02-02-2023	75,800	मै० युनाईटेड मैक० प्रा० लि०	UP14 JT-7075 UP14 JT-6682 UP14 GT-8069 UP14 JT-6697

9	774 / 30-03-2023	87,300	मै0 भारत ऐन्ट0	UP14 N-1574
10	775 / 30-03-2023	86,600	---	टैकर नं- 23
11	1556 / 31-03-2023	46,200	मै0 एस0के0 मोटर्स	सीवर जैटिंग मशीन लीलेड-1212
12	1557 / 31-03-2023	90,800	---	UP14 AT-5010 UP14 AT-4935 UP14 GT-8293 UP14 GT-6182
14	1558 / 31-03-2023	63,000	---	विभिन्न वाहन
15	1569 / 31-03-2023	88,500	मै0 प्रज्ञा मोटर्स एण्ड अर्थ मूवर्स	UP14 DT-5256 UP14 JT-7384 UP14 JT-8579 UP14 JT-7382
16	1570 / 31-03-2023	2,09,600	---	UP14 LU-0388 UP14 S-7616 UP14 AG-0397 UP14 AG-0509 UP14 LU-3407
17	1571 / 31-03-2023	2,03,900	---	UP14 AH-9320 UP14 CU-3072 UP14 DT-5257 UP14 GT-9540
18	1572 / 31-03-2023	1,84,100	---	UP14 JT-7382 UP14 DT-5737
19	1573 / 31-03-2023	81,900	---	UGU-3318 UP14 DT-5259 UP14 AG-0386 UP14 AT-5321
20	1574 / 31-03-2023	80,300	---	ट्रैक्टर मैसी-245 UP14JT-8580 ट्रैक्टर मैसी-30DI UP14 AG-1290
21	1575 / 31-03-2023	56,800	---	UP14 CU-3396 UP14 CU-3394

22	1576 / 31-03-2023	65,300	---	UP14 GT-8067 UP14 S-8187 UP14 S-8188
23	1583 / 31-03-2023	19,300	मै0 क्लासिक मोटर्स	UP14 U-2020 UP14 F-9424
24	1584 / 31-03-2023	23,100	---	UP14 BW-4444
25	1585 / 31-03-2023	37,500	---	UP14 F-2800
26	1586 / 31-03-2023	43,600	---	UP14 AG-1020 UP14 BW-4444
27	1587 / 31-03-2023	37,800	---	UP14 AV-8888
28	1618 / 31-03-2023	2,44,500	मै0 महाबल आटो मोबाइल	UP14 JT-6072 UP14 JT-6074 UP14 JT-6071
29	1619 / 31-03-2023	1,46,880	---	UP14 JT-6073 UP14 JT-6066
30	1626 / 31-03-2023	1,88,650	मै0 भारत ऐन्टो	UP14 CC-9318 UP14 DT-6315 UP14 BT-6899 UP14 GT-8099 UP14 -2566
31	1627 / 31-03-2023	3,86,700	---	UP14 GT-4809 UP14 CC-9318 UP14 JT-7383 UP14 AG-0507 UP14 GT-2389 UP14 JT-6219
32	1628 / 31-03-2023	1,48,800	---	UP14 AT-5011 UP14 FT-5532 UP14 FT-9661 UP14 GT-0178
33	1629 / 31-03-2023	1,36,600	---	UP14 DT-5734 UP14 JT-6471

34	1631 / 31-03-2023	2,19,800	---	UP14 JT-8587 UP14 DT-5733 UP14 JT-6772 UP14 CC-9671
35	1632 / 31-03-2023	2,58,000	---	UP14 GT-0178 UP14 JT-7380 UP14 S-7617 UP14 ET-2765 UP14 GT-8298
36	1635 / 31-03-2023	1,11,100	---	UP14 GT-7074 UP14 GT-2852 UP14 GT=7381
37	1636 / 31-03-2023	2,41,300	---	UP14 AG-0434 UP14 FT-5298 UP14 JT-7379 UP14 JT-6641 UP14 FT-5382
38	1637 / 31-03-2023	73,590	---	UP14 FT-5380 UP14 DT-5257 UP14 AG-0398
39	1638 / 31-03-2023	22,600	---	UP14 S -7620
40	1639 / 31-03-2023	18,700	---	UP14 JT-6074
41	1640 / 31-03-2023	71,300	---	UP14 JT-4809 UP14 JT-8580 UP14 GT-8318
42	1641 / 31-03-2023	57,600	---	मोबाईल शौचालय
43	1642 / 31-03-2023	21,700	---	UP14 JT-7382
44	1643 / 31-03-2023	23,000	---	TMX20-5020-3152
45	1644 / 31-03-2023	17,150	मै0 भारत ऐन्ट0	ट्रैक्टर ट्रौली
46	1645 / 31-03-2023	30,100	---	UP14 A-6871
47	1646 / 31-03-2023	17,400	---	UP14 P-9991
48	1647 / 31-03-2023	70,100	---	UP14 AG-1290 UP14 AG-1289

				UP14 N-1580
49	1648 / 31-03-2023	11,500	---"---	UP14 GT-0182
50	1649 / 31-03-2023	19,400	---"---	मोबाईल शौचालय
51	1650 / 31-03-2023	19,800	---"---	UP14 JT-8581
52	1651 / 31-03-2023	19,900	---"---	UP14 JT-6772
53	1652 / 31-03-2023	23,300	---"---	UP14 AT-4216
54	1653 / 31-03-2023	15,800	---"---	UP14 GT-8070
55	1654 / 31-03-2023	16,300	---"---	UP14 JT-6636
56	1655 / 31-03-2023	19,800	---"---	UP14 AG-0399
	योग =	50,73,870		

उल्लेखनीय है कि उक्त के सम्बन्ध में अधियाचन संख्या-28 दिनांक 06.09.2023, 60 दिनांक 06.11.2023, उपनिदेशक, मेरठ मण्डल, मेरठ के पत्रांक- 1436 दिनांक 22.08.2023 एवं जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, गाजियाबाद के पत्रांक-610 दिनांक 10.10.2023 निर्गत किये जाने के बावजूद वाहनों की एवं अन्य लॉग बुकें सम्परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने से स्पष्ट था कि इनमें गम्भीर अनियमितताएँ विद्यमान होने की पूर्ण सम्भावना थी। अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

2-13 वें तथा 14 वें वित्त आयोग की बैठक दिनांक 13.11.2019 के क्रम में 07 एक्सकेवेटर कम बेक्हो लोडर क्रय की स्वीकृति के सापेक्ष, मात्र अवशेष बजट के व्यय करने हेतु 04 अतिरिक्त वेस्ले लोडर क्रय किया जाना अनियमित रू 77,24,000 :-

स्वास्थ्य विभाग की पत्रावलियों की जांच में प्रकाश में आया कि महापौर, जिलाधिकारी एवं नगर आयुक्त की अध्यक्षता में 13वें तथा 14वें वित्त आयोग की आयोजित बैठक में स्वास्थ्य विभाग हेतु 07 नग एक्सकेवेटर कम बेस्ले लोडर क्रय की सहमति दिनांक 13.11.2019 द्वारा प्रदान की गयी थी। जिसके क्रम में नगर आयुक्त की स्वीकृति दिनांक 18.11.2019 के सापेक्ष जैम बिड संख्या-GEM / 2019 / B / 447071 दिनांक 02.12.2019 द्वारा निविदा आमंत्रित कर न्यूनतम दर रू 19,34,000/- प्रति वाहन की दर से मैसर्स एक्सन कन्सो इक्यूपमेन्ट लिमिटेड को स्वीकृत करते हुए 07 नग बेक्से लोडर रू 19,34,000 X 7 = रू 1,35,38,000 का क्रय करते हुए व्यय प्रमाणक संख्या- 811 / 676773 / 26.10.2020 द्वारा कटौती उपरान्त रू 1,29,96,400 का भुगतान फर्म को

कर दिया गया था। जिनकी भण्डार प्रविष्टि स्वास्थ्य विभाग द्वारा T&P राजिस्टर के पृष्ठ-56 पर दर्शायी गयी थी।

तत्पश्चात उपरोक्त बैठक दिनों 13.11.2019 के क्रम में प्राप्त सहमति के सापेक्ष 14वें वित्त के अन्तर्गत पृथक से पुनः एक नयी पत्रावली प्रारम्भ की गयी। जिसमें नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 18.11.2019 की स्वीकृति को ही दर्शाया गया था। अधिशासी अभियन्ता(व/यां0) नगर निगम गाजियाबाद के पत्रांक - 257/स्वास्थ्य विभाग/2020 दिनांक 12.05.2020 ई-निविदा आमंत्रित की गयी। प्राप्त निविदाओं में न्यूनतम निविदा रू 77,24,000 (रू 19,31,000 X 4) मैसर्स परफेक्ट पांवर इक्यूपमेन्ट को स्वीकृत कर आपूर्ति प्राप्त की गयी।

यहां उल्लेखनीय है कि समिति की स्वीकृति के सापेक्ष उक्त मद में रू 1,82,00,000 - 1,35,38,000 = रू 46,62,000 ही अवशेष थे। इसके बावजूद भी रू 77,24,000 का क्रय किया गया था। इस समिति की स्वीकृति के विरुद्ध 04 नग बकहो लोडर मात्र इस उद्देश्य से ओर क्रय किये गये थे कि मद में आवंटित बजट को व्यय किया जा सके। यह आवश्यकता से अधिक क्रय था जो कि किसी भी प्रकार से तर्क संगत नहीं था। यह अनुदानों की धनराशि के अपव्यय का प्रकरण था। इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व का निर्धारण कर आवश्यक कार्यवाही लिया जाना अपेक्षित है।

3 - नगर निगम के वाहनों में बैटरी बदलवाने के कार्यों में पुरानी बैटरी के मूल्य न घटाये जाने एवं पुरानी बैटरी भण्डार में जमा न किया जाना अनियमित बैटरी हेतु भुगतान रू0 6,69,514 :-

व्यय प्रमाणकों की जांच में पाया गया कि निगम द्वारा निम्नांकित विवरण के अनुसार वाहनों की मरम्मत/बैटरी बदलवाने का कार्य कराया था। सम्बन्धित बिलों में पुरानी बैटरी के मूल्य की कोई भी कटौती नहीं की गयी थी और न ही इन पुरानी बैटरियों को निगम के भण्डार में वापस जमा कराया गया था। जिससे स्पष्ट हो रहा था कि इन पुरानी बैटरियों को बेच दिया गया था एवं प्राप्त धनराशि को निगम कोष में जमा नहीं कराया गया था। इन बैटरियों की स्थिति अभिलेखों द्वारा स्पष्ट करायी जाये अन्यथा की स्थिति में यह नगर निगम को आर्थिक क्षति पहुंचाये जाने प्रकरण था। भुगतानों का विवरण निम्नवत है।

क्र०	वा० सं० /दिनांक	फर्म का नाम	वाहन संख्या	बिल राशि	नई बैटरी का	+ GST 18

					मूल्य	प्रतिशत
1	543 / 18-3-2023	मै० सिंह आटो इलैक्ट्रिकल वर्क्स	UP.14. J T 7456	26007	10,890	---"---
2	---"---	---"---	UP.14. F T 5307	13120	11150	---"---
3	542 / 18-3-2023	---"---	UP.14. G T 8736	11150	8711	---"---
4	---"---	---"---	UP.14. C U 3406	11150	8711	---"---
5	---"---	---"---	UP.14. G T 0178	11150	8711	---"---
6	---"---	---"---	UP.14. J T 7456	8800	8381	---"---
7	1577 / 31-3-202 3	मै० अनवी ट्रेडर्स	UP.14. J T 2830	14400	11250	GST 28 प्रतिशत
8	---"---	---"---	UP.14. G T 8071	14396	5900	---"---
9	---"---	---"---	UP.14. G T 8318	14892	5900	---"---
10	---"---	---"---	UP.14. J T 6215	14400	11250	---"---
11	---"---	---"---	UP.14. G T 8292	28800	22500 (2 नग)	---"---
12	1578 / 31-3-202 3	---"---	UP.14. J T 5299	12320	9625	---"---
13	---"---	---"---	UP.14. G T 8315	7552	5900	---"---
14	---"---	---"---	UP.14. G T 8304	11456	8950	---"---
15	---"---	---"---	UP.14. G T 7072	7552	5900	---"---
16	1579 / 31-3-202 3	---"---	UP.14. S T 5548	31264	24425 (2 नग)	GST 28 प्रतिशत
17	---"---	---"---	UP.14. B T 6391	13698	8950	---"---

18	---	---	UP.14. A G 0509	16864	13175	---
19	---	---	UP.14. G T 0184	13472	10525	---
20	---	---	UP.14. A G 0399	16864	13175	---
21	1580 / 31-3-202 3	---	UP.14. G T 5682	15045	5900	---
22	---	---	UP.14. D T 5259	16864	13175	---
23	---	---	UP.14. A G 0508	16864	13175	---
24	---	---	UP.14. J T 6216	14400	11250	---
25	1581 / 31-3-202 3	---	UP.14. J T 6218	28800	22500 (2 नग)	---
26	---	---	मैसी - 241	14400	11250	---
27	---	---	UP.14. G T 2852	14400	11250	---
28	---	---	UP.14. J T 6212	28800	22500 (2 नग)	---
29	1582 / 31-3-202 3	---	UP.14. D T 5734	11456	8950	---
30	---	---	UP.14. G T 8098	11942	5900	---
31	---	---	मशीन नं० - 13	12320	9625	---
32	---	---	मशीन नं० - 5	12320	9625	---
33	110 / 02-02-202 3	---	UP.14. A T 5307	11456	8950	---
34	---	---	UP.14. J T 6673	7552	5900	---
35	---	---	UP.14. J T 6707	8192	6400	---
36	---	---	UP.14. J T 6708	7552	5900	---
37	111 / 02-02-202	---	UP.14. G T 5683	7552	5900	---

	3					
38	---	---	UP.14. J T 6674	7552	5900	---
39	---	---	UP.14. J T 6710	7552	5900	---
40	112 / 02-02-202 3	---	UP.14. D T 5733	11456	8950	---
41	---	---	UP.14. J T 6674	7552	5900	---
42	113 / 02-02-202 3	---	UP.14. B T 6557	11456	8950	---
43	---	---	UP.14. A T 4940	12320	9625	---
44	---	---	UP.14. S 7619	12320	9625	---
45	---	---	UP.14. C U 3405	12320	9625	---
46	---	---	UP.14. G T 8726	7552	5900	---
47	---	---	UP.14. G T 8723	6136	5200	---
48	---	---	UP.14. F T 9660	7552	5900	---
49	---	---	UP.14. G T 0180	12320	9625	---
50	---	---	UP.14. B T 6553	11456	8950	---
51	114 / 02-02-202 3	---	UP.14. J T 6685	7552	5900	---
52	---	---	UP.14. J T 6686	7552	5900	---
53	---	---	UP.14. G T 8307	7552	5900	---
54	115 / 02-02-202 3	---	UP.14. G T 8088	7552	5900	---
55	---	---	UP.14. G T 8722	7552	5900	---
56	---	---	UP.14. G T 8102	6844	5800	---

योग = ₹ 5,27,476

(+) क्रमांक - 1 से 6 तक 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 = रू0 10,180

(1) क्रमांक - 7 से 56 तक 28 प्रतिशत जी0एस0टी0 = रू0 1,31,858

कुल योग = रू0 6,69,514

टिप्पणी :- (1) जी0एस0टी0 की दरों में अन्तर का कारण अभिलेखों द्वारा स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

4 - लॉग बुक, मरम्मत पंजी व स्टॉक बुक/पुराने सामान की वापसी के अभाव में गाड़ियों की मरम्मत हेतु किया गया भुगतान आपत्तिजनक रू0 42,22,640 :-

व्यय प्रमाणकों एवं सम्बन्धित पत्रावलियों की सम्परीक्षा से प्रकाश में आया कि निम्न गाड़ियों की मरम्मत हेतु विभिन्न फर्मों को भुगतान किया गया था। सम्परीक्षा में मौखिक रूप से बार-बार मांग किये जाने के एवं जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पत्रांक-372 दिनांक 3-8-2023 व पत्रांक-610 दिनांक 10-10-2023 एवं उप निदेशक मेरठ मण्डल मेरठ के पत्रांक-मे0 म0/वृत्त/1436 दिनांक 22-8-23 तथा अधियाचन सं0-28 दिनांक 6-9-2023 एवं सं0 60 दिनांक 6-11-2023 द्वारा माँग किये जाने के बावजूद लॉगबुक, मरम्मत पंजी एव स्टॉक बुक उपलब्ध नहीं करायी गयी, उपरोक्त के अभाव में गाड़ियों की मरम्मत हेतु किया गया भुगतान असत्यापित/आपत्तिजनक था। पुराने सामान की धनराशि को बिल से घटाया गया था अनियमित एवं आपत्तिजनक था। नियमानुसार पुराने सामान का लेखा स्टॉक बुक में किया जाना चाहिए था व पुराने सामान का निस्तारण सार्वजनिक निलामी द्वारा किया जाना अपेक्षित था। उप सम्परीक्षा माहों में किये गये भुगतान का विवरण निम्नवत है।

क्रं0	व्यय प्रमाणक सं0/दिनांक	भुगतान प्राप्त कर्ता	गाड़ी नं0
1	1640/31-3-2023 रू0 71,300	मै0 भारत एन्टरप्राइजेज	UP 14 JT - 4809 UP 14 JT - 8580 UP 14 JT - 8318
2	1637/31-3-2023 रू0 20,000	---"---	UP 14 JT - 7381
3	1627/31-3-2023 रू0 3,86,700	---"---	UP 14 JT - 4809 UP 14 CC - 9318 UP 14 JT - 7383 UP14 AJ - 0507

			UP 14 JT – 2389 UP 14 JT – 6219
4	1653 / 31-3-2023 रू0 15,800	---"---	UP 14 JT – 8070
5	1635 / 31-3-2023 रू0 1,11,100	---"---	UP 14 JT – 7074 UP 14 JT – 2852
6	1648 / 31-3-2023 रू0 11,500	---"---	UP 14 JT – 0182
7	1639 / 31-3-2023 रू0 18,700	---"---	UP 14 JT – 6074
8	1626 / 31-3-2023 रू0 1,88,650	---"---	UP 14 CC – 9318 UP 14 DT – 6315 UP 14 BT – 6899 UP14 JT – 8099 UP 14 JT – 2566
9	1650 / 31-3-2023 रू0 19,800	---"---	UP 14 JT – 8581
10	1651 / 31-3-2023 रू0 19,900	---"---	UP 14 JT – 6772
11	1655 / 31-3-2023 रू0 19,800	---"---	UP14 AJ – 0399
12	1654 / 31-3-2023 रू0 16,300	---"---	UP 14 JT – 6636
13	1628 / 31-3-2023 रू0 1,48,800	---"---	UP 14 AT – 5011 UP 14 FT – 5532 UP 14 FT – 9661 UP14 JT – 0178
14	1636 / 31-3-2023 रू0 2,41,300	---"---	UP 14 AJ – 0434 UP 14 FT – 5298 UP 14 JT – 7379 UP14 JT – 6641 UP 14 FT – 5382 UP 14 JT – 7382
15	1630 / 31-3-2023 रू0 24,000	---"---	मिनी पोपलेन नं0 – 13
16	1629 / 31-3-2023 रू0 1,36,600	---"---	UP 14 DT – 5734 UP 14 JT – 6471
17	1647 / 31-3-2023 रू0 70,100	---"---	UP14 AJ – 1290 UP 14 AJ – 1289 UP 14 N – 1580
18	1556 / 31-3-2023 रू0 46,200	मै0 एस0 के0 मोटर्स	सीवर मशीन – 1212
19	1557 / 31-3-2023 रू0 90,800	मै0 एस0 के0 मोटर्स	UP 14 JT – 0182 UP14 JT – 8293 UP 14 AT – 4935 UP 14 AT – 5010
20	108 / 2-2-2023 रू0 42,900	मै0 क्लासिक मोटर्स	UP 14 AM – 6666

			UP14 F – 9424
21	1586 / 31-3-2023 रू0 43,600	मै0 क्लासिक मोटर्स	UP 14 AJ – 1020 UP 14 BWU – 4444
22	1587 / 31-3-2023 रू0 37,800	---"---	UP 14 AV – 8888
23	1585 / 31-3-2023 रू0 37,500	---"---	UP 14 F – 2800
24	1588 / 31-3-2023 रू0 38,800	---"---	UP 14 F – 9424 UP 14 AM – 9999
25	107 / 2-2-2023 रू0 69,500	---"---	UP14 AM – 9999 UP 14 AV – 8888 UP 14 FT – 8213
26	1573 / 31-3-2023 रू0 81,900	मै0 प्रगा, मोटर्स	UP14 AT – 5321 UP 14 AJ – 0386 UP 14 DT – 5259
27	1571 / 31-3-2023 रू0 2,03,900	---"---	UP 14 JT – 9540 UP14 JT – 5257 UP 14 CU – 3072
28	1575 / 31-3-2023 रू0 56,800	---"---	UP14 CC – 3394 UP 14 CU – 3396
29	1574 / 31-3-2023 रू0 80,300	---"---	UP 14 AJ – 1290 UP14 JT – 8580
30	1576 / 31-3-2023 रू0 65,300	---"---	UP 14 AS – 8188 UP14 AS – 8187 UP 14 JT – 8067
31	1570 / 31-3-2023 रू0 2,09,600	---"---	UP 14 CU – 0388 UP14 AS – 7616 UP 14 AJ – 0397 UP 14 AS – 0509
32	1572 / 31-3-2023 रू0 1,84,100	---"---	UP 14 JT – 7382 UP 14 DT – 5737
33	1569 / 31-3-2023 रू0 88,500	---"---	UP 14 JT – 8579 UP14 JT – 7382 UP 14 JT – 7384 UP 14 JT – 5256
34	105 / 2-2-2023 रू0 1,28,600	मै0 बाला जी मोटर्स	UP 14 JT – 5304 UP14 AJ – 0507 UP 14 JT – 6079
35	106 / 2-2-2023 रू0 92,900	---"---	UP 14 JT – 6706

			UP14 JT – 8090 UP 14 FT – 5531 UP 14 JT – 6078 UP 14 JT – 6215
36	103 / 2-2-2023 रू0 1,13,800	मै0 भारत ऐन्ट0	UP 14 S – 7617 UP 14 JT – 6077 UP 14 CT – 8435
37	102 / 2-2-2023 रू0 1,45,700	---"---	UP 14 CU – 3403 UP 14 JT – 2852 UP 14 AJ – 0397
38	104 / 2-2-2023 रू0 2,47,700	---"---	UP 14 N – 7595 UP14 DT – 6313 UP 14 S – 7615 UP 14 DT – 6315 UP 14 DT – 5257
39	1642 / 31-3-2023 रू0 21,700	मै0 भारत एन्टरप्राइजेज	UP 14 JT – 7382
40	1643 / 31-3-2023 रू0 23,000	---"---	मिनी एक्सीवेटर सं0 – 19
41	1637 / 31-3-2023 रू0 73,590	---"---	UP 14 FT – 5380 UP 14 DT – 5257 UP 14 AJ – 0398
42	1632 / 31-3-2023 रू0 2,58,000	---"---	UP 14 JT – 0178 UP14 JT – 7380 UP 14 S – 7617 UP 14 ET – 2765
43	1631 / 31-3-2023 रू0 2,19,800	---"---	UP 14 JT – 8587 UP14 DT – 5733 UP 14 JT – 6712 UP 14 CC – 9671
	योग = 42,22,640		

5 – वसुन्धरा जोन के अन्तर्गत बृज विहार के बडे नाले की सफाई हेतु पोकलेन मशीन की आपूर्ति हेतु व्यय रू0 7,14,000 अनियमित

व्यय प्रमाणको की जांच में पाया गया कि मैसर्स अन्नपूर्णा इन्टरप्राइजेज के बिल संख्या 10 दिनांक 1-1-2023 के द्वारा नगर निगम के स्वास्थ्य अनुभाग में दिनांक 24-9-2022 से

23-10-2022 तक (30 दिन हेतु) वसुन्धरा जोन के अन्तर्गत बृज विहार के बड़े नाले की सफाई हेतु 01 नग पोकलेन मशीन की आपूर्ति हेतु रू0 7,14,000 का बिल प्रस्तुत किया गया था। उपरोक्त बिल से टी0 डी0 एस0 की कटौती किये जाने के उपरान्त व्यय प्रमाणक संख्या - 541 दिनांक 18-3-2023 द्वारा रू0 6,99,700 का भुगतान सम्बन्धित फर्म को किया गया था। उपरोक्त कार्य में निम्नांकित अनियमिततायें प्रकाश में आयी -

(1) बिल में प्रतिदिन की दरें अंकित नहीं की गयी थी। एकमुश्त भुगतान किया गया था। भुगतान की दरें किस प्रकार निर्धारित की गयीं थी। इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया था। भुगतान की दरों का निर्धारण का औचित्य स्पष्ट कराया जाय।

(2) सम्परीक्षा आख्या वर्ष 2020-21 की आपत्ति संख्या - 46 के अनुसार 1 पोकलेन मशीन हेतु प्रतिमाह रू0 5,71,200 की दर से व्यय किया गया था। तो आलोच्य अवधि में एक माह हेतु रू0 7,14,000 की दर निर्धारण किस आधार पर किया गया था। इसे स्पष्ट कराया जाये अन्यथा की स्थिति में $रू0 7,14,000 - 5,71,200 = 1,42,800$ का अधिक भुगतान किया गया था।

(3) पोकलेन मशीन की लॉग बुक अनुरक्षित नहीं की गयी थी जिससे यह सत्यापित न हो सका कि मशीन द्वार सभी 30 दिवसों को कार्य किया गया एवं प्रतिदिन न्यूनतम 08 घण्टे नाला सफाई का कार्य लिया गया था।

(4) पोकलेन मशीन किराये पर लिये जाने हेतु इसकी आवश्यकता एवं मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए प्रति वर्ष इस मशीन के क्रय किये जाने की कार्यवाही हेतु आपत्ति की जा रही थी किन्तु निगम अधिकारियों द्वारा इस ओर कोई कार्यवाही न लिया जाना अनियमित था।

(5) प्रमाणित किया जाय कि उपरोक्त अवधि में नगर निगम का स्वयं का कोई पोकलेन मशीन वाहन उपलब्ध नहीं था।

6- नगर निगम की सम्पत्तियों का वार्षिक सत्यापन न होना :-

शासनादेश संख्या-1027/नौ-6-2002-65 मिस/2000 दिनांक 4 मई 2002 द्वारा निर्देशित किया गया था/कि स्थानीय निकायों द्वारा समय - समय पर उनके द्वारा क्रय किये गये बाण्डो का नवीनीकरण/आहरण परिपक्वता अवधि के उपरान्त न किये जाने के कारण वह कालातीत हो जाते हैं और उस पर ब्याज की हानि होती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने आडिट के

समय इस पर गम्भीर आपत्ति व्यक्त की है।

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में यह भी निर्देशित किया गया था कि निकायो के कार्यालयों की चल – अचल सम्पत्तियों वार्षिक सत्यापन मुख्य नगर अधिकारी द्वारा किया जाय। तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व इस आशय का प्रमाण पत्र निदेशक स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपलब्ध कराया जाए परन्तु नगर निगम गाजियाबाद द्वारा उक्त शासनादेश का पालन नहीं किया गया था, जो आपत्तिजनक था।

5- सेवापुस्तिका/अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमितताएँ :-

(1). मकान कराये की कम कटौती कये जाने से निगम को आ र्थक क्षति रु 7260432 :-

सम्परीक्षा माहों के वेतन देयकों की जांच के समय प्रकाश में आया क जिन अ धकारियों/कर्मचारियों को निगम द्वारा आवास आवंटित कया गया था उन्हें मकान कराया भत्ता का भुगतान नहीं कया गया था। वेतन देयकों की जांच के समय देखा गया क अ धकांश अ धकारियों/कर्मचारियों से मकान कराये के रुप में बहुत कम/कुछ भी धनरा श वसूल नहीं की जा रही थी। मकान का मानक कराया निर्धारित कराकर मानक कराया वसूल कया जाय। जब तक मकान कराये हेतु मानक कराये का निर्धारण न कर दिया जाय तक तक मूल वेतन एवं ग्रेड बेतन सहित के 10% की धनरा श मानक कराये के रुप में कटौती करके निगम नि ध में जमा कराया जाय।

निगम द्वारा न तों मानक कराया निर्धारित कराया गया था और न ही 10% वेतन की कटौती की जा रही थी वतीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-2(भाग 2-4) के मूल वेतन 45 में (3) के अनुसार मानक कराया अथवा मूल वेतन का 10% दोनों में से जो कम हो की कटौती की जानी चाहिये थी जो नहीं की जा रही थी। यह वतीय नियमों के वपरीत था। निःशुल्क/कम धनरा श वसूल कये जाने का औ चत्य स्पष्ट करते हुए नियमानुसार कार्यवाही कया जाना सुनिश्चित कया जाए। निगम के पास कतने आवास हैं। आवासों को कन्हे आवंटित कया गया है। आवंटन पत्रावली सम्परीक्षा में उपलब्ध कारयी जाय। निगम के कतने आवास कब्जे में हैं। उनसे कराया वसूल कये जाने की क्या स्थिति है।

सम्परीक्षा में स्पष्ट किया जाय निगम के आवासों में रह रहे सेवानिवृत्त अधिकारियों/ कर्मचारियों से बिजली एवं पानी पर किये जा रहे व्यय के संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाय कि

उक्त भुगतान आवंटी द्वारा किया जा रहा है। अथवा निगम द्वारा किया जा रहा है। वेतन देयकों के अनुसार आवंटित मकानों से मकान किराया नियमानुसार वसूल नहीं किये जाने से निगम को एक माह में रु0 605036.00 एवं निम्न विवरणानुसार एक वर्ष में रु0 605036×12=7260432 की आर्थिक क्षति हो रही थी।

वर्ष 2022-23 में कुल आर्थिक क्षति रु0 7260432 हुई थी। इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करके नियमानुसार मकान किराया वसूल किया जाना सुनिश्चित किया जाए। कतिपय कर्मियों द्वारा निर्धारित किराया जो जमा कराया गया था। उसे संलग्न विवरण में अंकित किया गया है।

उक्त सूची में उदाहरण स्वरूप माह फरवरी 2023 एवं मार्च 2023 के वेतन बिलों से तैयार किया गया है यदि उक्त के अतिरिक्त भी जो अधिकारी/कर्मचारी निगम आवासों में आवासित है या ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या स्थानान्तरित हो चुके हैं और अभी भी निगम आवासों में आवासित है की विस्तृत जांच कर सभी की मकान किराये की कम कटौती की धनराशि की वसूली सुनिश्चित की जाए। उक्त से संबंधित विवरण सम्परीक्षा आख्या के परिशिष्ट पर दिया गया है।

(2) त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण श्री जयदेव कौशिक पम्प चालक को अनियमित भुगतान रु0 1,69,514 एवं अन्य अनियमितताएं :-

व्यक्तिगत पत्रावली एवं सेवा पुस्तिका की जांच में प्रकाश में आया कि अधिशासी अधिकारी सिटी बोर्ड, गाजियाबाद के पत्रांक-सामान्य/ई0सी0/मीमो/93-173/750 दिनांक 14.01.1993 द्वारा श्री जयदेव कौशिक को पत्र प्रेषित किया गया कि आपको शासनादेश सं0 1076/9-1-92-95सा0/91 दिनांक 03.02.1992 के अनुसार आपकी सेवाओं का विनियमितीकरण दिनांक 03.02.1992 से निर्धारित वेतनमान 750-12-870-द0रो0-14-940 में पम्प सहायक (चतुर्थ श्रेणी) पद पर किया जाता है। आपको निम्न पूर्तियां पत्र की प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर करनी है-

- (1) निर्धारित प्रार्थनापत्र पर आवेदन।
- (2) चिकित्सालय द्वारा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र।
- (3) आयु प्रमाण पत्र
- (4) दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा आचरण प्रमाण पत्र।

(5) शैक्षिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र।

(6) पद के अनुसार नगर पालिका में जमानत की राशि एक सप्ताह के अन्दर जमा होना।

श्री जयदेव कौशिक पम्प चालक द्वारा दिनांक 23.02.93 को अपना आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख जमा गया था।

(i) दिनांक 22.01.93 को जारी मुख्य चिकित्सा अधिक्षक द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।

(ii) आयु के संबंध में हाई स्कूल सनद प्रमाणपत्र।

(iii) पूर्व एम0एल0ए0 व अधिशासी अभियन्ता-9 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद दो व्यक्तियों द्वारा चरित्र प्रमाणपत्र।

(iv) शैक्षिक योग्यता हेतु हाई स्कूल पास सर्टिफिकेट

बोर्ड प्रस्ताव सं0 227 दिनांक 07.11.98 के द्वारा दिनांक 01.09.94 से पम्प चालक का वेतनमान 800-1150 दिया जाना स्वीकृत किया गया था। दिनांक 01.01.1996 को शासनादेश सं0 2767/9-1-98-273/सा0/97 दिनांक 01.08.98 के अनुसार वेतन क्रम 2650-65-3300-70-4000 में वेतन निर्धारित किया गया। उक्त पत्रावली की जांच में निम्न कमियां प्रकाश में आयी-

(1) स्वास्थ्य प्रमाणपत्र मुख्य चिकित्सा अधिक्षक एम0एम0जी0 हॉस्पिटल गाजियाबाद द्वारा जारी पत्रावली में संलग्न था जबकि मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाणपत्र होना चाहिए था।

(2) चरित्र प्रमाणपत्र पूर्व एम0एल0ए0 व अधिशासी अभियन्ता-9 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त दिया गया था जबकि नियुक्ति हेतु दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिए था।

(3) श्री जयदेव कौशिक की शैक्षणिक योग्यताओं संबंधी प्रमाणपत्रों का सत्यापन संबंधित संस्थाओं से नहीं कराया गया था, जिससे इनकी सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकी। यह अनियमित एवं आपत्तिजनक था।

(4) श्री जयदेव कौशिक की नियुक्ति हेतु किसी चयन समिति का गठन नहीं किया गया था बिना चयन समिति के की गयी नियुक्ति अनियमित थी।

(5) अधिशासी अधिकारी सिटी बोर्ड, गाजियाबाद के पत्रांक-सामान्य/ई0सी0/मीमो/93-173/750 दिनांक 14.01.93 के बिन्दु सं0 8 के अनुसार नगर पालिका में जमानत की राशि एक

सप्ताह के अन्दर अपने पद के अनुसार जमा की गयी थी। इसकी पुष्टि पत्रावली से न हो सकी। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाय।

बोर्ड प्रस्ताव सं० 227 दिनांक 07.11.98 के द्वारा दिनांक 01.09.94 से पम्प सहायक का वेतनमान 800-1150 दिया जाना स्वीकृत किया गया था तथा दिनांक 01.01.1996 को शासनादेश सं० 2767/9-1-98-273/सा०/97 दिनांक 11.08.98 के अनुसार वेतनमान 2650-65-3300-70-4000 में वेतन निर्धारित किया गया। शासनादेश सं० 2856/9-3-95-2 ग-डब्ल्यू/89 दिनांक 13.09.1995 के अनुसार पम्प सहायक अनर्ह पदचारकों को (बिना आई०टी०आई०पास) वेतनमान 775-12-871-14-1025 देय था जिसको दिनांक 01.01.96 से रु० 2610-60-3150-65-3540 वेतनमान में निर्धारित किया गया था। दिनांक 01.01.96 से अनुमन्य से अधिक वेतनमान दिये जाने के कारण निम्न विवरणानुसार रु० 1,69,514 मूल वेतन +महंगाई भत्ते का अधिक भुगतान किया गया था।

दिनांक	दिया गया मूल वेतन	देय मूल वेतन	अन्तर	महंगाई भत्ता	अधिक भुगतान
01.01.1996 से 30.06.1996	2650	2610	40x6=240	—	240
01.08.1996 से 31.07.1997	2715	2670	45x12=540	34	574
01.08.1997 से 31.07.1998	2780	2730	50x12=600	91	691
01.08.1998 से 31.07.1999	2845	2790	55x12=660	186	846
01.08.1999 से 31.07.2000	2910	2850	60x12=720	272	992
01.08.2000 से 31.07.2001	2975	2910	65x12=780	330	1110
01.09.2001 से 31.07.2002	2975	2910	65x11=715	342	1057
01.08.2002 से 31.07.2003	3170	3090	80x12=960	516	1476
01.09.2003 से 31.07.2004	3235	3150	85x11=935	563	1498
01.08.2004 से 31.07.2005	3300	3215	85x12=1020	241	1261

01.08.2005 से 31.12.2005	3370	3280	90x5=450	142	592
01.01.2006 से 30.06.2006	8070	7900	170x6=1020	—	1020
01.07.2006 से 30.06.2007	8320	8140	180x12=2160	87	2247
01.07.2007 से 30.06.2008	8570	8390	180x12=2160	227	2387
01.07.2008 से 31.07.2008	8830	8650	180x1=180	29	209
01.08.2008 से 30.11.2008	8930	8750	180x4=720	115	835
01.12.2008 से 30.06.2009	9700	9520	180x7=1260	277	1537
01.07.2009 से 30.06.2010	10,000	9810	190x12=2280	707	2987
01.07.2010 से 30.06.2011	10300	10110	190x12=2280	1094	3375
01.07.2011 से 30.06.2012	10610	10420	190x12=2280	1402	3682
01.07.2012 से 30.06.2013	10930	10740	190x12=2280	1732	4012
01.07.2013 से 30.06.2014	11260	11070	190x12=2280	2166	4446
01.07.2014 से 30.06.2015	11600	11410	190x12=2280	2508	4788
01.07.2015 से 31.12.2015	11950	11780	170x6=1020	1214	2234
01.01.2016 से 30.06.2016	31400	30500	900x6=5400	—	5400
01.07.2016 से 30.06.2017	32300	31400	900x12=10800	324	11124
01.07.2017 से 30.06.2018	33300	32300	1000x12=12000	720	12720
01.07.2018 से 31.07.2018	34300	33300	1000x1=1000	90	1090
01.08.2018 से 30.06.2019	35900	34900	1000x11=11000	1530	12530

01.07.2019 से 30.06.2020	37000	35900	1100x12=13200	2244	15444
01.07.2020 से 30.06.2021	38100	37000	1100x12=13200	2244	15444
01.07.2021 से 30.06.2022	39200	38100	1100x12=13200	4290	17490
01.07.2022 से 30.06.2023	40400	39200	1200x12=14400	5760	20160
01.07.2023 से 29.02.2024	41600	40400	1200x8=9600	4416	14016
				योग—	1,69,514

**(3)–त्रुटीपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण श्री सतीश चन्द शर्मा पम्प चालक को अनियमित भुगतान रु—
1,67,746 :-**

व्यक्तिगत पत्रावली एवं सेवा पुस्तिका की जांच में आया कि अधिशासी अधिकारी गाजियाबाद के पत्रांक सामान्य/ई0सी0/93-54/750 दिनांक 29.05.1993 द्वारा श्री सतीश चन्द शर्मा को पत्र प्रेषित किया गया कि आपको शासनादेश सं0-1076/9-1-92-95-सा0/91 दिनांक 03.02.1992 के अनुसार आपकी सेवाओं का विनियमितकरण दिनांक 03.02.1992 से निर्धारित वेतनमान 750-12-870-द0रो0-14-940 में सहायक पम्प चालक (चतुर्थ श्रेणी) पद पर किया जाता है। आपको निम्न पूर्तियां पत्र की प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर करनी है।

1. निर्धारित प्रार्थना पत्र पर आवेदन
2. चिकित्सालय द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
3. आय प्रमाण पत्र
4. दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा आचरण प्रमाण पत्र
5. शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित प्रमाण पत्र

श्री सतीश चन्द शर्मा पम्प चालक द्वारा अपना आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख जमा किया गया था।

1. दिनांक 07.06.1993 को जारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक क्षरा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र

2. आयु के सम्बन्ध में हाई स्कूल सनद प्रमाण पत्र
3. दो सदस्यों नगर पालिका गाजियाबाद द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र
4. शैक्षिक योग्यता हेतु इन्टरमीडिएट पास प्रमाण पत्र

उक्त पत्रावली की जांच में निम्न कमियां प्रकाश में आयी—

1. स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एम0एम0जी0 हॉस्पिटल द्वारा जारी पत्रावली में संलग्न था जबकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण होना चाहिए था।
2. चरित्र प्रमाण पत्र नगर पालिका गाजियाबाद द्वारा प्रमाण पत्र दिये गये थे। जबकि नियुक्ति के समय दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र लिये जाने चाहिए थे। ऐसा न किया जाना अनियमित था।
3. श्री सतीश चन्द शर्मा की शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित संस्थाओं से नहीं कराया गया था। जिससे इनकी सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकी। यह अनियमित एवं आपत्तिजनक था।
4. श्री सतीश चन्द शर्मा की नियुक्ति हेतु किसी चयन समिति का गठन नहीं किया गया था। बिना चयन समिति के नियुक्ति किया जाना अनियमित था।

बोर्ड प्रस्ताव सं0-227 दिनांक 07.11.98 के द्वारा दिनांक 01.09.94 से सहायक पम्प चालक का वेतनमान 800-1150 दिया जाना स्वीकृत किया गया था तथा दिनांक 01.01.1996 को शासनादेश सं0-2767/9-1-98-273/सा0/97 दिनांक 11.08.98 के अनुसार वेतनमान 2650-65-3300-70-4000 में वेतन निर्धारित किया गया। शासनादेश सं0-2856/9-3-95-2ग-डब्ल्यू/89 दिनांक 13.09.95 के अनुसार सहायक पम्प चालक अनर्ह पद धारकों को (बिना आई0टी0आई0 पास) वेतनमान 775-12-871-14-1025 देय था। जिसको दिनांक 01.01.96 से रु 2610-60-3150-65-3540 वेतनमान में निर्धारित किया गया था दिनांक 01.01.1996 से अनुमन्य से अधिक वेतनमान दिये जाने के कारण निम्न विवरणानुसार रु 167746.00 मूल वेतन + महंगाई भत्ते का अधिक भुगतान किया गया था।

श्री सतीश चन्द शर्मा, पम्प चालक

दिनांक	दिया गया मूल वेतन	देय मूल वेतन	अन्तर	महंगाई	अधिक भुगतान
1	2	3	4	5	6
01.01.96 से 30.06.96	2650	2610	40 X 6 = 240	—	240
01.08.96 से 31.07.96	2715	2670	45 X 12 = 540	36	576
01.08.97 से 31.07.98	2780	2730	50 X 12 = 600	91	691
01.08.98 से 31.07.99	2845	2790	55 X 12 = 660	186	846
01.08.99 से 31.07.2000	2910	2850	60 X 12 = 720	272	992
01.08.2000 से 31.07.2001	2975	2910	65 X 12 = 780	330	1110
01.08.2001 से 31.07.2002	3040	2970	70 X 12 = 840	400	1240
01.08.2002 से 31.07.2003	3170	3090	80 X 12 = 960	519	1479
01.08.2003 से 31.07.2004	3235	3150	85 X 12 = 1020	626	1646
01.08.2004 से 31.07.2005	3300	3215	85 X 12 = 1020	246	1266

01.08.2005 से 31.12.2005	3370	3280	90 X 5 = 450	142	592
01.01.2006 से 30.06.2006	8070	7900	170 X 6 = 1020	—	1020
01.07.2006 से 30.06.2007	8320	8140	180 X 12 = 2160	86	2246
01.07.2007 से 30.06.2008	8570	8390	180 X 12 = 2160	227	2387
01.07.2008 से 31.07.2008	8830	8650	180 X 1 = 180	29	209
01.08.2008 से 30.11.2008	8930	8750	180 X 4=720	115	835
01.12.2008 से 30.06.2009	9700	9520	180 X 7=1260	266	1526
01.07.2009 से 30.06.2010	10000	9810	190 X 12=2280	707	2987
01.07.2010 से 30.06.2011	10300	10110	190 X 12=2280	1094	3374
01.07.2011 से 30.06.2012	10610	10420	190 X 12=2280	1402	3682
01.07.2012 से 30.06.2013	10930	10740	190 X 12=2280	1733	4013
01.07.2013 से 30.06.2014	11260	11070	190 X 12=2280	2166	4446
01.07.2014 से 30.06.2015	11600	11410	190 X 12=2280	2508	4788
01.07.2015 से 31.12.2015	11950	11760	190 X 06=1140	1357	2497

01.01.2016 से 30.06.2016	31400	30500	900 X 06=5400	---	5400
01.07.2016 से 30.06.2017	32300	31400	900 X 12=10800	324	11124
01.07.2017 से 30.06.2018	33300	32300	1000 X 12=12000	720	12720
01.07.2018 से 31.07.2018	34300	33300	1000 X 01=1000	90	1090
01.08.2018 से 30.06.2019	35900	34900	1000 X 11=11000	1170	12170
01.07.2019 से 30.06.2020	37000	35900	1100 X 12=13200	2244	15444
01.07.2020 से 30.06.2021	38100	3700	1100 X 12=13200	2244	15444
01.07.2021 से 30.06.2022	39200	38100	1100 X 12=13200	4290	17490
01.07.2022 से 30.06.2023	40400	39200	1200 X 12=14400	5760	20160
01.07.2023 से 29.02.2024	41600	40400	1200 X 08=960	4416	14016
					----- 167746

**(4)-त्रुटीपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण श्री राम राज शर्मा पम्प चालक को अनियमित भुगतान रु-
36,058 एवं अन्य अनियमितताएं :-**

व्यक्तिगत पत्रावली एवं सेवा पुस्तिका की जांच में प्रकाश में आया कि मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, गाजियाबाद के पत्रांक सामान्य/461 दिनांक 04.07.2000 द्वारा श्री राम राज शर्मा को पत्र प्रेषित किया गया कि आपकी नियुक्ति नलकूप चालक के रिक्त पद वेतनमान 2650-65-3300-70-4000 पर नियमित की जाती है। आप निम्नलिखित पूर्तियां पूर्ण कर अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करें।

1. निर्धारित प्रपत्र पर नौकरी का आवेदन पत्र
2. शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
3. आय प्रमाण पत्र
4. स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
5. दो प्रतिष्ठित नागरिकों का पूर्व चार वर्षों का आचरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र
5. जमानत राशि रु 200

श्री राम राज शर्मा पम्प चालक द्वारा दिनांक 05.07.2000 के अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख जमा किया गया था।

1. दिनांक 13.07.2000 को जारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
 2. आयु के सम्बन्ध में कक्षा आठ (8) पास टी. सी. प्रमाण पत्र
 3. दो नगर निगम सभासदों द्वारा, चरित्र प्रमाण पत्र
- उक्त पत्रावली की जांच में निम्न कमियां पायी गयी—

1. स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एम0एम0जी0 हॉस्पिटल द्वारा जारी पत्रावली में संलग्न था जबकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण होना चाहिए था।
2. चरित्र प्रमाण पत्र सभासद नगर निगम गाजियाबाद द्वारा प्रदत्त किया गया था जबकि नियुक्ति हेतु दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए था।
3. आठवीं पास मार्कशीट शैक्षणिक योग्यता हेतु पत्रावली में संलग्न नहीं थी तथा शैक्षणिक योग्यताओं सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित संस्थाओं से नहीं कराया गया था, जिससे इनकी सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकी। यह अनियमित एवं आपत्तिजनक था।
4. श्री राम राज शर्मा पम्प चालक की नियुक्ति हेतु किसी चयन समिति का गठन नहीं किया गया था। बिना चयन समिति के की गई नियुक्ति अनियमित था।

5. स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिक्षक एम0एम0जी0 हॉस्पिटल गाजियाबाद द्वारा दिनांक 13.07.2000 को जारी किया गया था। जबकि श्री रामराज शर्मा पम्प चालक द्वारा अपना आवेदन पत्र व योगदान आख्या दिनांक 05.07.2000 को दी गयी थी। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय।

बोर्ड प्रस्ताव सं0-227 दिनांक 07.11.98 के द्वारा दिनांक 01.09.94 से पम्प चालक का वेतनमान 800-1150 दिया जाना स्वीकृत किया गया था तथा दिनांक 01.01.1996 को शासनादेश सं0-2767/9-1-98-273/सा0/97 दिनांक 11.08.98 के अनुसार वेतनमान 2650-65-3300-70-4000 में वेतन निर्धारित किया गया। शासनादेश सं0-2856/9-3-95-2ग-डब्ल्यू/89 दिनांक 13.09.95 के अनुसार पम्प चालक अनर्ह पद धारकों को (बिना आई0टी0आई0 पास) वेतनमान 775-12-871-14-1025 देय था। जिसको दिनांक 01.01.96 से रु 2610-60-3150-65-3540 वेतनमान में निर्धारित किया गया था दिनांक 01.01.1996 से अनुमन्य से अधिक वेतनमान दिये जाने के कारण निम्न विवरणानुसार रु 36058.00 मूल वेतन + महंगाई भत्ते का अधिक भुगतान किया गया।

श्री राम राज शर्मा, पम्प चालक

दिनांक	दिया गया मूल वेतन	देय मूल वेतन	अन्तर	महंगाई	अधिक भुगतान
1	2	3	4	5	6

05.07.2000 से 30.06.2001	2650	2610	40 X 6 = 240	202	682
				254	
01.07.2001 से 30.06.2002	2715	2670	45 X 12 = 540		794
				321	
01.07.2002 से 30.06.2003	2780	2730	50 X 12 = 600		921
				395	
01.07.2003 से 30.06.2004	2845	2790	55 X 12 = 660		1055
				167	
01.07.2004 से 30.06.2005	2910	2850			887
			60 X 12 = 720	175	
01.07.2005 से 31.12.2005	2975	2910	65 X 12 = 780		955
				—	
01.01.2006 से 30.06.2006	7340	7220	120 X 06 = 720		720
				62	
01.07.2006 से 30.06.2007	7570	7440	130 X 12 =1560		622
				163	
01.07.2007 से 30.06.2008	7800	7670	130 X 12 =1560		723
				318	
01.07.2008 से 30.06.2009	8040	7900			1998
			140 X 12 =1680	558	
01.07.2009 से 30.06.2010	8290	8140			2358
			150 X 12 =1800	864	
05.07.2010 से 30.06.2011	8900	8750			2664
			150 X 12 =1800	1107	
01.07.2011 से 30.06.2012	9170	9020	150 X 12 =1800		2907
				1459	

01.07.2012 से 30.06.2013	9450	9290	160 X 12 =1920	1824	3379
01.07.2013 से 30.06.2014	9740	9570	170 X 12 =2040	2376	3864
01.07.2014 से 30.06.2015	10040	9860	180 X 12=2160	2713	4536
01.07.2015 से 31.12.2015	10350	10160	190 X 12=2280	---	4993
01.01.2016 से 30.06.2016	28600	28600	---	---	---
					----- 36058

(5)–श्री हरवंश सिंह पम्प चालक की सेवा पुस्तिका/व्यक्तिगत पत्रावली में पायी गयी अनियमितताएं एवं अनियमित भुगतान रु– 13,983 :-

श्री हरवंश सिंह पम्प चालक की व्यक्तिगत पत्रावली एवं सेवा पुस्तिका की जांच में प्रकाश में आया कि अधिषासी अधिकारी, सिटी बोर्ड, गाजियाबाद के पत्रांक सामान्य/ई0सी0/मीमो/93-173/750 दिनांक 04.06.1993 द्वारा श्री हरवंश सिंह को पत्र प्रेषित किया गया कि आपको शासनादेश सं0-1076/9-1-92-95 सा0/91 दिनांक 03.02.1992 के अनुसार आपकी सेवाओं का विनियमितकरण दिनांक 03.02.1992 से निर्धारित वेतनमान 750-12-870-द0रो0-14-940 में सहायक पम्प चालक (चतुर्थ श्रेणी) पद पर किया जाता है। आपको निम्न पूर्तियां पत्र की प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर करनी है।

1. निर्धारित प्रार्थना पत्र पर आवेदन पत्र
2. चिकित्सालय द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
3. आय प्रमाण पत्र
4. दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा आचरण प्रमाण पत्र
5. शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित प्रमाण पत्र

5. पद के अनुसार नगर पालिका में जमानत की राशि एक सप्ताह के अन्दर जमा होगा

श्री हरवंश सिंह पम्प चालक द्वारा दिनांक 23.06.1993 को अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख जमा किया गया था।

1. दिनांक 23.06.1993 को जारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक क्षरा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
2. आयु के सम्बन्ध में कक्षा 6 से 8 तक की जारी टी. सी. प्रमाण पत्र
3. दो नगर नगर पालिका गाजियाबाद सदस्य द्वारा, चरित्र प्रमाण पत्र
4. शैक्षिक योग्यता हेतु आठवी पास टी. सी. प्रमाण पत्र

बोर्ड प्रस्ताव सं०-227 दिनांक 07.11.98 के द्वारा दिनांक 01.09.94 से सहायक पम्प चालक का वेतनमान 800-1150 दिया जाना स्वीकृत किया गया था तथा दिनांक 01.01.1996 को शासनादेश सं०-2767/9-1-98-273/सा०/97 दिनांक 11.08.98 के अनुसार वेतनमान 2650-65-3300-70-4000 में वेतन निर्धारित किया गया। उक्त पत्रावली की जांच में निम्न कमियां पायी गयीं-

1. स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एम०एम०जी० हॉस्पिटल द्वारा जारी पत्रावली में संलग्न था जबकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण होना चाहिए था।
2. चरित्र प्रमाण पत्र दो नगर पालिका गाजियाबाद सदस्यों द्वारा प्रदत्त किया गया था जबकि नियुक्ति हेतु दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए था।
3. श्री हरवंश सिंह की शैक्षिक योग्यताओं सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित संस्थाओं से नहीं कराया गया था, जिससे इनकी सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकी। यह अनियमित एवं आपत्तिजनक था।
4. श्री हरवंश सिंह की नियुक्ति हेतु किसी चयन समिति का गठन नहीं किया गया था। बिना चयन समिति के की गई नियुक्ति अनियमित था।
5. अधिशासी अधिकारी, सिटी बोर्ड गाजियाबाद के पत्रांक-सामान्य/ई०सी०/मीमो/93-97/750 दिनांक 01.06.93 के बिन्दु सं०-6 के अनुसार नगर पालिका में जमानत की राशि एक सप्ताह के अन्दर अपने पद के अनुसार जमा की गई थी। इसकी पुष्टि पत्रावली से न हो सकी। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय।

बोर्ड प्रस्ताव सं०-227 दिनांक 07.11.98 के द्वारा दिनांक 01.09.94 से सहायक पम्प चालक का वेतनमान 800-1150 दिया जाना स्वीकृत किया गया था तथा दिनांक 01.01.1996 को शासनादेश सं०-2767/9-1-98-273/सा०/97 दिनांक 11.08.98 के अनुसार वेतनमान 2650-65-3300-70-4000 में वेतन निर्धारित किया गया। शासनादेश सं०-2856/9-3-95-2ग-डब्ल्यू/89 दिनांक 13.09.95 के अनुसार सहायक पम्प चालक अनर्ह पद धारकों को (बिना आई०टी०आई० पास) वेतनमान 775-12-871-14-1025 देय था। जिसको दिनांक 01.01.96 से रु 2610-60-3150-65-3540 वेतनमान में निर्धारित किया गया था दिनांक 01.01.1996 से अनुमन्य से अधिक वेतनमान दिये जाने के कारण निम्न विवरणानुसार रु 13983 मूल वेतन + महंगाई भत्ते का अधिक भुगतान किया गया।

श्री राम राज शर्मा, पम्प चालक

दिनांक	दिया गया मूल वेतन	देय मूल वेतन	अन्तर	महंगाई	अधिक भुगतान
1	2	3	4	5	6
01.01.1996 से 31.07.1996	2650	2610	40 X 7 = 280	16	296
01.08.1996 से 31.07.1997	2715	2670	45 X 12 = 540	37	577
01.08.1997 से 31.07.1998	2715	2670	45 X 12 = 540	82	622
01.08.1998 से 31.07.1999	2780	2730	50 X 12 = 600	178	778
01.08.1999 से 31.07.2000	2845	2790	55 X 12 = 660	281	891
01.08.2002 से 31.07.2003	2975	2970	05 X 12 = 60	29	89

01.08.2003 से 31.07.2004	3040	3030		72	192
			10 X 12 = 120		
01.08.2004 से 31.07.2005	3105	3090		44	224
			15 X 12 = 180		
01.08.2005 से 31.12.2005	3170	3150		32	132
			20 X 5 = 100	—	240
01.01.2006 से 30.06.2006	7700	7660			
			40 X 6 = 240	24	624
01.07.2006 से 30.06.2007	7940	7890			
			50 X 12 = 600	33	383
01.07.2007 से 31.01.2008	8180	8130			
			50 X 7 = 350	40	290
11.02.2008 से 30.06.2008	8430	8380			
			50 X 5 = 250	77	427
01.12.2008 से 30.06.2009	9050	9000			
			50 X 7 = 350	223	943
01.07.2009 से 30.06.2010	9330	9270			
			60 X 12 = 720	346	1066
01.07.2010 से 30.06.2011	9610	9550			
			60 X 12=720	547	1067
01.07.2012 से 30.06.2013	10200	10140			
			60 X 12=720	756	800
01.07.2013 से 10.02.2014	10510	10450			
			60 X 7=420	300	600
11.02.2014 से 30.06.2014	11010	10950			
			60 X 7=420		

01.07.2014 से 30.06.2015	11660	11600		791	1511
01.07.2015 से 31.12.2015	12010	11950	60 X 5=320	428	788
			60 X 12=720		
			60 X 6=360		

					13983

(6)–श्री नरेश, सफाई कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रावली में पायी गयी अनियमितताएं :-

अधिष्ठान अनुभाग की पत्रावलियों की जांच के समय प्रकाश में आया कि श्री नरेश (सफाई कर्मचारी) की व्यक्तिगत पत्रावली में संलग्न प्रपत्र अनुसार श्री नरेश का विनियमितकरण कार्यालय अधिष्ठान विभाग नगर निगम के पत्रांक अधि0/1053/स्वा0 वि0/99 दिनांक 04.03.99 के क्रम में मुख्य नगर अधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 03.03.99 के अनुसार दैनिक सफाई कर्मचारी के पद से श्री बाले पुत्र श्री अर्जुन सफाई कर्मचारी से हुये रिक्त पद पर निर्धारित वेतनमान 2550–3200 में एक वर्ष के परीविक्षा काल पर नियुक्त किया गया था।

उक्त पत्रांक अनुसार उप सं0–3 की शर्त अनुसार आयु प्रमाण पत्र कार्यालय में तत्काल रूप से प्रस्तुत किया जाना था जिसको श्री नरेश द्वारा अपनी नियुक्ति के एक वर्ष बाद दिनांक 18.05.2000 को प्रस्तुत किया गया था।

श्री नरेश द्वारा अपने विनियमितकरण के समय पर आयु से सम्बन्धित मैडिकल प्रपत्र प्रस्तुत न किया जाना एवं अधिष्ठान विभाग द्वारा बिना उनकी आयु से सम्बन्धित मैडिकल प्रपत्र के उनका विनियमितकरण किया जाना आपत्तिजनक एवं अनियमित था।

निगम द्वारा विनियमितकरण के समय ही मैडिकल सर्टिफिकेट न प्राप्त किया जाना अनियमित था क्योंकि श्री नरेश की आयु का निर्धारण उक्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर ही निर्धारित किया गया था। उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर सम्परीक्षा को अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

(7)–श्री जयदेव कौशिक पुत्र श्री परमरनन्द शर्मा (पम्प चालक) की व्यक्तिगत पत्रावली में पायी गयी अनियमितताएं :-

(1). नगर निगम की अधिष्ठान अनुभाग की पत्रावलियों की जांच के समय प्रकाश में आया कि पम्प चालक श्री जयदेव कौशिक के अवकाश लेखा पुस्तक में उपार्जित अवकाश प्रपत्र सं0-11(C) पर 319 दिवस अवकाश अंकित किये गये थे। उपार्जित अवकाश का विवरण जून 2011 से आगे अंकित नहीं किया जा रहा था जिससे अवशेष अवकाश एवं उपभोग किये गये अवकाशों की संख्या प्रपत्र-11(C) पर अंकित नहीं थी, जिससे अवकाशों के उपभोग की स्थिति संदिग्ध थी। प्रपत्र-11(C) पर चिकित्सा अवकाशों से सम्बन्धित विवरण अंकित नहीं था। प्रपत्र-11(C) पर उपार्जित अवकाश/चिकित्सा अवकाश अंकित नहीं होने से अवकाशों के अनियमित उपभोग की प्रबल संभावना थी। उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर विशिष्ट रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(2). व्यक्तिगत पत्रावली में संलग्न सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर श्री जयदेव कौशिक के केवल सीधे हाथ के निशान ही लिये गये थे, बायें हाथ के निशान अंकित नहीं थे। यह अनियमित एवं आपत्तिजनक था। इसका कारण स्पष्ट करते हुए इसे पूर्ण कराया जाय।

(3). व्यक्तिगत पत्रावली/सेवा पुस्तिका में यथास्थान नामिनी के नाम का विवरण नहीं था जोकि सेवा नियमों के विपरीत था एवं सेवादाता के हितों के भी विपरीत था। यथास्थान नामिनी का नाम अंकित कर सेवा पुस्तिका पूर्ण कराकर आगामी अवसर पर सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाये।

(8)–श्री नरेश पुत्र प्रीतम सफाई कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में परिवार का विवरण अंकित न किया जाना एवं लेखा पूर्ण न किया जाना अनियमित :-

(1). सेवा पुस्तिकाओं एवं व्यक्तिगत पत्रावलियों की जांच के समय प्रकाश में आया कि श्री नरेश पुत्र स्व0 प्रीतम सिंह की नियुक्ति, इनके पिता श्री प्रीतम सिंह की मृत्यु दिनांक 15 नवम्बर 2006 को होने के उपरान्त मृतक आश्रित के रूप में वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम गाजियाबाद के पत्र दिनांक 13.09.2007 के द्वारा वेतनमान 2550-55-2660-60-3200 में सफाई कर्मचारी के पद पर की गई थी। पत्रावली में संलग्न उक्त नियुक्ति पत्र पर कोई डिस्पेच संख्या

अंकित नहीं की गयी थी, जो कि अनियमित था। उपरोक्त नियुक्ति पत्र पर डिस्पेच संख्या अंकित न होना संदिग्ध था। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(2). इनकी सेवा पुस्तिका में परिवार के सदस्यों का विवरण एवं नौमिनी अंकित नहीं किये गये थे। जोकि अनियमित एवं आपत्तिजनक था। भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होन पर नगर निगम को अनावश्यक विधिक कार्यवाही पर व्यय करना पड सकता है। अतः इनके परिवार के सदस्यों एवं नौमिनी का विवरण किया जाना अपेक्षित है।

(3). इनकी सेवा पुस्तिका में अवकाश लेखा अद्यावधिक, पूर्ण नहीं किया गया था। जिसके कारण अवकाश लेखा नियमानुसार अंकित किये जाने की जांच सम्भव न हो सकी। अतः अवकाश लेखा पूर्ण न किये जाने का कारण स्पष्ट करते हुए इसे अद्यावधिक, पूर्ण कराया जाना अपेक्षित है।

(4). श्री नरेश द्वारा अपने सेवाकाल में अनेकों बार उपार्जित अवकाश एवं चिकित्सा अवकाश का उपभोग किया गया था किन्तु अवकाशों के उपभोग के उपरान्त कार्य पर उपस्थित होन पर इनके द्वारा कार्यभार ग्रहण पत्र नहीं दिया गया था। यह अनियमित था। इसका कारण स्पष्ट करते हुए आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(9)–श्री बाबू पुत्र बिजेन्द्र सफाई कर्मचारी की सेवा पुस्तिका अपूर्ण एवं अन्य अनियमिततायें :-

शासनादेश सं०-307/9-1-2011-133सा०/2008 दिनांक 13.05.2011 के क्रम में 29 जून 1991 से पूर्व दैनिक वेतन पर कार्यरत तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के विनियमितिकरण हेतु सृजित अधिसंख्यक पर नगर आयुक्त के आदेश दिनांक 17.06.2011 के अनुपालन में श्री बाबू पुत्र श्री बिजेन्द्र का विनियमितिकरण दिनांक 13.05.2011 से सफाई कर्मचारी के अधिसंख्यक पद पर वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 1800 में किया गया था जिसके क्रम में इनके द्वारा दिनांक 23.06.2011 को कार्यभार ग्रहण किया गया था। इसकी सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली की जांच में निम्नांकित अनियमिततायें प्रकाश में आयीं—

1. वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी के पत्रांक-स्वास्थ्य/285/2011 दिनांक 21.06.2011 द्वारा इनसे अन्य प्रमाण पत्रों के साथ आयु हेतु प्रमाण पत्र एवं दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मांग की गई थी। आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र के रूप में इनके द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र दिनांक 27.06.2011 प्रस्तुत किया गया था। जिसमें इनकी आयु 41 वर्ष के आधार पर इनकी सेवा पुस्तिका में इनकी जन्मतिथि दिनांक 27.06.1970 अंकित की गयी थी। इनके

द्वारा दिनांक 23.06.2011 को कार्यभार ग्रहण किया गया था जबकि इनकी आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र दिनांक 27.06.2011 को जारी किया गया था। इनकी अन्य कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं थी। इस प्रकार इनकी आयु का निर्धारण कार्यभार ग्रहण के उपरान्त कराया गया था। जाकि अनियमित था। आयु का निर्धारण कार्यभार ग्रहण के पूर्व कराया जाना चाहिए था।

2. इनकी सेवा पुस्तिका में परिवार का कोई भी विवरण अंकित नहीं था और न ही नौमिनी का निर्धारण कराया गया था। इसे पूर्ण कराया जाना अपेक्षित है।

3. वर्ष 2021 के उपरान्त इनकी वेतन वृद्धियां अंकित नहीं की गई थी और न ही सेवाओं का सत्यापन कराया गया था। इसका कारण स्पष्ट करते हुए इन्हे अद्यावधिक पूर्ण कराया जाय।

4. सेवा के अन्तर्गत इनके द्वारा उपार्जित एवं मेडिकल अवकाशों का उपभोग किया गया था किन्तु अवकाशों का उपभोग किये जाने के उपरान्त इनके द्वारा कभी भी कार्यभार ग्रहण पत्र नहीं दिया था। यह अनियमित था। इसके सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाय।

5. इसकी सेवा पुस्तिका में अवकाश लेखा नियमानुसार पूर्ण नहीं किया गया था इसे अद्यावधिक नियमानुसार पूर्ण कराया जाना अपेक्षित है।

(10)–ए0सी0पी0/वेतन का अन्तर, उपार्जित अवकाश नकदीकरण आदि बकायों के भुगतानों से सम्बन्धित सेवा पुस्तिकाओं एवं व्यक्तिगत पत्रावलियां अप्रस्तुत भुगतान रु 48,69,755 :-

व्यय प्रमाणकों की जांच से प्रकाश में आया कि सम्परीक्षा माहों में नगर निगम के विभिन्न कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन/ए0सी0पी0 अन्तर एवं उपार्जित अवकाश के नकदीकरण का भुगतान किया गया था। किन्तु इनसे सम्बन्धित सेवा पुस्तिकायें एवं व्यक्तिगत पत्रावलियां सम्परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने के कारण उक्त भुगतानों के नियमानुसार भुगतान/देयता की स्थिति स्पष्ट न हो सकी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में बार-बार मौखिक रूप से अनुरोध किये जाने एवं जिला लेखा परीक्षा अधिकारी गाजियाबाद के पत्रांक-372 दिनांक 03.08.2023, उप निदेशक मेरठ मण्डल, मेरठ के पत्रांक-मे0मं0/वृत्त/1436 दिनांक 22.08.2023 एवं मेरे अधियाचन सं0-20 दिनांक 02.09.2023 निर्गत किये जाने के उपरान्त भी उक्त सेवा पुस्तिकायें एवं व्यक्तिगत पत्रावलियां सम्परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण इनकी सम्यक जांच सम्भव न हो सकी। भुगतानों का विवरण निम्नवत है-

क्र०	नाम व पदनाम	अवधि	व्य०सं०	धनराशि
1.	श्री मानसिंह, अनुचर	उपार्जित अवकाश नगदीकरण अवशेष	204 / 09.02.23	34030
2.	श्री दिनेश पुत्र श्यामो	उपार्जित अवकाश नगदीकरण	205 / 09.02.23	364480
3.	श्रीमति कान्ता पत्नि रोहताश	उपार्जित अवकाश नगदीकरण	205 / 09.02.23	329648
4.	श्री वीरपाल, गैंगमैन	01.08.18 से 30.06.19	195 / 01.03.23	23872
5.	श्रीमति नगीना पत्नि विजय कुमार	नगदीकरण	199 / 01.03.23	69692
6.	श्री सुरेन्द्र कुमार, पम्प चालक	01.07.21 से 31.05.22	200 / 01.03.23	22836
7.	शिव कुमार सरोज, अ० अभि०	01.07.21 से 31.05.22	201 / 01.03.23	58148
8.	श्रीमति पूजा सिंह, अ० अभि०	01.07.21 से 31.05.22	203 / 01.03.23	129752
9.	श्रीमति रामो, स० क०	05.10.19 से 20.12.22	207 / 01.03.23	96081
10.	श्री राज सिंह, अनुचर	01.07.18 से 31.05.22	213 / 01.03.23	71334
11.	श्री तारीफ, पम्प चालक	01.07.21 से 31.07.22	217 / 01.03.23	19008
12.	श्री योगेन्द्र कुमार दीक्षित, अ०अभि०	01.07.21 से 31.05.22	225 / 01.03.23	53172
13.	श्री रामचन्द्र, गैंगमैन	01.0.18 से 31.03.19	226 / 01.03.23	17296

14.	श्रीमति किरन, स0क0	01.07.21 से 20.01.23	227 / 01.03.23	28222.00
15.	श्री धर्मवीर पति	उपार्जित अवकाष	228 / 01.03.23	257494.00
16.	कृष्णा	11.07.22 से 31.08.22	233 / 01.03.23	2778.00
17.	श्री संजय शर्मा, अनुचर	01.07.19 से 31.05.21	242 / 01.03.23	46552.00
18.	श्री बेगराज, गैंगमैन	01.07.21 से 31.05.22	245 / 01.03.23	54628.00
19.	श्री संजय गंगवार, अ0अभि0	01.07.21 से 31.05.22	248 / 01.03.23	51160.00
20.	श्री गनेशी लाल, अ0अभि0	01.01.16 से 30.11.22	249 / 01.03.23	190835.00
21.	श्री इकरामुददीन, माली	01.07.21 से 30.11.22	250 / 01.03.23	35620.00
22.	श्री फिरे राम, ड्राइवर	01.07.19 से 31.08.20	251 / 01.03.23	35042.00
23.	श्री कल्लू, गैंगमैन	08.09.10 से 31.03.11	253 / 01.03.23	31103
24.	श्री विनोद कुमार, पम्प चालक	01.09.21 से 30.11.22	254 / 01.03.23	22670
25.	श्री मेहराज, गैंगमैन	27.07.20 से 01.04.22	255 / 01.03.23	70229
26.	श्री योगेश कुमार,	31.10.19 से 31.05.22	256 / 01.03.23	75425

27.	अ0अभि0 श्री श्याम सिंह,	03.09.19 से 30.11.22	259 / 01.03.23	85568
28.	अ0अभि0 श्रीमति धनेश्वरी,	उपार्जित अवकाश नकदीकरण	2336 / 31.03.	645840
29.	स0क0 श्री नैन सिंह, लिपिक	उपार्जित अवकाश नकदीकरण	2337 / 31.03.	441600
30.	श्रीमति कृष्णा देवी, चौकीदार	उपार्जित अवकाश नकदीकरण	2338 / 31.03.	1505580
	श्री अवतार सिंह, स0अभि0		23	4869755

(11)–वाहन भत्ते का अनियमित भुगतान रु 1,00,800 :-

सम्परीक्षा में आलोच्य अवधि के उप सम्परीक्षा माहों के वेतन देयकों की जांच से प्रकाश में आया कि माह फरवरी देय मार्च 2023 के वेतन में निम्न विवरणानुसार अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ताओं को रु 700 प्रति माह भत्ते का भुगतान किया गया था।

उक्त वाहन भत्ते का भुगतान अवर अभियन्ताओं/सहायक अभियन्ताओं को किस शासनादेश के आधार पर दिया गया था, सम्परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया। उक्त वाहन भत्ते का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में यदि शासन/निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0 प्र0 लखनऊ का कोई आदेश हो तो सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय अन्यथा स्थिति में निम्न विवरणानुसार माह फरवरी देय मार्च 2023 के आधार पर आगणित सम्पूर्ण वर्ष में रु 1,00,800 की वसूली कराये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। यदि शासन/निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0 प्र0 लखनऊ का कोई आदेश नहीं है तो उक्त की अधावधिक गणना कराकर वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र०	नाम	पदनाम	विभाग का नाम	प्रतिमाह भुगतान की गयी वाहन भत्ते की राशि
1.	शेष मनि यादव	अवर अभियन्ता	जनरल	700
2.	सोमेन्द्र प्रताप सिंह	अवर अभियन्ता	जनरल	700
3.	ओम प्रकाश	सहायक अभियन्ता	जनरल	700
4.	राजेन्द्र सिंह	अवर अभियन्ता	निर्माण विभाग	700
5.	संजय कुमार गंगवार	अवर अभियन्ता	निर्माण विभाग	700
6.	नागेन्द्र कुमार	अवर अभियन्ता	निर्माण विभाग	700
7.	पूजा सिंह	अवर अभियन्ता	निर्माण विभाग	700
8.	योगेन्द्र कुमार दीक्षित	अवर अभियन्ता	निर्माण विभाग	700
9.	श्याम सिंह	सहायक अभियन्ता	निर्माण विभाग	700
10.	षिव कुमार सरोज	अवर अभियन्ता	निर्माण विभाग	700
11.	गनेषी लाल	अवर अभियन्ता	निर्माण विभाग	700
12.	अवतार रॉयल	सहायक अभियन्ता	निर्माण विभाग	700

कुल अनियमित भुगतान = 700 X 12 X 12 = 1,00,800

(12)–निगम के उच्चाधिकारियों को वाहनों के उपयोग हेतु पेट्रोल का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य स्पष्ट न कराये जाने के कारण अग्रहय व्यय रु 2,80,423 :-

व्यय प्रमाणकों की जांच में प्रकाश में आया कि नगर निगम के विभिन्न अधिकारियों के वाहन प्रयोग के फलस्वरूप पेट्रोल इत्यादि का भुगतान मैसर्स हिण्डन फिलिंग सेन्टर, जी० टी० रोड, गाजियाबाद को किया गया था। उक्त बिलों से यह स्पष्ट नहीं हो रहा था कि यह वाहन

किन-किन अधिकारियों के द्वारा उपयोग किये जा रहे थे एवं यह वाहन किराये पर लेकर उपयोग किये गये थे अथवा यह नगर निगम के स्वयं के वाहन थे। सम्परीक्षा में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि जिन अधिकारियों द्वारा यह वाहन उपयोग किये जा रहे थे वे किस शासनादेश के अन्तर्गत वाहनों के उपयोग हेतु अधिकृत थे। अतः उपरोक्त भुगतानों के सम्बन्ध में शासनादेश एवं सम्बन्धित वाहनो की लॉग बुके सम्परीक्षा में प्रस्तुत कर स्थिति स्पष्ट करायी जाय अन्यथा की स्थिति में यह व्यय नगर निगम की निधि पर अग्रहय व्यय था। भुगतानों का विवरण निम्नवत है—

क्र०	वा० सं०/दिनांक	धनराशि	व्यय की अवधि	वाहन सं०	बिल प्रमाणकर्ता अधिकारी का विवरण
1.	639 / 28.03.23	5794	1.10.22 से 31.10.22	यू.पी. 14-2020	प्रभारी कार्मिक
2.	639 / 28.03.23	5794	1.10.22 से 31.10.22	यू.पी. 14-2020	प्रभारी कार्मिक
3.	639 / 28.03.23	3862	1.10.22 से 31.10.22	यू.पी. 14-2020	प्रभारी कार्मिक
4.	638 / 28.03.23	16151	1.12.22 से 31.12.22	यू.पी. 14-4444	प्रभारी नजारत
5.	637 / 28.03.23	10056	1.11.22 से 30.11.22	यू.पी. 14-7777	अज्ञात
6.	636 / 28.03.23	12113	अंकित नहीं	यू.पी. 14-4444	प्रभारी नजारत
7.	635 / 28.03.23	29368	अंकित नहीं	यू.पी. 14-8888	जोनल प्रभारी मोहन नगर
8.	634 / 28.03.23	14484	1.12.22 से 31.12.22	यू.पी. 14-2800	कर अधीक्षक सिटी जोन

9.	633 / 28.03.23	28016	1.8.22 से 31.8.22	यू.पी. 14-0560	अधिकासी अभियन्ता-जल
10.	632 / 28.03.23	30154	1.9.22 से 30.9.22	यू.पी. 14-0560	अधिकासी अभियन्ता-जल
11.	631 / 28.03.23	9656	1.4.23 से 31.7.23	यू.पी. 14-7777	अज्ञात कर निर्धारण
12.	630 / 28.03.23	23174	1.11.22 से 30.11.22	यू.पी. 14-9999	अधिकारी कर अधिकारी
13.	629 / 28.03.23	18181	1.11.22 से 30.11.22	यू.पी. 14-2800	सिटी जोन अज्ञात
14.	628 / 28.03.23	23974	1.12.22 से 31.12.22	यू.पी. 14एफ-9424	मुख्य कर निर्धारण
15.	627 / 28.03.23	20278	1.10.22 से 31.10.22	यू.पी.14ए.एम. -9999	अधिकारी जोनल प्रभारी
16.	626 / 28.03.23	29368	1.12.22 से 31.12.22	यू.पी.14ए.वी. -8888	मोहन नगर
		----- 280423			

(13)-पेंशन भुगतान हेतु जीवित प्रमाण पत्र एवं पेंशन भुगतान पंजिका उपलब्ध न कराये जाने के

कारण भुगतान असत्यापित रु 3,94,12,765 :-

आलोच्य अवधि के उप सम्परीक्षा हेतु चयनित माहों के व्यय प्रमाणकों की जांच में प्रकाश में आया कि निम्नांकित विवरणानुसार भुगतान पेंशन/पारिवारिक पेंशन हेतु मात्र सम्परीक्षा माहों में किया गया था। परन्तु पेंशन/पारिवारिक पेंशन के सत्यापनार्थ किसी कर्मचारी का जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पेंशन भुगतान पंजिका ही सम्परीक्षार्थ प्रस्तुत की गयी। मात्र बैंकवार भुगतान सूची ही व्यय प्रमाणक के साथ संलग्न थी। जिसमें एक मुष्ट राशि ही दर्शायी गयी

थी। जिसमें मूल पेंशन एवं डी.ए. का भी उल्लेख नहीं था। इस प्रकार बिना जीवित प्रमाण पत्र प्राप्त किये तथा बिना पेंशन पंजिका तैयार किये ही, किया गया पेंशन का भुगतान अनियमित एवं असत्यापित था। अतः उपर्युक्त जीवित प्रमाण पत्र एवं पेंशन पंजिका तैयार एवं सत्यापन के उपरान्त ही पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान किये जाने हेतु कार्यवाही अपेक्षित है। भुगतानों का विवरण निम्नवत है—

क्र०	व्यय प्रमाणक सं०/दिनांक	धनराशि	सम्बन्धित माह
1.	366 / 02.03.2023	1,33,1301	फरवरी 2023
2.	367 / 02.03.2023	1,56,59,849	फरवरी 2023
3.	368 / 02.03.2023	22,98,274	फरवरी 2023
4.	369 / 02.03.2023	10,08,052	फरवरी 2023
5.	207 / 09.02.2023	12,73,515	जनवरी 2023
6.	208 / 09.02.2023	1,45,93,556	जनवरी 2023
7.	209 / 09.02.2023	22,14,634	जनवरी 2023
8.	210 / 09.02.2023	19,33,582	जनवरी 2023
		3,94,12,765	

(14)—नगर निगम में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों से उनके मूल पद से उच्च पद का कार्य लिया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक :-

सम्परीक्षा में जांच में प्रकाश में आया कि नगर निगम में कार्यरत कर्मचारियों से उनके मूल पद से उच्च पद का कार्य लिया जा रहा था जबकि नगर आयुक्त के पत्रांक—1383/न0आ0/2018—19 दिनांक 20.01.2019 एवं निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेश संख्या—2/7462/39 विविध/टैक्स कलै0/11 दिनांक 16 जनवरी 2019 द्वारा समस्त नगर आयुक्तों, नगर निगमों को यह स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नगर निकायों में कार्यरत कर्मचारियों से उनके मूल पद से उच्च पद का कार्य न लिया जाये।

विगत वर्षों में भी इस सम्बन्ध में आपत्ति की गई थी किन्तु इस सम्बन्ध में निगम द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी एवं आलोच्य वर्ष में स्थिति यथावत थी। इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की गयी हो तो उससे सम्परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया था। अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर सम्बन्धित कर्मचारियों से उनके मूल पद की ही कार्य लिया जाना अपेक्षित है। कर्मचारियों का विवरण निम्नवत है यदि उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी भी कर्मचारी से उसके मूल पद के सापेक्ष उच्च पद का कार्य लिया जा रहा हो तो उन्हें भी इस सूची में शामिल कर कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र०	कर्मचारी का नाम	मूल पद नाम	कार्यरत पद का विवरण
1.	श्री प्रदीप राठी	चौकीदार	कर निरीक्षक द्वितीय, कविनगर जोन
2.	श्री धीर सिंह सैनी	चपरासी	कर निरीक्षक द्वितीय, कविनगर जोन
3.	श्री राहुल कुमार	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	जन्म मृत्यु लिपिक, कविनगर
4.	श्री संजय शर्मा	अनुचर	कर निरीक्षक द्वितीय, कविनगर जोन
5.	श्री रविन्द्र पाल	अनुचर	कर निरीक्षक द्वितीय, कविनगर जोन
6.	श्री रीगन नागर	अनुचर	कर निरीक्षक द्वितीय, कविनगर जोन
7.	श्री सुनील भाटी	अनुचर	कर निरीक्षक द्वितीय, विजय नगर
8.	श्री उमेश भडाना	अनुचर	कर निरीक्षक द्वितीय, विजय नगर
9.	श्री लोकेश कुमार	क्लीनर	कर निरीक्षक द्वितीय, विजय नगर
10.	श्री प्रमोद प्रजापति	अनुचर	कर निरीक्षक द्वितीय, वसुन्धरा
11.	श्री विनोद शर्मा	अनुचर	कर निरीक्षक द्वितीय, सिटी जोन
12.	श्री राजवीर सिंह	कर निर्धारण अधिकारी	जोनल अधिकारी, मोहन नगर जोन
13.	श्री सुनील राय	कर निर्धारण अधिकारी	जोनल अधिकारी, कविनगर जोन
14.	श्री दिनेश चन्द्र शर्मा	द्वितीय श्रेणी लिपिक / ड्राफ्ट मैन	अवर अभियन्ता

15.	श्री रमेश कुमार	पम्प चालक बैकलॉग	द्वितीय श्रेणी लिपिक
16.	श्री राज कुमार	पम्प चालक बैकलॉग	द्वितीय श्रेणी लिपिक

(15)—मृतक आश्रित के रूप में 9 कर्मचारियों की अनियमित नियुक्ति :-

शासनादेश सं०-307/9-1-2011-133/सा०/2003 दिनांक 13.05.11 द्वारा दिनांक 29.06.1991 से पूर्व दैनिक वेतन पर कार्यरत तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के विनियमितकरण हेतु अधिसंख्यक पदों के सृजन के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि अधिसंख्यक पदों के पद धारकों के सेवा निवृत्त, मृत्यु या पद छोड़ने की दशा में पद धारकों के पद समाप्त हो जायेंगे। गत एवं विगत वर्षों में निरन्तर आपत्ति उठायी जा रही थी कि दैनिक वेतन पर कार्यरत निम्नलिखित तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की मृत्यु के उपरान्त भी निम्नांकित 09 नियुक्तियां मृतक आश्रित के रूप में की गयी थी। जो कि अनियमित एवं शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन था। इसके सम्बन्ध में सम्परीक्षा समय तक कोई कार्यवाही न किया जाना आपत्तिजनक था। अतः उक्त के सम्बन्ध में कार्यवाही कर सम्परीक्षा को अवगत कराया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है—

क्र०	कर्मचारी का नाम	पिता/पति का नाम
1.	श्री अभय कुमार	स्व० देवेन्द्र दत्त
2.	श्री मौ० कामिल	स्व० इरफान खान
3.	श्री अनुराग नागर	स्व० विनोद कुमार
4.	श्री प्रदीप कुमार	स्व० कमलेश प्रसाद
5.	श्रीमति सुनीता	स्व० मनोज कुमार
6.	श्रीमति इन्दु	स्व० श्याम बाबू
7.	श्रीमति रेनु वर्मा	स्व० मुकेश कुमार
8.	श्रीमति मधु शर्मा	स्व० मुकेश कुमार
9.	कु० भावना गुप्ता	स्व० ओम प्रकाश

6- परियोजनाओं की प्रगति, बजट समीक्षा एवं अन्य उल्लेखनीय प्रकरण :-

(1). स्मार्ट सटी मशन के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान की धनरा श रु 2,50,06,480 उपभोग न कया जाना अनिय मत:-

स्मार्ट सटी मशन के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 से प्रचार-प्रसार मद में रु 1,29,06,480 प्राप्त हुए थे। आलोच्य अव ध में प्राप्त अनुदानों रु 16,95,37,500 में से रु 15,74,37,500 का उपभोग कये जाने के उपरान्त रु 1,21,00,000 अवशेष थे एवं वर्ष 2015-16 व 2016-17 में प्राप्त अनुदानों का उपभोग ही नहीं कया गया था। इस प्रकार वर्षान्त में रु $1,29,06,480 + 1,21,00,000 = 2,50,06,480$ उपभोग हेतु अवशेष थे।

इस प्रकार रु 1,29,06,480 की अप्रयुक्त धनरा श वगत कई वर्षों से चली आ रही थी जो क शासन की महत्वपूर्ण योजना स्मार्ट सटी मशन के उद्देश्यों के वपरित था। अतः अप्रयुक्त अनुदानों की कुल धनरा श रु 2,50,06,480 का उपभोग निर्दिष्ट उद्देश्यों पर कया जाय अन्यथा की स्थिति में इसे शासन को वापस कया जाना अपे क्षत है।

(2). राजस्व वभाग से प्राप्त अनुदान की अप्रयुक्त धनरा श का उपभोग/ वापस न कया जाना अनिय मत रु 3,71,574-

सम्परीक्षा में अनुदान की जांच में प्रकाश में आया क राजस्व वभाग से प्राप्त अनुदान शासनादेश संख्या-2021/1-10-2011/12(34)/2011 दिनांक 11-04-2011 द्वारा धनरा श रु 1,10,22,000 दिनांक 23-12-2011 को प्राप्त हुए थे। इनमें से रु 3,71,574 की धनरा श वगत कई वर्षों से अप्रयुक्त चली आ रही थी। इनमें उपभोग न होने की दशा में इन्हे सम्बन्धित वभाग को वापस कया जाना चाहिए था। इसके सम्बन्ध में गत् एवं वगत वर्षों से निरन्तर आप त की जा रही थी। इसके बावजूद भी न तो इस धनरा श का उपभोग ही कया गया था और न ही इसे सम्बन्धित वभाग को वापस कया गया था। अतः इसके उपभोग हेतु राजस्व वभाग से अनुमति प्राप्त कर इसका उपभोग कया जाय अन्यथा की स्थिति में इसे अतिशीघ्र राजस्व वभाग को वापस कये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही अपे क्षत है।

(3). बारहवें वत्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त अनुदान की अप्रयुक्त धनरा श रु 154,73,720 शासन को वापस न कया जाना अनिय मत:-

सम्परीक्षा में प्रकाश में आया क अप्रयुक्त अनुदान लेखे में नगर निगम की वर्ष 2005-06 से 2010 तक 12 वें वत्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त अनुदान की धनरा श में से रु 1,54,73,720 दिनांक 31-03-2023 तक उपभोग नहीं कये गये थे और न ही उन्हें व्यय कये जाने हेतु शासन से कोई अनुमति प्राप्त की गई थी। ऐसी स्थिति में उक्त अनुदानों को निगम खातों में अवरुद्ध रखा गया था। इसे शासन को वापस न कया जाना अनिय मत एवं आप तजनक था। सम्परीक्षा में स्पष्ट कराया जाय क अप्रयुक्त अनुदानों की यह धनरा श 20 बैंक खाते अथावा कोषागार में जमा है एवं दिनांक 31-03-2023 तक इस धनरा श पर निगम को कतना व्याज प्राप्त हो चुका था। इस धनरा श को अभी तक शासन को वापस न कये जाने का कारण स्पष्ट करते हुए ब्याज सहित उक्त धनरा श को वापस कर सम्परीक्षा को अवगत कराया जाए। वगत वर्षों में भी उक्त के सम्बन्ध में आप त की गई थी कन्तु उसके पश्चात भी उक्त धनरा श के उपभोग हेतु न तो निगम द्वारा शासन से अनुमति ली गयी थी और न ही इसे ब्याज सहित वापस कया गया। यह स्थिति शासकीय आदेशों के प्रतिकूल थी। अतः उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही लया जाना अपे क्षत है।

(4). सांसद एवं वधायक नि ध से प्राप्त अनुदान की अप्रयुक्त धनरा श रु 7,20,854 उपभोग न होने पर भी शासन को वापस न कया जाना अनिय मत:-

अप्रयुक्त अनुदानों के लेखों की जाँच से प्रकाश में आया की नगर निगम को (1)सांसद/ वधायक नि ध से दिनांक 29-05-2009 में रुपया 376200 तथा (2) सांसद नि ध से दिनांक 18-05-2004 में सूर्य नगर के सौन्दर्यीकरण हेतु रु 1,50,000 एवं (3) सांसद नि ध से समर सवल प्म्प लगवाने हेतु दिनांक 11-12-2014 में रु 7,80,382 का अनुदान प्राप्त हुआ था जिसमें से रु 5,85,728 का उपभोग होने के उपरान्त रु 1,94,654 का अप्रयुक्त धनरा श थी।

क्रमांक (1) एवं (2) पर अं कत प्राप्त अनुदानों का उपयोग ही नहीं कया गया था। अतः क्रमांक (1), (2) एवं (3) की कुल धनरा श रु 7,20,854 कई वर्षों से अप्रयुक्त चली आ रही थी। नगर निगम द्वारा न तो इसका उपभोग कया गया और न ही इसे वापस कया गया था। यह स्थिति निगम के आ र्थक हितों के प्रतिकूल थी। अतः इस धनरा श की स्वीकृति के उपरान्त उपभोग कया जाय अन्यथा की स्थिति में अप्रयुक्त अनुदानों का उपयोग/वापस न कये जाने

का कारण स्पष्ट करते हुए इन अप्रयुक्त अनुदानों की धनराशियों को वापस किया जाना अपेक्षित है।

(5). यू0आई0डी0एस0एम0टी0 योजना खाते में भारी धनराश अवरोध रखा जाना अनियमित एवं आपत्जनक रु 902,09,147-

आलोच्य अवध की सम्परीक्षा में यू0आई0डी0एस0एम0टी0 की रोकड़बही की जांच के समय प्रकाश में आया कि 31 मार्च, 2023 को उक्त खाते में रु 9,02,09,147 अवरोध था। इतनी भारी धनराश खाते में अवरोध रखा जाना अनियमित एवं आपत्जनक था। उक्त धनराश हेतु कार्य योजना की स्वीकृति शासन से प्राप्त कर उक्त धनराश का उपभोग किया जाय अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराश सम्बन्धित वभाग को वापस किये जाने हेतु प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

उल्लेखनीय है कि उक्त योजना वगत कई वर्षों से बन्द है। जिसके कारण इतनी बड़ी धनराश उक्त निधन में अवरोध रखी गई है। जिससे उक्त धनराश की सीमा तक विकास कार्य प्रभावित हो रहे थे। अतएव उक्त के सम्बन्ध में प्रभावी एवं आवश्यक कार्यवाही लया जाना अपेक्षित है।

(6). बजट समीक्षा: नगर निगम की वर्ष 2022-23 की बजट समीक्षा के समय प्रकाश में आया कि नगर निगम की निम्नलिखित मदों में गत वर्ष की तुलना में काफी कम आय प्राप्त हुयी थी, इससे नगर निगम के आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था एवं आर्थिक क्षति सम्भावित थी-

क्र0	मद का नाम	वर्ष 2021-22 की आय	वर्ष 2022-23 की आय	कम आय प्राप्त
1.	स्वास्थ्य लाइसेंस	5123244	2256700	2866544
2.	जल बिक्री(जल मूल्य) से आय	10000	शून्य	10000
3.	अन्य आय-3(5)	450000	शून्य	450000
4.	अस्थायी प्रयोग भूमि	6302613	1122726	5179887
5.	रोड कटिंग	23110192	3661710	19448482
6.	अन्य आय-6(11) मद	28066410	24866693	3199717
7.	साई मन्दिर दान पात्र से प्राप्त राश	347904	210440	137464

वर्तीय वर्ष 2022-23 में निम्नांकित मदों में वर्ष 2022-23 के बजट में प्रावधानित आय से वास्तविक आय कम प्राप्त हुयी थी। ववरण निम्नवत है।-

क्र०	मद का नाम	वर्ष 2022-23 की प्रावधानित आय	वर्ष 2022-23 में वास्तविक आय	कम आय
1.	गृहकर	1360000000	708109184	651890816
2.	जलकर	816000000	581488271	234511729
3.	सीवरकर	512000000	256073341	255926659
4.	प्रेक्षाकर	1500000	1012980	487020
5.	स्वास्थ्य लाइसेंस	3000000	2256700	743300
6.	भवन एवं भूखण्ड	1000000	शून्य	1000000
7.	दुकान प्री मयम	3000000	2200000	800000
8.	जल बिक्री से आय(जल मूल्य)	500000	शून्य	500000
9.	अन्य	100000	शून्य	100000
10.	भवन एवं दुकान	100000000	15049202	84950798
11.	तरणताल	8000000	7351000	649000
12.	पानी का टैंकर	20,00,000	874600	1125400
13.	अन्य	500000	278100	221900
14.	मलबा शुल्क	5000000	शून्य	5000000
15.	रोड कटिंग	30000000	3661710	26338290
16.	सीवर संयोजन	10000000	1759818	8240182
17.	जन्म मृत्यु पंजीकर	300000	14395	285605
18.	वधशाला	100000	शून्य	100000
19.	अर्थ दण्ड	10000000	6310953	3689047
20.	प्रति ल प शुल्क	50000	13595	36405
21.	कांजी हाउस	100000	शून्य	100000

22.	मेले, हाट, प्रदर्शनी से आय	100000	शून्य	100000
23.	अन्य	30000000	24866694	5133306
24.	साई मन्दिर दान पात्र से आय	1500000	210440	1289560
25.	यूजर चार्जिंग	50000000	17751014	32248986
26.	गउशाला से आय	4000000	शून्य	4000000
27.	स्टेम्प शुल्क से आय	500000000	338975621	161024379
28.	अन्य	110000000	86585120	23414880
29.	नगर सड़क सुधार योजना	125000000	शून्य	125000000
30.	बीमा	200000	शून्य	200000
31.	कर्मचारी कल्याण नि ध	50000000	शून्य	50000000
32.	अन्य	400000	शून्य	400000

उपरोक्त से स्पष्ट था क निगम की आय गत वर्ष की तुलना में कम हो रही थी तथा बजट की प्रा वधानित आय से कम आय प्राप्त की गई थी। अतः नगर निगम की आय बढ़ाये जाने हेतु प्रभावी एवं आवश्यक कार्यवाही कये जाने हेतु नगर निगम के उच्चा धकारियों का ध्यान वशेष रूप से आकृष्ट कया जाता है।

व्यय :

क्र0	मद	वर्ष 2022-23 का प्रा वधानित बजट	वर्ष 2022-23 का वास्त वक व्यय	अ धक व्यय
1.	जमानत(उपंत खाता)	6,00,00,000	62101507	2101507
2.	जी0डी0ए0	300,00,000	46464467	16464467

उक्त के अतिरिक्त सभी व्यय बजट में प्रा वधान की सीमान्तर्गत कये गये थे। कतिपय मदों में बजट प्रा वधान के सापेक्ष कोई धनरा श व्यय नहीं की गयी थी जिससे स्पष्ट था क व्यय बजट प्रा वधानों के अनुसार न करके इनमें वचलन कया गया था। अतः बजट प्रा वधान करते समय सटीक अनुमान/आवश्यकतानुसार कये जाने की आवश्यकता थी। तएव उक्त के सम्बन्ध में निगम के उच्चा धकारियों का ध्यान वशेष रूप से आकृष्ट कया जाता है।

(7)– नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना एवं निस्तारण योजना सम्बन्धी टिप्पणियां :-

शासनादेश संख्या- 19 जी0आई0ए0/नौ-7-95-3ज/95 नगर विकास अनुभाग-7 दिनांक 06.03.95 के माध्यम से प्रदेश की समस्त स्थानीय निकायों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि स्वच्छता एवं सफाई बनाये रखना स्थानीय निकाय का मौलिक कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त नगरों में संचित कूड़े-कचरे को जनप्रसार सामूदायिक सहभागिता तथा निजी सैक्टर के सहयोग से इसके समूचित संचयन, परिवहन शीघ्र निस्तारण एवं अपशिष्ट पदार्थ के वैज्ञानिक ढंग से उपयोग में लाये जाने हेतु उसे जनसामान्य के लिए सार्थक एवं उपादेय बनाये जाने का प्रयास करने हेतु भी आकर्षित किया गया था।

पुनः शासनादेश सं0 745 ए/9-9-97-4रिट/97 टी0सी0 नगर विकास अनुभाग, दिनांक 28.02.1997 के माध्यम से प्रदेश के समस्त नगर निगमों को उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 114(3) तथा उपधारा-18 के प्राविधानों के स्मरण दिलाते हुए निम्न विषयों पर उपविधियां बनाकर भी उपर्युक्त विषयगत को उक्त राजाज्ञा के प्रस्तर 2(1)(2)(3)(4) में क्रियान्वित करने हेतु अनुदेश दिये गये थे, जिनमें निम्नांकित विषय मुख्य रूप से थे-

- (1) नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रह तथा निस्तारण हेतु स्थल का अभिज्ञापन।
- (2) ठोस अपशिष्ट उत्पाद का अभिज्ञापित स्थल को छोड़कर अन्य किसी भी स्थल पर संग्रहीत न किया जाना।
- (3) ठोस अपशिष्ट उत्पाद के संग्रहण परिवहन स्वास्थ्य पद निस्तारण पुर्नचक्रानुक्रम के लिए यथोचित व्यवस्था।
- (4) चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम के अपशिष्ट उत्पाद के निस्तारण की व्यवस्था।

ठोस अपशिष्ट प्रबंध को सबल बनाये जाने के निमित्त जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने के आशय से शासन द्वारा शा0सं0 2734(1)/नौ-7-2002-4रिट/97 दिनांक 27.07.2002 के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय की अधिदेशात्मक संस्तुतियां संलग्न कर प्रेषित की गयी थी। साथ ही शासन द्वारा शासनादेश सं0 2252(1)/नौ-7-2002-4रिट/97 दिनांक 04.06.2002 के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 888/96 अलमिश्रा एच. पटेल बनाम राज्य के क्रम में नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के लिए उपर्युक्त "लैण्डफिल साइड" में निर्धारण हेतु निर्देश दिये गये थे।

शासनादेश/अर्द्धशासकीय पत्र सं० 3563/9-7-2001-04 रिट/97 दिनांक 30.07.2007 के माध्यम से उपर्युक्त जनहित याचिका के अनुपालनार्थ प्रसार में निम्न निर्देश दिये गये थे। भारत सरकार द्वारा नगरीय अपशिष्टों के निस्तारण हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध एवं संचालन नियमावली 2000 प्रख्यापित की गयी है उक्त नियमावली के नियम-4 में नगर पालिका, प्राधिकरण के दायित्व निर्धारित किये गये हैं तथा शासनादेश संख्या 6203/9-7-2007-04 रिट दिनांक 05.03.2001 के द्वारा भारत सरकार द्वारा लागू की गयी उक्त नियमावली के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उपरोक्त शासनादेश के प्रस्तारों में वर्णित एवं दर्शायी गयी स्थितियों के आधार पर स्पष्ट था कि भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं संचालन नियमावली 2006 के प्राविधानों को लागू और क्रियान्वित करने का दायित्व नगरीय निकायों में निहित था। इसके अतिरिक्त निकायों के द्वारा वर्णित दायित्वों को भलीभांति पूर्ण/सम्पन्न/क्रियान्वित करने के आशय से नियमावली के बिन्दु संख्या 25(1) में प्राइवेट सैक्टर को भी इस योजना में शामिल करने के निर्देश थे।

उ०प्र० शासन द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सम्बन्ध में उपर्युक्त प्रस्तारों में वर्णित आदेशों/निर्देशों एवं शहरी निकाय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2000 से सम्बन्धित जारी दिशा-निर्देशों/परामर्श के दृष्टिकोण से निम्न बिन्दु विचारणीय रहे।

(1) जैसे कि उपरोक्त प्रस्तारों में वर्णित है कि उ०प्र० शासन के आदेश क्रमशः दिनांक 06.03.95, 30.07.2001, 04.06.2002, 27.07.2002 द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था को नगरीय निकायों को दायित्व बोध सहित लागू करने हेतु पूर्व दिशा-निर्देश दिये गये थे, जबकि नगर निगम गाजियाबाद द्वारा उक्त योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में किसी संस्था से अनुबन्ध नहीं किया जा सका। बताया गया था। स्पष्ट था कि यह स्थिति जनस्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पर्यावरण के बेहतर स्तर को प्राप्त करने के उद्देश्य से उचित नहीं थी। दिनांक 28.02.97 तथा योजना के अध्याय 25 के बिन्दु 253(17) में भी स्वच्छता सम्बन्धी विधि/नियमों के प्राविधानों एवं उनके प्रभावी किये जाने का उल्लेख किया गया था, जबकि सम्परीक्षा में ऐसे किसी प्रकार की उपविधियों/नियमों को बनाये जाने वाली स्थिति से अवगत नहीं कराया गया था। उल्लेखनीय है कि अपशिष्ट प्रबंधन से सम्बन्धित योजनाओं के नियमों/उपनियमों आदि का समावेश किये जाने पर उक्त योजना के और बेहतर ढंग से प्रभावी/क्रियान्वित किये जाने की संभावनायें विद्यमान थीं।

अतएव इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सहित वांछनीय स्थिति से आगामी अवसर पर स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है। उक्त योजना के अध्याय-25 के बिन्दु सं० 2.4, 2.5 में ठोस अपशिष्ट के उपचार एवं निस्तारण हेतु लैण्डफिल साइट/ भूमि प्राईवट सैक्टर को 15 से 30 वर्ष की अवधि हेतु उचित टोकन लीजरेन्ट पर वार्षिक आधार पर उपलब्ध कराये जाने का किया गया था तथा नगर निगम गाजियाबाद द्वारा यदि किसी को उपलब्ध करायी गयी भूमि से किसी प्रकार का टोकन लीजरेन्ट प्राप्त हुआ था। भूमि दी गयी थी तो सम्परीक्षा को अवगत कराया जाय। ऐसी स्थिति में नगर निगम को वर्ष प्रतिवर्ष आर्थिक क्षति होना परिलक्षित हुआ जिसके सम्बन्ध में आगामी अवसर पर स्थिति स्पष्ट कराया जाना वांछित रहा।

(8)– नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु शासनादेश के अनुरूप समुचित व्यवस्था न किया जाना अनियमित :-

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में जांच के दौरान प्रकाश में आया कि नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन एवं संचालन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा म्यूनिसिपल सॉलिड बेस्ट (मैनेजमेन्ट एण्ड हैण्डलिंग) रूल्स 2003 प्रख्यापित किया गया है। जिसके अन्तर्गत दिनांक 31 दिसम्बर 2003 पर उससे पूर्व सभी नगरीय निकायों में कूड़ा प्रसंस्करण एवं उसके निस्तारण की जाती थी। इस कार्य को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करते हुए सचिव, उ०प्र० शासन के पत्रांक 325 जी०आई०/नौ-5-2014-426 सा/14 दिनांक 5 दिसम्बर 2014 द्वारा प्रदेश के सभी अधिशासी अधिकारी नगर पालिकाओं/पंचायतों को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/मैनुअल के अनुसार त्वरित कार्यवाही लेने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु नगर पालिका द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी थी। यह अनियमित एवं शासन द्वारा इस निमित्त जारी निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन था।

अतएव उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उक्त नियमावली के अनुसार प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पालिका के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

7– विभागवार अन्य विविध वित्तीय अनियमिततायें :-

(क) निर्माण विभाग :-

1-कवि नगर बुलन्दशहर रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया में ई0- 42 से ई0- 53 तक डैन्स द्वारा सड़क सुधार कार्य रु 22,93,300.37 बिना टेंडर प्रक्रिया कराये ही कार्य कराया जाना अनियमित :-

14 वॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में प्रकाश में आया कि वार्ड- 76 वैशाली पी0एन0बी0 बैंक से डबल रोड तक क्षतिग्रस्त सड़क का सुधार एवं चौड़ीकरण तथा डिवाइडर के निर्माण कार्य का आगणन रु 1,10,00,000 का तैयार कर आमत्रित निविदाओं में तीन निविदायें प्राप्त हुयी थी। उक्त प्राप्त तीनों निविदाओं में न्यूनतम आगणन से 28.78 निम्न पर रु 78,34,200 मैसर्स डी0के0एस0 इन्फ्राटैक इण्डिया लिमिटेडको कार्यादेश संख्या-निर्माण/34/2020-21 दिनांक 07.04.2020 द्वारा स्वीकृत किया गया था। उपर्युक्त कार्य की माप पुस्तिका संख्या- 9230 के अनुसार कार्य डिमांड 07.07.2022 को रु 59,48,080 में पूर्ण कराया गया था। जिसका कार्य पूर्णता: विवरण भी दिनांक 07.07.2022 को तैयार कर कार्य के द्वितीय एवं अन्तिम बिल का भुगतान व्यय प्रमाणक संख्या-752 दिनांक 14.07.2022 रु 6,78,800 कर दिया गया था। इस प्रकार कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि रु 78,34,200.00-59,48,080 = रु 18,86,120 अवशेष बचे तथा कार्य की मूल धनराशि रु 1,10,00,000-59,48,080 = रु 50,51,920 की धनराशि अवशेष बची थी।

उपरोक्त अवशेष धनराशि के सापेक्ष एक नया पुर्नरीक्षित आगणन तैयार किया जिसका उपरोक्त कार्य से कोई भी सम्बन्ध नहीं था क्योकि जिस आगणन को पुनरीक्षित आगणन का नाम दिया गया था वह कार्य वैशाली क्षेत्र का था ही नहीं। वरन यह कार्य कवि नगर बुलन्दशहर रोड, इण्डस्ट्रियल एरिया मुख्य ई0-42 से ई0-53 तक डैन्स द्वारा सड़क सुधार का कार्य था। मात्र पूर्व कार्य की धनराशि का उपभोग किये जाने हेतु ही इस आगणन को पुर्नरीक्षित आगणन लिखा गया था। इस कार्य के आगणन पर मात्र सम्बन्धित अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के ही हस्ताक्षर थे अन्य किसी भी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर न होना इस आगणन की स्थिति को संदिग्ध कर रहा था। इस कार्य हेतु, एक नयी माप पुस्तिका, जिस पर कार्य का नाम एवं दिनांक भी अंकित नहीं की गयी थी, में सम्बन्धित माप अंकित कराकर पूर्व स्वीकृत दरों, आगणन से 28.78 प्रतिशत निम्न पर दर्शाकर कुल कार्य रु 22,93,300 कराकर व्यय प्रमाणक संख्या- 1068 दिनांक 30.07.2022 द्वारा रु 17,53,300 का भुगतान मैसर्स डी0के0एस0 इन्फ्राटैक इण्डिया प्रा0लि0 को कर दिया गया था।

दोनों ही कार्यों का क्षेत्र पृथक-पृथक था। इसके लिये शासनादेश संख्या-ए-1/-864/दस-08-15(1)86 दिनांक 23 सितम्बर, 2008 की प्रक्रियानुसाररु 1,00,000 से अधिक के निर्माण कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग के लेखा नियमों के प्रस्तर-360 से 364 के प्राविधानों के अन्तर्गत टेण्डर प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए उपरोक्त कविनगर क्षेत्र वाला सड़क सुधार कार्य कराया जाना चाहिए था। इस प्रकार बिना टेण्डर कराये ही रु 22,93,300.37 का कार्य कराया जाना जहां तक ओर शासनादेश का उल्लंघन किया गया था वही दूसरी ओर सम्बन्धित अभियन्ताओं द्वारा बिना आगणन स्वीकृत कराये कपट पूर्ण ढंग से नया आगणन तैयार कर, उसे पुनरीक्षित आगणन का नाम देकर उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये बिना यह कार्य कराया गया था। अतः इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए उत्तरदायी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

2- वार्ड-20 भौपुरा में वजीराबाद रोड़ (लाल गेट) से लोनी रोड़, मन्दिर तक जल निकासी हेतु आर०सी०सी० द्वारा नाला निर्माण कार्य एवं सड़क सुधार के कार्य में आगणन अनुसार इन्टरलॉकिंग डिस्मेंटलिंग से निकाली गयी टाईल्स की रिलेयिंग न कराकर नयी इन्टरलाकिंग टाईल्स का कार्य कराये जाने से रु 5,72,270 एवं मिट्टी खुदाई के कार्य से प्राप्त मिट्टी को अर्थ वर्क फीलिंग के कार्य से समायोजित न किये जाने से एवं डिस्मेंटलिंग आफ आर०सी०सी० रोड़ मलबा 40 प्रतिशत को अर्थ फीलिंग में समायोजित न किये जाने से रु 9225.35 का अधिक भुगतान कुल रु 572270 + 135902 + 9225.35 = 717397.35 - 71022 (9.90 निम्न) 18% जी०एस०टी० 116347.56 = 762722.91 :-

निर्माण विभाग की 15 वे वित्त आयोग से अनुदानित कार्यों की पत्रावलियों की जांच के समय प्रकाश में आया कि उपरोक्त कार्य का आगणन रु 10199000.39 का अवर अभियन्ता द्वारा बनाया गया था इसके सापेक्ष प्राप्त निविदाओं के आधार पर मै० बालाजी इन्फ्रा० प्राईवेट लिमिटेड की 9.90 निम्न पर स्वीकृति प्रदान की गयी ।

कार्य का कार्यादेश पत्रांक निर्माण/94/जी/2021-22 दिनांक 17.12.2021 को दिया गया था। उक्त कार्य की पत्रावली में सलंगन आगणन अनुसार आईटम सं०-1 में डिस्मेंटलिंग ऑफ ओल्ड इन्टरलाकिंग टाईल्स की मात्रा 2038.54 वर्ग मीटर(2912.20 X 30% मिशिंग) दर्शायी गयी

थी। अगणन अनुसार 40 प्रतिशत पुरानी टाइल्स को सही मानते हुए, धनराशि को घटाकर दर्शाया गया था।

कार्य की माप-पुस्तिका सं०-22082 को पृष्ठ सं०-03 के अनुसार आइटम सं०-19 में 844.85 वर्ग मीटर में नयी इन्टरलॉकिंग टाइल्स बिछायी गयी थी कार्य में 40 प्रतिशत सही टाइल्स की रिलेयिंग का कार्य नहीं कराकर पूरा कार्य नई टाइल्सों के द्वारा कराया गया था। जोकि अनियमित था। निम्न गणनानुसार ठेकेदार को रु का अधिक भुगतान हुआ था।

आगणन अनुसार डिस्मेन्टलिंग टाइल्स का क्षेत्र = 2038.54 वर्ग मीटर

40प्रतिशत सही टाइल्स क्षेत्र $2038.54 \times 40\% = 815.20$ वर्ग मीटर

माप पुस्तिका अनुसार इन्टरलॉकिंग बिछाने का कार्य = 844.85

बिछाने की दर = 780 वर्ग मीटर

इस प्रकार नयी इन्टरलॉकिंग बिछाने का खर्च - रिलेयिंग के द्वारा इन्टरलॉकिंग बिछाने का खर्च =
($815.20 \times 780 - 815.20 \times 78$)

अधिक भुगतान $635856 - 63585.60 = 572270.40$

इस प्रकार पुरानी इन्टरलॉकिंग टाइल्स की रिलेयिंग न कराये एवं उसके स्थान पर नयी इन्टरलॉकिंग टाइल्स बिछवाने का कार्य कराने से रु 572270.40 का अधिक भुगतान किया जाना अनियमित।

(2)- उक्त कार्य के आगणन अनुसार आइटम संख्या 3 पर अर्थ वर्क एक्सावकेशन इन आर्डिनरी सोईल का कार्य अंकित था एवं एम०बी० 22082 के पृष्ठ सं०-3 पर आइटम संख्या -2 पर अंकित था जिसकी मात्रा 442.68 घन मीटर थी। कार्य में अर्थ वर्क फीलिंग का कार्य आइटम सं०-6 पर मात्रा 1044.11 घन मीटर था। उक्त मिट्टी भराव के कार्य से खुदाई में निकली मिट्टी का समायोजन नहीं किया गया था जिससे निम्न गणनानुसार अधिक भुगतान ठेकेदार को हुआ था।

मिट्टी भराव के कार्य का भुगतान दर = रु 307 प्रति घन मीटर

खुदाई से निकली मिट्टी की धनराशि = $442.68 \times 307 = 135902$

इस प्रकार रु 135902 का समायोजन न होने से अधिक भुगतान ठेकेदार को हुआ था।

कुल अधिक भुगतान रू 572270.40 + 135902 = 708172.40 की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित से कराकर निगम कोष में जमा किया जाय।

(3)– कार्य के आगणन आईटम संख्या–3 डिस्मेन्टलिंग ऑफ ओल्ड आर0सी0सी0 के द्वारा निकले मलबे का 40 प्रतिशत समायोजन आईटम सं0–4 में अर्थवर्क फीलिंग में करना था जोकि नहीं किया गया था इस प्रकार निम्न आगणन अनुसार –

डिस्मेन्टलिंग ऑफ ओल्ड आर0सी0स0 का क्षेत्र = 75.13 घन मीटर

40 प्रतिशत समायोजन हेतु $75.13 \times 40\% = 30.05$

मिट्टी भराव की दर = 307

अधिक भुगतान = $30.05 \times 307 = 9225.35$

कुल भुगतान = $572270 + 135902 + 9225.35 = \text{रू } 717397.35$

(–) 9.90 निम्न पर = रू 71022.00

= रू 646375.35

(+) 18% जी0एस0टी0 = रू 116347.56

कुल = रू 762722.91

इस प्रकार कुल अधिक भुगतान = 762722.91 का सम्बन्धित ठेकेदार से प्रतिपूर्ति अपेक्षित है।

3– ठेकेदार के बिल से रू 11,06,860 रॉयल्टी, रू 14,90,000 विलम्ब दण्ड की कटौती न किया जाना व ब्रिक डिस्मेन्टलिंग से प्राप्त ब्रिक्स बैट्स की रू0 1,64,847 की कम धनराशि की कटौती किया जाना एवं रू 1,21,212 लेबर सेंस का अधिक भुगतान एवं अन्य अनियमितताएँ :-

निर्माण विभाग की पत्रावलियों की जाँच से प्रकाश में आया कि दिनांक 13.11.2019 को महापौर एवं जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 14 वें वित्त आयोग निधि के अन्तर्गत वार्ड–85 सै0–05 में मदर डेयरी से जे0डी0 पब्लिक स्कूल तक आर0सी0सी0 नामा निर्माण कार्य की स्वीकृति समिति द्वारा प्रदान की गयी थी। दिनांक 04.01.2020 को ई0 निविदा के माध्यम मै0 सहारा कन्स0 को आगणन धनांक रू 1,50,00,000 से 26.57 प्रतिशत कम पर अधिशासी अभियन्ता के कार्य आदेश सं0–20/निर्माण/2019–20 दिनांक 19.05.2020 द्वारा कार्य का ठेका दिया गया था। उपरोक्त

कार्य हेतु ठेकेदार के छटवें एवं अन्तिम बिल का भुगतान व्यय प्रमाणक सं०- 162/07-5-22 रू० 4,37,000 किया गया था। उक्त कार्य में निम्नलिखित अनियमितताएँ प्रकाश में आयी-

(1)- उपरोक्त कार्य में डिस्मेन्टलिंग ऑफर ऑलड ब्रिक वर्क का कार्य 204.87 घन मीटर की कराया गया था। डिस्मेन्टलिंग से प्राप्त 212.48 वर्ग मीटर बैट्स की धनराशि रू 1,80,608.00 को बिल से कटौती की गयी थी। जबकि अन्य कार्य वार्ड-16 में मोरटा में जी०बी० पब्लिक स्कूल से गूलिया जोहड़ व शमशान घाट होते हुए ज्ञानेन्द्र के मकान तक आर०सी०सी० नाला निर्माण का कार्य एवं मिलक गांव में शमशान की बाउन्ड्री वॉल का कार्य में डिस्मेन्टलिंग ऑफ ब्रिक कार्य से 50 प्रतिशत अनसॉलड ब्रिक व ऑलड बैट्स 50 प्रतिशत प्राप्त धनराशि को बिल से कटौती किया गया था। के आधार पर कार्य में डिस्मेन्टलिंग ब्रिक वर्क व बैट्स की धनराशि की कटौती कम होने से निम्न प्रकार ठेकेदार को रू 1,12,071 का अधिक भुगतान किया गया था।

डिस्मेन्टलिंग ऑफ ब्रिक वर्क = 204.87 घन मीटर

कटौती योग्य धनराशि = पुरानी ईंटे = 204.87 X .50X 460X 5 = रू 2,35,601

बैट्स = 204.87X .50X 1X 900/- = रू 92,192

= रू 3,27,793

कटौती की गयी धनराशि = 212.48 X 850/- = रू 1,80,608

= रू 1,47,185

(+) 12% जी०एस०टी० = रू 17,662

अधिक भुगतान = रू 1,64,847

(2)- कार्य की प्रारम्भिक तिथि 19.03.2020 तथा कार्य समाप्ति तिथि 18.11.2020 थी। माप पुस्तिका सं०- 8899 के पृष्ठ संख्या-16 एवं पत्रावली के अनुसार दिनांक 30.12.2021 को कार्य समाप्त हुआ। इस प्रकार कार्य 407 दिवस विलम्ब से पूर्ण हुआ। इस प्रकार अनुबन्ध की शर्त सं०- 02 के अनुसार कार्य में देरी करने के लिए ठेकेदार पर कार्य की आगणन राशि पर 1 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड लिया जाना था किन्तु अर्थदण्ड की यह धनराशि आगणित धनराशि के

10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार $1,50,00,000 \times 10\% = 15,00,000 - 10,000$ (कटौती की गयी) = 14,90,000 रु ठेकेदार से वसूल किया जाय।

(3)– उ0प्र0 शासन के भूतत्व एवं खनिज अनुभाग के शासनादेश सं-3385/88-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 द्वारा निर्देशित किया गया था कि सार्वजनिक निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों की आपूर्ति प्राप्त किये जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करअभिवहन प्रपत्र (एम0एम0-11) के आधार पर परिवहन किये गये है। जिन मामलों में राँयल्टी का भुगतान किये बिना उपखनिजों की आपूर्ति हुई है। उनके बिलों का भुगतान करने से पूर्व निर्धारित दर पर राँयल्टी की धनराशि की कटौती कर समान लेखा शीर्षक में अवश्य जमा कर ली जाए।

इस निर्माण कार्य में उपयोग किये गये खनिजों के सापेक्ष ठेकेदार द्वारा अभिवहन प्रपत्र-11 (एम0एम0) प्रस्तुत नहीं किये गये थे और न ही निगम द्वारा ठेकेदार के बिल से राँयल्टी की कटौती की गयी थी। जिससे शासन को निम्न विवणानुसार रु 11,06,860 की हानि हुई-

क्र0सं0	मद	दर	धनराशि
1	फाइन सैंड 87.53	65	5689
2	कोर्स सैंड 506.67	100	50667
3	ग्रीट स्टोन बैलास्ट 1184.76	110	130324
4	जी0एस0टी0 216.83	160	34692
			2,21,372.00 X 5 =11,06,860

(4)– बिल की धनराशि में 1 प्रतिशत लेबर सेस अतिरिक्त जोड़ने के पश्चात ही लेबर सेस की धनराशि की कटौती की गयी थी। जबकि लेबर सेस से सम्बन्धित एक्ट में इसके पूर्व भुगतान का उत्तरदायित्व ठेकेदार का था वह भी ठेकेदारों के बिल से कटौती कर किया जाना था।

लोक निर्माण विभाग लखनऊ (सामान्य वर्ग) के पत्रांक -9755-एम0टी0/सामान्य वर्ग/40 एम0टी0-45/2017 दिनांक 19.12.2017 कार्यालय ज्ञाप में अंकित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 30 मार्च 2016 को सम्पन्न हुए वर्ष के लिए सड़क कार्यों में अनुबन्ध प्रबन्ध पर निष्पादन लेखा परीक्षा में उल्लिखित प्रसार 4.2 में अनुशंसा की गयी थी कि शासन द्वारा समस्त

खण्डों को तत्काल यह निर्देश निर्गत किया जाना चाहिए कि कर्मकार उपकार की कटौती ठेकेदारों के बिलों से की जाय। एवं समस्त समावेशी उपबन्धों में उपकार के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जाये।

बिल में रूपये 1,21,212 लेबर सेंस के रूप में जोड़े गये थे। जिनका भुगतान ठेकेदार को किया गया था। अतः लेबर सेंस की जोड़ी गयी धनराशि रु 1,21,212 का भुगतान अधिक/अनियमित था। इसकी वसूली सम्बन्धित/उत्तरदायी से कराया जाना अपेक्षित है।

4-वार्ड-75 लाजपत नगर में बी0,सी0 एवं डी0 ब्लॉक की अवशेष क्षतिग्रस्त गलियों में नाली व इन्टरलॉकिंग टाईल्स एवं क्षतिग्रस्त सड़कों का सुधार कार्य में डिस्मेन्टलिंग से प्राप्त इन्टरलॉकिंग टाईल्स की रिलेयिंग न कराये जाने के कारण रु 87,484 का अधिक भुगतान :-

उपरोक्त कार्य की पत्रावली की जांच में पाया गया कि कार्य का आगणन रु 1,60,95,647 का तैयार किया गया था। कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में न्यूनतम, आगणन से 9.10 प्रतिशत निम्न रु 1,46,30,335 को मै0 बालाजी इन्फ्रा0 इन्जी0 प्रा0 लि0 को स्वीकृत की गयी थी। उर्पयुक्त कार्य में 9750.82 वर्ग मीटर 80 एम0एम0 इन्टरलॉकिंग टाईल्स की लेयिंग का कार्य रु 780 प्रति वर्ग मीटर की दर से कराया गया था।

कार्य की माप पुस्तिका संख्या-15743 के पृष्ठ -9 के अनुसार 140.25 वर्ग मीटर एवं माप पुस्तिका संख्या- 15158 के पृष्ठ -01 के अनुसार 52.50 वर्ग मीटर 80 एम0एम0 इन्टरलॉकिंग टाईल्स की डिस्मेन्टलिंग का कार्य कराकर सम्बन्धित फर्म से 4300 टाईल्स X 12.50 प्रति टाईल्स = रु 53750 की कटौती की गयी थी। इससे स्पष्ट था कि उक्त टाईल्स सही दशा में थी एवं इन्हें रिलेयिंग में उपयोग किया जा सकता था। सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा ऐसा न किये जाने के कारण नगर निगम को निम्नवत आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी थी -

रिलेयिंग हेतु उपलब्ध इन्टरलॉकिंग टाईल्स (80 एम0एम0 = 140.25 +52.50 = 192.75

रिलेयिंग की दर = रु 78.00 प्रति वर्ग मीटर

अधिक भुगतान = रु 780 -78 = रु 702 प्रति वर्ग मीटर

$$192.75 \times \text{रु } 702 = \text{रु } 1,35,311$$

(-) की गयी कटौती पुरानी टाईल्स हेतु	= <u>रु 53,750</u>
	= रु 81,561
(-) 9.10% आगणन से निम्न	= <u>रु 7,422</u>
	= रु 74,139
(+) 18% जी०एस०टी०	= <u>रु 13,345</u>
कुल अधिक भुगतान	= <u>रु 87,484</u>

उर्पयुक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाय अन्यथा स्थिति में अधिक भुगतान हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए अधिक भुगतान की वापसी हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

5-पुरानी टाईल्स के मूल्य की कटौती कम किये जाने के कारण रु 69,112 का अधिक भुगतान:-

नगर निगम कोष के अन्तर्गत निर्माण कार्य की पत्रावलियों की जांच से प्रकाश में आया कि "वार्ड-66 मौसम विहार में बसौला पट्टी में रविदास मन्दिर से नसीम अहमद, मदीना मस्जिद से चाँद मस्जिद वाली गली में नाली व इन्टरलॉकिंग टाईल्स का कार्य" अगणन राशि 25,25,232 का 3% कम पर रु 24,49,475 का कार्य ठेका मै० मोहित चौधरी को दिनांक 17.12.2021 को दिया गया था। उक्त कार्य के प्रथम एवं अन्तिम बिल का भुगतान रु 20,31,200 व्यय प्रमाणक संख्या-2093 दिनांक 31.03.2023 द्वारा किया गया था। उक्त कार्य में डिस्मेंटलिंग ऑफ ऑल्ड टाईल्स का कार्य 39.41 घन मीटर दर्शाया गया था। माप पुस्तिका संख्या-16085 के पृष्ठ संख्या-09 के अनुसार डिस्मेंटलिंग से 4520 नग पुरानी टाईल्स प्राप्त की गयी थी जिसकी धनराशि 22,600 (4520 X 5) बिल से कटौती की गयी थी। कार्य से पूर्व फोटोग्राफ के अनुसार 75 प्रतिशत टाईल्स सही दशा में थी जिनकी धनराशि रु 86,215 (39.41 X 75 % = 29.56 घनमीटर ÷ 06 = 492.67 वर्ग X 35 = 17243 नग टाईल्स X 5 प्रति नग) बिल से कटौती की जानी थी मात्र रु 22,600 रु डिस्मेंटलिंग से प्राप्त टाईल्स का मूल्य लिये जाने का आधार पत्रावली में स्पष्ट नहीं था। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय अन्यथा स्थिति में निम्न विवरणानुसार रु 69,112 की वसूली ठेकेदार से करने नगर निगम में जमा की जाये।

कटौती योग्य टाईल्स	= 39.41 X 75%
= 29.56 ÷ 06 = 492.67 X 35 = 17243 X 5	= ₹ 86,215
(-) की गयी कटौती	= ₹ 22,600
	= ₹ 63,615
(-) 3%	= ₹ 1,908
	= ₹ 61,707
(+) 12%	= ₹ 7,405
कुल अधिक भुगतान	= ₹ 69,112

6-पुरानी इन्टरलॉकिंग टाईल्स के मूल्य की कटौती कम किये जाने के कारण ₹ 67,666 का अधिक भुगतान :-

नगर निगम कोष के अन्तर्गत निर्माण कार्य की पत्रावलियों की जाँच से प्रकाश में आया कि "वार्ड-76 वैशाली सै-02बी में म0न0-308 से म0न0-339 तक क्षतिग्रस्त सड़क का टाईल्स द्वारा सुधार कार्य" आगणन राशि 14,92,522.00 23.22% कम पर ₹ 11,45,958 का कार्य का ठेका मै0 आर0आर0 कन्स0 को दिनांक 03.01.2022 को दिया गया था। उक्त कार्य के प्रथम एवं अन्तिम बिल का भुगतान ₹ 10,84,600 व्यय प्रमाणक सख्या 1132 दिनांक 31.03.2023 द्वारा किया गया था। माप पुस्तिका सख्या 14430 के पृष्ठ संख्या -01 के अनुसार डिस्मेंटलिंग ऑफ ऑल्ड टाईल्स का कार्य 118.50 घन मीटर दर्शाया गया था। माप पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 03 के अनुसार डिस्मेंटलिंग से 1125 नग पुरानी टाईल्स प्राप्त की गयी थी जिसकी धनराशि ₹ 4500 (1125X4) बिल से कटौती गयी थी। डिस्मेंटलिंग ऑफ ऑल्ड आर0सी0सी0 रैम्प से 6.97 घन मीटर व अर्थ वर्क इन कटिंग से 221.14 कुल 228.11 (6.97 +221.14) घन मीटर प्राप्त मलबा को फेंका गया था। जिस हेतु ठेकेदार को 229.25 घन मीटर मलबा फेंकने हेतु ₹ 52,750.42 (229.25 X 230) भुगतान किया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि डिस्मेंटलिंग ऑफ ऑल्ड टाईल्स से कार्य 118.50 चर्ग मीटर को उखाड़ कर दोबारा बिछाकर (रिलेयिंग) किया गया था। इसका डिस्पोजल नहीं किया गया था। डिस्मेंटलिंग ऑफ ऑल्ड टाईल्स से प्राप्त टाईल्स को रिलेयिंग न करने का करने का आधार स्पष्ट

किया जाय। अन्यथा स्थिति में निम्न विवरणानुसार किये गये अधिक भुगतान रू की वसूली ठेकेदार से करके नगर निगम कोष में जमा की जाय।

डिस्मेंटलिंग ऑफ ऑल्ड टाईल्स कार्य = 118.50 वर्ग मीटर
रिलेयिंग न कराये जाने के कारण अधिक भुगतान

$$= 118.50 \times 702 = (780-78) = \text{रू } 83,187$$

$$\text{पुरानी टाईल्स की कटौती} - (1125 \times 4) = \text{रू } 4,500$$

$$= \text{रू } 78,687$$

$$(-) 23.22\% \text{ आगणन से निम्न} = \text{रू } 18,271$$

$$= \text{रू } 60,416$$

$$(+) 12\% \text{ जी०एस०टी०} = \text{रू } 7,250$$

$$\text{कुल अधिक भुगतान} = \text{रू } 67,666$$

7-वार्ड-76 वैशाली पी०एन०बी० बैंक से डबल रोड तक क्षतिग्रस्त सड़क का सुधार एवं चौड़ीकरण व डिवाइडर निर्माण कार्य में पुरानी इन्टरलॉकिंग टाईल्स डिस्मेंटलिंग का अधिक दरों से भुगतान किये जाने के कारण रू 37,332 एवं दुलाई मद में रू 30,241 कुल रू 67,573 का अधिक भुगतान:-

(1) उपर्युक्त कार्य का आगणन रू 1,10,00,000 का तैयार कर निविदा आमन्त्रण में प्राप्त तीन निविदाओं में न्यूनतम आगणन से 28.78 प्रतिशत निम्न रू 78,34,200 मै० डी०के०एस० इन्फ्राटेक प्रा०लि० को स्वीकृत किया गया था। कार्य के आगणन में 168.00 घन मीटर पुरानी आर०सी०सी० स्लेब डिस्मेंटलिंग रू 800 प्रति घन मीटर एवं 62.72 घन मीटर पुरानी इन्टरलॉकिंग टाईल्स की डिस्मेंटलिंग का कार्य रू 60.00 प्रति घन मीटर की दर से किये जाने का प्राविधान किया गया था। जबकि कार्य की माप पुस्तिका संख्या-9230 के पृष्ठ संख्या-19 के अनुसार कुल 190.28 घन मीटर आर०सी०सी० स्लेब डिस्मेंटलिंग का कार्य दर्शाया गया था एवं इन्टरलॉकिंग टाईल्स की डिस्मेंटलिंग का कार्य नहीं दर्शाया गया था जबकि कार्य में पुरानी टाईल्स की लेयिंग का कार्य भी कराया गया था। इससे स्पष्ट है कि स्थल पर पुरानी इन्टरलॉकिंग टाईल्स की डिस्मेंटलिंग का

कार्य कराया गया था किन्तु इसका भुगतान रू 60 प्रति घन मीटर के स्थान पर रू 800 प्रति घन मीटर की दर से भुगतान किये जाने के कारण निम्नवत् अधिक भुगतान किया गया था-

पुरानी टाईल्स की मात्रा = 62.72 घन मीटर

प्रति घन मीटर अधिक दर = रू 800 -रू 60 = रू 740 प्रति घन मीटर

रू 740 X 62.72 = रू 46,413

(-) 28.78% आगणन से निम्न = रू 13,376

= रू 33,037

(+) 12% जी०एस०टी० व 1% लेबर सेंस = रू 4,295

कुल अधिक भुगतान = रू 37,332

(2) कार्य के आगणन में डिस्मेन्टलिंग की आइटमों के कुल 80 प्रतिशत भाग को मलबे के रूप में रू 173.00 प्रति घन मीटर की दर से भुगतान किये जाने का प्राविधान किया गया था। इसके सापेक्ष कार्य की माप पुस्तिका के अनुसार 100 प्रतिशत डिस्मेन्टलिंग की आइटमों का मलबे में फेंकने हेतु भुगतान किये जाने के कारण निम्नवत् अधिक भुगतान किया गया था-

पुरानी आर०सी०सी०की डिस्मेन्टलिंग (इन्टरलॉकिंग टाईल्स सहित) = 190.28 घनमीटर

(-) कार्य में प्रयुक्त पुरानी इन्टरलॉकिंग टाईल्स (360.00 वर्गमीटर) = 28.80 घनमीटर

= 161.48 घनमीटर

(+) मिट्टी खुदाई

= 780.53 घनमीटर

योग

= 942.01 घनमीटर

दुलाई हेतु देय मात्रा = 942.01 X 80% = 753.61 घनमीटर

सम्बन्धित फर्म को भुगतान = 970.81 घनमीटर

अधिक भुगतान = 970.81 - 753.61 = 217.20 घनमीटर

217.20 X रू 173 प्रति घनमीटर = रू 37,576

(-) 28.78% आगणन से निम्न	= रु 10,814
	= रु 26,762
(+) 12% जी0एस0टी0 व 1% लेबर सेंस	= रु 3,479
योग	= रु 30,241
कुल अधिक भुगतान = रु 37,332 + रु 30,241	= रु 67,573

अतः रु 67,573.00 की उत्तरदायी से वसूली कर निगम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

8-वार्ड-66 मौसम विहार में बसौला पट्टी में रघुनाथ मन्दिर से नसीम अइमद, मदीना मस्जिद से चांद मस्जिद वाली गली में नाली व इन्टरलॉकिंग टाइल्स के कार्य में आगणन में दर्शायी गयी 20% सही इन्टरलॉकिंग टाइल्स की रिलेयिंग न कराने से रु 61,570.80 का अधिक भुगतान :-

निगम निधि से कराये गये उपरोक्त कार्य की पत्रावली की जांच के समय प्रकाश में आया कि कार्य का आगणन रु 25,25,232.03 अवर अभियंता द्वारा बनाया गया था जिसके आधार पर निविदा प्राप्त की गयी थी एवं 3 प्रतिशत निम्न पर मै0 मोहित चौधरी को उक्त कार्य को करने के लिए कार्यादेश संख्या- 453/2021-22 दिनांक 17.12.2021 को स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

कार्य के आगणन में डिस्मेंटलिंग ऑफ ओल्ड इन्टरलॉकिंग टाइल्स की मात्रा 1029 वर्ग मीटर दर्शायी गयी थी जिससे 40 प्रतिशत क्षेत्र को मिशिंग को रूप में घटाकर दिखाया गया था इस प्रकार अवशेष क्षेत्र $1029 \times 40\% = 411.60$ वर्ग मीटर, $1029 - 411.60 = 617.40$ वर्ग मीटर उक्त अवशेष क्षेत्र के 20 प्रतिशत भाग की टाइल्स को अवर अभियंता द्वारा सही मानकर आगणन में अन्तिम रूप से घटाकर दर्शाया था जिसकी गणना निम्न थी।

$$\text{अवशेष क्षेत्र} = 617.40 \text{ वर्ग मीटर}$$

$$20 \text{ प्रतिशत सही इन्टरलॉकिंग टाइल्स} = 617.40 \times 20\% = 123.48 \text{ वर्ग मीटर}$$

$$1 \text{ वर्ग मीटर में इन्टरलॉकिंग टाइल्स की मात्रा} = 123.48 \times 35 = 4321.80$$

$$\text{पुरानी इन्टरलॉकिंग टाइल्स का मूल्य} = 5 \text{ रु (आगणन के अनुसार)}$$

$$\text{इस प्रकार } 4321.80 \times 5 = 21609 \text{ आगणन अनुसार}$$

उल्लेखनीय है कि अवर अभियंता द्वारा खुदाई से निकाली गयी 20 प्रतिशत इन्टरलॉकिंग टाईल्स को सही माना गया था आंगणन एवं एम0बी0 सं0-16085 अनुसार इन्टरलॉकिंग टाईल्स का कार्य कराया गया था उक्त कार्य में 20 प्रतिशत सही इन्टरलॉकिंग की रिलेयिंग होनी चाहिये थी। अभियंता द्वारा उक्त इन्टरलॉकिंग टाईल्सों को रिलेयिंग न कराकर केवल इनकी संख्या का मूल्य दर्शाकर माप-पुस्तिका से घटाकर दिखाने से ठेकेदार को निम्न विवरणानुसार अधिक भुगतान हो गया था।

नवीन इन्टरलॉकिंग टाईल्स का क्षेत्र = 1131.90 वर्ग मीटर

नवीन इन्टरलॉकिंग टाईल्स की दर = 720 प्रति वर्ग मीटर

20 प्रतिशत के रूप में क्षेत्र = 123.48

20 प्रतिशत इन्टरलॉकिंग टाईल्स का कार्य मूल्य = 123.48 X 720 = ₹ 88,905.60

(-) 20 प्रतिशत इन्टरलॉकिंग टाईल्स का रिलेयिंग मूल्य = 123.48 X 78 = ₹ 9,631.44

= ₹ 79,274.16

मप पुस्तिका में पुरानी इन्टरलॉकिंग टाईल्स के मूल्य की कटौती

= ₹ 22,600.00

= ₹ 56,674.16

(-) 3% निम्न पर

= ₹ 1,700.22

= ₹ 54,973.93

(+) 12% जी0एस0टी0

= ₹ 6,596.87.

कुल अधिक भुगतान

= ₹ 61,570.80.

9-सिटी जोन में विभिन्न जगहों पर ग्रास पेवर लगाने के कार्य के आगणन में अर्थ कटिंग की दरे एस0ओ0आर0 के स्थान पर डी0एस0आर0 के आधार पर तैयार किये जाने के कारण ₹ 56,321 का अधिक भुगतान :-

उपरोक्त कार्य का आगणन ₹ 39,25,107 का तैयार कर निविदा आमंत्रित की गयी थी। प्राप्त निविदाओं में न्यूनतम, आगणन से 14.99 प्रतिशत निम्न ₹ 33,36,733 मैसर्स पी0एस0 कन्सलटैन्सी को स्वीकृत किया गया था। कार्य के आबणन में मिट्टी खुदाई की दर डी0एस0आर0-2021 की मद संख्या-2.6.1 के आधार पर ₹ 175/- प्रति घन मीटर ली गयी थी,

जबकि उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग के शिडयूल ऑफ रेटस की मद संख्या-253(9) के अनुसार मिट्टी खुदाई की दर रू 95/- प्रति घन मीटर उपलब्ध थी। सम्बन्धित एस0ओ0आर0 के अनुसार जो दरें एस0ओ0आर0 में उपलब्ध नहीं थी केवल उन्हीं मदों हेतु दर विश्लेषण अथवा डी0एस0आर0 की दरों का प्रयोग किया जा सकता था। इस प्रकार मिट्टी खुदाई की दरें एस0ओ0आर0 में उपलब्ध होने के बावजूद भी डी0एस0आर0 दरों पर आगणन तैयार किये जाने के कारण सम्बन्धित उवर अभियन्ता द्वारा नगर निगम को निम्नवत आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी थी-

प्रति घन मीटर अधिक दर = रू 175 -रू 95 = रू 80/-

माप पुस्तिका संख्या -20749 के पृष्ठ संख्या 09 के

अनुसार अर्थ कटिंग का कुल कार्य = 701.82 घन मीटर

अधिक भुगतान = 701.82 X 80/- प्रति घन मीटर = रू 56,146

(-) 14.99% निम्न स्वीकृत = रू 8,416

= रू 47,730

(+) 18% जी0एस0टी0 = रू 8,591

कुल अधिक भुगतान = रू 56,321

उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाय अन्यथा स्थिति में अधिक भुगतान हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुऐ अधिक भुगतान की वापसी हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

10-पुरानी टाईल्स के मूल्य की कटौती न किये जाने के कारण रू 55,848 का अधिक भुगतान :-

नगर निगम कोष के अन्तर्गत निर्माण विभाग की पत्रावलियों की जाँच से प्रकाश में आया कि " वार्ड-95 में प्रेम नगर में कटारिया वाली गली व कटारिया के सामने वाली गली में नाली व सी0सी0 मरम्मत का कार्य आगणन राशि 9,98,700.00 10.25 प्रतिशत कम पर रू 8,96,333 का कार्य का ठेका मै0 अनिल कुमार चौहान को कार्य आदेश संख्या - 0110/निर्माण/2020-21 दिनांक 03.10.2020 को दिया गया था। उक्त कार्य के प्रथम एवं अन्तिम बिल का भुगतान रू 8,22,100 व्यय प्रमाणक संख्या 2082 दिनांक 31.03.2023 द्वारा किया गया था। माप पुस्तिका संख्या 18791 के पृष्ठ संख्या 01 के अनुसार डिस्मैन्टलिंग ऑफ ऑल्ड टाईल्स का कार्य 422.60 वर्ग मीटर अंकित था।

कार्य से पूर्व संलग्न फोटोग्राफ के अनुसार 50 प्रतिशत टाईल्स सही साबुत दशा में थी। जिनकी धनराशि रु 36,975.00 (422.60 वर्ग मीटर $\times 50\% = 211.30 \times 35 = 7395 \times 5 = 36,975$) बिल से कटौती की जानी थी। डिस्मैन्टलिंग से प्राप्त टाईल्स का मूल्य की कटौती न किये जाने का आधार पत्रावली में स्पष्ट नहीं था। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय अन्यथा स्थिति में रु 39,158.00 ($36,975 - 10.25\% = 33,185 + 18\%$ जी०एस०टी० $= 39,158$) की वसूली ठेकेदार से करके नगर निगम कोष में जमा की जाय।

(2) माप पुस्तिका के पृष्ठ संख्या -03 के अनुसार डिस्मैन्टलिंग ऑफ ऑल्ड ब्रिक का कार्य 8.28 घन मीटर कराया गया था। जिससे 6.63 घन मीटर ब्रिक बैट्स प्राप्त हुई थी। शेष ब्रिक 1.65 ($8.28 - 6.63$) घन मीटर प्राप्त हुई थी। पुरानी ब्रिक का मूल्य $= 1.65 \times 4600 = 7,590$ बिल से कटौती किया जाना था। इस प्रकार रु 7,590 की वसूली ठेकेदार से की जाय।

(3) माप पुस्तिकानुसार डिस्पोजल का कार्य 58.84 घन मीटर कराया गया था। डिस्मैन्टलिंग ऑफ टाईल्स के कार्य का 50% भाग 16.90 ($211.30 \times .08$) घन मीटर का मलबा डिस्पोजल का भुगतान किया जाना था। इस प्रकार रु 9,100 ($58.84 - 16.90 = 41.94 \times 217$) का भुगतान ठेकेदार को अधिक किया गया था। इसकी प्रतिपूर्ति ठेकेदार से किया जाना अपेक्षित है।

इस प्रकार ठेकेदार को रु 55,848 ($39158 + 7590 + 9100$) का अधिक भुगतान किया गया था। इसकी वसूली ठेकेदार से करके नगर निगम कोष में जमा की जाय।

11-वार्ड-48, 15 विश्वकर्मा चौक से चरन सिंह कालोनी तक सड़क के दोनों तरफ पटरी पर ग्रास पेवर टाईल्स का निर्माण एवं सौन्दर्याकरण कार्य में अर्थ कटिंग की दरे पी०डब्लू०डी० शिड्यूल के स्थान पर डी०एस०आर० की दरों से कार्य कराये जाने के कारण रु 55,441 का अधिक भुगतान :-

उपरोक्त कार्य का आगणन रु 32,38,213 का तैयार कर निविदा आमंत्रित की गयी थी। प्राप्त निविदाओं में न्यूनतम आगणन से 14.99 प्रतिशत निम्न पर रु 27,52,805 को मै० प्रमोद कुमार सिंघाल को स्वीकृत की गयी थी। कार्य के आगणन में मिट्टी खुदाई की दर डी०एस०आर०-2021 की मद संख्या-2.6.1 के आधार पर रु 175/- प्रति घन मीटर ली गयी थी, जबकि उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग के शिड्यूल ऑफ रेट्स की मद संख्या- 253(9) के अनुसार मिट्टी खुदाई की

दर रू 95 प्रति घन मीटर उपलब्ध थी। नियमानुसार जिस कार्यो की दरें एस0ओ0आर0 में उपलब्ध न हो केवल उन्हीं मदों हेतु दर विश्लेषण अथवा डी0एस0आर0 की दरों का उपयोग किया जाना चाहिये था। इस प्रकार मिट्टी खुदाई की दरें एस0ओ0आर0 में उपलब्ध होने के बावजूद भी डी0एस0आर0 की दरों पर कार्य कराये जाने के कारण नगर निगम को निम्नवत क्षति पहुंचायी गयी थी—

प्रति घन मीटर अधिक दर = रू 175 –रू 95 = रू 80

माप पुस्तिका संख्या –21024 के पृष्ठ संख्या 08 के

अनुसार अर्थ कटिंग का कुल कार्य = 596.57 घन मीटर

अधिक भुगतान = 596.57 X 80 /— प्रति घन मीटर = रू 47,726

(–) 14.99% निम्न स्वीकृत = रू 7,154

= रू 40,572

(+) 12% जी0एस0टी0 = रू 4,869

कुल अधिक भुगतान = रू 55,441

उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाय अन्यथा स्थिति में अधिक भुगतान हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुये अधिक भुगतान की वापसी हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

12—आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत वार्ड—46 कम्पोजिट विद्यालय दुहाई का सुदृढीकरण कार्य में काल्पनिक रूप से अर्थ कटिंग का कार्य दर्शा कर दुलाई के रूप में किया गया अमान्य भुगतान रू 46,220 :—

उपरोक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में प्रकाश में आया कि उपरोक्त कार्य का आगणन कुल 47 मदों के लिये रू 37,98,719.51 का तैयार किया गया था। जिसमें पुराने सी0सी0 फर्श की डिस्मेन्टलिंग 7.45 घन मीटर एवं 7.45 घन मीटर डिस्पोजल का प्रविधान किया गया था। अर्थ कटिंग की कोई मद नहीं थी बल्कि 720.50 घनमीटर मिट्टी भराई का कार्य प्राविधनित था। कार्य के जिलों एवं माप पुस्तिका संख्या—16433 की जांच में पाया गया कि माप पुस्तिका के पृष्ठ संख्या—01 पर मद संख्या –2 पर पुरानी सी0सी0 डिस्मेन्टलिंग का कार्य 31.20 घन मीटर कराया गया था एवं मद संख्या 3 पर अर्थ कटिंग का कार्य 209.82 घन मीटर दर्शाया गया था जिसको

मलबे के रूप में फेंकने हेतु रू 217 प्रति घन मीटर की दर से 208.92 घन मीटर मात्रा हेतु रू 45,313.94 का भुगतान किया गया था एवं मिट्टी भराई का कोई कार्य नहीं कराया गया था। वही दूसरी ओर कुल 47 मर्दों के सापेक्ष मात्र 18 मर्द ही पूर्ण करायी गयी थी।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित माप पुस्तिका के पृष्ठ-9 के अनुसार उपरोक्त अर्थ कटिंग 209.82 X रू 95.00 प्रति घन मीटर = रू 19,932.90 हेतु कोई भुगतान किया जाना नहीं दर्शाया गया था।

ऐसा किस प्रकार सम्भव था कि सम्बन्धित फर्म अर्थ कटिंग का कार्य करे और भुगतान न प्राप्त करे। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सम्बन्धित अवर अभियंता द्वारा आगणन का गठन स्थलीय जांच कर न बनाकर काल्पनिक रूप से ही तैयार किया गया था। अर्थ कटिंग हेतु भुगतान न किये जाने के कारण इस बात की पूर्ण सम्भावना थी कि अर्थ कटिंग से प्राप्त मिट्टी का उपयोग अर्थ फिलिंग में किया गया था तथा इसे माप पुस्तिका में न दर्शाकर इसको फेंकने हेतु अनियमित रूप से भुगतान किया गया था। अतः सम्बन्धित अभिलेखों द्वारा स्थिति स्पष्ट करायी जाये अन्यथा की स्थिति में निम्नवत अधिक/अनियमित भुगतान किया गया था।

मिट्टी ढुलाई का भुगतान = रू 45,313.94

(-) 13.56% आगणन से निम्न स्वीकृत = रू 6,144.57

= रू 39,169.37

(+) 18% जी0एस0टी0 = रू 7,050.48

कुल अधिक भुगतान = रू 46,219.85 अथवा रू 46,220.00

उपरोक्त कार्य मैसर्स लीसा कन्सट्रक्शन द्वारा किया गया था। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

13-मेरठ रोड से आर्य नगर चौराहे से मालीवाड़ा चौराहे, कालकागढ़ी चौराहे से चौधरी मोड़ तक अम्बेडकर रोड के डस्ट फ्री करने हेतु साईड पट्टी पर ग्रास पेवर कार्य में एस0ओ0आर.0 के स्थान पर डी0एस0आर0 की दरों पर कार्य कराये जाने कके कारण रू 46,846 का अधिक भुगतान :-

15 वॉ वित्त के अन्तर्गत उक्त कार्य हेतु रू 2,47,91,579 का आगणन तैयार कर आमंत्रित निविदाओं में न्यूनतम आगणन से 26.01 प्रतिशत निम्न रू 1,83,43,290 मैसर्स दर्शन कन्स0 को

कार्य स्वीकृत किया गया था। कार्य की माप पुस्तिका संख्या-14995 के पृष्ठ-07 के अनुसार मिट्टी खुदाई का कार्य 670.70 घन मीटर का भुगतान डी0एस0आर0 -2021/2.6.1 की दर से 175/- प्रति घन मीटर की दर से किया गया था। जबकि उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग के शिडयूल ऑफ रेटस की मद संख्या-253(9) के अनुसार मिट्टी खुदाई की दर रु 95/- प्रति घन मीटर थी। एस0ओ0आर0 में मद एवं दर उपलब्ध होने के बावजूद भी डी0एस0आर0 की दरों पर आगणन तैयार कर भुगतान किया जाना अनियमित था। जिसके कारण सम्बन्धित फर्म को निम्नवत अधिक भुगतान किया गया था-

दरों में अन्तर = 175 - 95 = रु 80/- प्रति घन मीटर

अधिक भुगतान = 670.70 घनमीटर X रु 80 = रु 53,656

(-) 26.01% आगणन से निम्न स्वीकृत = रु 13,956

= रु 39,700

(+) 18% जी0एस0टी0 = रु 7,146

कुल अधिक भुगतान = रु 46,846

14- शासनादेश के विरुद्ध बिना टेण्डर प्रक्रिया के कार्यों को कराया जाना आपत्तिजनक रु 3,64,133 :-

निम्न निधि से कराये गये निर्माण कार्य की पत्रावली की जाँच में प्रकाश में आया कि वार्ड नं0-03 व 14 के मध्य मवई रोड़ पर कुड़ा विलोपन करके हट बनाने का कार्य व नाले की दीवार मरम्मत का कार्य का आगणन रु 3,83,500 को तैयार कर 5.05 प्रतिशत कम पर रु 3,64,133 में मै0 कॉटेक बिल्डर्स को अधिशासी अभियन्ता के कार्यादेश संख्या-246/निर्माण/दिनांक 31.07.2019 द्वारा दिया गया था। उक्त कार्य को बिना टेण्डर प्रक्रिया से कराया गया था जो अनियमित एवं आपत्तिजनक था। शासनादेश संख्या- ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार रु 1,00,000 से ऊपर लागत के कार्यों को टेण्डर प्रक्रिया के आधार पर कराया गया जाना चाहिए था जिससे नगर निगम को तुलनात्मक दरों का लाभ प्राप्त होता। पत्रावली में अंकित किया गया था कि कार्यों को पूर्व में आमंत्रित टेण्डरों की दरों के आधार पर कराया गया है। लेकिन पूर्व में आमन्त्रित टेण्डर प्रक्रिया की दरों पर कार्य कराये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाय। इस ओर

नगर निगम के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृत्ति न हो।

15—निगम द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में स्टोन बैलास्ट के कार्यों में 10 प्रतिशत बाइडस की कटौती न किये जाने के कारण कन्सोलिडेशन के क्रम में अधिक भुगतान रू 47,043 :-

निगम द्वारा आलोच्य अवधि में निगम निधि एवं 15 वॉ वित्त आयोग से कराये गये निर्माण कार्यों में संलब्ध परिशिष्ट के अनुसार स्टोन बैलास्ट की मात्रा पर 10 प्रतिशत बाइडस की कटौती न करके सम्पूर्ण मात्रा का भुगतान किया गया था। एवं इतनी मात्रा हेतु कन्सोलिडेशन का भुगतान किया गया था। जबकि स्टोन बैलास्ट के कार्यों में 10 प्रतिशत बाइडस की कटौती किये जाने के उपरान्त ही स्टोन बैलास्ट व उसके कन्सोलिडेशन का भुगतान किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार स्टोन बैलास्ट के कार्यों में बाइडस की कटौती न करके सम्पूर्ण मात्रा हेतु कन्सोलिडेशन का भुगतान किये जाने के कारण रू 47,043 की अधिक भुगतान किया गया था। अतः 10 प्रतिशत बाइडस की कटौती किये बिना ही कन्सोलिडेशन हेतु सम्पूर्ण मात्रा के अनुसार भुगतान किये जाने का कारण स्पष्ट करते हुए अधिक भुगतान की वापसी कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण संलग्न परिशिष्ट '19' पर दिया गया है।

16—ब्रिक डिस्मेन्टलिंग के कार्यों में पुरानी ईंटों व ब्रिक बैलास्ट की कटौती न किये जाने अथवा कम किये जाने के कारण अधिक भुगतान रू 26,331 :-

निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में प्रकाश में आया कि निम्न विवरणानुसार कार्यों में ब्रिक डिस्मेन्टलिंग का कार्य कराया गया था। उक्त कार्यों में डिस्मेन्टलिंग से प्राप्त पुरानी ईंटों की कटौती 50 प्रतिशत ईंटों के रूप में तथा 50 प्रतिशत मात्रा की कटौती ब्रिक बैलास्ट के रूप में की जानी चाहिए थी, किन्तु निगम द्वारा इन पुरानी ईंटों के मूल्य की कटौती नहीं की गयी थी अथवा कम की गयी थी। जिसके कारण सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार को अधिक किया गया था। कटौती न किये जाने का कारण स्पष्ट करते हुए अधिक भुगतान की वापसी निगम कोष में कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण संलग्न परिशिष्ट '20' पर दिया गया है।

17-वार्ड-91 कविनगर के0जे0-01 से सर्वोदय हास्पिटल होते हुए शास्त्री नगर चौक तक डैन्स द्वारा सड़क सुधार कार्य में पुरानी इन्टरलॉकिंग की खुदाई कार्य में एस0ओ0आर0 की दरों से अधिक दर पर ठेकेदार को भुगतान किया जाना अनियमित रू 39,173 :-

उपरोक्त कार्य का आगणन रू 21,08,517 अभियंता द्वारा बनाया गया था। कार्य हेतु तीन निविदायें प्राप्त हुई थी जिसमें मै0 आर0जी0 इन्जी0 की अनुमानित आगणन से 5 प्रतिशत निम्न पर निविदा को स्वीकृत किया गया था।

कार्य की माप पुस्तिका संख्या- 15557 के पृष्ठ सेख्या-08 पर मद संख्या-1 पर पुरानी इन्टरलॉकिंग टाईल्स की डिस्मेन्टलिंग का कार्य कराया गया था। कार्य की एस0ओ0आर0 दर रू 20/- थी जबकि कार्य हेतु ठेकेदार को रू 80/- का भुगतान किया गया था। इस प्रकार निम्न गणनानुसार ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया था।

सी0सी0 इन्टरलॉकिंग टाईल्स की खुदाई का क्षेत्र	= रू 560.98
दिया गया अधिक दर (80-20)	= <u>रू 60.00</u>
	= रू 33,658.80
(-) 5% निम्न पर धनराशि	= <u>रू 1,682.90</u>
	= रू 34,975.90
(+) 12% जी0एस0टी0	= <u>रू 4,197.10</u>
	= <u>रू 39,173.00</u>

उक्त धनराशि 39,173 का ठेकेदार को एस0ओ0आर की दर न लेकर डी0एस0आर0 की दरों पर कार्य कराकर अधिक भुगतान किया गया था।

उक्त की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित से अपेक्षित थी।

18-वार्ड-91 कविनगर के0जे0-01 से सर्वोदय हास्पिटल होते हुए शास्त्री नगर चौक तक डैन्स द्वारा सड़क सुधार कार्य में एस0ओ0आर0 की दरों के स्थान पर डी0एस0आर0 की दरों पर कार्य कराये जाने के कारण रू 38,089 का अधिक भुगतान :-

उपर्युक्त कार्य हेतु रू 21,08,517 का आगणन तैयार कर निविदायें आमंत्रित की गयी थी। प्राप्त 03 निविदाओं में न्यूनतम आगणन से 05 प्रतिशत निम्न (नेगोशिये सन के उपरान्त) रू 20,03,091 पर मै0 आर0जी0 बिल्डटैक इन्जी0 को कार्य स्वीकृत किया गया था।

कार्य की माप पुस्तिका संख्या -15557 के अनुसार डिस्मेन्टलिंग से प्राप्त 560.98 वर्ग मीटर टाईल्स में से 177.22 वर्ग मीटर टाईल्स की रिलेयिंग डी0एस0आर0.-2018/16.84 की दरों के अनुसार रू 280 प्रति वर्ग मीटर की दर से करायी गयी थी। जबकि पी0डब्लू0डी0 शिडयूल आफ रेट्स के अनुसार पुरानी टाईल्स की रिलेयिंग की दर रू 78 प्रति वर्ग मीटर थी। डी0एस0आर0 की दरों/मदों का उपयोग तभी किया जा सकता था। जब उस मद की दरें पी0डब्लू0डी0 - एस0ओ0आर0 में उपलब्ध न हो। इस प्रकार एस0ओ0आर0 में मद व दरें उपलब्ध होने के बावजूद भी डी0एस0आर0 की दरों पर आगणन तैयार कर कार्य कराये जाने के कारण निम्नवत अधिक भुगतान किया गया था-

डी0एस0आर व एस0ओ0आर0 की दरों में अन्तर = 280-78 = रू 202/- प्रति वर्ग मीटर

अधिक भुगतान = 177.22 वर्ग मीटर X रू 202 = रू 35,798

(-) 5% आगणन से निम्न स्वीकृत = रू 1,790

= रू 34,008

(+) 12% जी0एस0टी0 = रू 4,081

= रू 38,089

उक्त के सम्बन्ध में कार्यवाही लेते हुए अधिक भुगतान की वापसी कराया जाना अपेक्षित है।

19-वार्ड-29 कृष्णा विहार में कुटी में श्री पाण्डेय वाली गली में नाली व इन्टरलॉकिंग टाईल्स के कार्य में आगणन में दर्शायी गयी 30 प्रतिशत सही इन्टरलॉकिंग टाईल्स की रिलेयिंग न कराने से रू 34,813 का अधिक भुगतान :-

निगम निधि से कराये गये उपरोक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में प्रकाश में आया कि कार्य का आगणन रू 4,31,400 का तैयार कर कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गयी थी। कार्य हेतु प्राप्त 04 निविदाओं में आगणन से 15 प्रतिशत कम दर रू 3,66,690 में, मै0 विक्रान्त कन्स0 को स्वीकृत किया गया था।

कार्य के आगणन में इन्टरलॉकिंग कार्य 193.20 वर्ग मीटर दर्शाया गया था। माप पुस्तिका सं0-8350 के पृष्ठ संख्या-4 के अनुसार 189.87 वर्ग मीटर नयी इन्टरलॉकिंग कार्य कराया गया था। पत्रावली में संलग्न कार्य से पूर्व फोटोग्राफस से स्पष्ट होता है कि 30 प्रतिशत पुरानी

इन्टरलॉकिंग टाईल्स साबुत एवं सही थी। पुरानी 30 प्रतिशत सही इन्टरलॉकिंग टाईल्स को न तो स्टोर में जमा किया गया था और न ही उनकी लागत को बिल से घटाया गया था। एवं इनका डिस्पोजल भी नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट था कि उक्त 30 प्रतिशत टाईल्स सही स्थिति में थी।

पुरानी इन्टरलॉकिंग टाईल्स का प्रयोग रिलेयिंग के लिए किया जा सकता था। पुरानी इन्टरलॉकिंग टाईल्स की रिलेयिंग न कराकर नयी टाईल्स की दरों के अनुसार भुगतान किया गया था जिसके कारण निम्नवत रु 34,813 अधिक भुगतान हुआ था।

पुरानी इन्टरलॉकिंग टाईल्स की मात्रा = $189.87 \times 30\% = 56.96$ वर्ग मीटर

रिलेयिंग का व्यय = 56.96×78 प्रति वर्ग मीटर = रु 4,443

नयी टाईल्स हेतु किया गया भुगतान = $720 \times 56.96 =$ रु 41,011

अधिक भुगतान = $41011 - 4443 =$ रु 36,568

(-) 15% आगणन से निम्न स्वीकृत = रु 5,485

= रु 31,083

(+) 12% जी0एस0टी0 = रु 3,730

कुल अधिक भुगतान = रु 34,813

उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाय अन्था स्थिति में अधिक भुगतान हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए अधिक भुगतान की वापसी हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

20-वार्ड-24, बुलन्दशहर रोड इण्ड0 एरिया में जी0एम0के0 स्टील ए-03/02 से सिल्वर लाईन प्रेस्टीज स्कूल, रोड नं0-11 व 12 पर पेवर ब्लाक द्वारा पैच मरम्मत कार्य में एस0ओ0आर0 की दरों के स्थान पर डी0एस0आर की दरों पर कराये जाने के कारण रु 31,887 का अधिक भुगतान :-

उपरोक्त कार्य हेतु रु 29,47,209 का आगणन तैयार किया गया था। कार्य हेतु प्राप्त 03 निविदाओं में न्यूनतम आगणन से 20.99 प्रतिशत निम्न रु 23,28,590 पर मै0 डी0के0एस0 इन्फ्राटैक इण्डिया प्रा0लि0 को कार्य स्वीकृत किया गया था। कार्य के आगणन में मिट्टी खुदाई की दर

डी0एस0आर0-2018/2.6.1 के आधार पर रू 155 प्रति घन मीटर ली गयी थी जबकि उत्तर प्रदेश पी0डब्लू0डी0 के शिड्यूल ऑफ रेटस-2021 की मद संख्या-253(9) के अनुसार इस कार्य हेतु रू 90 प्रति घन मीटर की दरें निर्धारित की गयी थी। इस प्रकार एस0ओ0आर0 में दरें उपलब्ध होने के बावजूद भी डी0एस0आर0 की दरों के आधार पर आगणन तैयार कर सम्बन्धित फर्म को अधिक भुगतान किया गया था। जो कि पूर्ण रूप से अनियमित था। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए अधिक भुगतान हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण कर अधिक भुगतान की वापसी कराया जाना अपेक्षित है। अधिक भुगतान का विवरण निम्नवत है-

डी0एस0आर व एस0ओ0आर0 की दरों में अन्तर = 155 - 90 = रू 65 प्रति घन मीटर

माप पुस्तिका संख्या-24082 के पृष्ठ संख्या-01 के अनुसार अर्थ कटिंग = 193.14 घन मीटर

अधिक भुगतान = 193.14 घनमीटर रू 65/- प्रति घन मीटर = रू 12,554.00

इसी प्रकार 5/6एम:एस: टोर स्टील की दरों में अन्तर के कारण अधिक भुगतान किया गया था-

डी0एस0आर एवं एस0ओ0आर0 की दरों में अन्तर = 7700 - 5500 = 2200 प्रति कुन्तल

डी0एस0आर0 दरों पर कार्य कराये जाने के कारण अधिक भुगतान -

9.84 कुन्तल रू 2200 = रू 21,648

कुल अधिक भुगतान = 12554 + 21648 = रू 34,202

(-) 20.99% आगणन से निम्न स्वीकृत = रू 7,179

= रू 27,023

(+) 18% जी0एस0टी0 = रू 4,864

कुल योग = रू 31,887

21-वार्ड-61 वसुन्धरा सै0-4 बी सुभाष पार्क के मुख्य द्वार के सामने कच्चे भाग पर इन्टरलॉकिंग सुधार कार्य में अर्थ कटिंग से प्राप्त मिट्टी का अन्य कार्य में उपयोग न किये जाने के कारण रू 31,043 का अधिक भुगतान :-

उपरोक्त कार्य की माप पुस्तिका संख्या-12196 के पृष्ठ संख्या -07 के अनुसार कुल 183.99 घन मीटर मिट्टी खुदाई का कार्य कराया गया था। जिसके 80 प्रतिशत भाग अर्थात् 147.19 घनमीटर को 5 किलोमीटर दुरी पर फेंकने हेतु रू 173 प्रति घन मीटर की दर से भुगतान किया

गया था। कार्यादेश संख्या-122/निर्माण/2020-21 दिनांक 23.01.2021 को जारी किया गया था। उक्त कार्य पार्षद निधि के अन्तर्गत कराया गया था।

पार्षद कोटे के अन्तर्गत ही वार्ड-35 अकबरपुर-बहरामपुर में सौरभ क्लीनिक से छोटेलाल व बनदू से रामसूरत यादव तक नाली व इन्टरलॉकिंग कार्य हेतु कार्यादेश दिनांक 19.02.2021 को जारी किया गया था। इस कार्य में कुल 571.33 घनमीटर मिट्टी भराई का कार्य 8 कि०मी० दूरी से मिट्टी मंगाये जाने हेतु रू 229.00 प्रति घन मीटर की दर से भुगतान किया गया था। उक्त कार्य हेतु कार्यादेश पूर्व कार्य के पहले जारी किया गया था एवं निगम अधिकारियों द्वारा यदि दूरदर्शिता का उपयोग किया जाता तो अर्थ कटिंग से प्राप्त जिस 147.19 घनमीटर मिट्टी का उपयोग इस कार्य में कराया जा सकता था। किन्तु निगम में समान अवधि में अर्थ कटिंग एवं मिट्टी भराई कार्यों का कोई लेखा न रखे जाने के कारण जहां एक ओर मिट्टी डिस्पोजल हेतु पृथक से भुगतान किया जाता था वहीं दूसरी ओर मिट्टी भराई हेतु भी भुगतान किया जा रहा था। यदि निगम द्वारा सुव्यवस्थित प्रकार से इस ओर ध्यान रखा जाता तो इस कार्य में निम्नवत अधिक भुगतान न करना पड़ता -

मिट्टी भराई का कुल कार्य = 571.33 घन मीटर

वसुन्धरा वाले कार्य में मलबे के रूप में फेंकी गयी मिट्टी = 147.19 घन मीटर

कार्यों में समन्वय न होन के कारण अधिक भुगतान

$$= 147.19 \times 229 = \text{रू } 33,707$$

(-) 17.77% आगणन से निम्न स्वीकृत = रू 5,990

$$= \text{रू } 27,717$$

(+) 12% जी०एस०टी० = रू 3,326

$$\text{कुल योग} = \underline{\text{रू } 31,043}$$

22-आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत वार्ड-46 कम्पोजिट विद्यालय दुहाई का सुदृढ़ीकरण कार्य में पुरानी ईंटों की कम मूल्य/दरों से कटौती किये जाने के कारण रू 27,464 का अधिक भुगतान :-

उपरोक्त कार्य की पत्रावली की जाँच में प्रकाश में आया कि कार्य का आगणन पी०डब्लू०डी० शेड्यूल -2017 के आधार पर रू 37,98,719 का तैयार किया गया था। कार्य हेतु प्राप्त निविदा

मैसर्स लीसा कन्स० आगणन से 13.56 प्रतिशत निम्न रू 32,83,612.64 स्वीकृत की गयी थी। कार्य की माप पुस्तिका संख्या- 16433 के पृष्ठ-1 के अनुसार 83.62 घनमीटर पुरानी ईटों की डिस्मेंटलिंग का कार्य कराया गया था। जिसकी रू 4 प्रति ईट की दर से कुल रू 1,53,860.80 की कटौती की गयी थी।

सम्बन्धित एस०ओ०आर०-2017 के शेडयूल आईटम संख्या-1(9) पर ब्रिक -एम-150 की दर रू 4700 प्रति हजार अर्थात प्रति ईट दर रू 4.70 थी। किन्तु सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा रू 4.70 प्रति ईट की दर से न किये जाने के कारण 14 वॉ वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों का निम्नवत अधिक भुगतान किया गया था-

ईटों की संख्या = 83.62 घनमीटर X 460 ईट प्रति घनमीटर	= 38,465.20 ईट
ईटों की कटौती योग्य मूल्य = 38,465.20 X रू 4.70 प्रति ईट	= रू 1,80,786.44
(-) बिल से की गयी कटौती	= <u>रू 1,53,860.80</u>
	= रू 26,925.64
(-) 13.56% आगणन से निम्न स्वीकृत	= <u>रू 3,651.16</u>
	= रू 23,274.48
(+) 18% जी०एस०टी०	= <u>रू 4,189.40</u>
कुल योग	= <u>रू 27,463.88</u>
	अथवा रू 27,464.00

अतः कम दरों से कटौती किये जाने का कारण स्पष्ट कराया जाय अन्यथा की स्थिति में रू 27,464 की वापसी कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

23-वार्ड-51 सी०एच०एस०पी० से ई०पी०एस० चौराहे तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य में एस०ओ०आर० की मदों के स्थान पर डी०एस०आर० की मदों की दरों के आधार पर आगणन तैयार किये जाने के कारण रू 18,856 का अधिक भुगतान एवं पुरानी ईटों की मात्रा की कम कटौती किये जाने के कारण रू 4,619 का अधिक भुगतान कुल रू 23,475 का अधिक भुगतान :-

(1) 15 वॉ वित्त के अन्तर्गत उक्त कार्य हेतु कुल रू 1,51,72,000 का अगणन तैयार कर प्राप्त दो निविदाओं में आगणन से 2.30 प्रतिशत निम्न रू 1,48,23,044 पर मैसर्स आर०जी० बिल्डटैक इन्जी०

लि० को स्वीकृत किया गया था। कार्य के आगणन में सी०सी०डिस्मेन्टलिंग एवं ब्रिक वर्क डिस्मेन्टलिंग के होने थी जिनकी दर डी०एस०आर०-2021 के आधार पर की गयी थी, जबकि उक्त दरें एस०ओ०आर० में भी थी। नियमतः इन कार्यों को एस०ओ०आर० की मदों पर कराया जाना चाहिये था। जो मद एस०ओ०आर० में उपलब्ध नहीं होती, उन मदों हेतु डी०एस०आर० अथवा दर विश्लेषण का उपयोग किया जाना चाहिये था। अतः एस०ओ०आर० में मदें होने के बावजूद भी डी०एस०आर० की दरों पर कार्य कराये जाने के कारण निम्नवत अधिक भुगतान किया गया था—

$$\begin{array}{rcl} \text{सी०सी० डिस्मेन्टलिंग} - & \text{डी०एस०आर दर} & - \text{एस०ओ०आर० दर} = \text{अधिक (रु)} \\ & 1700 & - 800 & = 900 \text{ प्रति घनमीटर} \end{array}$$

$$\text{अधिक भुगतान} = 12.62 \text{ घनमीटर} \times \text{रु } 900 = \text{रु } 11,358.00$$

$$\text{ब्रिक डिस्मेन्टलिंग} = 1450 - 400 = \text{रु } 1050 \text{ प्रति घन मीटर}$$

$$4.76 \text{ घनमीटर} \times 1050 = \text{रु } 4,998.00$$

$$\text{कुल अधिक भुगतान} = 11,358 + 4998 = \text{रु } 16,356$$

$$\begin{array}{rcl} (-) 2.30 \% \text{ निम्न स्वीकृत} & & = \text{रु } 376 \\ & & = \text{रु } 15,980 \end{array}$$

$$(+) 18\% \text{ जी०एस०टी०} = \text{रु } 2,876$$

$$\text{कुल योग} = \text{रु } 18,856$$

(2) कार्य के आगणन में डिस्मेन्टलिंग से प्राप्त ईटों के 50 प्रतिशत भाग की कटौती ब्रिक ब्लास्ट के रूप में तथा 20 प्रतिशत भाग की कटौती ईटों के रूप में किये जाने का प्राविधान किया गया था। कार्य की माप पुस्तिका संख्या-16318 के पृष्ठ 13 के अनुसार उपरोक्त के रूप में क्रमशः रु 1762 एवं रु 2240/- कुल रु 4002 की कटौती की गयी थी।

जब ब्रिक डिस्मेन्टलिंग की मात्रा 4.76 घनमीटर थी तो कटौती भी 4.76 घनमीटर की ही की जानी चाहिये थी। 30 प्रतिशत ईटों की कटौती न किये जाने का कोई भी कारण पत्रावली आगणन एवं माप पुस्तिका में अंकित नहीं किया गया था जिसके कारण ईटों के मूल्य की निम्नवत कम कटौती किये जाने के कारण अधिक भुगतान किया गया था—

$$\text{डिस्मेन्टलिंग ब्रिक} = 4.76$$

कटौती योग्य ब्रिक बैलास्ट = $4.76 \times 50\% \times 750$ प्रति घनमीटर = रु 1785

कटौती योग्य ब्रिक का मूल्य = $4.76 \times 50\% \times 460 \times 5.60$ प्रति ईट = रु 6131

योग = $1785 + 6131 =$ रु 7,916

(-) की गयी कटौती = रु 4,002

= रु 3,914

(+) 18% जी०एस०टी० = रु 705

योग = रु 4,619

कुल अधिक भुगतान = (1) 18856 + (2) 4619 = रु 23,475

24-आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत वार्ड-16 कम्पोजिट वि० मोरटा व प्रा०वि० मोरटा-2 का सद्दहीकरण कार्य में डिस्मेन्टलिंग से प्राप्त ईटों का मूल्य कम घटाये जाने के कारण रु 22,768 का अधिक भुगतान :-

14 वॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत उपरोक्त कार्य का आगणन रु 36,98,539 का तैयार कर निविदा आमन्त्रण में प्राप्त दो निविदाओं में न्यूनतम आगणन से 9.99 प्रतिशत निम्न रु 33,29,056 का कार्यादेश निर्माण/144/2021-22 दिनांक 17.12.2021 द्वारा मैसर्स बालाजी इन्फ्रा० इन्जी० प्रा०लि० को कार्य आवंटित किया गया था। कार्य के आगणन के अनुसार डिस्मेन्टलिंग से पुरानी ईटों का मूल्य 50 प्रतिशत ईटों के रूप में तथा 50 प्रतिशत ब्रिक बैलास्ट के रूप में काटा जाना था किन्तु कार्य की माप पुस्तिका संख्या-24110 के पृष्ठ संख्या -13 पर ईटों व ब्रिक बैलास्ट की कटौती 40 : 60 के अनुपात में निम्नवत की गयी थी-

ईटों की कटौती का मूल्य = रु 34,150

ब्रिक बैलारूट की कटौती = रु 25,056

योग = रु 59,206

जबकि आगणन के प्राविधान एवं तत्समय प्रचलित शिडयूल ऑफ रेटस के अनुसार पुरानी ईटों की मात्रा 46.40 घनमीटर की कटौती निम्नवत की जानी चाहिये थी-

ईटों की की जाने वाली कटौती = $46.40 \times 50\%$

= 23.20 घनमीटर X 460 = 10672 X 5.60 प्रति ईट	= रु 59,763
ब्रिक बैलास्ट की कटौती = 46.40 X 50% = 23.20 X 900	= रु 20,880
योग	= रु 80,643
(-) की गयी कटौती	= रु 59,206
	= रु 21,437
(-) 9.99% निम्न पर स्वीकृत	= रु 2,142
	= रु 19,295
(+) 18% जी०एस०टी०	= रु 3,473
कुल अधिक भुगतान	= रु 22,768

अतः अधिक भुगतान हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए रु 22,768.00 की वापसी निगम कोष में कराया जाना अपेक्षित है।

25-वार्ड-67, राजनगर सै०-07 में आर०-07/157 से आर०-07/165 के पास सर्विस रोड पर सी०सी० रोड कार्य में पुरानी इन्टरलॉकिंग टाइल्स के मूल्य की कटौती न किये जाने के कारण रु 75,625 का अधिक भुगतान :-

उपरोक्त कार्य प्राप्त 09 निविदाओं में न्यूनतम आगणन से 28.10 प्रतिशत निम्न रु 5,55,422.67 पर मैसर्स केशराम कन्स० से कराया गया था। कार्य की माप पुस्तिका संख्या- 14923 के पृष्ठ-01 के अनुसार 432.13 वर्ग मीटर इन्टरलॉकिंग डिस्मेन्टलिंग का कार्य कराया गया था। कार्य के आगणन के अनुसार इन्हें निगम के स्टोर में जमा कराया जाना था। किन्तु इन्हें नगर निगम के स्टोर में जमा न कराकर ठेकेदार को दे दिया गया था और अन्य कार्यों की भांति सम्बन्धित फर्म से पुरानी टाइल्स के मूल्य न्यूनतम रु 05/- प्रति टाइल्स की कटौती भी नहीं की गयी थी। जिसके कारण निम्नवत फर्म को अधिक भुगतान किया गया था। जिस हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए वसूली हेतु कार्यवाही अपेक्षित है।

432.13 वर्ग मीटर X 35 टाइल्स प्रति वर्ग मीटर = 15125 टाइल्स

टाइल्स कटौती योग्य धनराशि = 15125 X 5 = रु 75,625/-

इस प्रकार फर्म को रू 75,625/- का अधिक भुगतान किया गया था।

26-वार्ड-04 व 14 में पप्पू की दूकान से डी0ए0वी0 चौक होते हुए डी0ए0वी0 स्कूल के पास तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य में डिस्मेन्टलिंग प्राप्त ईटों की मात्रा की कम कटौती किये जाने के कारण रू 5,699 का अधिक भुगतान :-

14 वॉ वित्त के अन्तर्गत उक्त कार्य हेतु रू 1,07,96,000 का आगणन तैयार कर कार्य हेतु निविदाये आमंत्रित की गयी थी। प्राप्त निविदाओं में न्यूनतम आगणन से 23.71 प्रतिशत निम्न रू 8,23,62,268 मैसर्स नार्थ इण्डिया इवलेपर्स को स्वीकृत की गयी थी।

कार्य की माप पुस्तिका संख्या-15897 के अनुसार कार्य में कुल 81.58 घन मीटर ब्रिक डिस्मेन्टलिंग का कार्य कराया गया था। जिसमें से 47.37 घनमीटर ब्रिक बैलास्ट के रूप में रू 500/- प्रति घनमीटर की दर से कटौती की गयी थी एवं ईटों का मूल्य रू 4.70 प्रति ईट की दर से कुल 14390 ईटों की कटौती की गयी थी। जबकि नियमतः ईटों की कटौती निम्नवत की जानी चाहिये थी-

ईटों की मात्रा = 81.58 घनमीटर - 47.37 घ0मी0 ब्रिक बैलास्ट कटौती

शेष ईटों की संख्या = 81.58 - 47.37 = 34.21 घनमीटर X 460 ईट

= 15,737 ईट -की गई कटौती 14,390 = 1347

कम कटौती = 1347 X 4.70 = रू 6,331

(-) 23.71% निम्न पर स्वीकृत = रू 1,501

= रू 4,830

(+) 18% जी0एस0टी0 = रू 869

कुल अधिक भुगतान = रू 5,699

27-वार्ड-71 संजय नगर ई0 ब्लॉक में ई0-446 से ई0-344 तक इन्टरलॉकिंग टाईल्स कार्य में एस0ओ0आर0 की मदों के स्थानपर डी0एस0आर0 की दरों के आधार पर आगणन तैयार कर कार्य कराये जाने के कारण रू 17,079 का अधिक भुगतान :-

पार्षद कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि उक्त कार्य हेतु रू 3,66,628.50 का आगणन तैयार कर निविदा आमंत्रित की गयी थी। प्राप्त 05 निविदाओं में न्यूनतम आगणन से 25.51 प्रतिशत निम्न रू 2,73,101.57 पर मैसर्स आकाश कन्सो कम्पनी को कार्य स्वीकृत किया गया था। कार्य के आगणन में सी0सी0 डिस्मेन्टलिंग का कार्य एवं इन्टरलॉकिंग टाईल्स का कार्य डी0एस0आर0 -2018 की दरों पर लिया गया था। जबकि यह मर्दे एस0ओ0आर0 में उपलब्ध थी। नियमत जो मर्दे एस0ओ0आर0 में उपलब्ध नहीं होती है। उन मर्दों का कार्य डी0एस0आर0 अथवा दर विश्लेषण तैयार कर कराया जाना चाहिये था। इस प्रकार एस0ओ0आर0 में मर्दे व दर उपलब्ध होने के बावजूद भी डी0एस0आर0 की दरों पर कार्य कराया जाना अनियमित था। जिसके कारण निम्नवत अधिक भुगतान किया गया था-

क्र0	कार्य की मद	डी0एस0आर0 की दर	एस0ओ0आर0 की दरें	अधिक दर मात्रा	अधिक भुगतान
1	सी0सी0 डिस्मेन्टलिंग	930 -	800	130 X 28.04 =	3645 / -
2	इन्टरलॉकिंग टाईल्स लेयिंग	780 -	720	60 X 280.44 =	16826 / -
				योग	20,471

योग = रू 20,471.00

(-) 25.51% निम्न पर स्वीकृत = रू 5,222

= रू 15,249

(+) 12% जी0एस0टी0 = रू 1,830

कुल अधिक भुगतान = रू 17,079

अतः उक्त के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए अधिक भुगतान की वसूली हेतु कार्यवाही अपेक्षित है।

28-वार्ड-17 हिण्डन विहार में चौधरी मेडीकल स्टोर से इकबाल के मकान तक नाली व सी0सी0 रोड निर्माण कार्य में डिस्मेंटलिंग से प्राप्त इन्टरलॉकिंग टाईल्स की कम कटौती किये जाने एवं ढुलाई का अधिक भुगतान किये जाने के कारण रू 13,103 का अधिक भुगतान :-

उक्त कार्य का आगणन रू 14,50,000 का तैयार कर कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गयी थी। प्राप्त निविदाओं में न्यूनतम आगणन से 24.50 प्रतिशत निम्न रू 10,94,750 मै0 जे0आर0 बिल्डटैक को स्वीकृत की गयी थी। कार्य के आगणन में सी0सी0 रैम्प की डिस्मेंटलिंग की मात्रा एवं डिस्मेंटलिंग से प्राप्त पुरानी टाईल्स के 40 प्रतिशत भाग को मलबे के रूप में फेंका जाना था एवं 60 प्रतिशत भाग की कटौती रू 3/- प्रति टाईल्स की दर से कटौती की जानी थी।

कार्य की माप पुस्तिका संख्या-20706 के पृष्ठ -01 के अनुसार रैम्प डिस्मेंटलिंग का कार्य 9.60 घनमीटर एवं इन्टरलॉकिंग टाईल्स डिस्मेंटलिंग का कार्य 394.50 वर्ग मीटर कराया गया था। इस प्रकार कार्य के आगणन के प्रविधानों के अनुसार पुरानी टाईल्स की कटौती निम्नवत होनी चाहिये थी-

$$\text{पुरानी टाईल्स डिस्मेंटलिंग} = 394.50 \text{ वर्गमी0} \times 60\% = 236.70$$

$$\text{कटौती योग्य मूल्य} = 236.70 \text{ वर्गमी0} \times 35 \text{ टाईल्स} \times \text{रू } 3/- = 24,854$$

$$\text{कम की गयी कटौती} = \text{रू } 24,854 - 13,668 \text{ (बिल से की गयी कटौती)} = \text{रू } 11,186$$

कार्य के आगणनुसार डिस्मेंटलिंग से प्राप्त मलबे की ढुलाई हेतु रू 230.10 प्रति घन मीटर की दर से भुगतान किया जाना था जो कि बिल में रू 230.10 X 30.60 घनमीटर = रू 7,041.06 किया गया था।

जबकि कार्य के अनुसार डिस्मेंटलिंग से प्राप्त मलबे की मात्रा निम्नवत थी -

$$1- \text{सी0सी0 रैम्प डिस्मेंटलिंग} = 9.65 \text{ घ0मी0}$$

$$2- \text{पुरानी टाईल्स के 40\% भाग की मात्रा} = 394.50 \times 0.40 = 157.80 \text{ वर्गमीटर}$$

$$\text{कुल मात्रा} = 9.65 + 157.80 = 167.45 \text{ घनमीटर}$$

$$\text{ढुलाई हेतु अधिक अधिक भुगतान} = 30.60 - 22.27 = 8.33 \text{ घन मीटर}$$

$$= 8.33 \text{ घनमीटर} \times 230.10 \text{ प्रति घनमीटर} = \text{रू } 1,917$$

$$\text{कुल अधिक भुगतान} = \text{रू } 11,186 + 1,917 = \text{रू } 13,103$$

इस प्रकार अधिक भुगतान कर नगर निगम को आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी थी। इस सम्बन्ध में अभिलेखों द्वारा स्थिति स्पष्ट की जाय अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए वापसी हेतु कार्यवाही अपेक्षित है।

29-वार्ड-43 कड़कड़ मॉडल में रूपी के मकान से म0नं0- 411 के आगे तक एवं महेन्द्र वाली गली में सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य में डिस्मेन्टलिंग से प्राप्त टाईल्स के मूल्य की कटौती न किये एवं मलबे के रूप ढुलाई किये जाने के कारण रू 10,217 का अधिक भुगतान :-

उर्पयुक्त कार्य हेतु रू 6,34,080 का आगणन तैयार कर निविदा आमन्त्रित की गयी थी। प्राप्त 02 निविदाओं में न्यूनतम आगणन से 2 प्रतिशत निम्न रू 6,21,438 पर कार्यादेश संख्या-01113/निर्माण/2021-22 दिनांक 27.07.2021 द्वारा मैसर्स आकाक्षा कन्स0 को कार्य का आवंटन किया गया था। कार्य के आगणन की मद संख्या-5 के अनुसार डिस्मेन्टलिंग से प्राप्त पुरानी इन्टरलॉकिंग टाईल्स के 80 प्रतिशत भाग का डिस्पोजल मलबे के रूप में किया जाना था। इससे स्पष्ट था कि पुरानी डिस्मेन्टलिंग से प्राप्त टाईल्स में से 20 प्रतिशत टाईल्स सही स्थिति में थी। कार्य की माप पुस्तिका संख्या-14151 के पृष्ठ-07 के अनुसार डिस्मेन्टलिंग से 240.92 वर्ग मीटर टाईल्स को मलबे के रूप में फेंकने हेतु सम्पूर्ण मात्रा के लिये रू 183.50 प्रति घन मीटर की दर से $240.92 \times 0.08 = 19.27$ घन मीटर का भुगतान किया गया था। जो कि अनियमित था।

सम्बन्धित फर्म से सही टाईल्स हेतु कटौती की जानी चाहिये थी किन्तु ऐसा न करके इन्हें मलबे के रूप में फेंकने हेतु भुगतान किया गया था जिसके कारण निम्नवत अधिक भुगतान किया गया था-

सही टाईल्स की मात्रा = $240.92 \times 20\% = 48.18$ वर्ग मीटर

= 48.18×35 टाईल्स = 1685 टाईल्स

टाईल्स का मूल्य = रू 5 X 1686 = रू 8430

ढुलाई हेतु अधिक भुगतान = 48.18 वर्ग मीटर X 0.08

= 3.85 घन मीटर X 183.50 प्रति घ0मी0 = रू 706

(-) 2% निम्न स्वीकृत = रू 14

$$= \text{रु } 692$$

$$\text{कुल अधिक भुगतान} = \text{रु } 8,430.00 + \text{रु } 692 = \text{रु } 9,122$$

$$(+)\ 12\% \text{ जी०एस०टी०} = \text{रु } 1,095$$

$$\text{कुल अधिक भुगतान} = \text{रु } 10,217$$

उक्त के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए अधिक भुगतान की वापसी कराया जाना अपेक्षित है।

30-वार्ड-95 प्रेम नगर, काटारिया वाली गली व सामने वाली गली में नाली व सी०सी० मरम्मत कार्य में डिस्मेन्टलिंग प्राप्त ईटों की कटौती न करने से रु 3,795 एवं ढुलाई का अधिक भुगतान रु 5,753 किय जाना अनियमित कुल रु 9,548 :-

(1) उपर्युक्त कार्य की पत्रावली की जांच में प्रकाश में आया कि कार्य हेतु रु 9,98,700 का आगणन तैयार कर निविदा आमंत्रित की गयी थी। प्राप्त 02 निविदाओं में आगणन से 10.25 प्रतिशत निम्न रु 8,98,930.77 पर मैसर्स अनिल कुमार चौहान को कार्य स्वीकृत किया गया था। कार्य के आगणन के अनुसार डिस्मेन्टलिंग की गयी टाईल्स की ही मात्रा की की ढुलाई मलबे के रूप में फेंकने हेतु देय थी एवं डिस्मेन्टलिंग से प्राप्त पुरानी ईटों की निम्नानुसार कटौती की जानी थी। कार्य की माप पुस्तिका संख्या-18791 के पृष्ठ संख्या-01 के अनुसार कुल 8.28 घनमीटर पुरानी ईटों की डिस्मेन्टलिंग की गयी थी। जिसमें से 6.63 घन मीटर मात्रा की कटौती रु 4,641.00 की गयी थी। इससे स्पष्ट था कि शेष $8.28 - 6.63 = 1.65$ घनमीटर ईटों की मात्रा थी। जिसकी कटौती नहीं की गयी थी जिसके कारण रु $5 \times (1.65 \times 460) = 3,795.00$ का अधिक भुगतान किया गया था।

(2) कार्य के आगणन के अनुसार डिस्मेन्टलिंग की गयी इन्टरलॉकिंग टाईल्स 422.60 वर्ग मीटर $\times 0.08 = 33.81$ घनमीटर मलबा ढुलाई हेतु देय थे किन्तु उक्त के स्थान पर 58.84 घनमीटर मलबा ढुलाई का भुगतान रु 217 प्रति घनमीटर की दर से किया गया था। जिसके कारण निम्नवत अधिक भुगतान किया गया था-

$$\text{ढुलाई की अधिक मात्रा} = 58.84 - 33.81 = 25.03 \text{ घनमीटर}$$

$$\text{अधिक भुगतान} = 25.03 \times 217 = \text{रु } 5,432$$

(-) 10.25% निम्न पर स्वीकृत = रु 557

= रु 4,875

(+) 18% जी0एस0टी0 = रु 878

अधिक भुगतान = रु 5,753

कुल अधिक भुगतान = रु 3795 + 5753 = रु 9548

उक्त के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए वसूली हेतु कार्यवाही अपेक्षित है।

31-वार्ड-30 कृष्णा गार्डन में सुरेश मलिक के मकान से संजय के मकान तक नाली व इन्टरलॉकिंग टाईल्स के कार्य में जी0एस0टी0 की मात्रा इन्टरलॉकिंग को क्षेत्रफल से अधिक दर्शाये जाने के कारण अधिक भुगतान रु 6,727 :-

निर्माण अनुभाग की पत्रावली की जांच से प्रकाश में आया कि उपरोक्त कार्य का आगणन अवर अभियंता द्वारा रु 8,83,962.28 बनाकर निविदाओं का आमंत्रण किया गया था। कार्य हेतु प्राप्त 05 निविदाओं में से मै0 बालाजी कन्स0 की न्यूनतम निविदा आगणन से 29.50 निम्न पर प्राप्त निविदा को कार्य हेतु कार्यादेश दिनांक 22.01.2021 को स्वीकृत किया गया था।

कार्य की माप पुस्तिका संख्या-15507 के पृष्ठ संख्या-4 पर जी0एस0टी0 की मात्रा 67.67 घनमीटर अंकित थी एवं इन्टरलॉकिंग टाईल्स का कार्य 436.60 वर्ग मीटर कराया गया था। आगणन के अनुसार जी0एस0टी0 की मात्रा, इन्टरलॉकिंग टाईल्स का क्षेत्रफल $\times .15$ जोकि $436.60 \times .15 = 65.49$ घनमीटर होना चाहिए था। इस प्रकार मानक से अधिक जी0एस0टी0 लिये जाना अनियमित था एवं निम्न गणनानुसार ठेकेदार को अधिक भुगतान था।

(जी0एस0टी0 की कार्य की मात्रा - इन्टरलॉकिंग के कार्य की मात्रा) \times जी0एस0बी0 की दर (माप पुस्तिका अनुसार)

$67.67 - 65.49 = 2.18$ घनमीटर

$2.18 \times 3086 = 6,727$ रु

इस प्रकार रु 6727 का अधिक भुगतान ठेकेदार को हो गया था जिसकी प्रतिपूर्ति सम्बन्धित से अपेक्षित थी।

32—नगर निगम द्वारा आलोच्य अवधि में कराये गये निर्माण कार्यों में पायी गयी विविध अनियमिततायें :-

(1) आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में नगर निगम द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों से सम्बन्धित जांच हेतु प्रस्तुत पत्रावलियों की सम्परीक्षा में प्रकाश में आया कि नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली सड़को हेतु सड़क रजिस्टर नहीं बनाया गया था जिसके अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि नगर निगम के कार्य क्षेत्र में कौन-कौन सी सड़के हैं तथा जिन सड़को का निर्माण सुधार/ कराया गया है व सभी नगर निगम कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत है अथवा नहीं। निगम द्वारा आगणन पंजी एवं तकनीकी स्वीकृत पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया था। जिससे यह सुनिश्चित न हो सका कि सम्बन्धित सड़क पूर्व में कब बनी थी तथा किस विभाग द्वारा बनायी गयी थी, सड़क किस स्तर की थी एवं सड़क पर कार्य कराये जाने के आवश्यकता थी अथवा नहीं। विभिन्न पत्रावलियों की जांच से प्रकाश में आया कि आगणन में रिपोर्ट, एनालिसिस ऑफ रेटस, डिटेल् ऑफ मेजरमेंट, सर्वे रिपोर्ट तथा तथा सामग्री एवं बिटुमिन के उपभोग से सम्बन्धित विवरण नहीं लगाये गये थे। पत्रावलियों में पाया गया कि सामग्रियों की जांच प्राइवेट लेबोरेट्री से करायी गयी थी जबकि यह जांच नियमानुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा स्थापित लेबोरेट्रीयों में करायी जानी चाहिये थी

(2) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-1408-23-3-07-62 जनरल 08 टी0सी0 दिनांक 08.05.2009 में दिये गये निर्देशों के तहत यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये था कि ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण कार्य में बिटुमिन रिफाईनरी से प्राप्त की गयी है किन्तु इस सम्बन्ध में किसी भी पत्रावली में नगर निगम द्वारा रिफाईनरी को भेजे गये कार्यादेश संलग्न नहीं थे। नगर निगम द्वारा अधिकांश कार्यों की पत्रावलियों में बिटुमिन क्रय से सम्बन्धित विवरण अंकित नहीं किये गये थे और कार्य कराये गये थे। जिससे स्पष्ट था कि निगम द्वारा उक्त शासनादेश का अनुपालन नहीं किया गया था।

(3) निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में देखा गया कि द्वितीय/अन्तिम बिल पर पूर्व में किये गये कार्य के भाग की मात्रा का उल्लेख नहीं किया जाता था जिससे यह सुनिश्चित नहीं हो पाता था कि बिल में किस मद की कितनी मात्रा का भुगतान इस बिल में किया गया था। निर्माण

कार्य के द्वितीय/अन्तिम बिल में पूर्व के बिलों में कराये गये कार्य की भाग का उल्लेख किया जाय।

(4) निर्माण कार्यों को सम्बन्धित माप पुस्तिका की जांच में पाया गया कि माप पुस्तिका में भुगतान के उपरान्त लाल स्याही से क्रॉस कर भुगतान एवं व्यय प्रमाणक संख्या तथा दिनांक अंकित नहीं किया जाता था। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय अन्यथा स्थिति में दोहरे भुगतान की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता था।

(5) नगर निगम द्वारा जमानत पंजी अनुरक्षित नहीं की गयी थी इसके अभाव में जमानत वापसी का सत्यापन किया जाना सम्भव नहीं था। जमानत पंजी अनुरक्षित करके प्रत्येक कार्य हेतु जी गयी जमानत धनराशि की प्रविष्टी करके सक्षम अधिकारी से सत्यापनोपरान्त सम्परीक्षा में प्रस्तुत कर तथा सम्बन्धी आवश्यक जांच करायी जाय।

(6) निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में प्रकाश में आया कि अधिकांश कार्यों में कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही इन्टरलॉकिंग टाईल्स/सामग्रियों की टेस्टिंग करायी जाती थी। जबकि कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों/इन्टरलॉकिंग टाईल्स की जांच/टेस्टिंग कार्य प्रारम्भ होने/सामग्री के प्रयोग किये जाने के पूर्व करायी जानी चाहिये थी।

(7) निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की सम्परीक्षा के समय प्रकाश में अया कि अधिकांश कार्य निर्धारित अवधियों में पूर्ण नहीं किये जा रहे थे। नगर निगम द्वारा मात्र कुछ कार्यों में ही विलम्ब शुल्क आरोपित कर कटौती/वसूली की जाती थी जबकि नियमानुसार बिलम्ब शुल्क का आरोहण करते हुए वसूली नहीं की गयी थी। अतः अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार विलम्ब शुल्क आरोपित करते हुए विलम्ब शुल्क की वसूली की जाय एवं समय वृद्धि के अनुमोदन/स्वीकृति की कार्यवाही लिया जाना भी अपेक्षित है।

(8) उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में कार्य एवं श्रमिकों का पंजीकरण प्रपत्र पत्रावलियों में संलग्न नहीं थे। इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही लिया जाना अपेक्षित है।

(9) निर्माण कार्य पत्रावलियों में रॉयल्टी से सम्बन्धित एम0एम0-11 प्रपत्र संलग्न नहीं किये गये थे। जिससे तत्सम्बन्धी आवश्यक जांच नहीं की जा सकी। अतः उक्त के सम्बन्ध में कार्यवाही लेते हुए एम0एम0-11 प्रपत्र पत्रावलियों में संलग्न कराये जायें।

(10) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या:24 वी0आई0पी0 /नौ-5-2017-120बजट/2013 दिनांक 24.08.2017 के निर्देशानुसार योजनान्तर्गत निर्मित किये जाने वाली सड़क का निर्माण लेने के पश्चात 05 वर्ष तक रख-रखाव/अनुरक्षण की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी। इसके सम्बन्ध में नवनिर्मित सड़कों की पंजी अनुरक्षित कर मरम्मत/अनुरक्षण कार्य सम्बन्धित कार्य/ठेकेदार से कराया जाना अपेक्षित है।

अतएव उपरोक्त कमियों को दूर किये जाने हेतु नगर निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

33 – समाजोत्थान सेवा संस्थान को निराश्रित गौवंश के रखरखाव ठेके के विभिन्न कर्मियों को मानदेय हेतु किया गया भुगतान मस्टर्ड रोल के अभाव में असत्यापित रू0 87,71,323 :-

व्यय प्रमाणकों की जांच में प्रकाश में आया कि समाजोत्थान सेवा संस्थान को निराश्रित गौवंश के रखरखाव हेतु विभिन्न कर्मियों की आपूर्ति हेतु विभिन्न व्यय प्रमाणकों द्वारा मानदेय का भुगतान किया गया था। जिनका निम्न विवरणानुसार विभिन्न कर्मियों का भुगतान किया गया था। किन्तु इससे सम्बन्धित अवधि में इनके द्वारा किये गये कार्य से सम्बन्धित मस्टर रोल/उपस्थिति पंजी आदि के अभाव में यह स्पष्ट न हो सका कि इन कर्मियों के द्वारा गौवंश के रख रखाव हेतु कार्य किया गया था। उक्त के अभाव में निम्नलिखित विवरणानुसार का भुगतान असत्यापित रहा।

क्र०	भुगतान की अवधि	व्यय प्रमाणक सं०/दिनांक	धनराशि	कर्मियों के पदनाम	कर्मियों की संख्या
1	07-04-2022 से 06-05-2022 तक	529 / 16-3-2023	4,07,200	सुपरवाइजर गौवंश चिकित्स सहायक गौवंश कैचर गौवंश सेवा सहायक गौशाला सफाई कर्मी	04,प्रतिबिल 05 10 20 24
2	07-05-2022 से 06-06-2022 तक	1414 / 22-10-2022	10,00,000	---"---	---"---
3	07-06-2022 से 06-07-2022	318 / 23-11-2022	7,00,000	---"---	---"---

	तक				
4	07-07-2022 से 06-08-2022 तक	434 / 22-12-20 22	7,00,000	---"---	---"---
5	07-08-2022 से 06-09-2022 तक	192 / 09-02-20 23	7,00,000	---"---	---"---
6	07-09-2022 से 06-10-2022 तक	530 / 16-03-20 23	7,01,400	---"---	---"---
7	07-10-2022 से 06-11-2022 तक	531 / 16-03-20 23	2,91,400	सुपरवाइजर गौवंश चिकित्स सहायक गौवंश कैचर गौवंश सेवा सहायक गौशाला सफाई कर्मि	04 05 10 20 24
8	07-01-2023 से 06-02-2023 तक	1894 / 31-03-2 023	6,92,530	सुपरवाइजर गौवंश चिकित्सा सहायक गौवंश कैचर गौवंश सेवा सहायक गौशाला सफाई कर्मि	04 05 10 20 24
9	अज्ञात	192 / 09-02-20 23 (आशिक भुगतान) रू0 7,00,000 / -	35,78,793 (कुल बिल राशि)	अज्ञात	अज्ञात
		योग	87,71,323		

34 – कार्य की स्वीकृति एवं कार्यादेश होने के दिनांक से पूर्व अनुबन्ध किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक रू0 9,04,400 :-

स्वास्थ्य विभाग की पत्रावलियों की सम्परीक्षा से प्रकाश में आया कि निम्न लिखित गाडियों की मरम्मत हेतु विभिन्न फर्मों को भुगतान किया गया था। सम्परीक्षा से प्रकाश में आया कि कार्य की स्वीकृति अपर नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद एवं कार्यादेश होने के पूर्व ही कार्य का

अनुबन्ध कराया गया था जो अत्यन्त गंभीर एवं आपत्तिजनक था। कार्यादेश से पूर्व कार्य का अनुबन्ध कराये जाने का आधार स्पष्ट किया जाये। कार्यादेश व कार्य की स्वीकृति से अनुबन्ध किये जाने से स्पष्ट होता है कि नगर निगम व ठेकेदार की मिलि भगत से कार्य कराया जा रहा था। कार्य आबंटन की प्रक्रिया संदिग्ध जनक थी। इस सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। उप सम्परीक्षा माहों में निम्न प्रकरण प्रकाश में आये।

क्र०	वाउचर सं०/दिनांक/धनराशि	अपर नगर आयुक्त द्वारा स्वीकृति दिनांक	कार्यादेश की दिनांक	अनुबन्ध की दिनांक
1	2	3	4	5
1	1653 / 31-3-2023 रू० 15,800	18-4-2022	20-4-2022	6-1-2022
2	1648 / 31-3-2023 रू० 11,500	7-5-2022	9-5-2022	25-4-2022
3	1650 / 31-3-2023 रू० 19,800	18-4-2022	20-4-2022	6-1-2022
4	1651 / 31-3-2023 रू० 19,900	18-4-2022	20-4-2022	6-1-2022
5	1655 / 31-3-2023 रू० 19,800	18-4-2022	20-4-2022	6-1-2022
6	1654 / 31-3-2023 रू० 16,300	18-4-2022	20-4-2022	6-1-2022
7	1630 / 31-3-2023 रू० 24,000	18-4-2022	20-4-2022	6-1-2022
8	1569 / 31-3-2023 रू० 88,500	26-8-2022	10-9-2022	22-12-2021
9	1573 / 31-3-2023 रू० 81,900	19-12-2022	2-1-2023	22-12-2021
10	1574 / 31-3-2023 रू० 80,300	25-7-2022	22-8-2022	22-12-2021
11	1576 / 31-3-2023 रू० 65,300	26-8-2022	29-8-2022	22-12-2021
12	1570 / 31-3-2023 रू० 2,09,600	19-12-2022	2-1-2023	17-10-2022
13	1572 / 31-3-2023 रू० 1,84,100	6-1-2023	16-1-2023	17-10-2022
14	1642 / 31-3-2023 रू० 21,700 मै० भारत एन्टरप्राइजेज	7-5-2022	9-5-2022	6-1-2022
15	1652 / 31-3-2023 रू० 23,300	7-5-2022	9-5-2022	6-1-2022

	मै0 भारत एन्टरप्राइजेज			
16	1638 / 31-3-2023 रू0 22,600 मै0 भारत एन्टरप्राइजेज	7-5-2022	9-5-2022	6-1-2022
	योग = 9,04,400			

(ख) स्वास्थ्य विभाग :-

1-मैसर्स जिरौन इन्जीनियरिंग प्रा0लि0 को भुगतान रू0 58,80,000 असत्यापित :-

व्यय प्रमाणकों की जांच में प्रकाश में आया कि व्यय प्रमाणक संख्या - 274 दिनांक 1-3-2023 द्वारा मैसर्स जिरौन इन्जीनियरिंग प्रा0लि0 को प्रताप विहार स्थित लिगेसी सोलिड वेस्ट का बायो-रेमेडिसेशन पछति से निस्तारण सम्बन्धी कार्य में फर्म के बिलों से रोकी गयी धनराशि रूपये 60,00,000 दर्शाकर आयकर कटौती रू0 1,20,000 करने के उपरान्त कुल 58,80,000 का भुगतान किया गया था। किन्तु उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित पत्रावली सम्परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण रोकी गयी धनराशि की पुष्टि न हो सकी। जिसके अभाव में भुगतानित धनराशि 58,80,000 का सत्यापन सम्भव न हो सका। अतः सम्बन्धित पत्रावली सम्परीक्षा में प्रस्तुत कर दर्शायी गयी कटौती की धनराशि व कार्य के मानक अनुसार पूर्ण किये जाने की पुष्टि करायी जाये जिससे भुगतान का सत्यापन किया जाना सम्भव हो सके।

2 - नगर निगम में स्वच्छ सर्वेक्षण - 2023 के अन्तर्गत डॉक्यूमेन्टेशन एक्सपर्ट एवं जोनल इन्चार्ज के पद पर फर्म से कर्मचारी आपूर्ति किया जाना अनियमित भुगतान रू0 18,48,040 :

(1) व्यय प्रमाणकों की जांच में प्रकाश में आया कि नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा सर्वेक्षण - 2023 के अन्तर्गत डॉक्यूमेन्टेशन एक्सपर्ट एवं जोनल इन्चार्ज की आपूर्ति मैसर्स हयूमन मैट्रिक्स सिक्योरिटी से क्रमशः रू0 65,000 एवं रू0 40,000 प्रतिमाह की दर से ली गयी थी। जिस पर 4.70 प्रतिशत की दर से सर्विस चार्ज का भुगतान भी किया गया था। फर्म द्वारा माह नवम्बर , 2022 से जनवरी, 2023 तक की अवधि हेतु तीन बिल कुल रू0 3,29,805 के प्रस्तुत किये गये थे जिन पर टी0डी0एस0 की कटौती के उपरान्त व्यय प्रमाणक संख्या - 451 दिनांक 3-3-2023 द्वारा

3,23,200 का भुगतान किया गया था।

उक्त बिल मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम गाजियाबाद द्वारा सत्यापित थे। सम्बन्धित कर्मियों की आपूर्ति किन कार्यों हेतु एवं किस शासनादेश के अन्तर्गत की गयी थी, स्पष्ट नहीं किया गया। साथ ही इनके अनुभव से सम्बन्धित अभिलेख एवं कृत कार्य का विवरण भी संलग्न नहीं था। अतः सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत कर इनकी नियुक्ति एवं कृत कार्यों का सत्यापन कराते हुए उक्त कार्य निगम कर्मचारियों/अधिकारियों से न लेकर बाहरी कर्मियों से लिये जाने का कारण स्पष्ट कराया जाय अन्यथा की स्थिति में 3,23,200 का भुगतान अनियमित था।

इसी प्रकार उपरोक्त फर्म से ही विभिन्न कर्मियों की आपूर्ति हेतु व्यय प्रमाणक संख्या – 1294 दिनांक 31-3-2023 द्वारा रू0 8,21,300 का भुगतान भी किया गया था। एवं व्यय प्रमाणक संख्या 551 दिनांक 23-2-2023 द्वारा 7,03,540 का भुगतान भी किया गया था।

3 – बोर्ड प्रस्तावित कर्मचारियों में सिटी जोन में कार्यरत 340 सफाई कर्मचारियों के बिल में 1,81,822 का अधिक भुगतान –:

व्यय प्रमाणकों संख्या 466 दिनांक 4-3-2023 द्वारा दिनांक 21-01-2023 से 20-02-2023 की अवधि हेतु बोर्ड प्रस्तावित 340 सफाई कर्मचारी जो कि सिटी जोन में कार्यरत थे, को रू0 53,54,945 का भुगतान किया गया था। सम्बन्धित श्रमिकों की उपस्थिति सफाई नायकों, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक, नगर निगम गाजियाबाद एवं जोनल सेनेटरी अधिकारी, नगर निगम गाजियाबाद द्वारा सत्यापित की गयी थी। इन उपस्थितियों के आधार पर यह बिल रू0 53,54,945 का अंकित किया गया था किन्तु भुगतान के समय सहायक लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/नगर आयुक्त द्वारा उक्त धनराशि को काट कर रू0 51,73,123 किया गया था। जिससे प्रतीत हो रहा था कि बिल तैयार करते समय, जो गणना की गयी थी वह त्रुटिपूर्ण थी। जिसे भुगतान के समय सुधार करते हुए रू0 53,54,945 के स्थान पर रू0 51,73,123 किया गया था। इसके बावजूद भी बिल की पूर्व धनराशि रू0 53,54,945 का ही भुगतान किया गया था। अतः उक्त के सम्बन्ध में अभिलेखों द्वारा स्थिति स्पष्ट करायी जाय अन्यथा की स्थिति में $53,54,945 - 51,73,123 = 1,81,822$ का अधिक भुगतान किया गया था। इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

4 – डम्पिंग ग्राउण्ड के संचालन हेतु किराये पर ली गयी भूमि से सम्बन्धित पत्रावलियों एवं अभिलेखों एवं अभाव में भुगतान असत्यापित रू0 22,90,556 :

व्यय प्रमाणको की जांच में प्रकाश में आया कि नगर निगम, गाजियाबाद के स्वास्थ्य अनुभाग द्वारा ग्राम जगजीवनपुर (थिक्कनपुर) में डम्पिंग ग्राउण्ड के संचालन हेतु विभिन्न भू-मालिकों से रू0 50,000/- प्रति बीघा की दर से भूमि किराये पर ली गयी थी। उक्त भूमि के किराये के 1/3 भाग का भुगतान सम्परीक्षा माहों में निम्नवत किया गया था।

क्रं0	व0सं0/दिनांक	भू-स्वामी का नाम	किराये की भूमि (बीघा में)	कुल किराया	भुगतान किराया
1	488/14-3-2023	पूनम शर्मा	10	5,00,000	1,66,667
2	489/14-3-2023	सिद्धान्त कौशिक	10	5,00,000	1,66,667
3	490/14-3-2023	एकता कौशिक	10	5,00,000	1,66,667
4	491/14-3-2023	सुधीर चौधरी	33	16,50,000	5,50,000
5	492/14-3-2022	मनवीर चौधरी	33	16,50,000	5,50,000
6	493/14-3-2022	कमलेश चौधरी	33	16,50,000	5,50,000
		योग			21,50,001

सम्परीक्षा में उपरोक्त किराये की भूमियों से सम्बन्धित पत्रावलियों एवं अन्य अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के कारण यह स्पष्ट न हो सका कि उक्त किराये की दरें किस आधार पर निर्धारित की गयीं थी एवं भू-स्वामियों से निर्धारित मूल्य के स्टाम्पों पर अनुबन्ध कराया था अथवा नहीं। उक्त भूमियों के किराये पर लिये जाने की अवधि एवं भुगतान शर्तों के अभाव में भुगतान का सत्यापन किया जाना सम्भव न हो सका।

(2) आयकर अधिनियम 1961 की धारा -194-18 के अनुसार किराये की राशि पर आयकर की कटौती स्रोत पर ही की जानी चाहिये थी। किन्तु उपरोक्त भुगतानों से आयकर की कटौती नहीं की गयी थी। अतः आयकर कटौती न किये जाने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाय अन्यथा की स्थिति में यह राजस्व क्षति का प्रकरण था।

उक्त के अतिरिक्त निम्नवत भुगतान भी किये गये थे -

1	232 व 233 / 14-02-2023	गरिमा	0.266 हैक्टेयर का 1/3 किराया	63,889
2	234 / 14-02-2023	कुलदीप त्यागी	0.266 हैक्टेयर का 1 12	76,666
				1,40,555

कुल योग = ₹0 21,50,001 + 1,40,555 = ₹0 22,90,556

5 – बिना कुटेशन के कार्यों को कराया जाना आपत्तिजनक ₹0 6,34,850 :-

स्वास्थ्य विभाग की पत्रावलियों की सम्परीक्षा से आया कि निम्नलिखित गाड़ियों की मरम्मत हेतु विभिन्न फर्मों को भुगतान किया गया था। कार्यों को बिना कुटेशन प्राप्त किये कराया गया था जो अनियमित एवं आपत्तिजनक था। नियमानुसार 20,000 रुपये से 1,00,000 तक लागत के कार्यों को कुटेशन से प्राप्त दरों के आधार पर कराया जाना चाहिए था। जिससे नगर निगम को तुलनात्मक दरों का लाभ प्राप्त होता। बिना कुटेशन के निम्न कार्यों को कराये जाने का आधार स्पष्ट किया जाय। इस ओर नगर निगम के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार के पुनरावृत्ति न हो।

क्र०	व्यय प्रमाणक सं०/दिनांक/धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	गाड़ी संख्या
1	1584 / 31-03-2023 ₹0 23100	मै0 क्लासिक मोटर्स	UP 14 AF – 9424 UP 14 BW – 4444
2	1598 / 31-03-2023 ₹0 2,76,950	मै0 यूनाईटिड मैकेनिकल इन्जी०	UP 14 JT – 6733 UP14 JT – 8077 UP 14 JT – 5683 UP 14 JT – 6772
3	1599 / 31-03-2023 ₹0 2,04,500	—”—	UP 14 FT – 9658 UP14 JT – 8306 UP 14 JT – 6707 UP 14 JT – 8078
4	1600 / 31-03-2023 ₹0	मै0 यूनाईटिड	UP 14 FT – 6698

	54,500	मैकेनिकल इन्जीन प्रातोलि	UP14 JT – 6682 UP 14 JT – 6683
5	109 / 02-02-2023 रू0 75,800	---"---	UP 14 JT – 7075 UP14 JT – 6682 UP 14 JT – 8069 UP 14 JT – 6697
	योग = 6,34,850 /-		

6 – फर्म द्वारा विलम्ब से अनुबन्ध किये जाने पर कार्यादेश की शर्तानुसार अर्थदण्ड की वसूली न करने के कारण फर्मों को अधिक भुगतान रू0 1,64,900 :-

व्यय प्रमाणकों एवं सम्बन्धित पत्रावलियों की सम्परीक्षा से प्रकाश में आया कि निम्न गाडियों की मरम्मत हेतु विभिन्न फर्मों को भुगतान किया गया था। जोनल सैनेटरी अधिकारी गाजियाबाद नगर निगम के काम आदेश में उल्लेख किया गया था कि कार्य आदेश पत्र के 07 दिनों के अन्दर मानक स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध की कार्यवाही करें यदि निर्धारित तिथि के अन्दर अनुबन्ध की कार्यवाही नहीं की जाती है तो रू0 100 प्रतिदिन की दर अर्थदण्ड वसूलने तथा टेंडर नोटिस की धारा – 8 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। निम्नलिखित कार्यों में अनुबन्ध अधिक विलम्ब से किये जाने के बावजूद भी रू0 100 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड विभिन्न फर्मों से वसूल नहीं किया गया था और न ही टेंडर नोटिस की धारा- 8 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी थी। रू0 100 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड वसूल न किये जाने से रू0 1,64,900 का अधिक भुगतान विभिन्न फर्मों को किया गया था इसकी वसूली सम्बन्धित/फर्मों से किया जाना अपेक्षित है। उप सम्परीक्षा माहो में किये गये भुगतानों का विवरण निम्नवत है –

क्र०	वाउचर सं०/दिनांक/धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	कार्यादेश दिनांक	अनुबन्ध दिनांक	अर्थदण्ड की धनराशि
1	1585 / 31-03-2023 रू0 37500	मै0 क्लासिक मोटर्स	22-08-2022	04-10-2022	36×100 = 3600
2	1587 / 31-03-2023 रू0 37800	---"---	22-08-2022	04-10-2022	36×100 = 3600

3	1586 / 31-03-2023 रु0 43600	---"---	22-08-2022	04-10-2022	36×100 = 3600
4	108 / 02-02-2023 रु0 42900	---"---	09-05-2022	01-06-2022	16×100 = 1600
5	1588 / 31-03-2023 रु0 38800	---"---	22-08-2022	04-10-2022	36×100 = 3600
6	107 / 02-02-2023 रु0 69500	---"---	09-05-2022	01-06-2022	16×100 = 1600
7	46200 / 31-03-2023 रु0 46200	मै0 एस0 के0 मोटर्स	10-11-2019	06-01-2021	415×100 = 41500
8	1557 / 31-03-2023 रु0 90800	---"---	12-02-2020	26-03-2021	401×100 = 40100
9	1647 / 31-03-2023 रु0 70100	मै0 भारत एन्टरप्राइजेज	10-09-2022	03-11-2022	47×100 = 4700
10	1629 / 31-03-2023 रु0 1,36,600	---"---	10-06-2022	03-10-2022	108×100 = 10800
11	1636 / 31-03-2023 रु0 2,41,300	---"---	21-11-2022	16-01-2023	49×100 = 4900
12	1628 / 31-03-2023 रु0 1,48,800	---"---	14-09-2022	03-10-2022	12×100 = 1200
13	1635 / 31-03-2023 रु0 1,11,100	---"---	02-01-2023	16-01-2023	7×100 = 700
14	1627 / 31-03-2023 रु0 3,86,700	---"---	27-06-2022	03-10-2022	91×100 = 9100

15	1637 / 31-03-2023 रु0 20,000	---"---	21-11-2022	16-01-2023	49×100 = 4900
16	1640 / 31-03-2023 रु0 71,300	---"---	10-09-2022	03-11-2022	47×100 = 4700
17	105 / 02-02-2023 रु0 1,28,600	मै0 बाला जी ट्रेडर्स	09-05-2022	20-06-2022	36×100 = 3600
18	106 / 02-02-2023 रु0 92,900	---"---	20-04-2022	20-06-2022	55×100 = 500
19	103 / 02-02-2023 रु0 1,13,800	मै0 भारत एन्टरप्राइजेज	14-09-2022	03-10-2022	13×100 = 1300
20	102 / 02-02-2023 रु0 1,45,700	---"---	14-09-2022	03-10-2022	13×100 = 1300
21	104 / 02-02-2023 रु0 2,47,700	---"---	14-09-2022	03-10-2022	13×100 = 1300
22	1637 / 31-03-2023 रु0 73590	---"---	10-09-2022	03-10-2022	17×100 = 1700
23	1632 / 31-03-2023 रु0 2,58,000 .	---"---	21-11-2022	16-01-2023	50×100 = 5000
24	1631 / 31-03-2023 रु0 2,19,800	---"---	21-11-2022	16-01-2023	50×100 = 5000
					1,64,900

7 – स्वास्थ्य अनुभाग में बिना निविदा प्रक्रिया कराये मै0 श्री राम ट्रेडर्स से ब्लिचिंग पाऊडर का कय रु0 1,87,250 :-

उपरोक्त कार्य की पत्रावली की जांच के समय प्रकाश में आया कि उक्त कार्य हेतु मै0

महादेव से वर्ष 2019-20 से ब्लीचिंग पाऊडर क्रय किया जा रहा था जिसकी दर रू0 749 प्रति बैग 25 किग्रा थी।

वर्ष 2020 में 2019-20 की दरों पर पत्रांक मीमो/स्वा0/स्टोर/19-20 दिनांक 22-03-2020 को मै0 महादेव इन्टरप्राइजेज से 250 नग कट्टे ब्लीचिंग पाऊडर क्रय के लिए आपूर्ति कार्यदेश किया गया। कार्य के सम्बन्ध में महादेव इन्टरप्राइजेज द्वारा 27-03-2020 को नगर स्वास्थ्य अधिकारी को अपने पत्र में बताया गया कि ब्लीचिंग पाऊडर की आपूर्ति करने में असमर्थ तदुपरान्त दिनांक 30-03-2020 को उक्त कार्य बिना किसी निविदा आमंत्रित किये ही मै0 श्री राम ट्रेडर्स को पत्रांक/मीमो/स्व0/स्टोर दिनांक 20/04/2020 को कार्यादेश स्वीकृत करके ब्लीचिंग पाऊडर की आपूर्ति ली गई।

इसी प्रकार वर्ष 2020-21 वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में भी लगातार ब्लीचिंग पाऊडर क्रय बिना किसी निविदा आमंत्रित किये मै0 श्री राम ट्रेडर्स से किया गया था जोकि शासनादेश सं0-ए-1/864/दस-08-15(1)86 में आदेशित था कि 1 लाख से ऊपर के कार्य हेतु निविदा का आमंत्रण आवश्यक था। बिना निविदा के साल दर साल एक ही फर्म से ब्लीचिंग पाऊडर का क्रय किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक था।

(ग) जलकल विभाग :-

1 - जलकल अनुभाग द्वारा नलकूल रिबोर के कार्यों को बिना नवीन टेण्डर प्रक्रिया अपनाये एवं वर्ष 2018-19 एवं 2021-22 में फर्मों से मांगे गये इकाई दर के आधार पर ही वर्ष 2022-23 के कार्य आवंटित कर कार्य कराया जाना शासनादेश के विपरीत अनियमित रू0 43,48,300 :-

जलकल अनुभाग द्वारा 10 एच0 पी0 मिनी नलकूप 5 एच0 पी0 मिनी नलकूप के रिबोर कार्य कराये गये थे। जिसके लिए दिनांक 14-05-2018 को 10 एच0 पी0 मिनी नलकूप अधिष्ठापन/कार्य की निविदाएं आमंत्रित की गयी थी एवं 5 एच0 पी0 मिनी नलकूप के अधिष्ठापन कार्य की ईकाई दर आमंत्रण का कार्य 23-10-2021 को किया गया था। दोनो ईकाई दर आमंत्रण में क्रमशः 40 एवं 34 फर्म/ठेकेदारो ने प्रतिभाग किया था।

निगम द्वारा उक्त दोनो ईकाई दर के आधार पर ही वर्ष 2022-23 के नलकूप रिबोर के कार्य कराये गये थे जिसका विवरण संलग्न है, शासनादेश सं0 ए-1-1173/दस-2001-

10(55)/2000 के पैश-6 के अनुसार नवीन कार्यो हेतु नवीन टेण्डर प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिये। इस प्रकार नवीन टेण्डर न अपनाये जाने से टेण्डर प्रक्रिया में होने वाली प्रतिस्पर्धा का लाभ संस्था को प्राप्त नही हो पा रहा था। एंव संस्था की कार्य प्रणाली भी संदिग्ध प्रतीत होती है। एक ही ठेकेदार को लगातार कार्य दिया जाना ठेकेदार को लाभ पहुंचाने की मंशा उजागर होता है। इस पर कार्यवाही अपेक्षित थी।

क्रं0	व्यय प्रमाणक/दिनांक	कार्य का नाम/ठेकेदार का नाम	कार्य में प्रयुक्त धनराशि
1	682/30-03-2023	वार्ड-25 विजय नगर जोन के अन्तर्गत माधोपुरा में 10 एच0पी0 मिनी नलकूप रिबोर का कार्य मै0 राजेश कुमार शर्मा	4,70,100
2	179/01-03-2023 710/30-03-2023	कविनगर जोन के अन्तर्गत वार्ड नं0-91 कविनगर जे-ब्लाक मन्दिर वाले पार्क में पूर्व से अधिष्ठापित 10 एच0पी0 मिनी नलकूप रिबोर कार्य मै0 मनीष भार्गव	4,72,700
3	562/18-03-2023	विजय नगर जोन में वार्ड-55 प्रताप विहार डी-ब्लाक में डी-244 के पास अधिष्ठापित 10 एच0पी0 मिनी नलकूप के रिबोर का कार्य मै0 महादेव इन्टरप्राइजेज	4,72,700
4	2392/31-03-2023	पुराना विजय नगर गली नं0-4 में 10 एच0पी0 मिनी नलकूप के रिबोर का कार्य मै0 पवन कुमार शर्मा	4,78,100
5	503/22-02-2023	विजय नगर जोन में वार्ड-15 चरण सिंह कालोनी एल ब्लाक में तिकोना पार्क में पूर्व से अधिष्ठापित 10 एच0पी0 मिनी नलकूप के रिबोर का कार्य मै0 महादेव इन्टरप्राइजेज	4,68,400
6	1308/31-03-2023	विजय नगर जोन के अन्तर्गत वार्ड-15 राहुल	4,72,700

		विहार द्वितीय 25 फुटा रोड पर स्थित 10 एच0पी0 मिनी नलकूप रिबोर का कार्य मै0 महादेव इन्टरप्राइजेज	
7	844 / 30-03-2023	मोहन नगर जोन वार्ड-34 सी ब्लाक में शिव मन्दिर के पास 10 एच0पी0 मिनी नलकूप रिबोर का कार्य मै0 नमन इन्टरप्राइजेज	4,72,700
8	2025 / 31-03-2023	सिटी जोन तृतीय वार्ड-95 कैला भट्टा में गली नं0-11 में 10 एच0पी0 रिबोर का कार्य मै0 राणा पम्प स्टोर	2,02,800
9	769 / 30-03-2023	वार्ड-95 जिला महिला चिकित्सालय परिसर में पूर्व से अधिष्ठापित 5 एच0पी0 मिनी नलकूप का रिबोर मै0 पूजा बिल्डटैक	1,74,300
10	2000 / 31-03-2023	सिटी जोन प्रथम के अन्तर्गत वार्ड-12 बस्सावन चौक पर 1 एच0पी0 मिनी नलकूप के रिबोर का कार्य मै0 हनुमत इन्टरप्राइजेज	4,76,300
11	663 / 30-03-2023	मोहन नगर जोन वार्ड-34 शहीद नगर भूरा मण्डी मे पूर्व से अधिष्ठापित 10 एच0पी0 रिबोर मै0 इथर इन्टरप्राइजेज	1,87,500
			योग=43,48,300

2 - जलकल अनुभाग के अन्तर्गत कराये गये नलकूप रिबोर के कार्यों में रिबोर से निकाले गये पुराने पाईप एवं सब-मर्सिबल पम्प का निष्प्रयोज्य होने का सत्यापन प्रमाण पत्र न होने, जलकल स्टोर में जमा न कराया जाना एवं इनका समायोजन सम्बन्धित कार्यों में न किया जाने नलकूप रिबोर में प्रयुक्त नये पाईपों व सब-मर्सिबल पम्पो की स्थिति संदिग्ध रू0 29,20,753 :-

जलकल अनुभाग की पत्रावलियों की जांच के समय प्रकाश में आया कि जलकल अनुभाग के द्वारा पूर्व की कुटेशन के आधार पर नलकूप रिबोर के कार्य फर्मों/ठेकेदारो द्वारा कराये गये थे।

नलकूप रिबोर के कार्यों में अवर अभियन्ता द्वारा बनाये गये एस्टीमेंट में प्रयुक्त पाईप की मात्रा की मद में पाईप की मात्रा 0-60 मी० एवं 61 से 106 मी० अंकित करके एवं 10 किलाग्राम/सेमी² प्रेशर पाईप एवं 200 एम० एम० डायामिटर पी० वी० सी० 1-लोटेड पाईप विभिन्न दरों से अंकित करके (संलग्नक अनुसार) कार्य कराकर भुगतान किया गया था। कराये गये नलकूप रिबोर के कार्य में प्रयुक्त पाईप की मात्रा नए नलकूप अधिष्ठापन प्रयुक्त पाईप के समान थी एवं रिबोर कराने के कारणों का भी पत्रावली में उल्लेख नहीं था।

उल्लेखनीय है कि रिबोर से निकाले गये पुराने पाईपो एवं पुराने सब-मर्सिबल पम्पो को सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा निष्प्रयोज्य का सत्यापन प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न था एवं न ही उक्त निकाले गये सामानों को डैड स्टॉक रजिस्टर में अंकित करके स्टोर में जमा नहीं किया गा था। इस प्रकार निकाले गये पाईपो एवं सब-मर्सिबल की स्थिति संदिग्ध थी।

रिबोर के समस्त कार्यों से निकाले गये पुराने पाईपो, सबमर्सिबल पम्पों एवं अन्य सामानों के नगर निगम के केन्द्रीय स्टोर में जमा अथवा सम्बन्धित फर्म से उपरोक्त सामानों के मूल्य की कटौती का सत्यापन कराया जाय अन्यथा की स्थिति में इन पाईपो एवं सबमर्सिबल पम्पो के कार्य में प्रयुक्त किये जाने की स्थिति संदिग्ध थी। इस सम्बन्ध में आवश्यक एवं प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

रिबोर के कार्य में प्रयुक्त पाईप एवं सबमर्सिबल का सत्यापन

क्र०	व्यय प्रमाणक सं०/दिनांक	कार्य का नाम/फर्म का नाम	रिबोर में प्रयुक्त पाईप की मात्रा	रिबोर में प्रयुक्त सबमर्सिबल की मात्रा	दर	धनराशि
1	663/30-03-2023	मोहन नगर जोन वार्ड 34 शहीर नगर भूरा मण्डी में पूर्व से अधिष्ठापित 10 एच०पी० रिबोरका	70मी० 70मी०	10 एच०पी० सबमर्सिबल 01	780 736.89 50640	54,600 51,582. 30 50,640

		कार्य / मै०इन्दर इन्टरप्राइजेज				
2	179 / 01-03-2023 710 / 30-03-2023	कविनगर जोन के अन्तर्गत वार्ड नं०-91 कविनगर जे-ब्लाक मन्दिर वाले पार्क में पूर्व से अधिस्तापित 10 एच०पी० मिनी नलकूप के रिबोर का कार्य मै० मनीष भार्गव	60मी० 45मी० 35मी० 70मी०	- - - -	790 925 3324 3220	47,400 41,625 1,16,340 2,25,400
3	177 / 01-03-2023 682 / 30-03-2023	विजय नगर जोन के अन्तर्गत वार्ड-26 माधोपुरा में 10 एच०पी० मिनी नलकूप रिबोर का कार्य मै० राजेश कुमार शर्मा	60मी० 45मी० 35मी० 70मी०	- - - -	790 925 3324 3220	47,400 41,625 1,16,340 2,25,400
4	2000 / 31-03-23	सिटी जोन प्रथम वार्ड-12 मलिन बस्ती वस्सावान चौक पर10	60मी० 40मी० 70मी० 30मी०	- - - -	790 925 3220 3324	47,400 37,000 2,25,400 99,720

		एच0पी0रिबोर का कार्य मै0हनुमंतइन्ट0				
5	166 / 01-03-2023	वसुन्धरा जोन वार्ड-21 सीमांत विहार पानी की टंकी परिसर में 10एच0पी0रिबोर मै0 हनुमंत इन्ट0	60मी0 46मी0 70मी0 35मी0	— — — —	790 925 3220 3324	47,400 37,000 2,25,400 1,16,340
6	769 / 30-03-2023	सिटी जोन तृतीय के अन्तर्गत वार्ड-95जिला महिलाचिकित्साय परिसर में 5 एच0पी0 मिनी नलकूप रिबोर का कार्य मै0पूजा बिल्डटैक	30मी0 30मी0 36मी0 21मी0	— — — —	310 410 480 460 25,500	9300 12,300 17,280 9660 25,500
7	2025 / 31-3-2023	वार्ड-95 कैला भट्टा में गली 11 मे पूर्व से अधिसठापित 10 एच0पी0 मिनी नलकूप रिबोर	66मी0 66मी0	— —	780 736.89 50,640	51,480 48,634 50,640

		का कार्य मै0 राणा पम्प स्टोर				
8	562 / 18-3-2023	विजय नगर जोन में वार्ड 55 प्रताप विहार डी-244 के पास पूर्व से अधिस्तापित 10 एच0पी0 मिनी नलकूप के रिबोर कार्य मै0महादेव इन्टरप्राइजेज	60मी0 45मी0 35मी0 70मी0	- - - -	790 925 3224 3220	47,400 41,625 1,16,340 2,25,400
9	2392 / 31-3-2023	विजय नगरजोन के वार्ड-14 मलिन बस्ती पुराना विजयनगर गली नं0-4 में अधिस्तापित 10 एच0पी0 मिनी नलकूप रिबोर का कार्य मै0 पवन कुमार शर्मा	60मी0 40मी0 70मी0 30.50	- - - -	790 925 3220 3324	47,400 37,000 2,25,400 1,01,382
					योग=	29,20,75 3

3 – शासनादेश के विपरीत जलकल अनुभाग द्वारा पाईप लाईन बिछाने/पाईप लाईन मरम्मत के कार्य पूर्व वर्षों की स्वीकृत निविदा दरो पर कराया जाना अनियमित रू० 11,41,000 :-

जलकल अनुभाग की पत्रावलियों की जांच क समय प्रकाश में आया कि पाईप लाईन (पेयजल) एवं पेयजल पाईप लाईन मरम्मत के कार्यों में दर आगणन बनाकर दिनांक 17 जुलाई 2021 को निविदाएं आमंत्रित की गयी थी जिसमे 37 फर्मों/ठेकेदारो द्वारा निविदा (आनलाईन) दी गयी थी निविदाओं के आधार पर 6 फर्मों/ठेकेदारो को उनकी न्यूनतम निविदा के आधार पर पाईप लाईन बिछाने एवं मरम्मत हेतु कार्य प्रदान किया गया था।

कार्यादेश पत्रांक 246/जलकल/21-22 दिनांक 21-09-2021 में दर्शायी गयी 6 फर्मों को ही वर्ष 2022-23 में पाईप लाईन बिछाने के कार्यों को कराने की अनुमति प्रदान करना एवं इन कार्यों के लिए नवीन टेण्डर प्रक्रिया न अपनाया जाना शासन के शा० सं० ए-1-1173/दस-2001-10(55)/2000 के पैरा सं०-6 की अवहेलना थी। इस प्रकार शासन द्वारा बनायी गयी टेण्डर प्रक्रिया को न अपनाकर एवं मनमाने ढंग से कार्यों को विपरीत करके शासन द्वारा विकास कार्यों के लिए प्रदान अनुदान को अपारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर अनियमित रूप से इनका उपयोग किया जा रहा था।

कार्यों में नवीन टेण्डर प्रक्रिया न अपनाये जाने से बाजार की प्रतिस्पर्धा का लाभ की संस्था को नही मिल रहा था। वर्ष 2021-22 के टेण्डर के आधार पर ही वर्ष 2022-23 के कार्य कराया जाना नितान्त आपत्तिजनक था। इस प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगायी जाय एवं नवीन कार्यों हेतु नवीन टेण्डर प्रणाली अपनायी जाय। इस प्रकार के कार्य निम्नलिखित है।

क्र०	व्यय प्रमाणक सं०/दिनांक	कार्य का नाम/ठेकेदार का नाम	कार्य की धनराशि भुगतानित
1	1980/31-03-2023	सिटी जोन प्रथम के अन्तर्गत विभिन्न स्थानो पर सी०जी०वी०सी० पाईप फीटिंग का कार्य मै० जी०के वाटर सप्लाय कं०	1,08,100
2	676/30-03-2023	मोहन नगर जोन के अन्तर्गत रामा विहार कटी भौपुरा के मकान 1 से लेकर समरपाल के मकान तक पाईप लाईन मै० गोपाल इंजी०	96,400
3	749/30-03-2023	वसुन्धरा जोन अन्तर्गत वार्ड-36 प्रहलाद गढी में मुकेश के मकान से लवली प्रजापति के	91,500

		मकान तक 110 एम0एम0 पाईप लाईन का कार्य मै0 नरेश कुमार	
4	662/30-03-2023	मोहन नगर जोन अन्तर्गत वार्ड-34 शहीद नगर सी0 ब्लाक में हाजी मुस्तकीय के मकान से ठाकुर रामपाल तक 110 एम0एम0व्यास की 120 मी0 पाईप लाईन	92,100
5	158/01-03-2023	मोहन नगर जोन के अन्तर्गत विभिन्न/स्थानों पर सिम्बल 22 में 102नग पाईप लाईन लीकेज मरम्मत कार्य मै0 गोपाल इन्जी0	1,05,300
6	664/31-03-2023	मोहन नगर जोन के अन्तर्गत वार्ड-34 शहीद नगर जी-ब्लाक नाथ मन्दिर के बराकर वाली गली में 110 एम0एम0 व्यास की 120 मी0 पीवीसी पाईप लाईन डालना मै0 इन्दर इन्टर प्राइजेज	90,700
7	756/30-03-2023	मै0 गौरव सिंह कान्टैक्टर सिटी जोन द्वितीय के अन्तर्गत वार्ड-93 कैला भट्टा के पास पाईप लाईन बदलने का कार्य मै0 गौरव सिंह कान्टैक्टर	69,200
8	660/30-03-2023	मोहन नगर जोन के अन्तर्गत वार्ड-34 शहीद नगर जी-ब्लाक में हाजी लाल के मकान से खलील के मकान तक 110 एम0एम0 व्यास की 120मी0 पी0वी0सी0 पेयजल पाईप लाईन मै0 इन्दर इथ प्राइजेज	92,600
9	709/30-03-2023	विजय नगर जोन के अन्तर्गत वार्ड नं0-07 मलिन बस्ती मौहल्ला खैराती नगर में विभिन्न गलियों में 4 व्यास की 320 मी0 पेयजल पाईप लाईन बिछाने का कार्य मै0 मनीष भार्गव	1,72,200
10	2021/31-03-2023	विजय नगर जोन अन्तर्गत वार्ड-7 मलिन बस्ती आदर्श कालोनी खैराती नगर में 4 व्यास की 392 मी0 पानी की पाईप लाईन का कार्य मै0 मनीष भार्गव	2,23,000
		योग	11,41,000

4 - जलकल अनुभाग में विभिन्न प्रकार के पाईप लाईन कार्यों में पाईप की गुणवत्ता की जांच न कराये जाने से भुगतान अनियमित रू0 11,25,652 :-

जलकल अनुभाग में नगर निगम निधि, 15 वे वित्त आयोग, अवस्थापना निधि से विभिन्न प्रकार के पाईप लाईन कार्य कराये गये थे यथा जी० आई० पीवीसी पाईप एम० एम० उक्त कार्यों की पत्रावलियों की जांच से प्रकाश में आया कि पाईप लाईन के कार्यों में पाईप की गुणवत्ता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं था जिससे यह ज्ञात न हो सका की जलकल अनुभाग द्वारा पाईपो की गुणवत्ता जांच करायी गयी थी अथवा नहीं।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि निगम द्वारा पाईप लाईन लीकेज के कार्य प्रतिवर्ष कराये जा रहे थे एवं इनमे निरन्तर बढ़ोत्तरी हो रही थी जिससे स्वतः ही स्पष्ट था कि पाईप मानक के अनुसार नहीं लगाये जा रहे थे। पाईप लाईन के कार्यों में गुणवत्ताहीन पाईप प्रयोग करने एवं गुणवत्ता की जांच न कराये जाने से रू० 11,25,625 के पाईप लाईन कार्यों का भुगतान अनियमित था। विवरण परिशिष्ट 25 पर दिया गया है।

5— जलकल विभाग के द्वारा कराये गये कार्य एफ० ब्लाक सीवर पम्प नन्दग्राम 600 एम० एम० आर०सी०सी० सीवर लाईन डालने के कार्य में डिस्मेन्टलिंग ऑफ इन्टरलाकिंग टाईल्स के कार्य का अधिक दर से भुगतान किये जाने से रू० 17,223 का अधिक भुगतान :-

जलकल अनुभाग की पत्रावलियों की जांच से प्रकाश में आया कि उपरोक्त कार्य का एस्टीमेट रू० 4,39,075 का अवर अभियंता द्वारा बनाया गया था जिससे आईटम संख्या-1 में डिस्मेन्टलिंग ऑफ इन्टरलाकिंग रोड आल कम्पलीट वर्क का क्षेत्रफल 21.94 घन मी० अंकित था। उक्त कार्य की दर 800 रू० प्रतिघन मी० एम०बी० संख्या 20115 में अंकित करके ठेकेदार को भुगतान किया गया था।

पत्रावली अनुसार कार्यालय अधिशासी अभियंता (जल) नगर निगम गाजियाबाद पत्रांक सं०-382/जलकल/2018-19 दिनांक 26-10-2018 स्वीकृत दरो के अनुसार उक्त कार्य की दरे रू० 15 प्रतिघन मी० थी जिसके अनुसार यह कार्य $21.94 \times 15 = 329$ रू० में होना था। किन्तु उक्त कार्य का ठेकेदार को भुगतान $21.94 \times 800 = 17,552$ किया गया था जिससे रू० $17,552 - 329 = 17,223$ का अधिक भुगतान ठेकेदार को हुआ था। उक्त अधिक भुगतानित धनराशि की प्रतिपूर्ति अपेक्षित है।

6 – जलकल अनुभाग में पेयजल पाईप लाईन की लीकेज के विभिन्न स्थानों पर कराये गये कार्यों 2022-23 को वर्ष 2021 की निविदाओं पर कराया जाना अनियमित रू० 6,21,200 :-

जलकल अनुभाग की पत्रावलियों की जांच के समय प्रकाश में आया कि अनुभाग द्वारा पेयजल पाईप लाईन की लीकेज मरम्मत का कार्य विभिन्न स्थानों पर कराया गया था।

उक्त कार्यों के लिए वर्ष 2021 में आमंत्रित निविदाओं के आधार पर प्राप्त 52 निविदाओं में से अन्तिम रूप से निम्न दर पर स्वीकृत 4 निविदाओं की फर्मों से ही वर्ष 2022-23 के लीकेज मरम्मत के कार्य कराये गये थे। उक्त कार्यों हेतु न तो नवीन कार्यादेश जारी किया गया था न ही नवीन स्वीकृति ली गयी थी।

कार्यों हेतु वर्ष 2021-22 में स्वीकृत दरे ही वर्तमान कार्यों 2022-23 पर भी लागू की जा रही थी जोकि अनियमित था। पुरानी टेण्डर प्रक्रिया पर ही नवीन कार्य दिया जाना शासनादेश सं०-ए-1-1173/दस-2001-10(55)/2000 के पैरा सं-6 की अवहेलना थी। पुरानी टेण्डर व्यवस्था पर ही नवीन कार्य कराये जाने से बाजारू प्रतिस्पर्धा का लाभ भी संस्था को नहीं मिल पा रहा था। इस प्रक्रिया पर रोक लगाकर कार्यों को शासन व्यवस्था अनुसार नवीन टेण्डर प्राप्त कराके किया जाय। उक्त प्रकार के कार्य निम्नलिखित थे।

क्र०	व्यय प्रमाणक सं०/दिनांक	कार्य का नाम/फर्म का नाम	कार्य में प्रयुक्त धनराशि
1	702/30-03-2023	वसुन्धरा जोन अन्तर्गत बृज विहार मैन नाले पेयजल पाईप लाईन की मरम्मत/मै०आर०जी० इन्जीनियरिंग	92,400
2	162/01-03-2023	सूयनगर बी-14 के सामने नाले के अन्दर टूटी 8 लाई मरम्मत का कार्य मै० साई इन्टर प्राइजेज	63,700
3	1982/31-03-2023	सिटी जोन-1 विभिन्न स्थानों पर अगान्त-22 में 88 नगर पाईप लाईन लीकेज मरम्मत का कार्य मै० बिमल वाटर सप्लाय कं०	1,27,500
4	2031/31-03-2023	वसुन्धरा जोन अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर पाईप लाईन लीकेज मरम्मत का कार्य मै० फिरोज वाटर सप्लाय कं०	2,58,100
5	1963/31-03-2023	कान्हा उपवन स्थित सी० डब्ल्यू०आर० के सामने 24 डी० आई लाईन मरम्मत का कार्य मै० साई इन्टर प्राइजेज	79,500
		योग	6,21,200/-

7 – जलकल अनुभाग द्वारा कराये गये कार्यों में ठेकेदारो द्वारा विलम्ब से कार्य पूर्ण किये जाने पर ठेकेदारो से अर्थदण्ड की वसूली न करने के कारण ठेकेदारो को अधिक भुगतान रू0 3,19,400

जलकल अनुभाग द्वारा आलोच्य अवधि में नगर निगम निधि, 15 वॉ वित्त आयोग एवं अवस्थापना विकास निधि से कराये गये जलकल के कार्यों की पत्रावलियों की जांच से प्रकाश में आया कि जलकल द्वारा कराये गये विभिन्न कार्यों में जिससे ठेकेदारो द्वारा कार्यादेश में दी गयी अवधि के अन्तर्गत कार्य को पूर्ण न करके विलम्ब से कार्य पूर्ण किया गया था वहां पर निगम द्वारा ठेकेदार पर अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार या तो विलम्ब हेतु आर्थिक दण्ड लगाया ही नहीं गया था या बहुत कम लगाया गया था जिस कारण ठेकेदारो को अधिक भुगतान हो गया था। अनुबन्ध की शर्त अनुसार कार्य में देरी की दर से अर्थदण्ड, विलम्बित दिवसों के लिए लगाया जायेगा।

किन्तु अर्थदण्ड की यह धनराशि ठेकेदारो पर आरोपित न करके वसूल न किये जाने से रू0 3,19,400 का अधिक भुगतान हो गया था। वर्ष 2022–23 तक देरी से किए गए कार्यों पर ठेकेदारो पर अनुबन्ध की शर्त के अनुसार अर्थदण्ड की धनराशि की गणना करके ठेकेदारो से वसूल की जाए। सम्बन्धित विवरण संलग्न परिशिष्ट (26) में अंकित है।

8 – जलकल अनुभाग के द्वारा कराये गये विभिन्न कार्यों में “क्लीनिंग ऑफ मलबा आल कम्प्लीट वर्क” को जोड़कर भुगतान किये जाने से फर्म/ठेकेदार को अधिक भुगतान रू0 2,67,600 :-

जलकल अनुभाग के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की पत्रावलियों की जांच से प्रकाश में आया कि उक्त कार्यों के लिए सामूहिक रूप से विभिन्न फर्मों/ठेकेदारो से दर कुटेशन ली गयी थी जिसके अन्तर्गत 6 ठेकेदारों को कुटेशन के आधार पर कार्यों का आवंटन किया गया था। उक्त कार्यों का कार्यादेश पत्रांक 246/जलकल/2021–22 दिनांक 21-09-2021 को दिया गया था।

उक्त कार्यादेश के आधार पर कराये गये कार्यों में “क्लीनिंग ऑफ मलबा आल कम्प्लीट वर्क” आइटम को जोड़कर एवं माप-पुस्तिका में दर्शाकर उक्त की धनराशि रू0 3000, 2000, 1000, प्रति जॉब की दर से भुगतान किया गया था। उक्त कार्यों हेतु बनाये गये सामूहिक कुटेशन में विभिन्न कार्यों के लिए प्रयुक्त होने वाली मदों एवं दरों का विवरण बनाया गया था जोकि चयनित ठेकेदारो ने अपनी कुटेशन में दिये थे। यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य क्लीनिंग ऑफ मलबा की शिडयूल ऑफ रेट्स में कोई मद नहीं थी। किसी भी कार्य हेतु निविदा डालने से पूर्व सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार का उत्तरदायित्व होता है कि वह सम्बन्धित कार्य स्थल का भली – भांति निरीक्षण

करने के उपरान्त आगणन के सापेक्ष निविदा डाले एवं कार्य पूर्ण करने के उपरान्त स्थल को पूर्ण रूप से स्वच्छ कर निगम को सूचित करे। इस हेतु पृथक से स्थल की सफाई के सम्बन्ध में भुगतान का न तो कोई औचित्य था और न ही नियमों में कोई प्रविधान था। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि निगम द्वारा उक्त कार्य हेतु जो इकाई मद दर आमन्त्रित की गयी थी उनमें में भी उक्त मद का कोई उल्लेख नहीं था जिससे स्वतः ही स्पष्ट था कि सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा फर्मों को लाभ पहुंचाने के लिये माप पुस्तिकाओं में उक्त मद का समावेश करते हुए फर्मों को अधिक भुगतान कर निगम को आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी थी।

अतः उक्त मद हेतु भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में नियमों/शासनादेशों के आधार पर औचित्य स्पष्ट कराया जाय अन्यथा की स्थिति में अधिक भुगतान हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए निगम कोष में वापसी कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र०	व्यय प्रमाणक सं०/दिनांक	कार्य का नाम/फर्म का नाम	स्थलीय सफाई हेतु पृथक से भुगतान
1	801/30-03-2023	मोहन नगर जोन वार्ड-70 डी-12 श्याम एन्कलेव से ई-51 जनकपुरी तक 250 एम०एम० व्यास की 224 मी० आर०सी०सी० सीवर मै० अनुज कुमार	57,00
2	672/31-03-2023	सिटी जोन तृतीय के अन्तर्गत वार्ड-52 कोट गांव पार्क में डीपवैल नलकूप का मैन लाईन संयोजन का कार्य मै० खुर्शीद अहमद	6,000
3	1967/31-03-2023	मोहन नगर जोन में विभिन्न स्थानों पर लीकेज मरम्मत का कार्य मै० गोपाल इलै० इन्जी०	24,000
4	2005/31-03-2023	सिटी जोन तृतीय के अन्तर्गत वार्ड-93 मलिन बस्ती कैला भट्टा में 3" व्यास की 185 मी० जी०आई० पाईप लाईन मरम्मत का कार्य मै० दीपांशी कान्द्रेक्टर	12,000
5	690/30-03-2023	मोहन नगर जोन के अन्तर्गत दिल्ली रोड से गाजियाबाद आते समय 24" डी आई० पाईप लाईन मरम्मत का कार्य मै० सुनील कुमार	6,000
6	578/18-03-2023	मोहन नगर जोन के अन्तर्गत 367 लोनी रोड राजेन्द्र नगर औद्योगिक क्षेत्र में 24"	6,000

		डी0आई0 पेयजल पाईप लाईन की मरम्मत का कार्य मै0 सुनील कुमार	
7	1305 / 31-03-2023	वसुन्धरा जोन के अन्तर्गत वार्ड-61 वसुन्धर सै0-4 बी सुभाष चन्द्रबोस पार्क में 15 एच0पी0डीपवैल नलकूप अधिष्ठापन का कार्य।	4,000
8	726 / 30-03-2023	वसुन्धरा जोन वार्ड-72 कौशाम्बी सैन्ट्रल पार्क से लेकर सतपुडा टावर तक 110 एम0एम0 व्यास की पी0वी0सी0 पाईप लाईन बिछाने का कार्य मै0 हनुमंत इन्टरप्राइजेज	6,000
9	791 / 30-03-2023	सिटी जोन-1 के अन्तर्गत वार्ड-59 मौहल्ला पम्मी कोटी में 40 से अविनाश से सम्भल हकीम तक 3 व्यास की 120 मी0 जी0आई0 पाईप लाईन डालने का कार्य मै0 बिमला इन्टरप्राइजेज	3,000
10	2017 / 31-03-2023	वसुन्धरा जोन के अन्तर्गत वार्ड-100 में 56 एम0एल0डी0 के प्वाइंट से डम्पिंग प्लान्ट तक 110 एम0एम0 व्यास की 30 मी0 पाईप लाईन बिछाने का कार्य मै0 महादेव इन्ट0	3,000
11	572 / 31-03-2023	कविनगर जोन के अन्तर्गत वार्ड सं0-84 सै0-10 रामलीला मैदान के अन्दर 10 एच0पी0 नलकूप का आर0सी0सी0 पिलर निर्माण का कार्य मै0 अमन कन्टैक्टर	4,000
12	801 / 30-03-2023	मोहन नगर जोन के अन्तर्गत वार्ड नं0-70 श्याम एकलेव डी-12 से ई0-51 जनकपुरी तक नवीन सीवर डालने का कार्य मै0 अनुज कुमार	57,00
13	692 / 30-03-2023	कविनगर जोन के अन्तर्गत वार्ड-47 सी-ब्लाक डबल टंकी स्थित महा प्रबन्धक/जल महोदय के आवास की मरम्मत मै0 सुनील कुमार	4,000
14	2016 / 31-03-2023	मोहन नगर जोन सिटी फारेस्ट पार्क में नलकूप 01 के पम्प सम की चहारदीवारी की मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य मै0 महादेव इन्ट0	8,000

15	1953 / 31-03-2023	वसुन्धरा जोन के अन्तर्गत बृज विहार टंकी परिसर स्थित सप्लाई लाईन पर लगे 400 एम0एम0 सलूव बल्व बदलने का कार्य मै0 साई इंटरप्राइजेज	2,000
16	841 / 30-03-2023	कविनगर जोन वार्ड-67 में 3 नग इण्डिया मार्क-2 के हैण्ड पम्प अधिष्ठापन का कार्य मै0 वारियर साल्यूशन	45,00
17	178 / 01-03-2023	वार्ड-88 में 2 नग हैण्ड पम्प अधिष्ठापन का कार्य मै0 सिंघल एण्ड संस	3,000
18	2011 / 31-03-2023	मोहन नगर जोन सिटी फारेस्ट पार्क में नलकूप 04 के पम्प रूम व चारदीवारी की मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य मै0 महादेव इंटरप्राइजेज	8,000
19	2015 / 31-03-2023	कविनगर जोन सी-ब्लाक ग्रीन बैल्ट गोविन्दपुरम व होली चौक पार्क में 15 एच0पी0 डीपवैल नलकूप दौरान चारदीवारी मरम्मत, रंगाई, पुताई, व क्षतिग्रस्त फुटपाथ पर सी0सी0सी0 का कार्य मै0 महोदव इंटरप्राइजेज	10,000
20	2018 / 31-03-2023	मोहन नगर जोन में फारेस्ट पार्क में नलकूप सं-2 के पम्प रूम की चारदीवारी की मरम्मत व रंगाई ,पुताई, का कार्य मै0 महादेव इन्ट0	8,000
21	1963 / 31-03-2023	कान्हा उपवन स्थित सी0 डब्ल्यू0 आर0 के सामने 24" डी0 आई0 लाईन मरम्मत का कार्य मै0 साई इंटरप्राइजेज	3,000
22	172 / 01-03-2023	एफ0 ब्लाक सीवर पम्प नन्दग्राम 600 एम0एम0 वाया आर0सी0सी0 सीवर लाईन पाईप डालने का कार्य मै0 खुर्शीद अहमद	12,00
23	1309 / 31-03-2023	मोहन नगर जोन में सिटी फारेस्ट पार्क में स्थित नलकूप-5 के पम्प रूम व चहारदीवारी की मरम्मत का कार्य मै0 महादेव इंटरप्राइजेज	8,000
24	166 / 01-03-2023	वसुन्धरा जोन वार्ड-21 सीमान्त विहार पानी की टंकी परिसर में 10 एच0पी0 रिबोर का कार्य मै0 हनुमन्त इंटरप्राइजेज	45,00
25	2046 / 31-03-2023	सिटी जोन तृतीय के अन्तर्गत वार्ड-95 व 93 में 4" वाल्व चैम्बर निर्माण व नय बस	8,000

		स्टैण्ड में पानी की टंकी की रंगाई,पुताई, का कार्य मै० खुर्शीद अहमद	
26	689 / 30-03-2023	मोहन नगर जोन के अन्तर्गत एयर फोर्स वाले रोड के पास गुलमोहर सोसाईटी के सामने वाली रोड पर 24" डी०आई० पाईप लाईन का कार्य मै० सुनील कुमार	6,000
27	2000 / 31-03-2023	सिटी जोन प्रथम वार्ड-12 मलिन बस्ती वस्सावन चौक पर 10 एच०पी० रिबोर का कार्य मै० हनुमन्त इन्टरप्राइजेज	45,00
28	708 / 30-03-2023	सिटी जोन वार्ड-08 में 2 नग इन्डिया मार्क-सेकण्ड हैंड पम्प अधिष्ठापन का कार्य मै० मनीष भार्गव	3,000
29	1307 / 31-03-2023	सिटी जोन प्रथम वार्ड-12 मलिन बस्ती डासना गेट मे नलकूप रिबोर का कार्य मै० महादेव इन्टरप्राइजेज	45,00
30	1971 / 31-03-2023	कविनगर जोन के अन्तर्गत विभिन्न वार्डों में हैण्ड पम्प अधिष्ठापन का कार्य मै० सिंघल एण्ड सन्स	3,000
31	798 / 30-03-2023	मोहन नगर जोन के अन्तर्गत वार्ड-70 जनकपुरी में गुरुनानक अपार्टमेन्ट के पास फिटिंग का कार्य मै० अनुज कुमार	3,000
32	799 / 30-03-2023	मोहन नगर जोन के अन्तर्गत वार्ड-70 जनकपुरी पार्शद जी के आवास के बराकर मे गुरुनानक अपार्टमेन्ट के पास वाटर सप्लाई 16 एम०एम० पाईप लाईन का कार्य मै० अनुज कुमार	3,000
33	1985 / 31-03-2023	वसुन्धरा जोन वार्ड-72 कौशाम्बी सैन्ट्रल पार्क गाजियाबाद मै० हनुमंत इटरप्राइजेज	6,000
34	2014 / 31-03-2023	विजय नगर जोन विभिन्न वार्डों में 05 स्थानो पर नवीन/रिबोर 10 एच०पी० मिनी नलकूप से मैन लाईन बिछाने का कार्य मै० महादेव इन्टरप्राइजेज	15,000
35	1959 / 31-03-2023	मोहन नगर जोन के अन्तर्गत ए-4 80 फुटा रोड विउम शालीमार गार्डन के पास नाले में 10" पाईप लाईन की मरम्मत का कार्य मै०साई इन्टरप्राइजेज	3,000
36	688 / 30-03-2023	वसुन्धरा जोन के अन्तर्गत वैशाली सै०-5 टंकी परिसर की चारदीवारी की मरम्मत व गेट लगाने का कार्य मै० सुनील कुमार	10,000

37	727 / 30-03-2023	वार्ड-19 मुकन्द नगर हिमाय प्लाईवुड के पास 10 एच0पी0 नलकूप से राधे के मकान तक 110 एम0एम0 की 210 मी0 पी0वी0सी0 लाईन बिछाने मै0 हनुमंत इन्टरप्राइजेज	6,000
38	503 / 22-02-2023	विजय नगर जोन में वार्ड-15 चरण सिंह कालोनी ब्लाक रिकोना पार्कपूर्व से अधिष्ठापित 10 एच0पी0 मिनी नलकूप के रिबोर का कार्य मै0 महादेव इन्टरप्राइजेज	45,00
39	1314 / 1970 / 31-03-2023	कविनगर जोन के अन्तर्गत वार्ड-24 में हैण्ड पम्प 6 नग अधिष्ठापन का कार्य मै0 सिंघम एण्ड संन्स	9,000
40	1308 / 31-03-2023	विजय नगर जोन में वार्ड-15 राहुल विहार द्वितीय 25 फुटा रोड पर स्थित 10 एच0पी0 मिनी नलकूप के रिबोर का कार्य मै0 महादेव इन्टरप्राइजेज	45,00
41	564 / 18-03-2023	कविनगर जोन में विभिन्न वार्डों में नलकूपों के अधिष्ठापन के दौरान क्षतिग्रस्त चहारदीवारी की मरम्मत का कार्य मै0 महादेव इन्टरप्राइजेज	4,000
42	676 / 30-03-2023	मोहन नगर जोन के अन्तर्गत रामा विहार कुटी भौपुरा के मकान से लेकर 110 एम0एम0 व्यास की 68 मी0 पाईप लाईन का कार्य मै0 गोपाल इलै0 इंजी	3,000
43	724 / 30-03-2023	सिटी जोन द्वितीय वार्ड-09 पटेल नगर द्वितीय डी-ब्लाक पार्क के अन्दर स्थित 30 एच0पी0 नलकूप से 160 एम0एम0 व्यास की पाईप लाईन का कार्य मै0 हनुमंत इन्टरप्राइजेज	6,000
44	2005 / 31-03-2023	वार्ड-93 में धोबी वाली गली में 185 मी0 जी0आई0 पाईप लाईन का कार्य मै0 दीपांशी कान्ट्रैक्टर	12,000
		योग	2,67,600

9 - जलकल अनुभाग द्वारा बिना टैण्डर कराये विजय नगर जोन के अन्तर्गत वार्ड नं0 - 07 मलिन बस्ती मौहल्ला खैराती नगर में 4" व्यास की 320 मी0 पेयजल पाईप लाईन बिछाने का कार्य रू0 1,77,598.50 का अनियमित भुगतान :-

जलकल अनुभाग की पत्रावलियों की जांच के समय प्रकाश में आया कि उपरोक्त कार्य की पत्रावली में वार्ड नं० -07 बिहारी पुरा पार्षद द्वारा अपने पत्र दिनांक 23-05-2022 द्वारा वार्ड-07 में पीने के पानी की लाईन बिछवाने सम्बन्धी नगर आयुक्त/महाप्रबन्धक जल से प्रार्थना की गयी थी। इस प्रकार के कार्य हेतु पूर्व में प्राप्त निविदा दिनांक 19 जुलाई 2021 को आधार बनाकर कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, जल द्वारा कार्यादेश पत्रांक 246/जलकल/2021-22 दिनांक 21-09-2021 प्रदान किया गया था। कार्य हेतु 6 फर्मों को चिन्हित किया गया था जिसमें मै० सुपर वाटर सप्लाई कं० (2) मै० केशव इन्टरप्राइजेज (3) मै० राजेश कुमार शर्मा (4) मै० चन्द्रशेखर (5) मै० राजपाल वाटर सप्लाई कं० (6) मै० बिमला इन्टरप्राइजेज , निगम द्वारा पाईप लाईन बिछाने के इस कार्य में कार्यादेश में अंकित उक्त 6 फर्मों/ठेकेदारों से कार्य न कराकर मै० अंकित भार्गव फर्म से कार्य कराया गया था। उक्त फर्म/ठेकेदार द्वारा पूर्व प्राप्त निविदा में भाग भी नहीं लिया गया था एवं न ही यह कार्य कार्यादेश में सम्मिलित थी। फर्म को बिना टैण्डर प्रक्रिया अपनाये ठेका प्रदान किया जाना अत्यन्त अनियमित था।

उल्लेखनीय है कि पत्रावी में मै० मनीष भार्गव द्वारा उक्त कार्य से सम्बन्धित एक सहमति पत्र संलग्न था जिससे न्यूनतम दरो पर उक्त कार्य को करने में सहमति दर्शायी गयी थी। किन्तु उक्त पत्र पर न तो पत्रांक था एवं न ही दिनांक थी जो अपने आप में संदिग्ध था। कार्य की पत्रावली में मै० मनीष भार्गव द्वारा प्रस्तुत बिल सं०-34 में कार्य की धनराशि रू० 150506.77 जिसमें 18 प्रतिशत जी०एस०टी० जोड़कर 27,091 इस प्रकार $150506+27091 = 1,77,597$ प्रस्तुत किया गया था जिसका भुगतान संस्था द्वारा बिना 2 प्रतिशत जी०एस०टी० काटे किया गया था। इस प्रकार बिना टैण्डर ही फर्म को कार्य प्रदान करना शासन द्वारा निर्गत शा० सं० ए-1-1173/दस-2001-10(55)/2000 की अवहेलना थी। एवं संस्था द्वारा मनमाने ढंग से कार्य कराये जाने का प्रकरण था। इस पर रोक लगायी जाय कार्य में प्रयुक्त रू० 1,77,597 अनुदान धनराशि का उक्त कार्य हेतु अनियमित भुगतान था।

10 - जलकल अनुभाग के अन्तर्गत कराये गये कार्य मोहन नगर जोन वार्ड संख्या 70 डी- 12 श्याम एन्कलेव से ई-51 जनकपुरी तक नवीन सीवर लाईन डालने के कार्य में सप्लाई एण्ड लेयिंग 250 एम०एम० वाया आर०सी०सी० पाईप की मात्रा से मैनहॉल की चौड़ाई जितना पाईप

घटाकर न दर्शाये जाने से फर्म को अधिक भुगतान रू0 25,695 :-

जलकल अनुभाग की आलोच्य माहों की पत्रावलियों की जांच से प्रकाश में आया कि निगम निधि से कराये गये उपरोक्त कार्य का आगणन अभियन्ता द्वारा रू0 12,02,929 तैयार करके दिनांक 13-08-2021 को समाचार पत्र में प्रकाशित कर निविदा आमंत्रित की गयी थी। उक्त निविदा के आधार पर प्राप्त 6 निविदाओं में मै0 अनुज कुमार को 26.75 प्रतिशत न्यूनतम पर कार्य स्वीकृत किया गया था जिसका कार्यादेश पत्रांक 2909/जलकल/2021-22 दिनांक 04-10-2021 को दिया गया था।

कार्य की एम0 बी0 सं0- 19913 के पृष्ठ सं0 - 3 पर आईटम सं0- 11 में सप्लाई एण्ड लेपिंग 250 एम0एम0 वाया आर0सी0सी0 पाईप की मात्रा 224 रनिग मी0 दर्शायी गयी थी जिसकी दर रू0 805 प्रति रनिग मीटर थी। उक्त पाई की मात्रा से 19 मैनहाल की चौड़ाई के घटाक नही दर्शायी गया था जोकि आईटम सं0- 9 में अंकित था। एम0बी0 अनुसार मैनहाल की चौड़ाई 1.5 मी0 थी जिसका आगणन $19 \times 1.5 \times 805 = 22,942$ इस प्रकार उक्त रू0 22,942 का ठेकेदार को अधिक भुगतान हो गया था। उक्त अधिक भुगतान रू0 22,942+जी0एस0टी0 12 प्रतिशत = 2,753 कुल रू0 22,942+2,753 = 25,695 को सम्बन्धित से प्रतिपूर्ति कराकर निगम कोष में जमा कराया जाय।

11 - जलकल अनुभाग के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर कराये गये पाईप लाईन (जी0आई0,सी पीवीसी) कार्यों में सप्लाई ऑफ स्पेशल पाईप मद को माप पुस्तिका में जोडकर ठेकेदार को भुगतान करने से रू0 24,542 का अधिक भुगतान :-

जलकल अनुभाग की पत्रावलियों की जांच से प्रकाश में आया कि अनुभाग के अन्तर्गत पेयजल पाईप लाईन बिछाने एवं पुरानी पेयजल पाईप लाईनो को बदलने के कार्य में प्रयुक्त पाईप की वास्तविक मात्रा की आपूर्ति एवं लेयिंग करायी गयी थी उपर्युक्त वापसी पाईप की मात्रा पर 7 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत की गणना कर पृथक मद/सप्लाई आफ स्पेशल पाईप के रूप में यह भुगतान किया गया था। यह मात्र वास्तविक में कराये गये कार्य की मात्र के अनुसार सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार को भुगतान किया गया था। सम्बन्धित पत्रावलियों में सलग्न आगणनो में यह कही थी स्पष्ट नही किया गया था कि उपरोक्त 7 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत का वास्तविक कार्य के अधिक भुगतान किन नियमो अथवा शेडयूल के आधार पर किया गया था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि

सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा माप पुस्तिका में भी उक्त मद के भुगतान का कारण स्पष्ट नहीं किया गया था।

अतः सम्बन्धित अभिलेखो, शासनादेश नियमो और शेडयूल आफ रेट के द्वारा इस मद के रूप में 7 प्रतिशत और 5 प्रतिशत वास्तविक पाईप की मात्रा के सापेक्ष पृथक से भुगतान किये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाय। अन्यथा की स्थिति में यह भुगतान ठेकेदार को अधिक भुगतान था जिसकी वापसी हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए अधिक भुगतान की नगर निगम कोष में वापसी कराया जाना अपेक्षित है।

क्र०	व्यय प्रमाणक सं०/दिनांक	कार्य का नाम/फर्म का नाम	कार्य में प्रयुक्त पाईप की मात्रा	अधिक ली गई पाईप की मात्रा दर	दर	धनराशि
1	756/30-03-2023	सिटी जोन तृतीय के अन्तर्गत वार्ड-93 कैला भट्टा में पाईप लाईन बदलने का कार्य मै० गौरव सिंह कान्स्ट्रक्टर	75 मी०	3.75	228	855
2	660/30-03-2023	मोहन नगर जोन के अन्तर्गत वार्ड नं०-34 शहीद नगर जी-ब्लाक में हाजी लीले के मकान से खालिद तक 110 एम०एम० 120 मी० पीवी०सी० पाईप लाईन मै० इन्दर इन्टरप्राइजेज	120	6	228	1368
3	2021/31-03-23	वार्ड-07 मलिन बस्ती आर्दश कालोनी , खैराती नगर डा, एचएस के मकान से मेहन्दी 110 एम०एम० की पाईप लाईन मै० मनीष भार्गव	360	18	251	4518
4	664/31-03-2023	मोहन नगर जोन अन्तर्गत वार्ड-34 में 110 एम०एम० व्यास की 120 मी० पीवी०सी का कार्य	120	6	228	1368

		मै0 इन्दर इन्ट0				
5	661/30-03-2023	मोहन नगर वार्ड-34 शहीद नगर सी-ब्लाक में 459 बृजमोहन के मकान से सी-321 आरा मशीन तक 110 एम0एम0 व्यास की 120 मी0 पीवी0सी0 पाईप लाईन मै0 इन्दर इन्टरप्राइजेज	120	6	228	1368
6	2005/31-03-23	सिटी जोन तृतीय के अन्तर्गतवार्ड-93 मलिन बस्ती कैला भट्टा में 3" व्यास की 185 मी0 जी0आई0 पेयजल पाईप लाईन का कार्य मै0 दीपांशी कान्स्ट्रैक्टर	189 मी0	13.23 मी0	570	7541
			120 मी0	8.4 मी0	570	4788
7	661/30-03-2023	मोहन नगर जोन अन्तर्गत वार्ड- 34 शहीद नगर सी- ब्लाक में 110 एम0एम0 व्यास की 120 मी0 पी0वी0सी0 पाईप लाईन का कार्य मै0 इन्टरप्राइजेज	120	6	228	1368
8	664/31-03-23	मोहन नगर जोन के अन्तर्गत वार्ड-34 शहीद नगर जी ब्लाक नाथ मन्दिर के बराबर वाली गली में 110 एम0एम0 व्यास की 120 मी0 पी0वी0सी0 पाईप लाईन मै0 इन्दर इन्टरप्राइजेज	120	6	228	1368
						24,542 /

12 - जलकल अनुभाग के अन्तर्गत कराये गये कार्य जलकल स्टोर में डाई आइटम कल्चर की आपूर्ति में मै0 हनुमंत इन्टरप्राइजेज के बिल से 2 प्रतिशत आयकर के स्थान पर 0.1 प्रतिशत आयकर की कटौती किये जाने से राजस्व क्षति रू0 7,932 :-

जलकल अनुभाग की पत्रावलियों की जांच के समय प्रकाश में आया कि उपरोक्त कराये गये

कार्य में मै० हनुमंत इन्टरप्राइजेज द्वारा प्रस्तुत बिल संख्या 139 दिनांक 20-02-2023 के सापेक्ष लेखा विभाग द्वारा रू० 4,83,700 का भुगतान समस्त कटौतियों उपरान्त किया गया था।

उक्त कार्य में मै० हनुमंत इन्टरप्राइजेज के बिल से 2 प्रतिशत आयकर की कटौती की जानी चाहिए थी जबकि बिल से 0.1 प्रतिशत आयकर की कटौती की गयी थी जिससे 417453×2 प्रतिशत - $4,17,453 \times -1$ प्रतिशत = $8349 - 417 = 7932$ राजस्व की हानि हुई थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मै० हनुमंत इन्टरप्राइजेज द्वारा जलकल अनुभाग में किये गये अन्य कार्यों पर 2 प्रतिशत आयकर की कटौती की गयी थी इस प्रकार उक्त कार्य में कम आयकर की कटौती करने का क्या औचित्य था सम्परीक्ष में उक्त से सम्बन्धित साक्ष्य प्रस्तुत किये जाय अन्यथा कि स्थित में यह राजस्व की क्षति का प्रकरण था। सम्बन्धित से उक्त की प्रतिपूर्ति अपेक्षित है।

13 – जलकल अनुभाग के अन्तर्गत कराये गये कार्य 24" डी०आई० पाईप लाईन मरम्मत के कार्य में अर्थ वर्क इन एक्सावशिन आल वर्क के कार्य एस० ओ० आर० से अधिक दर पर भुगतान करने से रू० का अधिक भुगतान 4743 :-

जलकल अनुभाग की पत्रावलियों की जांच के समय प्रकाश में आया कि जलकल विभाग द्वारा निम्नलिखित स्थानों पर 24" डी०आई० पाईप लाईन की मरम्मत की कार्य कराये गये थे। उक्त कार्यों में आगणन रू० 95,603 का अभियन्ता द्वारा बनाया गया था। आगणन में आईटम सं०-02 अर्थ वर्क एक्साविन आल वर्क कम्प्लीट का कार्य अंकित था जिसकी दर रू० 270 थी, उक्त कार्य की माप पुस्तिका 20146 में भी आगणन अनुसार मात्रा 13.95 घन मी० एवं दर रू० 270 अंकित थी।

उक्त कार्य की दर एस०ओ०आर० 2022 के अनुसार रू० 100 थी इस प्रकार ठेकेदार को अधिक दर से भुगतान करने का क्या औचित्य था। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय अन्यथा यह अधिक भुगतान का प्रकरण था उक्त आर्थिक क्षति को सम्बन्धित से वसूल करके निगम शेष में जमा किया जाय।

एस० ओ० रेट एवं लागू रेट में अन्तर

क्र०	व्यय सं०/दिनांक	प्रमाणक	कार्य का नाम/ठेकेदार का नाम	का भुगतान दर	एस०ओ० आर० की दर	कार्य की मात्रा×अन्तर	धनराशि
1	690 / 30-03-2023		मोहन नगर जोन 24" डी०आई०	270	253(a)	13.95×170	2371.50

		पाईप लाईन रिपेयर का कार्य मै० सुनील कुमार				
2	689/30-3-2023	मोहन नगर जोन के अन्तर्गत एयरफोर्स वाली रोड के पास गुलमोहन सोसाईटी के सामने वाली रोड पर 24" डी०आई० पाईप लाईन की मरम्मत का कार्य मै० सुनील कुमार	270	100	13. 95×170	2371.50
						4,743

(घ) विद्युत/प्रकाश विभाग :-

1- 14वें वित्त आयोग की अनुदान धनराशि से आवश्यकता से अधिक एल०ई०डी० लाईटो का कय किये जाने से रू० का अनुदान का दुरुपयोग/अपव्यय रू० 27,42,012 :-

14 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रकाश विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की एल०ई०डी० लाईटो का कय किया गया था। सम्परीक्षा में प्रस्तुत पत्रावलियों की जाच एवं सम्बन्धित भण्डार पंजियों की सम्परीक्षा के समय प्रकाश में आया कि मै० ई०ई०एस० एल०ई०डी० लाईटो की आपूर्ति ली गयी थी जिसमें 190 वाट की 1050 नग एल०ई०डी० लाईटो की आपूर्ति दिनांक 05-06-2022 भण्डार पंजी VI के पृष्ठ सं०- 60 के अनुसार एवं 190 वॉट 2559 नग एल०ई०डी० लाईटो की आपूर्ति नेहरू नगर स्टोर में दिनांक 01-11-2022 को उपरोक्त फर्म द्वारा ली गयी थी।

समस्त एल०ई०डी० लाईटो को सम्परीक्षा दिनांक तक स्टॉक बुक के अनुसार उपयोग नहीं किया गया था निम्नलिखित विवरण अनुसार एल०ई०डी० लाईटो स्टोर में अवशेष थी।

क्र०	फर्म का नाम	कय की गई एल०ई०डी० मात्रा	31-3-23 को अवशेष एल०ई०डी०	दर	धनराशि
1	ई० ई० एस एल	190 वाट 1050 नग 190 वाट 2559 नग	468	5859 (जी०एस०टी०सहित)	27,42,012 / -

उक्त अवशेष एल0ई0डी0 लाईटो का उपयोग प्रकाश विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त तक नहीं किया गया था इससे प्रतीत होता था कि केवल प्राप्त अनुदान का उपयोग करने की मंशा से एल0ई0डी0 लाईटो की अधिक कय किया गया था। एल0ई0डी0 लाईटे एक सीमित समयावधि उपयोग के अन्तर्गत आने वाली वस्तु है एवं समयावधि समाप्त होने पर निष्प्रयोज्य होने की संभावना अधिक होती है। इस प्रकार एल0ई0डी0 लाईटो की अधिक कय रू0 27,42,012 अनुदान का दुरुपयोग/अव्यय था/निगम द्वारा आवश्यकता से अधिक सामानो का कय किये जाने हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

2 – महाशिव रात्रि के पर्व पर श्री दूधेश्वर नाथ मठ मन्दिर पर साउण्ड सिस्टम, मुख्य मार्ग पर लाईट एवं जनरेटर लगाने हेतु रू0 19,63,631 का व्यय अनियमित/सन्दिग्ध –:

(1) व्यय प्रमाणकों की जांच में प्रकाश में आया कि मैसर्स एस0जी0 कन्सट्रक्शन द्वारा अपने बिल संख्या-16 दिनांक 21-03-2023 द्वारा महाशिवरात्रि के पर्व पर श्री दूधेश्वर नाथ मठ मन्दिर पर श्रद्दालुओं के लिये साउण्ड सिस्टम, मैनरोड पर लाईटो तथा जनरेटर लगाने के कार्य हेतु रू0 9,75,950/- का भुगतान प्राप्त हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसका विभिन्न कटौतियों के उपरान्त व्यय प्रमाणक संख्या- 1716 दिनांक 31-03-2023 द्वारा 9,27,150/- का भुगतान फर्म का किया गया था। उक्त के सम्बन्ध में कराये गये कार्यों का विवरण निम्नवत है –

क्र०	मद	संख्या	दर	धनराशि
1	मेटलाईटस	1020	366	3,73,320/-
2	एल0ई0डी0 लाईट	750	55	41,250/-
3	हैलोजन लाईट	270	97.45	26,311
4	ब्लब लडी	10,800	12.2	1,31,760
5	साउण्ड सिस्टम	12	12,203	1,46,436
6	125 के0वी0ए0 जनरेटर	18	6,000	1,08,000
	योग			8,27,077

+ 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 = **1,48,873**

कुल योग = 9,75,950

(2) इसी प्रकार मैसर्स एस0जी0 कन्सट्रक्शन को पुनः महाशिवारात्रि पर श्री दूधेश्वर नाथ मठ मन्दिर एवं शम्भूदयाल व डिग्री कालेज पर प्रकाश व्यवस्था हेतु व्यय प्रमाणक संख्या – 1717

दिनांक 31-03-2023 द्वारा 8,65,440/- का आंशिक भुगतान रू0 72,850/- किया गया था।
कार्य का विवरण निम्नवत था -

क्र०	मद	संख्या	दर	धनराशि
1	मेटलार्डस	510	366	1,86,660 / -
2	एल0ई0डी0 लार्डस	90	55	4950 / -
3	हैलोजन लार्ड	90	97.45	8770=50
4	ब्लब लडी	2070	12.20	25,254
5	तूफान पंखे	90	569.49	51,254
6	झालर	1500	325.42	4,88,130
7	125 के0वी0ए0 जनरेटर	12	6,000	72,000
	योग			8,37,018 = 60

+ 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 = **15,06,63=35**

कुल योग = 9,87,681=95

उल्लेखनीय है कि इस भुगतान हेतु फर्म द्वारा कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया गया था। प्रथम कार्य की माप, पुस्तिका संख्या-20389 के पृष्ठ 01 व 02 पर दिनांक 17-10-2022 को एवं द्वितीय कार्य माप पुस्तिका संख्या- 20388 के पृष्ठ 01 व 02 पर दिनांक 14-10-2022 को की गयी थी जबकि वर्ष 2022 में महाशिवरात्रि दिनांक 01-03-2022 एवं श्रावण शिव रात्रि दिनांक 26-07-2022 को थी। माप पुस्तिकाओं में माप का दिनांक माह अक्टूबर 2022 होने के कारण कार्य की स्थिति पूर्णतः संदिग्ध थी। जिसके कारण रू0 9,75,950+9,87,681= कुल रू0 19,63,631/- का भुगतान अनियमित था।

3 - प्रकाश अनुभाग द्वारा 115 फ्लड लार्ड लगवाये जाने के कार्य में फ्लड लार्ड से सम्बन्धित स्थानों की पुष्टि के अभाव में एवं भण्डार पंजी में फ्लड लार्डों की प्रविष्टि के अभाव में किया गया भुगतान अनियमित एवं अमान्य रू0 9,82,731 :-

उपरोक्त कार्य की पत्रावली की जांच के समय प्रकाश में आया कि स्वच्छ सर्वेक्षण के अन्तर्गत नगर निगम सीमान्तर्गत पार्को में 120 वॉट की एल0ई0डी0 लार्ड लगाकर प्रकाश व्यवस्था के उक्त कार्य हेतु रू0 9,82,732.50 का अनुमानित आगणन अवर अभियन्ता द्वारा बनाया गया था।

उक्त क्य की गयी फ्लड लार्डों को नगर निगम के प्रकाश अनुभाग द्वारा किन पार्को एवं

स्थानों पर लगवाया जाना था किन्तु स्थानों पर लगवाया गया था। इससे सम्बन्धित न तो कोई विवरण तैयार किया गया था। न ही इससे सम्बन्धित स्थलों के जियो टैग फोटो ग्राफ पत्रावली में संलग्न किये गये थे। पत्रावली की नोट शीट 3 के अनुसार उक्त फ्लड लाईटों की आपूर्ति लेकर स्टॉक बुक सं०-V के पृष्ठ सं०-135 पर दर्ज किया जाना अंकित किया गया था। सम्बन्धित भण्डार पंजी की जांच में पाया गया कि उक्त फ्लड लाईटों की प्रविष्टि भण्डार पंजी में नहीं की गयी थी। जिसके कारण इन फ्लड लाईटों के क्रय एवं लगाये जाने की स्थिति पूर्ण रूप से संदिग्ध थी। इस प्रकार कार्य की लागत ₹ 9,82,731/- का व्यय पूर्णतः अनियमित था। उक्त के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व का निर्धारण कर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

4 – शासन द्वारा शासनादेश किये जाने के बावजूद भी नगर निगम द्वारा सोडियम लाईटों से सम्बन्धित सामग्री क्रय किया जाना अनियमित एवं आर्थिक क्षति ₹ 8,79,280 :-

नगर निगम के प्रकाश अनुभाग की पत्रावलियों की जांच के समय प्रकाश आया कि अनुभाग द्वारा 250 वॉट सोडियम बल्ब व 250 वॉट सोडियम चौक एवं ईग्नाइटर का क्रय मै० नेशनल इलैक्ट्रिक एण्ड कन्स० कं० से किया गया था। जिसका अनुमानित आगणन ₹ 8,79,280 अजय कुमार अवर अभियन्ता द्वारा बनाया गया था एवं दिनांक 30-09-2019 को पत्रांक सं०-44/प्रकाश/2019-20 को कार्य का कार्यादेश किया गया था।

शासन के शासनादेश सं०-1395(3)/नौ-5-17-102 सा०/2017 दिनांक 22 अप्रैल 2017 के बिन्दु सं०-2 में यह स्पष्ट किया गया था कि उर्जा बचत के दृष्टिगत पारम्परिक लाईटों को एल०ई०डी० लाईटों में परिवर्तित करने की कार्यवाही समय बद्ध से की जाय उक्त के क्रय में नगर निगम द्वारा सोडियम लाईटों को एल०ई०डी० लाईटों में परिवर्तित करने का कार्य आलोच्य अवधि में किया भी गया था। निगम द्वारा जहां एक ओर विस्तृत रूप से सोडियम लाईटों के स्थान पर एल०ई०डी० लाईटों को लगवाने का कार्य किया जा रहा था वही दूसरी ओर दिनांक 30-09-2019 को कार्यादेश निर्गत कर सोडियम लाईटों से सम्बन्धित उक्त क्रय किया जा रहा था। जिन्हें कुछ समय पश्चात पुनः एल०ई०डी० लाईटों में परिवर्तित किये जाने पर व्यय किया जायेगा।

अतः जब शासन द्वारा सोडियम लाईटों की एल०ई०डी० लाईटों में परिवर्तित करने का शासनादेश किया जा चुका था तो इसके पश्चात भी शासनादेश के विरुद्ध जाकर उक्त क्रय किये

जाने का क्या कारण था। इस प्रकार निगम को 8,79,280 की आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी थी। इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारण करते हुए वसूली हेतु अपेक्षित है।

5 – एक ही कार्य को पृथक – पृथक तीन बार दर्शाकर भुगतान किये जाने के कारण सम्बन्धित फर्म को रू0 1,62,460 का अधिक एवं अनियमित भुगतान :-

उप सम्परीक्षा माहों के व्यय प्रमाणकों की जांच में प्रकाश में आया कि कविनगर में के0डी0 – 14 के सामने एक नग सेमी हाईमास्ट लाईट लगाकर प्रकाश का कार्य कराया गया था। उपरोक्त कार्य मैसर्स निर्मल एसोसिएट से कराया गया था जिस हेतु फर्म द्वारा रू0 81,230=03 बिल संख्या-146 दिनांक 28.02.2022 दिया गया था। टी0डी0एस0 एवं अन्य कटौतियों के उपरान्त व्यय प्रमाणक संख्या-110 दिनांक 01-03-2023 द्वारा फर्म को 78,790 का भुगतान किया था। बिल के अनुसार कार्य में निम्नांकित मदों का उपयोग किया गया था।

1	s/f 8 मीटर जी0आई ऑक्टैगल पोल	01×18,290	18,290
2	s/f फलड लाईट 150 वॉट	04×9144.91	36,579=64
3	s/f 10 एम0एम0 4 कोर आर्मरड केबल	32×327	10,464
4	s/E अर्थिंग	01×258.47	258=47
5	s/f 32 एम्पियर snp	01×1970	1970
6	s/L एच0 डी0 प0 ई0 पाईप 75 एम0 एम0	20×120	2400
7	3 एम0 एम0 थिक 50 एम0एम0 डायारिंग	1×2500	2500
			72,462.11

(-) 5 प्रतिशत निम्न स्वीकृत (-) 3663.10

(+) 18 प्रतिशत जी0एस0टी (+) 12,391=02

81,230=03

कार्य की प्रविष्टि माप पुस्तिका संख्या-18551 के पृष्ठ संख्या 01 से 02 पर दिनांक 02-04-2022 में किया जाना दर्शाया गया था। कार्य की पत्रावली एवं माप प्रक्रिया अप्रयुक्त थी।

उपरोक्त सम्बन्धित कार्य हेतु फर्म द्वारा पुनः दो बिल समान कार्य एवं समान मदों हेतु प्रस्तुत किये गये जिनका निम्नवत भुगतान किया गया था।

क्र०	बिल संख्या/दिनांक	बिल धनराशि	माप पुस्तिका का विवरण	वा० सं०/दिनांक	भुगतान धनराशि
1	148/28-02-2022	81,230.03	18550 के पृष्ठ-192पर दिनांक 21-02-2022	112/01-03-2023	78,790
2	149/28-02-2022	81,230.03	18554 के पृष्ठ 1 व 2 पर दिनांक 02-04-2022	111/01-03-2023	78,790
		1,62,460=06			

उक्त प्रकरण में स्पष्ट हो रहा था यह तीनो कार्य एक स्थल कविनगर के० डी० 14 के सामने एक नग सेमी लाईट लगाकर प्रकाश व्यवस्था में मैसर्स निर्मल एसोसिएट द्वारा एक तिथि 28-02-2023 को को बिल तैयार किये गये व्यय प्रमाणक संख्या-110 एवं 111 के बिलो की एक ही तिथि को माप पुस्तिका में प्रविष्टि की गयी थी एवं तृतीय बिल में मात्रा 40 दिनों के पश्चात पुनः उक्त कार्य करना दर्शाया गया थ। इससे प्रतीत हो रहा था कि वास्तव में कार्य एक ही बार कराया गया था किन्तु इसके तीन बिल तैयार कराकर तीन बार भुगतान किया गया था। जिसके कारण रू० 1,62,460/- का अधिक एवं तीहरा भुगतान एक ही कार्य हेतु किया गया था। उत्तरदायी से इसकी वापसी कराया जाना अपेक्षित है।

6 - नगर निगम के प्रकाश अनुभाग द्वारा एल०ई०डी० लाईट के अनुरक्षण का कार्य शासनादेशानुसार आपूर्तिकर्ता फर्म से न कराकर निगम निधि से बिना टेण्डर प्रक्रिया का पालन किये अन्य फर्म से क्य किये जाने के कारण आर्थिक क्षति रू० 3,06,400 :-

प्रकाश अनुभाग की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि मैसर्स व्हाईट प्लाकार्ड टैक्नोलोजिज प्रा० लि० से नगर निगम, गाजियाबाद की 5000 सोडियम लाइटों को एल०ई०डी० लाइटों में परिवर्तित करने का कार्य कराया गया था। पत्रावली में संलग्न पृष्ठ 8 के अनुसार फर्म द्वारा 44,000 लाइटों को एल०ई०डी० लाइटों में परिवर्तित कर दिया गया था किन्तु फर्म द्वारा परिवर्तित की गई एल०ई०डी लाइटों की मरम्मत नहीं की गयी थी। कार्य हेतु फर्म के साथ किये गये अनुबन्ध के क्लोज संख्या-4(बी०) के अनुसार 6 माह में कार्य पूर्ण किया जाना था एवं क्लोज

संख्या 4(iv) के अनुसार लगायी गयी लाईटों की मरम्मत भी सम्बन्धित फर्म द्वारा ही किया जाना था किन्तु नगर निगम द्वारा पत्राचार किये जाने के बावजूद भी फर्म द्वारा मरम्मत कार्य नहीं किया गया। जबकि इस सम्बन्ध में नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊ के शासनादेश संख्या-120/16/2194/नौ-8-2016-96ज/2015 दिनांक 03 सितम्बर 2016 में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि एल0ई0डी0 लाईटों की आपूर्ति हेतु बाजार दर से मूल्यो पर कम से कम 05 वर्ष की रिप्लेसमेन्ट की गारण्टी/वारण्टी फर्म द्वारा ही की जायेगी। सम्बन्धित फर्म द्वारा मरम्मत कार्य न करने पर नगर निगम द्वारा सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध के कोई कार्यवाही न करके कार्यदेश निगम द्वारा सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करके कार्यदेश संख्या-44/प्रकाश/2019-20 दिनांक 30-09-2019 द्वारा मैसर्स नेशनल इलैक्ट्रिक एण्ड कन्सट्रक्शन को 65 वॉट इलैक्ट्रानिक ड्राइवर 400 नगर 766 प्रति नग की दर से 3,06,400 क्य कर लिये गये। उक्त क्य बिना किसी निविदा प्रक्रिया का पालन किये सीधे ही क्य किये गये थे। जो कि अत्यन्त गम्भीर वित्तीय अनियमित था।

निगम द्वारा उक्त क्य के पश्चात सम्परीक्षा तिथि तक न तो मैसर्स व्हाइट प्लाकार्ड टैक्नोलोजिज से 3,06,400 की वसूली ही की गयी थी। और न ही उक्त फर्म को ब्लैक लिस्ट किया गया था। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नगर निगम अधिकारियों द्वारा उक्त फर्म के विरुद्ध कोई कार्यवाही न लेकर निगम निधि पर रू0 3,06,400 का अनावश्यक व्यय भार डाला गया था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इलैक्ट्रिक एण्ड कन्सं0 कम्पनी से क्य इलैक्ट्रिक ड्राइवर खरीदे गये थे। उक्त इलैक्ट्रिक ड्राइवरो की क्वालिटी ठीक न होने के कारण लाइटें नही जल पा रहीं थी। इसके बावजूद भी फर्म का भुगतान न रोके जाने अथव कटौती न किया जाना अनियमित था। इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए उत्तरदायित्व के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

7 - नगर निगम के प्रकाश अनुभाग द्वारा विद्युत निगम के कार्यों को कराया जाना अनियमित एवं अमान्य भुगतान रू0 1,59,800 :-

प्रकाश अनुभाग की पत्रावलियों की जांच के समय प्रकाश में आया कि प्रकाश विभाग द्वारा निम्नलिखित स्थानो पर 63 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मरो की मरम्मत का कार्य कराया गया था। ट्रांसफार्मरो के अधिष्ठान एवं मरम्मत के कार्य उ0प्र0 के विद्युत विभाग द्वारा कराये जाते है उक्त कार्य भी विद्युत

निगम द्वारा ही कराये जाने चाहिये थे।

विद्युत विभाग द्वारा इन कार्यों को कराने के लिए नगर निग से किसी भी प्रकार को कोई आग्रह नहीं किया गया था। विद्युत निगम द्वारा कार्य कराये जाने हेतु किसी प्रकार के पत्र इत्यादि उपलब्ध न होने के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उक्त कार्य वास्तव में विद्युत निगम द्वारा कराये गये थे किन्तु निगम द्वारा भुगतान निगम निधि से कराया जाना दर्शाया गया था। अतः उक्त के सापेक्ष में अभिलेखों द्वारा स्थिति स्पष्ट करायी जाय अन्यथा की स्थिति में नगर निगम निधि से यह भुगतान अमान्य था। इस सम्बन्धित उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही की जाय। कार्यों का विवरण निम्नवत था।

क्र०	कार्य का नाम/फर्म का नाम	व्यय प्रमाणक संख्या	भुगतानित धनराशि
1	कविनगर जोन के अन्तर्गत हापुड रोड इन्ग्राहम स्कूल एवम चिरंजीव विहार मैन रोड ग्रीन बैल्ट में लगे 63 के०वी०ए० ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग का कार्य/मै० हैवी पावर ट्रांसफार्मर	127/01-03-2023	80,100
2	वसुन्धरा जोन के अन्तर्गत रेडीशन हॉस्टल के सामने लगा 63 के०वी०ए० ट्रांसफार्मर व साईं मन्दिर में लगा 100 के०वी०ए० के ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग का कार्य/मै० हैवी पावर ट्रांसफार्मर इक्यूपमेन्ट	128/01-03-2023	79,700
	योग		1,59,800

8 – प्रकाश अनुभाग द्वारा फ्लड लाईटों को विभिन्न स्थानों पर लगाये जाने के कार्यों में प्राप्त निविदा न्यूनतम दरो से अधिक दरो पर कार्य कराये जाने से रू० 1,30,343 का अधिक भुगतान—:

प्रकाश अनुभाग की पत्रावलियों की जांच से प्रकाश में आया कि अनुभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर फ्लड लाइटें लगवाने का कार्य कराये गये थे जिनके लिए नगर आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 26-04-2021 के क्रम में न्यूनतम दरो पर कार्य हेतु दिनांक 14-09-2021 को ई० निविदा

आमंत्रित की गई थी।

कार्यो हेतु निम्नलिखित 5 फर्मों द्वारा ईकाई दर प्रस्तुत की गयी थी। (1) मै0 नन्दिनी इन्टरप्राइजेज (2) मै0 यूनिवर्सल इलैक्ट्रीकल्स (3) मै0 आर0 के इन्टरप्राइजेज (4) मै0 कैपिटल कन्स0 (5) मै0 शिव कन्स0 द्वारा 08 मी0 अथवा 09 मी0 जी0 आई0 पोल पर एक पोल पर 4 लाईटो लगाकर मिनी हाई मास्क के कार्य की कराया गया था।

उक्त फलड लाईटो के कार्य में निविदा दर से अधिक दरो पर कार्य कराये गये थे जिसका विवरण संलग्न है। संस्था द्वारा इस प्रकार अधिक दरो से भुगतान करने से रू0 1,30,343 का अधिक भुगतान फर्मों को हो गया था। उक्त धनराशि की सम्बन्धित से प्रतिपूर्ति आवश्यक थी। विवरण संलग्न परिशिष्ट 27 पर दिया गया है।

9 – प्रकाश अनुभाग द्वारा श्री दूधेश्वरनाथ मठ मन्दिर एवं शम्भू दयाल इन्टर कालेज व डिग्री कालेज पर प्रकाश व्यवस्था के कार्य में बिना निविदा/कुटेशन से दर प्राप्त किये मै0 एस0जी0 कन्स0 से कार्य कराना जाना अनियमित रू0 9,88,113 :-

उपरोक्त कार्य का आगणन अवर अभियंता द्वारा रू0 9,88,113.83 बनाया गया था। कार्य के लिए बनाये कार्यवृत्त में पत्रांक 114 द्वितीय अ0न0आ0/2022-23 दिनांक 19-07-2022 अन्तर्गत नगर आयुक्त के कार्यालय के आदेश सं0-2682/न0आ0/19-20. दिनांक 04-12-2020 एवं संशोधित पत्रांक-2622/नगर आयुक्त/20-21 दिनांक 01-03-2021 के द्वारा गठित निविदा समिति द्वारा प्रकाश विभाग में निगम निधि से उक्त कार्य हेतु दिनांक 12-07-2022 से 18-07-2022 तक निविदा आमंत्रित की गई थी।

पत्रावली में निविदा से सम्बन्धित कोई भी साक्ष्य संलग्न नहीं था जिससे यह ज्ञात न हो सका कि कार्य हेतु कितनी निविदाये प्राप्त हुई थी एवं उनकी न्यूनतम दरे क्या थी जिसके अभाव में मै0 एस0 जी कन्स0 को दिये गये उपरोक्त कार्य के कार्यादेश पत्रांक 354/प्रकाश/2020-21 दिनांक 20-07-2022 को न्यूनतम 31 प्रतिशत कम पर स्वीकृत किया जाना संदिग्ध था उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित कुल कितनी निविदाएँ प्राप्त हुई थी एवं उनकी न्यूनतम दरें क्या थी एवं मै0 एस0 जी कन्स0 की दरे ही सबसे न्यूनतम थी इससे सम्बन्धित साक्ष्य सम्परीक्षा में प्रस्तुत न करने एवं मै0 एस0जी0 कन्स0 से सीधे ही कार्य कराया जाना रू0 9,88,113 अनियमित था।

10 – नेहरू नगर स्थित विद्युत विभाग स्टोर में 80 वॉट की एल0ई0डी0 लाईटो को मै0 व्हाईट प्लेकार्ड कं0 द्वारा मरम्मत न कराकर (अनुबन्ध अनुसार) मै0 संगम एसो0 से मरम्मत कराना अनियमित एवं अमान्य भुगतान रू0 93,700 :-

प्रकाश अनुभाग की पत्रावलियों की जांच से प्रकाश में आया कि उपरोक्त कार्य में 52 नग एल0ई0डी0 लाईटो 80 वाट की मरम्मत कार्य कराया गया था जिसमे व्यय प्रमाणक सं0-1708 दिनांक 31-03-2023 के द्वारा 93,700 का भुगतान मै0 संगम एसोसियेट को किया गया था।

उक्त एल0ई0डी0 लाईटो की आपूर्ति मै0 व्हाईट प्लाकार्ड कं0 द्वारा ली गयी थी। अनुबन्ध की शर्तानुसार 4(iv) में 07 वर्ष तक कम्पनी द्वारा उक्त एल0ई0डी0 लाईटो का अनुरक्षण/मरम्मत कार्य किया जायेगा। उपरोक्त 80 वॉट की एल0ई0डी0 लाईटो का अनुरक्षण भी मै0 व्हाईट प्लेकार्ड कं0 द्वारा बिना किसी भुगतान के किया जाना चाहिये था। किन्तु संस्था द्वारा यह कार्य सम्बन्धित फर्म से न कराकर कुटेशन के आधार पर मै0 संगम एसोसियेट से कराया गया था।

इस प्रकार रू0 93,700 की धनराशि का यह मरम्मत कार्य का भुगतान संस्था द्वारा निगम निधि से किया गया था, इस सम्बन्ध में मै0 व्हाईट प्लेकार्ड कं0 से वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी एवं न ही संस्था को ब्लैक लिस्टेड किया गया था यह अनियमित एवं आपत्तिजनक था। उक्त धनराशि रू0 93,700 की वसूली सम्बन्धित फर्म से कराकर निगम कोष में जमा कराया जाय।

11 – प्रकाश अनुभाग द्वारा 68 हीटर की कय प्रविष्टि भण्डार पंजी में अंकित न होने से हीटर की कय एवं उपभोग असत्यापित रू0 96,560 :-

प्रकाश अनुभाग की पत्रावलियों की जांच एवं कय किये गये सामानो की प्रविष्टियों की जांच भण्डार पंजियो द्वारा किये जाने के समय प्रकाश में आया कि अनुभाग द्वारा मुख्यालय एवं जोनल कार्यालयो में हीटर लगाने का कार्य कराने हेतु अपर नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 18-01-2021 को स्वीकृति प्रदान की थी। स्वीकृति के क्रम में अनुभाग द्वारा कुटेशन आमंत्रित की गयी जिसमें मै0 एस0 ए0 इन्टरप्राइजेज की 96,560 अन्य जी0एस0टी0 न्यूनतम के आधार पर कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

पत्रावली की नोटिंग पृष्ठ-4 के अन्तर्गत उक्त कय को विभागीय स्टॉक बुक सं0-3 के पृष्ठ

संख्या 130 पर प्रविष्टि कर लिया गया है जिसका सत्यापन कर लिया गया है एवं मै0 एस0 ए0 एन्टरप्राइजेज द्वारा उक्त कार्य के सापेक्ष बिल सं0-072 दिनांक 01-08-2021 रू0 96,559 भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त बिल का भुगतान का संस्था द्वारा व्यय प्रमाणक 1704 द्वारा दिनांक 31-03-2023 को किया गया।

उक्त क्रय का मिलान सम्बन्धित भण्डार पंजी से न होने से यह क्रय संदिग्ध था। भण्डार पंजी में उक्त क्रय अंकित न होने से यह प्रतीत होता है कि यह क्रय किया ही नहीं गया था, इससे सम्बन्धित साक्ष्य सम्परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाने से रू0 96,560 का यह क्रय अनियमित एवं संदिग्ध था।

12 - प्रकाश अनुभाग द्वारा इलैक्ट्रिशियन, गैगमैन, लाईनमैन आदि के लिए पेचकश प्लास टेस्टर की आपूर्ति के भुगतान से आयकर की कटौती न किया जाना अनियमित एवं राजस्व क्षति 1891 :-

उपरोक्त कार्य की पत्रावली की जांच से प्रकाश में आया कि उक्त कार्य हेतु तीन कुटेशन संस्था द्वारा प्राप्त की गयी थी जिसमे मै0 पी0 आर0 इन्टरप्राइजेज की रू0 94,571 जी0एस0टी0 सम्मिलित न्यूनतम पायी गयी जिसके आधार पर कार्य मै0 पी0 आर0 इन्टरप्राइजेज को पत्रांक-116/प्रकाश विभाग/2021-2022 दिनांक 03-10-2021 को स्वीकृत किया गया। मै0 पी0 आर0 इन्टरप्राइजेज द्वारा प्रस्तुत अपने बिल सं0-01 रू0 94,571 दिनांक 08-10-2021 को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया जिसके सापेक्ष संस्था द्वारा व्यय प्रमाणक सं0-1699 दिनांक 31-03-2023 को फर्म का भुगतान किया गया। संस्था द्वारा उक्त किये गये भुगतान से 2 प्रतिशत आयकर की कटौती नहीं की गयी थी। जिससे रू0 1891 राजस्व क्षति हुयी थी। फर्म से रू0 1891 आयकर की कटौती कर सम्बन्धित विभाग में जमा कराया जाय।

(ड) उद्यान विभाग :-

1-बिना निविदा आमन्त्रण किये पूर्व स्वीकृत दरो पर कार्य कराया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक रू0 1,28,280,30 :-

उद्यान विभाग की पत्रावलियों की जांच से प्रकाश में आया कि निम्नलिखित कार्यों को बिना टेन्डर प्रक्रिया से कराया गया था जो कि अनियमित एवं आपत्तिजनक था। शासनादेश

सं०-ए-1-864/दस-08-15(1) दिनांक 23-09-2008 के अनुसार रू० 1,00,000 से ऊपर लागत के कार्यों को टेंडर प्रक्रिया के आधार पर कराया जाना चाहिए था। जिससे नगर निगम को तुलनात्मक दरो का लाभ प्राप्त होता। पत्रावली में अंकित किया गया था कि कार्यों के पूर्व में आमंत्रित टेंडर की दरो के आधार पर कराया गया है। लेकिन पूर्व में आमंत्रित टेंडर प्रक्रिया के अभिलेख पत्रावली में संलग्न नहीं थे। पूर्व टेंडर प्रक्रिया की दरो पर कार्य कराये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाय उघान कार्यों की माप पुस्तिका में अंकित नहीं किया गया था। माप पुस्तिकाओं में अंकित नहीं किया था। माप पुस्तिकाओं में अंकित न करने का कारण स्पष्ट किया जाय। उघान कार्यों से सम्बन्धित विभिन्न सामानों का कय किया गया था जिनका लेखा भण्डार पंजी में (बिल पर अंकित) किया गया था। भण्डार पंजी के अभाव में विभिन्न सामानों पर किया गया व्यय अनियमित एवं आपत्तिजनक था। इस ओर नगर निगम के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृत्ति न हो। विवरण संलग्न परिशिष्ट 28 पर दिया गया है।

2 - उघान अनुभाग के अन्तर्गत कराये गये कार्य सिटी जोन वार्ड-52 में विभिन्न सैक्टरो/ब्लाको में कुल 04 पार्को में सौन्दर्यीकरण हेतु घास की आपूर्ति व पेड पौधो की आपूर्ति के कार्य में मिट्टी भराई के कार्य में एस० ओ० आर० की दरो के स्थान पर सी०पी० डब्ल्यू डी० दर लेने से फर्म को अधिक भुगतान रू० 1,60,350=63 :-

उघान अनुभाग के अन्तर्गत 15 वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से कराये गये कार्यों की पत्रावलियों की जांच के समय प्रकाश में आया कि उघान विभाग द्वारा उपरोक्त कराये गये कार्य का अनुमानित आगणन अवर अभियंता द्वारा रू० 7,48,154 तैयार किया गया था। जिसके आधार पर प्राप्त 02 निविदाओ में से मै० वी० एस० कान्ट्रैक्टर की 9.24 प्रतिशत निम्न पर कार्य हेतु स्वीकृत किया गया।

कार्य की एम० बी० सं०-21779 में पृष्ठ सं०-03 पर आईटम सं०-01 में मिट्टी की भराई का कार्य कराया गया था। जिसमें सी०पी० डबल्यू डी की दर रू० 469.50 मी३ लिया गया था जिसका दर विश्लेषण तैयार नहीं किया गया था। एस० ओ० आर० अनुसार उक्त कार्य की दर विश्लेषण अनुसार दर रू० 273.50 थी इस प्रकार एस० ओ० आर की दरो से कार्य न कराकर सी०जी० डब्ल्यू डी० की दर से कार्य कराने से निम्नलिखित गणनानुसार फर्म को अधिक भुगतान हुआ था।

कार्य की मात्रा =	817.74 घन मी०
(सी० पी० डब्ल्यू डी दर – एस० ओ० आर दर)	×196.09
=	
469.59 – 273.50	1,60,350.63

इस प्रकार अधिक दरो से भुगतान किये जाने के कारण रू० 1,60,350.63 का ठेकेदार को लाभ पहुंचाया गया था। उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित से अपेक्षित है।

3 – नगर निगम सीमान्तर्गत विजय नगर जोन साऊथ साईट इण्डस्ट्रियल एरिया ब्लॉक ई० फैक्ट्री नं०,13के सामने कब्जा मुक्त करायी गयी भूमि पर मियावाकी पद्धति से सघन वन विकसित करने कार्य में अनुरक्षण कार्य की धनराशि का अग्रिम रूप से भुगतान किया जाना अनियमित 5,30,145 :-

उद्यान अनुभाग की 15 वें वित्त आयोग की धनराशि से कराये गये कार्यों की पत्रावलियों की सम्परीक्षा के समय प्रकाश में आया कि अनुभाग द्वारा उपरोक्त कार्य के लिए अवर अभियंता द्वारा रू० 25,20000 का अनुमानित आगणन तैयार किया गया था। कार्य के लिए आमंत्रित आनलाईन निविदा के आधार पर तीन निविदाएँ प्राप्त हुई थी जिसमें मै० ग्रीन आर्ट लैण्ड स्कैप प्राइवेट लिमिटेड की प्राप्त न्यूनतम निविदा 15.85 प्रतिशत निम्न को कार्य हेतु स्वीकृत किया गया था। अनुमानित आगणन में आईटम सं०-02 में मिनावकी पद्धति से सघन वन विकसित करने के कार्य क्षेत्रफल 3150 वर्ग मी० को 100/ प्रति वर्ग मी० की दर से अनुरक्षण का कार्य दर्शाया गया था जिसका वास्तविक भुगतान कार्य की माप पुस्तिका सं०-20469 के अनुसार प्रथम वर्ष 3150 वर्ग मी० × 100 = 3,15000 जोकि 15.85 प्रतिशत निम्न पर रू० 265072.50 इसी प्रकार द्वितीय वर्ष का अनुरक्षण भी 265072.50 कुल रू० 530145 था। पत्रावली अनुसार कार्य दिनांक 23-11-2022 को प्रारम्भ हुआ था कार्य के लिए प्रथम भुगतान वाउचर सं०-2322 दिनांक 31-03-2023 को रू० 771300 एवं द्वितीय एवं अन्तिम भुगतान 26-10-2023 को वाउचर सं०-1250 के द्वारा 1280600 हुआ था। इस प्रकार कुल 10 महीने में कार्य की लागत एवं 2 वर्ष का अग्रिम अनुरक्षण का भुगतान संस्था द्वारा फर्म को कर दिया गया था। इस प्रकार कार्य समाप्ति की अवधि से दो वर्ष का अनुरक्षण भुगतान प्रथम वर्ष में ही कर देना अनियमित एवं आपत्तिजनक था।

4 – मोहन नगर जोन वार्ड-28 राजीव कालोनी हर्षा कम्पाउन्ड औद्योगिक क्षेत्र स्थित पार्क में बनाये जाने वाली मियावाकी की सुरक्षा हेतु फेन्सिंग के कार्य में मिट्टी की ढुलाई के कार्य को बिना दर विश्लेषण बनाये फर्म को भुगतान किया जाना रू0 2,64,514.93 अनियमिति :-

उघान विभाग की 15 वें वित्त से प्राप्त अनुदान के द्वारा कराये गये कार्यों की पत्रावली की जांच के समय प्रकाश में आया कि उपरोक्त कार्य का अनुमानित आगणन रू0 2116258 अवर अभियंता द्वारा बनाया गया था। कार्य हेतु 05 निविदा प्राप्त हुई थी जिसके में कृष्णा एसोसियेट की न्यूनतम निविदा 17 प्रतिशत निम्न पर कार्य के लिए स्वीकृत की गयी थी।

कार्य के अनुमानित आगणन में मलबा ढुलाई का कार्य आईटम सं0-11 पर दर्शाया गया था जिसकी वास्तविक माप पुस्तिका सं0-19210 के पृष्ठ सं0-05 के अनुसार 1244.60 घन मी0 मलबे को रू0 217 की दर से साईट से बाहर फेका गया था, उक्त कार्य की ढुलाई कितनी दूरी पर की गई थी इसका दर विश्लेषण पत्रावली में संलग्न नहीं था, ढुलाई की दर किस प्रकार निर्धारित की गयी थी इससे सम्बन्धित साक्ष्य का पत्रावली में अभाव था मिट्टी/मलबे की ढुलाई किस वाहन से की गयी थी वाहन सं0- एवं उससे सम्बन्धित लांग-बुक एवं मलबा किस स्थान पर डाला गया था इससे सम्बन्धित साक्ष्य सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये थे। जिससे मलबा ढुलाई के कार्य में प्रयुक्त धनराशि रू0 270078.20 × 17 प्रतिशत निम्न पर 270078.20 - 45913 = 224165.20 + 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 = 264514.93 का ढुलाई कार्य का भुगतान अनियमिति एवं आपत्तिजनक था।

5 – वसुन्धरा जोन वार्ड-41 महाराजपुर (झण्डापुर) मैन रोड स्थित पाई को विकसित करने के कार्य में ठेकेदार से कम परफोरमेन्स गारन्टी लिया जाना अनियमित रू0 1,42,097.80 :-

उघान अनुभाग में 15 वें वित्त आयोग की धनराशि से कराये गये उपरोक्त कार्य का अनुमानित आगणन रू0 4287210 अवर अभियंता द्वारा बनाया गया था, कार्य की आनलाईन निविदा आमंत्रण में कुल 03 निविदा प्राप्त हुई थी जिसमें में शाकुम्भरी कन्स0 की निविदा सं0-2287125 न्यूनतम निविदा 23.26 प्रतिशत निम्न पर कार्य के लिए स्वीकृत की गई थी। कार्य 23.26 प्रतिशत निम्न पर स्वीकृत किया गया था जिसमें शासनादेश सं0-622-23-12-2012-2-आडिट/8 टी0सी0 दिनांक 08-06-2012 के अनुसार अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी का प्रावधान था। संस्था

द्वारा फर्म से शासनादेश व्यवस्था अनुसार प्रथम 10 प्रतिशत के लिए 5 प्रतिशत एवं उसके उपर 1 प्रतिशत प्रति प्रतिशत अनुसार 13 प्रतिशत परफोरमेन्स गारन्टी ली जानी चाहिये थी जिसकी धनराशि निम्न गणनानुसार कार्य की अनुमानित आगणन धनराशि – 4287210 परफोरमेन्स गारन्टी प्रथम 10 प्रतिशत निम्न के लिए 5 प्रतिशत

10 प्रतिशत से ऊपर प्रति प्रतिशत के लिए 1 प्रतिशत

इस प्रकार 23.26 निम्न के लिए = $5+13 = 18$ प्रतिशत परफोरमेन्स गारन्टी

परफोरमेन्स गारन्टी की धनराशि = 4287210×18 प्रतिशत = 771697.80

संस्था द्वारा फर्म से प्राप्त परफोरमेन्स = 629600 गारन्टी

कम प्राप्त परफोरमेन्स गारन्टी = 771697.80

– 629600.00

142097.80

ठेकेदार से कम प्राप्त परफोरमेन्स गारन्टी 142097.80 थी। कार्य की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए परफोरमेन्स गारन्टी का प्रावधान शासन द्वारा किया गया था। संस्था द्वारा शासन के बनाये नियम/प्रावधानों की खुल अवहेलना की जा रही थी जोकि अनियमित एवं आपत्तिजनक था।

6 – सिटी जोन वार्ड सं0– 33 सराय नजर अली स्थित पार्क की मरम्मत कर पार्क पूर्ण विकसित करने का कार्य में रू0 63,329 बिलम्ब दण्ड की कटौती न किया जाना, रू0 34,261 परफोरमेन्स गारन्टी न लिया जाना व रू0 41,861 + 17,500 = 59,361 का ठेकेदार को अधिक भुगतान किया जाना –:

उद्यान विभाग की पत्रावली की सम्परीक्षा में प्रकाश में आया कि 15 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत , सिटी जोन वार्ड सं0–33 सराय नजर अली स्थित पार्क की मरम्मत कर पार्क पूर्ण विकसित करने का कार्य की स्वीकृति नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद द्वारा दिनांक 27-4-2021 को दी गयी। जिसकी सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित की गयी। उपरोक्त कार्य को सर्वन्यूनतम निविदाता मै0 शिव कन्सट्रक्शन को आगणन धनराशि 63,329 पर 10.41 प्रतिशत कम पर रू0 5,67,364=86 में उद्यान प्रभारी नगर निगम गाजियाबाद के कार्य आदेश सं0–805/उद्यान/2021–22 दिनांक 29-12-2021 द्वारा कार्य आंटन किया गया था। उपरोक्त

कार्य हेतु ठेकेदार को व्यय प्रमाणक सं०-512 दिनांक 15-03-2023 रू० 5,41,700=00 का भुगतान किया गया था। उपरोक्त कार्य में निम्न अनियमितताएँ प्रकाश में आयी -

(1) कार्य में अतिरिक्त परफोरमेंस गारन्टी आगणन धनराशि पर 10 प्रतिशत से अधिक ब्लो (न्यून) पर ठेकेदार द्वारा निविदा/टेण्डर डाले जाने की स्थिति में 10 प्रतिशत ब्लो (न्यून) तक .50 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक ब्लो (न्यून) दर पर 01 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर ली जानी थी। इस प्रकार रू० 34,261=00 अतिरिक्त परफोरमेंस गारन्टी ली जानी थी जबकि ठेकेदार से कोई परफोरमेंस गारन्टी नहीं ली गयी थी। रू० 34,261=00 अतिरिक्त परफोरमेंस गारन्टी न लिये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

(2) उपरोक्त कार्य की प्रारम्भिक तिथि 29-12-2021 तथा कार्य की समाप्ति तिथि 28-01-2022 थी। माप पुस्तिका सं०-21420 के पृष्ठ सं०-05 के अनुसार कार्य दिनांक 04-11-2022 को समाप्त हुआ। इस प्रकार कार्य 280 दिवस बिलम्ब से पूर्ण हुआ। अनुबन्ध की शर्त सं०-2 के अनुसार कार्य में देरी करने के लिए ठेकेदार पर कार्य की आगणन राशि पर 1 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड लिया जाना था। किन्तु अर्थदण्ड की यह धनराशि आगणन धनराशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार रू० 63,329=00 (6,33,290×10 प्रतिशत) बिलम्ब दण्ड ठेकेदार से वसूल किया जाय।

(3) आगणन के अनुसार मद सं०-14 सप्लार्ई एण्ड लेईंग ऑफ 12 एम०एम० पिक चक टाइल्स में 30 प्रतिशत पुरानी चक टाइल्स साबुत एवं सही मात्रा में थी। आगणन के अनुसार मद सं०-14 की 30 प्रतिशत पुरानी चक टाइल्स की प्रयोग रिलेईंग के किया जाना था जो कि नहीं किया गया था। आगणनानुसार मद सं०-14 की 30 प्रतिशत पुरानी चक टाइल्स की धनराशि को न तो बिल से घटाया गया था और न ही पुरानी टाइल्स को नगर निगम स्टोर में जमा किया गया था। इस प्रकार मद सं०-14 की 30 प्रतिशत पुरानी चक टाइल्स का प्रकयोग रिलेईंग न किये जाने से निम्नविवरणनुसार रू० 41,861=00 का अधिक भुगतान ठेकेदार को किया गया था। माप पुस्तिकानुसार मद सं०-14 सप्लार्ई एण्ड लेईंग

चक टाइल्स का कार्य = 180.15 वर्ग मी०

आगणन के अनुसार 30 प्रतिशत प्राप्त पुरानी चक टाइल्स 180.15×30 प्रतिशत = 54.04 वर्ग मी०

रिलेईंग का व्यय = 54.04×78 = 4215=00

नयी टाईल्स हेतु देय भुगतान = $54.04 \times 850 = 45,934=00$

अधिक भुगतान = $45,934-4215 = 41,719=00$

(-) 10.41 प्रतिशत आगणन से निम्न = $4343=00$

$37,376=00$

+ 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 $4485=00$

$41,861=00$

(4) आगणन में अंकित एवं पत्रावली में संलग्न कार्य के प्रारम्भ होने से पूर्व कार्य स्थल के फोटोग्राफ से स्पष्ट था कि ओल्ड ग्रिल 500 के0जी0 प्राप्त की गयी थी। कार्य पूर्ण होने के पश्चात पत्रावली में संलग्न फोटोग्राफ से स्पष्ट था कि दीवारों पर ग्रिल नहीं लगायी गयी थी। पुरान ग्रिल 500 के0जी0 35 प्रति किग्रा0 की दर से 17,500 धनराशि बिल से घटायी जानी थी। इस प्रकार ठेकेदार को 17,500 की वसूली ठेकेदार से किया जाना अपेक्षित है।

7 – वार्ड-37 शालीमार गार्डन, विक्रम एन्कलेव स्थित शिक्षा देवी पार्क की मरम्मत कर सौन्दरीकरण का कार्य में रू0 2,21,581 बिलम्ब दण्ड की कटौती न किया जाना, रू0 87,102 परफोरमेन्स गारन्टी कम लिया जाना, रू0 95,692+21,998+70,000 = 1,87,690 का ठेकेदार को अधिक भुगतान व रू0 52,081 जी0एस0टी0 का अधिक भुगतान किया जाना :-

उद्यान विभाग पत्रावली की सम्परीक्षा में प्रकाश में आया कि 15 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत, “मोहननगर जोन वार्ड सं0-37 शालीमार गार्डन विक्रम एन्कलेव स्थित शिक्षा देवी पार्क की मरम्मत कर सौन्दरीकरण का कार्य”, की स्वीकृति नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद द्वारा दिनांक 07-04-2021 दी गयी। जिसकी सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर दिनांक 10-06-2021 को ई-निविदा आमंत्रित की गयी। उपरोक्त कार्य को सर्वन्यूनतम निविदादाता मै0 दर्शन कन्सट्रक्शन को आगणन धनराशि 22,15,814 पर 22.47 प्रतिशत कम पर रू0 17,17,920=87 में उद्यान प्रभारी नगर निगम गाजियाबाद के कार्य आवंटन किया गया थ। उपरोक्त कार्य हेतु ठेकेदार को व्यय प्रमाणक सं0-2320 दिनांक 31-03-2023 रू0 7,46,700 का भुगतान किया गया था। उपरोक्त कार्य में निम्न अनियमितताएँ प्रकाश में आयीं -

(1) कार्य में अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी आगणन धनराशि पर 10 प्रतिशत से अधिक बिलो

(न्यून) पद ठेकेदार द्वारा निविदा/टेण्डर डाले जाने की स्थिति में 10 प्रतिशत बिलो (न्यून) तक . 50 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलो (न्यून) दर पर 01 प्रतिशत कम दर पर ली गयी थी। इस प्रकार रू0 3,87,102 अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी ली जानी थी जबकि ठेकेदार से रू0 3,00,000 अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी नगर निगम द्वारा ली गयी थी। इस प्रकार रू0 87,102 (3,87,102-3,00,000) अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी कम लिये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

(2) उपरोक्त कार्य की प्रारम्भिक तिथि 31-07-2021 तथा कार्य की समाप्ति तिथि 30-08-2021 थी। माप पुस्तिका सं0-21182 के पृष्ठ सं0-12 के अनुसार कार्य दिनांक 23-02-2023 को समाप्त हुआ। इस प्रकार कार्य 542 दिवस विलम्ब से पूर्ण हुआ। अनुबन्ध की शर्त सं0-02 के अनुसार कार्य में देरी करने के लिए ठेकेदार पर कार्य की आगणन राशि पर 1 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड लिया जाना था किन्तु अर्थदण्ड की यह धनराशि आगणन धनराशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार रू0 2,21,581 (2215814×10प्रतिशत) बिलम्ब दण्ड ठेकेदार से वसूल किया जाय।

(3) पत्रावली के नोटिंग पृष्ठ सं0-01 के अनुसार आगणन उ0प्र0 पी0 डब्ल्यू0 डी0 शैड्यूल 2020 की निर्धारित दरों के आधार पर तैयार किया गया था जिसमें आगणन की मद सं0-05, एम0-150 ब्रिक वर्क --एफ0 एम0 मोर्टर s.1-no-305 कार्य की दर 4620 प्रति घन मी0 दी गयी थी। परन्तु आगणन में उक्त मद के कार्य की दर 4950 प्रति घन मी0 दर्शायी गयी थी। जिसके अनुसार माप पुस्तिका में 72.86 घन मी0 4950 प्रति घन मी0 की दर से रू0 360657= का भुगतान ठेकेदार को किया गया था इस प्रकार ठेकेदार को निम्न विवरणानुसार रू0 21,998 का भुगतान किया गया था जिसकी ठेकेदार से वसूली किया जाना अपेक्षित है।

उ0प्र0 पी0 डब्ल्यू0 डी शैड्यूल 2020 के अनुसार मद सं0-5, एम0 150 ब्रिक वर्क 4620 प्रति घन मी0 s.1-no-305 की दर

ठेकेदार को भुगतानित उपरोक्त मद की 4950 घन मी0

दर अधिक भुगतान = 330 (4950-4620)×72.86 = 24044

(-) 22.47 प्रतिशत निम्न दर पर = 5202

18642

+ 18 प्रतिशत जी०एस०टी० 3356

21998

(4) उपरोक्त कार्य के द्वितीय एवं अन्तिम बिल के अनुसार रू० 1,56,242=00, 18 प्रतिशत जी०एस०टी० का भुगतान किया गया था। कार्यादेशानुसार उपरोक्त कार्य की समाप्ति तिथि 30-08-2021 थी। जबकि माप पुस्तिका के अनुसार कार्य की वास्तविक समाप्ति तिथि 23-02-2023 थी। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना सं०-03/2022 सैन्ट्रल टैक्स (रेट) दिनांक 13-07-2022 द्वारा दिनांक 18-07-2022 से जी०एस०टी० की दरों पर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत किया गया था इससे स्पष्ट होता है कि यदि ठेकेदार द्वारा कार्य को निर्धारित समय (कार्य अवधि) पर पूर्ण किया जाता तो नगर निगम गाजियाबाद को ठेकेदार को भुगतानित 18 प्रतिशत जी०एस०टी० रू० 1,56,242=00 के स्थान पर रू० 104161 (1,56,242×2) 12 प्रतिशत जी०एस०टी० का भुगतान करना होता। इस प्रकार रू० 52081 का भुगतान जी०एस०टी० के रूप में ठेकेदार को अधिक किया गया था। इससे नगर निगम को प्राप्त अनुदान रू० 52081 का अपव्यय हुआ था इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय।

(5) आगणन के अनुसार मद सं०-13, सप्लाई एण्ड लेईंग ऑफ 12 एम० थिक चक टाईल्स में 80 प्रतिशत पुरानी चक टाईल्स साबुत एवं सही मात्रा में थी। माप पुस्तिका के अनुसार कार्य की मद सं०-13 पर 169.36 वर्ग नयी चक टाईल्स का कार्य दर्शाया गया था। आगणन के अनुसार मद सं०-13 से प्राप्त पुरानी चक टाईल्स की धनराशि को न तो बिल से घटाया गया था और न ही नगर निगम स्टोर में जमा किया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि मद सं०-13 की 80 प्रतिशत पुरानी चक टाईल्स का प्रयोग रिलेयिंग के लिए किया गया था। जिसके कारण निम्नवत रू० 95,692 का अधिक भुगतान किया गया था।

माप पुस्तिका अनुसार मद सं०-13, S/L चक टाईल्स का कार्य = 169.36 वर्ग मी०

आगणन के अनुसार 80 प्रतिशत प्राप्त पुरानी 169.36×80 प्रतिशत = 135.49 वर्ग मी०

रिलेयिंग का व्यय = 135.49×78 = 10568=00

नयी टाईल्स हेतु देय भुगतान = 850×135.49 = 115166

अधिक भुगतान = 115166-10568 = 104598

(-) 22.47 प्रतिशत आगणन से निम्न = 23503

81095

+ 18 प्रतिशत जी0एस0टी0

14597

95692

उक्त के सम्बन्ध में स्थित स्पष्ट करायी जाय अन्यथा स्थिति में अधिक भुगतान हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए अधिक भुगतान की वापसी हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(6) आगणन एवं पत्रावली में संलग्न कार्य के प्रारम्भ होने से पूर्व स्थल के फोटो ग्राफ से स्पष्ट था कि ओल्ड ग्रिल 2000 kg प्राप्त की गयी थी। कार्य के पूर्ण होने के पश्चात पत्रावली में संलग्न फोटो ग्राफ़स से स्पष्ट था कि दीवारों पर ग्रिल नहीं लगायी थी। पुरानी ग्रिल 2000 kg 35/- प्रति kg की दर से 70,000 रू0 धनराशि बिल से घटायी जानी थी। इस प्रकार ठेकेदार को 70,000 रू0 का अधिक भुगतान किया गया था। उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाय अन्यथा स्थिति में उत्तरदायी से अधिक भुगतान की वापसी हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

8 – कविनगर जोन वार्ड सं0-42/53 के अन्तर्गत रईसपुर स्थित रिक्त भूमि पर मियावाकी बनाये जोन की सुरक्षा हेतु फेन्सिंग का कार्य में अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी रू0 1,74,653 न लिया जाना ठेकेदार के बिल से रू0 2,45,905 बिलम्ब दण्ड की कटौती न किया जाना व 39,712 का अधिक भुगतान –:

उद्यान विभाग की पत्रावली की सम्परीक्षा में प्रकाश में आया कि 15 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत, कविनगर जोन सं0-42/53 के अन्तर्गत रईसपुर स्थित रिक्त भूमि पर मियावाकी बनाये जाने की सुरक्षा हेतु फेन्सिंग का कार्य की स्वीकृति नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद द्वारा दिनांक 07-10-2022 को दी गयी थी। जिसकी सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर दिनांक 04-11-2022 को ई-निविदा आमन्त्रित की गयी। उपरोक्त कार्य को 06 प्राप्त निविदाओं में से सर्वन्यूनतम निविदाता मै0 मॉ पदमावती कन्सट्रक्शन को आगणन धनराशि रू0 25,90,783 पर 20.69 प्रतिशत कम पर रू0 20,54,750=31 में उद्यान प्रभारी नगर निगम गाजियाबाद के कार्य आदेश सं0-421/उद्यान/2022-23 दिनांक 27-12-2022 द्वारा कार्य का आवंटन किया गया था उपरोक्त कार्य हेतु ठेकेदार को व्यय प्रमाणक सं0-2328 दिनांक 31-03-2023 रू0 19,26,500 का भुगतान किया गया था। उपरोक्त कार्य में निम्न अनियमितताएँ प्रकाश में आयीं।

(1) उपरोक्त कार्य की प्रारम्भिक तिथि 27-12-2022 तथा कार्य की समाप्ति तिथि 26-01-2023 थी। माप पुस्तिका सं०-21312 के पृष्ठ सं०-04 के अनुसार कार्य 42 दिवस बिलम्ब से पूर्ण हुआ। अनुबन्ध की शर्त सं०-2 के अनुसार कार्य में देरी करने के लिए ठेकेदार पर कार्य की आगणन राशि पर 1 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड लिया जाना था। किन्तु अर्थदण्ड की यह धनराशि आगणन धनराशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार रू० (24,59,049×10 प्रतिशत) = 2,45,905 बिलम्ब दण्ड लिया जाना चाहिए था। इस प्रकार ठेकेदार से रू० 2,45,905 बिलम्ब दण्ड वसूल किया जाय।

(2) उ०प्र० शासन के भूतत्व एवं खनिज अनुभाग के शासनादेश सं०-3385/88-2015-292/2015 दिनांक 15-10-2015 द्वारा निर्देशित किया गया था कि सार्वजनिक निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्राप्त किये जान वाले उप खनिज नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर अभिवहन प्रपत्र - 11 (एम०एम० 11) के आधार पर परिवहन किये गये बिना उप खनिजों की आपूर्ति हुई हो, उनके बिलों का भुगतान करने से पूर्व निर्धारित दर पर राँयल्टी की धनराशि की कटौती कर संगत लेखा शीर्षक में अवश्य जमा की जाय।

इस निर्माण कार्य में उपभोग किये गये खनिजों के सापेक्ष ठेकेदार द्वारा अभिवहन प्रपत्र - 11 (एम०एम० 11) प्रस्तुत नहीं किये गये और न ही निगम ठेकेदार के बिल से राँयल्टी की कटौती की गयी थी तथा उस पर लगायी गयी पेनाल्टी जो राँयल्टी दर का पाँच गुना होती है। उसकी कटौती भी नहीं की गयी थी जिससे शासन को 92,085=00 की क्षति निम्न विवरणानुसार हुई।

मद	दर	धनराशि
59.88 फाइन सैंड	65	3892
34.07 कोर्स सैंड	100	3407
101.07 ग्रीट/स्टोन बैलास्ट	110	11118
		18417×5 = 92085

(3) आगणन की मद सं०-05, एम०-150 ब्रिक वर्क - एफ० एम० मोर्टर s.1-no-305 कार्य की दर 4950 प्रति घन मी० दी गयी थी जिसके अनुसार 120.34 घन मी० कार्य का रू० 595.683

(120.34×4950) का भुगतान किया गया था उ0प्र0 पी0 डब्ल्यू0 डी0 शैडयूल 2020 के उपरोक्त मद के कार्य की दर 4620 प्रति घन0 मी0 दी गयी थी। रू0 4950 प्रति घन मी0 की दर से उक्त मद के कार्य का भुगतान किये जाने से रू0 39712 अधिक भुगतान की वसूली ठेकेदार से किया जाना अपेक्षित है।

(4) शासनादेश सं0-11593/नौ0-5-2021-142सा/2021 दिनांक 07-01-2022 के अनुसार अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी आगणन धनराशि पर 10 प्रतिशत से अधिक बिलो (न्यून) पर ठेकेदार द्वारा निविदा/टेंडर डाले जाने की स्थिति में 10 प्रतिशत बिलो तक 3 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलो (न्यून) दर पर 01 प्रतिशत प्रति .50 प्रतिशत प्रतिशत दर पर ली जानी थी।

. 10 प्रतिशत बिलो (न्यून) तक 3 प्रतिशत = 20,54,750×3 प्रतिशत = 61642
10 प्रतिशत से अधिक बिलो (न्यून) तक = 20,54,750×5.50 प्रतिशत = 113011
1,74,653

इस प्रकार रू0 1,74,653 अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी ठेकेदार से नहीं ली गयी थी। रू0 1,74,653 अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी नहीं लिये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

9- मोहन नगर जोन वार्ड सं0-78 शालीमार गार्डन एक्स0-01 स्थित साईं पार्क की मरम्मत कर विकसित करने का कार्य में अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी रू0 4,24,043 न लिया जाना, ठेकेदार के बिल से रू0 2,43,283 बिलम्ब दण्ड की कटौती न किया जाना व जी0एस0टी0 रू0 32,448 एवं 31,193 का अधिक भुगतान किया जाना -:

उघान विभाग की पत्रावली की सम्परीक्षा में प्रकाश में आया कि 15 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत, "मोहन नगर जोन वार्ड सं0-78 शालीमार गार्डन, एक्स-01 स्थित साईं पार्क की मरम्मत कर विकसित करने का कार्य" की स्वीकृति नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद द्वारा दिनांक 26-03-2021 को दी गयी। जिसकी सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर दिनांक 07-06-2021 को ई-निविदा आमंत्रित की गयी। उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त 03 निविदाओं में सर्व न्यूनतम निविदाता मै0 दर्शन कन्सट्रक्शन को आगणन धनराशि 24,32,834 पर 22.43 प्रतिशत कम पर रू0 18,87,149 में उघान प्रभारी नगर निगम गाजियाबाद के कार्य आदेश सं0-546/उघान/2021-22 दिनांक 04-08-2021 द्वारा कार्य आवंटन किया गया था। उपरोक्त

कार्य हेतु ठेकेदार को व्यय प्रमाणक सं०-2321 दिनांक 31-03-2023 रू० 6,09,900 का भुगतान किया गया था। उपरोक्त कार्य में निम्न अनियमितताएँ प्रकाश में आयीं -

(1) कार्य में अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी आगणन धनराशि पर 10 प्रतिशत से अधिक ब्लो (न्यून) पर ठेकेदार द्वारा निविदा/टेण्डर डाले जाने की स्थिति में 10 प्रतिशत बिलो (न्यून) तक .50 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलो (न्यून) दर पर 01 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर ली गयी थी इस प्रकार रू० 4,24,043 अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी ली जानी थी। रू० 4,24,043 अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी न लिये जाने का औचित्य स्पष्ट किया नहीं गया।

(2) उपरोक्त कार्य की प्रारम्भिक तिथि 04-08-2021 तथा कार्य की समाप्ति तिथि 03-09-2021 थी। माप पुस्तिका सं०-15426 के पृष्ठ सं०-12 के अनुसार कार्य दिनांक 15-03-2023 को समाप्त हुआ। इस प्रकार कार्य 558 दिवस बिलम्ब से पूर्ण हुआ। अनुबन्ध की शर्त सं०-02 के अनुसार कार्य में देरी करने के लिए ठेकेदार पर कार्य की आगणन राशि पर 01 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड लिया जान था। किन्तु अर्थदण्ड यह धनराशि आगणन धनराशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार रू० 2,43,283 (2432834 ×10 प्रतिशत) बिलम्ब दण्ड ठेकेदार से वसूली जाय।

(3) पत्रावली के नोटिंग पृष्ठ सं०-01 के अनुसार आगणन उ०प्र० पी० डब्ल्यू डी० शैडयूल 2020 की निर्धारित दरों के आधार पर तैयार किया गया था। जिसमें आगणन की मद सं०-4 "एम०-150 ब्रिक वर्क - एफ० एम० मोर्टर s.1-no-305 " कार्य की दर 4620 प्रति घन मी० दी गयी थी। परन्तु आगणन में उक्त मद के कार्य की दर 4950 प्रति घन मी० दर्शायी गयी थी। जिसके अनुसार माप पुस्तिका में अंकित मद सं०-4, 103.27 घन मी० 4950 प्रति घन मी० की दर से रू० 511186=00 का भुगतान ठेकेदार को किया गया था इस प्रकार ठेकेदार को निम्न विवरणानुसार रू० 31193=00 का भुगतान किया गया था जिसकी ठेकेदार से वसूली किया जाना अपेक्षित है। उ०प्र० पी० डब्ल्यू डी० शैडयूल 2020 के अनुसार मद सं०-4 एम० 150 ब्रिक वर्क s.1-no-305 की दर 4620 प्रति घन मी०

ठेकेदार को भुगतानित उपरोक्त मद की दर 4950 घन मी०

अधिक भुगतान = $330(4950-4620) \times 103.27 = 34079$

(-) 22.43 प्रतिशत निम्न दर पर = 7644

26435

(+) जी0एस0टी0 = (+) 4758

31193

(4) उपरोक्त कार्य के द्वितीय एवं अन्तिम बिल के अनुसार रू0 97344 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 का भुगतान किया गया था। कार्यादेशानुसार उपरोक्त कार्य की समाप्ति तिथि 03-09-2021 थी। जबकि माप पुस्तिका के अनुसार कार्य की वास्तविक समाप्ति तिथि 15-03-2023 थी। वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0-03/2022 सैन्ट्रल टैक्स (रेट) दिनांक 13-07-2022 द्वारा दिनांक 18-07-2022 से जी0एस0टी0 की दरों को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत किया गया था। इससे स्पष्ट होता है। कि यदि ठेकेदार द्वारा कार्य को निर्धारित समय (कार्य अवधि) पर पूर्ण किया जाता तो नगर निगम गाजियाबाद को ठेकेदार को भुगतानित 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 रू0 97344 के स्थान पर रू0 64896(97344×2) 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 का भुगतान होता। इस प्रकार रू0 32448 का भुगतान जी0एस0टी0 के रूप में ठेकेदार को अधिक किया गया था। इससे नगर निगम को प्राप्त अनुदान रू0 32448 का अपव्यय हुआ था। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय।

10-वार्ड-25 औद्योगिक क्षेत्र प्लाट सं0-ई0-13 के सामने स्थित पार्क में बनाये जाने वाली मियावाकी की सुरक्षा हेतु फेन्सिंग का कार्य में अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी रू0 1,33,565 न लिया जाना, ठेकेदार के बिल से रू0 208176 बिलम्ब दण्ड की कटौती न किया जाना व 30,068 का अधिक भुगतान -:

दिनांक 15-07-2022 को महापौर की अध्यक्षता में 15 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वार्ड-25 औद्योगिक क्षेत्र प्लाट सं0-ई0-13 के सामने स्थित पार्क में बनाये जाने वाली मियावाकी की सुरक्षा हेतु फेन्सिंग का कार्य को पारित किया गया। जिसकी स्वीकृति नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद द्वारा दिनांक 22-11-2022 को दी गयी थी। ई-निविदा के माध्यम से सर्व न्यूनतम निविदादाता मैसर्स शाकुम्बरी कन्सट्रक्शन को आगणन धनराशि 20,81,760 पर 20.05 प्रतिशत न्यून पर रू0 16,64,366 में उद्यान प्रभारी नगर निगम गाजियाबाद के कार्य आदेश

सं०-179/उघान/2022-23/दिनांक 23-12-22 द्वारा कार्य आवंटन किया गया था। उपरोक्त कार्य हेतु ठेकेदार के प्रथम एवं अन्तिम बिल का भुगतान व्यय प्रमाणक सं०-2329/31-03-2023 रू० 15,17,700 किया गया था। उपरोक्त कार्य में निम्न अनियमितताएँ प्रकाश में आयी -

(1) उपरोक्त कार्य की प्रारम्भिक तिथि 23-12-2022 तथा कार्य की समाप्ति तिथि 22-01-2023 थी। माप पुस्तिका सं०-21401 के पृष्ठ सं०-05 के अनुसार कार्य दिनांक 09-03-2023 को समाप्त हुआ। इस प्रकार कार्य 46 दिवस बिलम्ब से पूर्ण हुआ। अनुबन्ध की शर्त सं०-2 के अनुसार कार्य में देरी करने के लिए ठेकेदार पर कार्य की आगणन राशि पर 1 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड लिया जाना था। किन्तु अर्थदण्ड की यह धनराशि आगणन धनराशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार रू 2,08,176(2081760×10प्रतिशत) बिलम्ब दण्ड ठेकेदार से वसूल किया जाय।

(2) पत्रावली के नोटिंग पृष्ठ सं०-01 के अनुसार आगणन उ०प्र० पी० डब्ल्यू० डी० शैडयूल 2020की निर्धारित दरो के आधार पर तैयार किया गया था। जिसमें आगणन की मद सं०-05 "एम०-150 ब्रिक वर्क — एफ० एम० मोर्टर s.1-no-305" कार्य की दर 4620 प्रति घन मी० दी गयी थी। परन्तु आगणन में उक्त मद के कार्य की दर 4950 प्रति घन मी० दर्शायी गयी थी। जिसके अनुसार माप पुस्तिका में अंकित मद सं०-05, 96.58 घन मी० 4950 प्रति घन मी० की दर से रू० 478071=00 का भुगतान ठेकेदार को किया गया था। इस प्रकार ठेकेदार को निम्न विवरणानुसार रू० का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी ठेकेदार से वसूली किया जाना अपेक्षित है।

उ०प्र० पी० डब्ल्यू० डी० शैडयूल 2020 के अनुसार मद सं०-05 एम० 150 ब्रिक वर्क s.1-no-305 की दर 4620/- प्रति घन मी०

ठेकेदार को भुगतानित उपरोक्त मद की दर 4950/- प्रति घन मी०

$$\text{अधिक भुगतान} = 330(4950-4620) \times 96.58 = 31871$$

$$(-) 20.05 \text{ प्रतिशत निम्न दर पर} = (-) \underline{6390}$$

$$25481$$

$$(+) 18 \text{ प्रतिशत जी०एस०टी०} = (+) \underline{4587}$$

$$\underline{30068}$$

शासनादेश सं०-11593/नौ-5-2021-142सा/2021 दिनांक 07-01-2022 के अनुसार

अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी आगणन धनराशि पर 10 प्रतिशत से अधिक बिलो (न्यून) पर ठेकेदार द्वारा निविदा/टेण्डर डाले जाने की स्थिति में 10 प्रतिशत बिलो तक 3 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलो (न्यून) दर पर 01 प्रतिशत प्रति .50 प्रतिशत दर पर ली जानी थी।

10 प्रतिशत बिलो (न्यून) तक 3 प्रतिशत , 1664366×3 प्रतिशत = 49931

10 प्रतिशत से अधिक बिलो (न्यून) तक .50 प्रतिशत, $1664366 \times 5.025 = 83634$

133565

इस प्रकार रू0 133565=00 अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी ठेकेदार से नहीं ली गयी थी।
रू0 1,33,565=00 अतिरिक्त परफोरमेन्स गारन्टी नहीं लिये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

11 – उद्यान अनुभाग के अन्तर्गत 15 वें वित्त आयोग की धनराशि से कराये गये विभिन्न कार्यों में ईट चिनाई कार्य का देय दरों से अधिक दर पर भुगतान किये जाने के कारण अधिक भुगतान रू0 63,770 –:

उद्यान अनुभाग द्वारा उपरोक्त कराये गये कार्यों की पत्रावलियों की जांच से प्रकाश में आया कि अनुभाग द्वारा 15 वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि द्वारा पार्को को विकसित कराने, मियावाकी पद्धति द्वारा सघन वनों को स्थापित कराने, पार्को की चहारदीवारी कराकर फेन्सिंग का कार्य कराने इत्यादि कार्यों को निविदा आमंत्रित कर कराया गया था।

कार्यों की माप पुस्तिकाओं अनुसार निर्माण कार्यों में ईटों की चिनाई से सम्बन्धित कार्य कराये गये थे जिनकी दर अभियंता द्वारा पी0 डब्ल्यू0 डी0 की दरों के अनुसार 4950 प्रति घन मी0 ली गई थी जबकि उक्त मद की दर एस0 ओ0 आर0 उत्तर प्रदेश 2022 के अनुसार 4900 प्रति घन मी0 थी, एस0 ओ0 आर0 अनुसार यदि किसी मद का समावेश एस0 ओ0 आर में न हो तो तदुपरान्त उस मद का दर विश्लेषण या सी0पी0 डब्ल्यू0 डी की दर ली जा सकती है। इस प्रकार पी0 डब्ल्यू0 डी0 की अधिक दरों से अधिक दर पर ईट चिनाई का कार्य कराकर ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया गया था। निम्न गणनानुसार (संलग्न) रू0 63,770=50 अधिक का भुगतान ठेकेदारों को किया गया था जिसकी प्रतिपूर्ति सम्बन्धितों से करायी जाना अपेक्षित है।

क्र०	व्यय प्रमाणक सं०/दि०	कार्य का नाम/फर्म का नाम	कार्य की मात्रा	भुगतानित दर, एस०ओ०आर० की दर	कुल अधिक भुगतान
1	2319/31-03-2023	विजय नगर वार्ड-03 पुराना विजय जे० ब्लाक टंकी वाला पार्क की दीवार उठाकर ग्रिल लगाने व घूमने हेतु फुटपाथ निर्माण का कार्य/मै०दर्शन कन्स०	141.83 घन मी०	4950-4900=50	7091.50
2	2325/31-03-2023	कविनगर जोन वार्ड-24 के अन्तर्गत पुलिस चौकी जैन धर्म कांटा वाले पार्क में मियावाकी बनाये जाने की सुरक्षा हेतु फेन्सिंग का कार्य/मै० मोहित चौधरी	97.56 घन मी०	---"--- 50	4878
3	512/15-03-2023	सिटी जोन वार्ड-33 सराय नजर अली स्थित पार्क की मरम्मत का कार्य/मै० शिव कन्स०	4.81 घन मी०	---"--- 50	240.50
4	2320/31-03-2023	मोहन नगर जोन वार्ड-37 शालीमार गार्डन विक्रम ए-कलेव शिक्षा देवी पार्क की मरम्मत कर सौन्दर्यीकरण का कार्य/मै० दर्शन कन्स०	72.86 घन मी०	---"--- 50	3643
5	2311/31-03-2023	वसुन्धरा जोन के अन्तर्गत विभिन्न पार्कों की मरम्मत कार्य/मै० महेश चन्द कान्टेक्टर	225.68 घन मी०	4950-4900=50	11284
6	2315/31-03-2023	मोहन नगर जोन वार्ड-60 पाईप मार्किट स्थित पार्क में मियावाकी पद्धति से सघन वन बनाये जाने हेतु फेन्सिंग का कार्य/मै० लक्ष्मी कन्स०	3.26 घन मी०	---"--- 50	163
7	2329/31-03-	विजय नगर वार्ड-25	96.58 घन	---"--- 50	4849

	2023	औद्योगिक क्षेत्र प्लाट ई-13 के सामने स्थित पार्क में भूमि पर मियावाकी बनाये जाने की सुरक्षा हेतु फेन्सिंग कार्य / मै० शाकुम्भरी कन्स०	मी०		
8	2321 / 31-03-2023	मोहन नगर जोन वार्ड-78 शालीमार गार्डन एम्स 01 स्थित साईं पार्क की मरम्मत कर विकसित करना मै०	103.27 घन मी०	---"--- 50	5163.50
9	2324 / 31-03-2023	मोहन नगर वार्ड-70 जनकपुरी बडे पार्क की फुटपाथ चौडीकरण कर ओपन जिम तथा दीवारो पर रंगाई पुताई का कार्य / मै० मोहित चौधरी	73.43 घन मी०	---"--- 50	3671.50
10	2318 / 31-03-2023	सिटी जोन वार्ड-19 पटेल नगर तृतीय स्थित संजय गीता पार्क के सौन्दर्यीकरण का कार्य मै० लीसा कन्स०	191.27 घन मी०	---"--- 50	9563.50
11	2313 / 31-03-2023	वसुन्धरा जोन वार्ड-41 महाराजपुर (झण्डा पुर)मैन रोड स्थित पार्क को विकसित करने का कार्य मै० शाकुम्भरी कन्स०	189.70 घन मी०	4950-4900=50	9485
12	2327 / 31-03-2023	मोहन नगर जोन वार्ड-28 राजीव कालोनी हर्षा कम्पाउन्ड औद्योगिक क्षेत्र स्थित पार्क में बनाये जाने वाली मियावाकी की सुरक्षा हेतु फेन्सिंग का कार्य मै० कृष्णा एसोसिएट	74.76 घन मी०	---"--- 50	3738
					63,770=50

12 – वसुधरा जोन के विभिन्न पार्को की मरम्मत के कार्यों में एम0 एस0 स्टील के कार्य से अनुमानित आगणन अनुसार कटौती न करने ठेकेदार को भुगतान किये जाने से रू0 37,896.25 का अधिक भुगतान –:

उद्यान अनुभाग की 15 वें वित्त आयोग की धनराशि से कराये गये कार्यों की पत्रावलियों की जांच से प्रकाश में आया कि उपरोक्त कार्य का अनुमानित आगणन रू0 4264177 अवर अभियंता द्वारा तैयार किया गया था। आगणन में आईटम सं0-17 में एम0 एस स्टील की 25 प्रतिशत कटौती माप-पुस्तिका अनुसार आईटम सं0-06 मात्रा $1030.31 \times 35 = 36060$ दर्शाया गया था।

कार्य की माप – पुस्तिका सं0-21406 के तृतीय एवं अन्तिम बिल में एम0 एस0 स्टील के कार्य में उपरोक्त कटौती नहीं की गई थी जिससे निम्न गणना अनुसार ठेकेदार को अधिक भुगतान हुआ था। माप – पुस्तिका अनुसार एम0 एस0 स्टील का कार्य = 4331

(-) आंगणन अनुसार 25 प्रतिशत धनराशि = $1082.75 \times 35 = 37896.25$

इस प्रकार रू0 37896.25 का अधिक भुगतान किया गया था। जिसकी प्रतिपूर्ति सम्बन्धित से की जाय एवं निगम कोष में जमा कराया जाय।

13 – उद्यान अनुभाग के अन्तर्गत 15 वें वित्त आयोग की धनराशि से कराये गये विभिन्न पार्को की मरम्मत कार्य में आंगणन अनुसार ब्रिक बैटस की मात्रा को कम दर्शाकर कटौती किये जाने से रू0 4257 का अधिक भुगतान –:

उद्यान अनुभाग की पत्रावलियों की जांच के समय प्रकाश में आया कि उपरोक्त कार्य के अनुमानित आगणन में पुरानी ईटो की खुदाई कार्य से निकली ईटो का 10 प्रतिशत सही ईटो के रूप में कटौती एवं 90 प्रतिशत ब्रिक बैटस के रूप में आंगणन में मूल्य को घटाकर दर्शाया गया था। माप – पुस्तिका सं0-21406 के तृतीय एवं अन्तिम बिल से निम्न गणनानुसार कम मात्रा (ब्रिक बैटस) को घटाकर दर्शाया गया था।

ईटो की खुदाई की कुल मात्रा घन मी0 में – 15.75

(-) सही ईटो की मात्रा 3623 460 – 7.87

7.88

(-) माप – पुस्तिका अनुसार ब्रिक्स बैटस की मात्रा – 3.15

ब्रिक बैटस की दर = 900 प्रति घन मी०

कुल कम कटौती = $(4.73 \times 900) = 4257$

इस प्रकार ब्रिक बैटस की मात्रा को कम करके मूल्य की कटौती किये जाने से रू० 4257 का अधिक भुगतान ठेकेदार को हुआ था। इसकी प्रतिपूर्ति सम्बन्धित से अपेक्षित है।

14 – उद्यान अनुभाग के अन्तर्गत वसुन्धरा जोन वार्ड सं०-41 महाराजपुर मैन रोड स्थित पार्क को विकसित कराने के कार्य में 3 एच० पी० पम्प सैट लगवाने के कार्य में विस्तृत आंगणन न बनाने से पम्प के कार्य की लागत का सत्यापन न होना रू० 97,000 :-

उद्यान अनुभाग की 15 वें वित्त आयोग से अनुदानित कार्यों की पत्रावलियों की जांच के समय प्रकाश में आया कि उपरोक्त कार्य का आंगणन 42,87,210 अभियंता द्वारा बनाया गया था एवं निविदा आमंत्रित की गयी थी। जिसके आधार पर तीन निविदाओं में से मै० शाकुम्भरी कन्स० को 23.26 निम्न पर उक्त कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्य के आगणन में आईटम सं०-10 पर 3 एच० पी० सबमर्सिबल पम्प का अधिष्ठापन पार्क में पानी की व्यवस्था हेतु किया गया था जिसमें एक जॉब रू० 97,000 हजार दर्शाकर दिखाया गया था। उक्त कार्य का विस्तृत आंगणन तैयार नहीं किया गया था कार्य का विस्तृत आंगणन तैयार न किये जाने से एवं माप – पुस्तिका में भी कार्य की विस्तृत गणना न किये जाने से कार्य में प्रयुक्त सामग्री, मद, एवं लागत स्पष्ट नहीं थी। कार्य में रू० 97,000 की धनराशि प्रयुक्त हुई थी उक्त धनराशि से सम्बन्धित सबमर्सिबल के कार्य को जॉब न दिखाकर सम्पूर्ण मदवार दिखाया जाना अपेक्षित है जिससे कार्य की विस्तृत गणना हो सके।

15 – उद्यान अनुभाग के अन्तर्गत 15 वें वित्त से कराये गये कार्य मोहन नगर जोन वार्ड-70 जनकपुरी स्थित बड़े पार्क की फुटपाथ चौड़ीकरण एवं पार्क में ओपन जिम तथा सौन्दर्यीकरण कार्य में 11.75 घन मी० ब्रिक बैलास्ट की धनराशि को फर्म को भुगतानित धनराशि से कटौती न किये जाने से रू० 9124.64 का अधिक भुगतान :-

उद्यान अनुभाग के अन्तर्गत कराये गये उपरोक्त कार्य का आगणन रू० 1775208 अवर

अभियंता द्वारा बनाया गया था। कार्य हेतु 06 निविदाएँ प्राप्त हुई थी जिसमें मै० मोहित चौधरी की न्यूनतम निविदा 22.99 प्रतिशत निम्न पर स्वीकृति हुई थी। अनुमानित आंगणन अनुसार आईटम सं०-01 पर 33.90 घन मी० पर पुरानी ईटो की खुदाई को दर्शाया गया था। आंगणन में 10 प्रतिशत पुरानी ईटो की धनराशि को एवं 90 प्रतिशत पुरानी ईटो से बनी ब्रिक्स बैटस को समायोजित करके दर्शाया गया था। जिससे पुरानी ईटो की सम्पूर्ण (100प्रतिशत) मात्रा को समायोजित किया गया दर्शाया गया था। कार्य की माप - पुस्तिका सं०-15439 अनुसार पृष्ठ सं०-05 में 50 प्रतिशत पुरानी ईटो की धनराशि को घटाकर बिल से दर्शाया गया था किन्तु निम्न गणनानुसार ब्रिक्स बैटस की मात्रा को कम करके दर्शाया गया था जिससे फर्म को अधिक भुगतान हो गया था।

पुरानी ईटों की खुदाई = 39.17 घन मी० , 50 प्रतिशत पुरानी ईटो के क्षेत्र का समायोजन पश्चात

$$\text{क्षेत्र} = 39.17 \times 50 \text{ प्रतिशत} = 19.58 \text{ घन मी०}$$

ब्रिक्स बैटस की मात्रा का समायोजन माप - पुस्तिका अनुसार = 7.83 घन मी०

$$\text{समायोजन योग्य शेष क्षेत्र} = 19.58 - 7.83 = 11.75 \text{ घन मी०}$$

$$\text{ब्रिक्स बैटस की धनराशि} = 11.75 \times 900 = 10579.50$$

$$(-) 22.99 \text{ निम्न पर कार्य} = 10579.50 \times 22.99 \text{ प्रतिशत}$$

$$\text{रु० 8147}$$

$$+ 12 \text{ प्रतिशत जी०एस०टी० } \underline{977.64}$$

$$\underline{9124.64}$$

उक्त रु० 9124.64 की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित से अपेक्षित है।

16 - एक ही दिनांक को प्राप्त निविदाओं में एक ही फर्म को विभिन्न जोनो में 3 एच०पी० सबमर्सिबल पम्पो के अधिष्ठापन एवं एम०एस० हट बनवाये जाने के कार्य में सबसे न्यूनतम निविदा दर के सापेक्ष नेगोसियेशन न करने के कारण संस्था को आर्थिक क्षति रु० 6037 -:

15 वें वित्त आयोग की निधि से विभिन्न जोनो में मियावाकी पद्धति से सघन वन बनाने हेतु सिंचाई व्यवस्था के लिए 03 एच० पी० सबमर्सिबल पम्पो एवं एम० एस हट का अधिष्ठापन कराया गया था। कार्य हेतु दिनांक 15-07-2022 को मा० महापौर महोदया जी की अध्यक्षता में स्वीकृत

33 कार्यो हेतु प्रस्ताव तैयार कर पत्रांक सं0-6290/उघान/2022-23 दिनांक 11-08-2022 को आमंत्रित की गयी। प्रथम बार में प्राप्त निविदाओं में केवल 01 फर्म द्वारा अपनी तकनीकी अर्हताएँ पूर्ण की गई थी निविदा में प्रथम बार में एकल फर्म की निविदा योग्य होने की दशा में वित्तीय निविदा नहीं खोली गयी इस कारण हेतु पुनः निविदा आमंत्रित की गयी। द्वितीय बार में प्राप्त निविदाओं में मैसर्स खुर्शीद अहमद एवं मै0 उज्ज्वल कन्सट्रक्शन की निविदाएं तकनीकी एवं वित्तीय रूप से सही पायी गयी जिसमें मै0 खुर्शीद अहमद की निविदा को सर्व न्यूनतम निविदा के आधार पर कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

मै0 खुर्शीद अहमद एक ही दिनांक में एक ही निविदा के आधार पर कविनगर जोन वार्ड-24 में लोहा मण्डी स्थित पुलिस चौकी वाला पार्क में 01 नग 03 एच0 पी0 क्षमता के सबमर्सिबल पम्प सैट अधिष्ठापन हेतु न्यूनतम निविदा 12.70 प्रतिशत न्यून पर कार्य कराया गया था वही दूसरी ओर मोहन नगर जोन वार्ड-70 वृन्दावन गार्डन अडिटोरियम वाला पार्क में 05 नग 03 एच0 पी0 क्षमता के सबमर्सिबल पम्प सैट अधिष्ठापन का कार्य व एम0 एस0 हट लगाये जाने के कार्य में 14.70 प्रतिशत न्यून पर कार्य किया गया था। एक ही दिनांक एवं एक ही निविदा के द्वारा एक ही फर्म द्वारा न्यूनतम निविदा की दरे भिन्न - भिन्न स्वीकृत किया जाना एवं ठेकेदार से उक्त न्यूनतम निविदा दर 14.70 प्रतिशत न्यून को आधार बनाकर नेगोसियेशन न किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक था।

संस्था द्वारा ठेकेदार से नेगोसियेशन न करने से एवं सबसे न्यून दर 14.70 प्रतिशत न्यून पर कार्य न कराने से संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी थी। कार्यो की स्थिति निम्नलिखित थी।

क्र०	कार्य का नाम/फर्म	निविदा दर जिसपर कार्य कराये गये	नेगोसियेशन करके ली जाने योग्य दर	अन्तर	माप-पुरि तका अनुसार लागत की धनराशि	कुल अधिक धनराशि
1	कविनगर जोन वार्ड-42 में रईसपुर स्थित रिक्त भूमि में मियावाकी पद्धति से बनाये जा रहे सघन	13.60 प्रतिशत न्यून	14.70 प्रतिशत न्यून	1.10 प्रतिशत	154425	1699

	वन की सिंचाई हेतु व्यवस्था हेतु 01 नग 3 एच0पी0 क्षमता के सबमर्सिबल पम्प सैट का अधिस्थापन मै0 खुर्शीदअहमद					
2	कविनगर जोन वार्ड-24 में लोहा मण्डी स्थित पुलिस चौकी वाला पाई में मियावाकी पद्धति से कराये जा रहे सघन वन सिंचाई हेतु 01 नग 03 एच0पी0 क्षमता के समबर्सिबल पम्प सैट अधिस्थापन का कार्य मै0 खुर्शीद अहमद	12.70 प्रतिशत न्यून	14.70 प्रतिशत न्यून	2 प्रतिशत	154877.35	3098
3	मोहन नगर जोन वार्ड-60 पाईप मार्केट स्थित पार्क में मियावाकी पद्धति से बनाये जा रहे सघन वल की सिंचानई व्यवस्था हेतु 02 नग 03 एच0पी0 क्षमता के सबर्मिसबल पम्प सैट अधिस्थापन एम0एस हट का कार्य मै0खुर्शीद अहमद	14.60 प्रतिशत न्यून	14.70 प्रतिशत न्यून	.10 प्रतिशत	309454	309
4	मोहन नगर जोन वार्ड-60 राजेन्द्र नगर औद्योगिक स्थित पार्क में मियावाकी पद्धति से बनाये जा रहे सघन वल की सिंचाई व्यवस्था हेतु 03 नग 03 एच0पी0 क्षमता के सबर्मिसबल पम्प सैट	14.50 प्रतिशत	14.70 प्रतिशत	.20 प्रतिशत	465512.05	931

	अधिस्तापन एम0एस हट का कार्य मै0 खुर्शीद अहमद					
						6037

8- विभिन्न ठेकों में आर्थिक क्षति सम्बन्धी अनियमिततायें :-

(क)- ठेका पंजी अनुरक्षित न किये जाने के कारण ठेकों के बकाया धनराशि की स्थिति अस्पष्ट एवं बकाया धनराशि रू0 1,21,53,755 की वसूली न किये जाने के कारण निगम को आर्थिक क्षति :-

(1) ठेका पार्किंग की पत्रावलियों की जाँच के समय ठेका पंजी माँगे जाने पर अवगत कराया गया कि नगर निगम द्वारा उसी कोई पंजी अनुरक्षित नहीं की गयी थी। जिससे नगर निगम द्वारा उठाये जाने वाले कुल ठेकों की संख्या एवं इनके बेस प्राईस का सत्यापन न हो सका। उपरोक्त ठेका पंजी के अभाव में यह भी ज्ञात न हो सका कि किन-किन ठेकों के ठेकेदारों पर ठेकों की बकाया धनराशि गत-विगत वर्षों की अवशेष थी। अतः ठेका पंजी अद्यावधिक पूर्ण कर सम्परीक्षा में प्रस्तुत कर सत्यापन कराया जाना अपेक्षित है।

(2) ठेका नेहरू नगर स्थित यशोदा हास्पिटल के बाहर पार्किंग स्थल की पत्रावली में संलग्न मैसर्स यू0आर0 कान्ट्रैक्टर्स के पत्र दिनांक 01.12.2022 के अनुसार "उक्त पार्किंग स्थल की ई-निविदा/खुली बोली में मै0 डी0डी0 बिल्डर्स एण्ड इन्टरियर्स ने उच्चतम बोली लगा कर दिनांक 16.08.2021 को निविदा प्राप्त की थी, परन्तु उक्त फर्म मै0 डी0डी0 बिल्डर्स द्वारा पार्किंग स्थल से सम्बन्धित को भी शुल्क नगर निगम गाजियाबाद कोष में जमा नहीं किया एवं साल भर पार्किंग का संचालन अवैध रूप से करते रहे"।

उक्त शिकायती पत्र के सन्दर्भ में नगर निगम के किसी भी उच्च अधिकारी/प्रभारी पार्किंग का प्रतिउत्तर पत्रावली में संलग्न नहीं था और न ही इस प्रकार की कार्यवाही का उल्लेख किया गया था। जिसके कारण उक्त शिकायत के सत्य होने की प्रबल सम्भावना थी। उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक प्रभावी कार्यवाही कर सम्परीक्षा को अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

(3) वर्ष 2021-22 की सम्परीक्षा आपत्तियों में निम्नांकित विवरण के अनुसार ठेका पार्किंग की धनराशियों बकाया थी -

क्र०	ठेका स्थल	ठेकेदार का नाम	बकाया धनराशि
1	कविनगर जोनान्तर्गत स्थित औद्योगिक क्षेत्र बुलन्दशहर रोड	श्री विजय चौधरी	63,75,000
2	सिटी जोन स्थित मेरठ रोड औद्योगिक क्षेत्र नन्दग्राम 150 फुटा रोड मण्डी के पास	मैसर्स एक्सी इन्जीनियर्स (श्री ऋषभ अगिनहोत्री)	48,78,755
3	वसुन्धरा जोन सहिबाबाद साईट-4	श्री बलराम कसाना	9,00,000
	योग		1,21,53,755

उक्त बकाया धनराशियों की वसूली न किये जाने के कारण नगर निगम करे रू0 1,21,53,755 की आर्थिक क्षति पहुँचाई गयी थी। अतः उक्त धनराशियों सहित समस्त ठेकों की बकाया धनराशियों के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुये वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

(ख)– ठेका पार्किंग आपुलेन्ट मॉल के बाहर में समयान्तर्गत ठेका धनराशि जमा न किये जाने के बावजूद धरोहर राशि रू0 3,51,622 जब्त न किया जाना कार्यादेश समय से जारी न किये जाने के कारण आर्थिक क्षति रू0 1,43,004 एवं अधिक दरों से पार्किंग शुल्क लिये जाने पर ठेका धनराशि जब्त न किया जाना अनियमित :- (1) सम्बन्धित ठेका पार्किंग पत्रावली की जाँच में प्रकाश में आया कि दिनांक 25.11.2022 को प्राप्त निविदाओं में बेस प्राईस रू0 14,06,488 के सापेक्ष अधिकतम बोली मैसर्स दुर्गाशीं इन्टर प्राइजेज की रू0 16,11,000 प्राप्त हुयी थी। प्रभारी पार्किंग नगर निगम गाजियाबाद के सूचना पत्र 190/पार्किंग/2022-23 दिनांक 23.01.2023 के अनुसार ठेका धनराशि रू0 16,11,000+18 प्रतिशत जी0एस0टी0 रू0 2,89,280 एवं 2 प्रतिशत टी0डी0एस0 रू0 32,220 कुल रू0 19,33,200 एक सप्ताह अर्थात् दिनांक 29.01.2023 तक जमा कराये जाने थे। धनराशि जमा न किये जाने की स्थिति में धरोहर राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जानी थी। उक्त के क्रम में फर्म द्वारा दिनांक 07.02.2023 में रू0 1,01,250 डिमांड ड्राफ्ट द्वारा रू0 1,41,000 एन0ई0एफ0टी0 द्वारा दिनांक 06.02.2023 को रू0 16,50,000 एवं दिनांक 24.02.2023 को रू0 40,950 कुल रू0 19,33,200 दिनांक 24.02.2023 तक जमा किये गये थे एवं इसी दिनांक को अनुबन्ध करते हुये

कार्यादेश संख्या 435/पार्किंग/2022-23 दिनांक 25.02.2023 जारी किया गया था। जबकि नीलामी की शर्तों के अनुसार एक सप्ताह में ठेके की धनराशि जमा न किये जाने पर बेस प्राईस का 25 प्रतिशत धरोहर राशि जब्त कर पुनः नीलामी प्रक्रिया की जानी चाहिये थी (धरोहर राशि $14,06,488 \times 25$ प्रतिशत = रू0 3,51,622) ।

(2) कार्यादेश जारी किये जाने की तिथि से एक वर्ष हेतु मान्य था। सूचना पत्र के अनुसार दिनांक 29.01.2023 के दये धनराशि जमा कराकर इसी तिथि को कार्यादेश जारी किया जाना चाहिये था। किन्तु समयान्तर्गत ठेका राशि जमा न किये जाने के कारण कार्यादेश दिनांक 25.02.2023 अर्थात् 27 दिन विलम्ब से जारी किये जाने के कारण नगर निगम को रू0 19,22,300 $\times 27 / 365$ रू0 1,43,004 की आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी थी। इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुये वसूली कर निगम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(3) अनुबन्ध की शर्त संख्या (2) के अनुसार पार्किंग स्थल पर खड़े होने वाले साईकिल से रू0 5, मोटर साईकिल से रू0 10 एवं कार, टैम्पो, थ्री व्हीलर आदि से रू0 20 प्रति 12 घण्टे की दर से वसूल किये जाने से एवं इससे अधिक दरों पर वसूली किये जाने पर निगम द्वारा ठेका निरस्त कर जमा धनराशि को जब्त कर ठेका पुनः नीलामी किया जाना था। ठेकेदार द्वारा पार्किंग स्थल पर लगे पार्किंग शुल्क बोर्डों को क्षतिग्रस्त करने पार्किंग शुल्क की रसीदों पर पार्किंग शुल्क की दरों का उल्लेख न करने एवं निर्धारित पार्किंग शुल्क से अधिक शुल्क वसूल किये जाने हेतु प्रभारी पार्किंग नगर निगम द्वारा ठेकेदार को नोटिस 138/पार्किंग/2023-24 दिनांक 06.05.2023 नोटिस 506/पार्किंग/2023-24 दिनांक 25.08.2023 नोटिस 812/पार्किंग/2023-24 दिनांक 27.12.2023 एवं नोटिस 868/पार्किंग/2023-24 दिनांक 09.01.2024 जारी कर अपना उत्तरदायित्व पूर्ण किया गया था जबकि अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ठेका निरस्त कर जमा धनराशि जब्त करते हुये पुनः ठेका नीलामी किया जाना चाहिये था। ऐसा न किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक था। उपरोक्त के सम्बन्ध में कार्यवाही अपेक्षित है।

(ग)– ठेका पार्किंग पुरानी सब्जी मण्डी में समय से ठेका धनराशि जमा न किये जाने के बावजूद धरोहर राशि रू0 1,11,312 जब्त न किया जाना कार्यादेश समय से जारी न किये जाने के कारण आर्थिक क्षति रू0 63,291 एवं अधिक दरों से पार्किंग शुल्क वसूल किये जाने पर ठेका धनराशि

जब्त न किया जाना अनियमित :- (1) उपर्युक्त ठेका पत्रावली की जाँच में प्रकाश में आया कि दिनांक 25.11.2022 को प्राप्त निविदाओं में बेस प्राईस रू0 5,64,375 के सापेक्ष अधिकतम बोली मैसर्स नार्थ इण्डिया डवलपर्स की रू0 6,21,000 प्राप्त हुयी थी। प्रभारी पार्किंग नगर निगम के सूचना पत्र 188/पार्किंग/2022-23 दिनांक 23.01.2023 द्वारा ठेका धनराशि रू0 6,21,000+18 प्रतिशत जी0एस0टी0 रू0 1,11,780 एवं 2 प्रतिशत टी0सी0एस0 रू0 12,240 कुल रू0 7,45,200 एक सप्ताह की अवधि अर्थात् दिनांक 29.01.2023 तक निगम कोष में जमा कराये जाने थे। उक्त के क्रम में फर्म द्वारा दिनांक 09.02.2023 को डिमान्ड ड्राफ्ट रू0 1,11,312 धरोहर धनराशि के रूप में जमा किया गया एवं अवशेष धनराशि रू0 6,33,888 डिमान्ड ड्राफ्ट संख्या 755299 दिनांक 20.02.2023 दिनांक 22.02.2023 को जमा किया गया जिसकी जमा रसीद दिनांक 28.02.2023 को जारी की गयी। इस प्रकार निर्धारित अवधि में ठेका राशि जमा न किये जाने के कारण धरोहर राशि रू0 1,11,312 जब्त कर पुनः ठेका नीलामी की जानी चाहिये थी। ऐसा न किया जाना अनियमित था।

(2) तत्पश्चात् प्रभारी पार्किंग द्वारा पत्रांक 451/पार्किंग/2022-23 दिनांक 01.03.2023 जारी किया गया था। कार्यादेश जारी किये जाने से एक वर्ष की अवधि हेतु मान्य था। सूचना पत्र के अनुसार देय धनराशि दिनांक 29.01.2023 तक जमा कर इसी तिथि को ही कार्यादेश जारी किया जाना चाहिये था। किन्तु समय से ठेका धनराशि जमा न करने के कारण कार्यादेश दिनांक 01.03.2023 को अर्थात् 13 दिन विलम्ब से जारी किये जाने के कारण निगम अधिकारियों द्वारा जानबूझ कर निगम को रू0 $7,45,200 \times 31 / 365 =$ रू0 63,291 की आर्थिक क्षति पहुचायी गयी थी। इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुये धनराशि की वसूली कर निगम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(3) अनुबन्ध की शर्त संख्या-(2) के अनुसार ठेकेदार को पार्किंग स्थल पर खड़े होने वाले साईकिल से रू0 5, मोटर साईकिल से रू0 10 एवं कार, टैम्पो, श्री व्हीलर आदि से रू0 20 प्रति 12 घण्टे की दर से वसूल किये जाने थे। इनसे अधिक दरों पर वसूली किये जाने पर निगम को ठेका निरस्त कर जमा धनराशि को जब्त कर पुनः ठेका नीलामी की कार्यवाहीली जानी थी। ठेकेदार द्वारा पार्किंग शुल्क से सम्बन्धित बोर्डों को क्षतिग्रस्त कर पार्किंग शुल्क की दरें छिपाने एवं पार्किंग शुल्क की रसीदों पर पार्किंग शुल्क की दरों का उल्लेख न करके पार्किंग शुल्क की अधिक वसूली किये जाने के सम्बन्ध में प्रभारी पार्किंग नगर निगम गाजियाबाद द्वारा नोटिस

98/पार्किंग/2023-24 दिनांक 25.08.2023 जारी कर मात्र औपचारिकता निभाई गयी थी, जबकि अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार अधिक दरों से पार्किंग शुल्क की वसूली किये जाने पर निगम द्वारा ठेका निरस्त करते हुये जमा धनराशि को जब्त कर पुनः ठेका नीलामी की प्रक्रिया की जानी चाहिये थी। ऐसा न किया जाना अत्यन्त आपत्तिजनक एवं अनियमित था। उक्त के सम्बन्ध में कार्यवाही अपेक्षित है।

(घ)- ठेका पार्किंग "वैशाली स्थित आर0के0 टावर वैशाली मार्केट संख्या-4 क्षितिज व निपुन प्लाजा दोनों टॉवरों के माध्यम " में समय से ठेका धनराशि जमा न किये जाने के बावजूद धरोवर धनराशि रू0 75,000 जब्त न किया जाना एवं कार्यादेश देर से जारी किये जाने के कारण रू0 25,249 की आर्थिक क्षति :-

ठेका पार्किंग पत्रावली की सम्परीक्षा से प्रकाश आया कि दिनांक 11.04.2023 ई निविदा सामानित की गयी थी। प्रभारी पार्किंग नगर निगम गाजियाबाद के पत्रांक 212/पार्किंग/2023-24 दिनांक 24.05.2023 द्वारा सूचना दी गयी कि इका धनराशि रू0 7,68,000 (जी0एस0टी0 सहित 9,21,600) बनती है जिसकी 25 प्रतिशत रू0 1,87,500 दिनांक 11.04.2023 डी0डी0संख्या 165445 द्वारा जमा की गयी है। शेष धनराशि रू0 7,34,100 एक सप्ताह की अवधि में अर्थात दिनांक 30.05.2023 तक जमा किये जाने थे। जिसके सापेक्ष मैसर्स अंकुर यादव द्वारा दिनांक 02.06.2023 को देय धनराशि रू0 7,34,100 रसीद संख्या 26127/053 द्वारा जमा की गयी। इस प्रकार सूचना स्वीकृति पत्र के अनुसार धरोहर धनराशि रू0 75,000 जब्त न करके पार्किंग प्रभारी नगर निगम गाजियाबाद द्वारा पत्रांक 374/पार्किंग/2023-24 दिनांक 09.06.2023 को जारी किया जाना अनियमित था।

(2) सम्बन्धित कार्यादेश जारी किये जाने की तिथि से एक वर्ष ककी अवधि हेतु मान्य था। कार्य स्वीकृति पत्र के अनुसार देय धनराशि दिनांक 30.05.2023 तक जमा किये जाने पर दिनांक 30.05.2023 को ही कार्यादेश जारी किया जाना चाहिये था। किन्तु समय से धनराशि जमा न किये जाने के कारण कार्यादेश दिनांक 09.06.2023 अर्थात 10 दिन विलम्ब से जारी किया गया। इस प्रकार विलम्ब अवधि हेतु नगर निगम को रू0 $9,21,600 \times 10 / 365 = 25,249$ की आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी थी।

(3) अनुबन्ध की शर्त संख्या -2 के अनुसार ठेकेदार को सड़क पटरी पर खड़े होने वाले साईकिल से 5 रू0, मोटर साईकिल से 10 रू0, कार, टैम्पो व थ्री व्हीलर से 20 रू0 प्रति 12 घण्टे की दर से वसूली की जाती थी। इससे अधिक धनराशि प्राप्त करने पर निगम को ठेका निरस्त करने का अधिकार था एवं जमा धनराशि को जब्त कर पुनः ठेका छोड़ा जाना चाहिये था। सम्बन्धित फर्म द्वारा पार्किंग शुल्क दरों को छिपाने एवं पार्किंग शुल्क की रसीदों पर पार्किंगशुल्क की दरों का उल्लेख न किये जाने के सम्बन्ध में पत्रांक 96/पार्किंग/2023-24 दिनांक 25.08.2023 द्वारा नोटिस जारी किया गया था। जिससे स्पष्ट था कि सम्बन्धित फर्म द्वारा अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन कर निर्धारित दरों से अधिक दरों पर वसूली की जा रही थी। निगम द्वारा अनुबन्ध ठेका निरस्त न कर मात्र नोटिस जारी कर औपचारिकता पूरी की जा रही थी। अतः ठेका निरस्तकरण एवं जमा धनराशि जब्त किये जाने हेतु कार्यवाही अपेक्षित है।

(ड)– ठेका पार्किंग “मोहन नगर मीरा कम्पनी से वर्ल्ड स्क्वायर मॉल तक” में समय से ठेका धनराशि का जमा न किये जाने के बावजूद धरोहर राशि रू0 70,000 जब्त न किया जाना एवं कार्यादेश देर से जारी किये जाने के कारण रू0 53,260 की आर्थिक क्षति :-

उपरोक्त ठेका पत्रावली की जाँच में पाया गया कि दिनांक 25.11.2022 को खुली बोली/ई-निविदा आमन्त्रीत की गयी थी। प्रभारी पार्किंग के पत्रांक 189/पार्किंग/2022-23 दिनांक 23.01.2023 द्वारा सूचना दी गयी कि ठेका धनराशि 9,00,000 (जी0एस0टी0 सहित रू0 10,80,000) एक सप्ताह में निगम कोष में जमा किया जाना था अन्यथा धरोहर राशि रू0 70,000 जब्त कर पुनः नीलामी प्रक्रिया की जानी थी। इस प्रकार उक्त से एक सप्ताह अर्थात् दिनांक 29.01.2023 तक जमा किये जाने थे जिसके सापेक्ष मै0 जे0बी0जे0एस0 द्वारा दिनांक 03.02.2023 को देय धनराशि जमा की गयी। इस प्रकार सूचना स्वीकृति पत्र के अनुसार धरोहर धनराशि रू0 70,000 जब्त न करके पार्किंग प्रभारी नगर निगम गाजियाबाद द्वारा पत्रांक 352/पार्किंग/ 2022-23 दिनांक 16.02.2023 जारी किया जाना अनियमित था।

(2) सम्बन्धित कार्यादेश जारी किये जाने के तिथि से एक वर्ष की अवधि हेतु मान्य था। कार्य स्वीकृति पत्र के अनुसार देय धनराशि दिनांक 29.01.2023 तक जमा किये जाने पर दिनांक 29.01.2023 को ही कार्यादेश जारी किया जाना चाहिये था, किन्तु समय से धनराशि जमा न किये

जाने के कारण कार्यादेश दिनांक 16.02.2023 अर्थात 18 दिन विलम्ब से जारी किया गया। इस प्रकार विलम्ब अवधि हेतु नगर निगम को $\text{रु0 } 10,80,000 \times 18 / 365 = 53,260$ की आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी थी।

(3) अनुबन्ध की शर्त संख्या-2 के अनुसार ठेकेदारको सड़क पटरी पर खड़े होने वाले वाहन साईकिल से 5 रु0, मोटर साईकिल से 10 रु0, कार, टैम्पो व थ्री व्हीलर से 20 रु0 प्रति 12 घण्टे की दर से वसूली की जाती थी। इससे अधिक धनराशि प्राप्त करने पर निगम को ठेका निरस्त करने का अधिकार था एवं जमा धनराशि को जब्त कर पुनः ठेका छोड़ा जाना चाहिये था। सम्बन्धित फर्म द्वारा पार्किंग शुल्क दरों को छिपाने एवं पार्किंग शुल्क की रसीदों पर पार्किंग शुल्क की दरों का उल्लेख न किये जाने के सम्बन्ध में पत्रांक 67/पार्किंग/2023-24 दिनांक 22.08.2023 व पत्रांक 103/पार्किंग/2023-24 दिनांक 25.08.2023 द्वारा नोटिस जारी किया गया था। जिससे स्पष्ट था कि सम्बन्धित फर्म द्वारा अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन कर निर्धारित दरों से अधिक दरों पर वसूली की जा रही थी। निगम द्वारा अनुबन्धानुसार ठेका निरस्त न कर मात्र नोटिस जारी कर औपचारिकता पूरी की जा रही थी। अतः ठेका निरस्तकरण एवं जमा धनराशि जब्त किये जाने हेतु कार्यवाही अपेक्षित है।

(च)– गौर मॉल के बराबर से एप्पल ट्री को जाने वाली सड़क के किनारे खाली पटरी पर पार्किंग ठेका की धनराशि जमा न किये जाने पर समय से ठेका निरस्तीकरण की कार्यवाही न लिये जाने के कारण नगर निगम को रु0 5,20,563 की आर्थिक क्षति :-

उपर्युक्त ठेका पत्रावली की जॉच में प्रकाश में आया कि दिनांक 25.11.2022 को उक्त ठेका की निविदा खोली गयी थी। जिसमें उच्चतम बोली के आधार पर रु0 10,05,000 में मे0 यू0आर0कान्ट्रेक्टर को सूचना पत्र संख्या 186/पार्किंग/2022-23 दिनांक 23.01.2023 द्वारा ठेका धनराशि रु0 10,05,000+18 प्रतिशत जी0एस0टी0 रु0 1,80,900 व 2 प्रतिशत टी0सी0एस0 रु0 20,100 कुल रु0 12,06,000 एक सप्ताह के अन्तर्गत अर्थात दिनांक 29.01.2023 तक समस्त धनराशि जमा कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर पुनः पार्किंग स्थल की नीलामी की जानी थी। सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा उक्त अवधि के अन्तर्गत न तो कोई धनराशि जमा की गयी और न ही उक्त पत्र का कोई जवाब दिया गया। इसके पश्चात्

निगम अधिकारियों द्वारा पुनः सूचना पत्र संख्या-1336/पार्किंग/2022-23 दिनांक 15.02.2023 द्वारा रू0 12,06,000 जमा करने हेतु आदेश दिये गये। जिसके क्रम में फर्म द्वारा अपने पत्र दिनांक 07.02.2023 द्वारा अपने पिता की बीमारी का कारण देते हुये उक्त धनराशि को दो किश्तों में जमा कराने का आग्रह किया गया। जिस पर निगम अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही न लेते हुये अन्तिम नोटिस संख्या 398/पार्किंग/2022-23 दिनांक 23.02.2023 द्वारा धनराशि जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर सम्बन्धित फर्म मै0 यू0आर0 कान्ट्रेक्टर द्वारा अपने पत्र दिनांक 28.02.2023 द्वारा पुनः अपने पिता की बीमारी के कारण दो किश्तों में धनराशि जमा किये जाने का आग्रह किया गया। जिस पर निगम अधिकारियों द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया और धरोहर राशि जब्त करते हुये ठेका निरस्त करने की कार्यवाही भी नहीं ली गयी प्रभारी पार्किंग गाजियाबाद नगर निगम के पत्रांक 576/पार्किंग/ 2022-23 दिनांक 31.03.2023 द्वारा मै0 यू0आर0 कान्ट्रेक्टर्स को सूचा पत्र दिया गया कि ठेके की धनराशि समयान्तर्गत निगम कोष में जमा नहीं करायी गयी जिस कारण उक्त में जमा धरोहर धनराशि रू0 2,51,250 को जब्त कराते हुये ठेका निरस्त किया गया है। ठेके की पुनः नीलामी दिनांक 11.04.2023 को की गयी किन्तु प्रदेश नगर निगम चुनाव होने के कारण उक्त निविदायें दिनांक 15.05.2023 को खोली गयी। ठेके की बेस प्राइस रू0 10,05,000 के सापेक्ष मैसर्स आर0 के0 कान्ट्रेक्टर की अधिकतम बोली रू0 11,37,786 प्राप्त हुई। प्रभारी पार्किंग के सूचना पत्र संख्या 213/पार्किंग/2023-24 दिनांक 24.05.2023 द्वारा रू0 11,37,786 + 18 प्रतिशत रू0 2,04,802 + 2 प्रतिशत टीसी0एस0 रू0 22,756= कुल रू0 13,65,344 - 2,51,250= 11,14,094 एक सप्ताह की अवधि अर्थात दिनांक 30.05.2023 तक निगम कोष में जमा कराने के आदेश दिये गये। जिसके क्रम में मैसर्स आर0के0 कान्ट्रेक्टर द्वारा दिनांक 02.06.2023 को समस्त धनराशि जमा करने पर पार्किंग प्रभारी के पत्रांक 407/पार्किंग/2023-24 दिनांक 17.06.2023 को कार्यादेश की दिनांक से एक वर्ष की अवधि हेतु कार्यादेश जारी कर दिया गया। जब सम्बन्धित फर्म द्वारा दिनांक 02.06.2023 को समस्त धनराशि जमा कर दी गयी थी तो इसी तिथि को कार्यादेश जारी कर दिया जाना चाहिये था ऐसा न किये जाने के कारण दिनांक 02.06.2023 से 16.06.2023 की अवधि कुल 15 दिवस विलम्ब के कारण रू0 13,65,344×15/365= 55,957 की आर्थिक क्षति नगर निगम को पहुँचायी गयी थी। पूर्व निरस्त ठेका जो कि मैसर्स यू0आर0 कान्ट्रेक्टर को स्वीकृत किया गया था, में ठेका शर्तों के अनुसार दिनांक 29.01.2023 तक ठेका धनराशि जमा न किये जाने के बावजूद भी

समय से ठेका निरस्तीकरण कार्यवाही न लेकर अनावश्यक रूप से पत्राचार करते हुये पुनः ठेका नीलामी की प्रक्रिया न किये जाने के कारण नगर निगम को निम्नवत् न्यूनतम आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी थी—

पूर्व स्वीकृत ठेका धनराशि के अनुसार = ₹0 12,06,000

क्षति की अवधि दिनांक 30.01.2023 से नये ठेके की कार्यादेश तिथि 17.06.2023 के पूर्व तक=141 दिवस।

क्षति $12,06,000 \times 141 / 366 = 4,64,606$

उक्त प्रकरण में अनावश्यक रूप से पत्राचार करने एवं समय से ठेका निरस्त न करने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उक्त अवधि में सम्बन्धित ठेके में अवैध रूप से पार्किंग वसूली का खेल खेला गया था अन्यथा ऐसा कोई भी कारण नहीं था कि समय से ठेका निरस्त कर पुनः नीलामी प्रक्रिया का पालन न किया जाना। अतः उक्त प्रकरण में उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुये आर्थिक क्षति ₹0 55,957+4,64,606 = 5,20,563 की वसूली उत्तरदायी से कराते हुये निगम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(2) अनुबन्ध की शर्त संख्या-2 के अनुसार साईकिल से 5 ₹0, मोटर साईकिल से 10 ₹0, कार, टैम्पो व श्री व्हीलर से 20 ₹0 प्रति 12 घण्टे की दर से वसूली की जानी थी। इससे अधिक दरों से वसूली किये जाने पर निगम द्वारा ठेका निरस्त कर जमा धनराशि जब्त की जानी थी। इससे अधिक दरों से वसूली किये जाने पर निगम द्वारा ठेका निरस्त कर जमा धनराशि जब्त की जानी थी। पार्किंग स्थल पर निर्धारित धनराशि से अधिक वसूलने एवं पार्किंग स्थल पर लगे पार्किंग शुल्क दरों को छिपाने के सम्बन्ध में पार्किंग प्रभारी नगर निगम गाजियाबाद द्वारा नोटिस 665/पार्किंग/2023-24 दिनांक 17.07.2023 एवं 100/पार्किंग/ 2023-24 दिनांक 25.08.2023 जारी किया गया था। इससे स्पष्ट था कि सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा निरन्तर अधिकारियों द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ठेका निरस्त न करके मात्र नोटिस जारी कर औपचारिकता पूरी की जा रही थी। अतः ठेका निरस्त कर जमा धनराशि जब्त किये जाने हेतु कार्यवाही अपेक्षित है।

(छ)– ठेका पार्किंग मदर डेयरी तहसील कम्पाउन्ड के बाहर स्थित पार्किंग स्थल को समय से ठेका धनराशि जमा न किये जाने के बावजूद धरोहर राशि रू0 1,67,750 जब्त न किया जाना एवं कार्यादेश देर से जारी किये जाने के कारण रू0 74,800 की आर्थिक क्षति :-

ठेका पत्रावली की जाँच में पाया गया कि दिनांक 25.11.2022 को खुली बोली/ई-निविदा आमन्त्रित की गयी थी। प्रभारी पार्किंग के पत्रांक 353/पार्किंग/2022-23 दिनांक 16.02.2023 द्वारा सूचना दी गयी कि ठेका धनराशि रू0 6,71,000 (जी0एस0टी0 सहित रू0 8,05,200) एक सप्ताह में निगम कोष में जमा किया जाना था अन्यथा धरोहर राशि रू0 1,67,750 जब्त कर पुनः नीलामी प्रक्रिया की जानी थी इस प्रकार खनन से एक सप्ताह अर्थात् दिनांक 22.02.2023 को जमा किये जाने थे। जिसके सापेक्ष मैसर्स शिव कन्सट्रक्सन द्वारा दिनांक 06.03.2023 को रू0 3,85,000 दिनांक 16.03.2023 को रू0 3,86,000 एवं दिनांक 20.03.2023 को रू0 34,200 कुल धनराशि रू0 8,05,200 जमा किया गया था। इस प्रकार सूचना स्वीकृति पत्र के अनुसार धरोहर धनराशि रू0 1,67,750 जब्त न करके पार्किंग प्रभारी नगर निगम गाजियाबाद द्वारा पत्रांक 544/पार्किंग/2022-23 दिनांक 21.03.2023 जारी किया जाना अनियमित था।

(2) दिनांक 25.11.2022 को ई-निविदा/खुली बोली का आयोजन किया गया जिसमें दोनों निविदा में प्राप्त धनराशि एक समान होने पर पार्किंग प्रभारी नगर निगम गाजियाबाद के पत्र संख्या 192 व 193/पार्किंग/2022-23 दिनांक 23.01.2023 को मैसर्स ओम इन्टरप्राइजेज एवं मैसर्स शिव कान्स0 को निगोसियेशन हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। जिसके प्रतिउत्तर में मैसर्स ओम इन्टरप्राइजेज के पत्र दिनांक 08.02.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि मै0 6,50,000 रू की धनराशि से अधिक में पार्किंग स्थल लेने के इच्छुक नहीं हूँ। मै0 शिव कान्स0 के द्वारा दिनांक 27.01.2022 को अवगत कराया गया कि मै पार्किंग स्थल ठेके को रू0 6,71,000 में लेने को तैयार हूँ। दिनांक 08.02.2023 के उपरान्त दिनांक 09.02.2023 को मै0 शिव कान्स0 को सूचना पत्र जारी करके एक सप्ताह की अवधि के उपरान्त दिनांक 15.02.2023 को कार्यादेश जारी होना था। पार्किंग प्रभारी नगर निगम गाजियाबाद के पत्रांक 544/पार्किंग/2022-23 दिनांक 21.03.2023 द्वारा 34 दिवस विलम्ब से मै0 शिव कान्स0 को कार्यादेश जारी किया गया था। इस प्रकार विलम्ब अवधि हेतु नगर निगम को $\text{रू0 } 8,05,200 \times 34 / 366 = \text{रू0 } 74,800$ की आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी थी।

(3) अनुबन्ध की शर्त संख्या-2 के अनुसार ठेकेदार को सड़क पटरी पर खड़े होने वाले साईकिल से 5 रू0, मोटर साईकिल से 10 रू0, कार, टैम्पो व थ्री व्हीलर से 20 रू0 प्रति 12 घण्टे की दर से वसूली की जानी थी। इससे अधिक धनराशि प्राप्त करने पर निगम को ठेका निरस्त करने का अधिकार था एवं जमा धनराशि को जब्त कर पुनः ठेका छोड़ा जाना चाहिये था। सम्बन्धित फर्म द्वारा पार्किंग शुल्क दरों को छिपाने एवं पार्किंग शुल्क की रसीदों पर पार्किंग शुल्क की दरों का उल्लेख न किये जाने के सम्बन्ध में पत्रांक 148/पार्किंग/2023-24 दिनांक 09.05.2023, पत्रांक 771/पार्किंग/2023-24 दिनांक 02.08.2023 द्वारा नोटिस जारी किया गया था। जिससे स्पष्ट था कि सम्बन्धित फर्म द्वारा अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन कर निर्धारित दरों पर वसूली की जा रही थी। निगम द्वारा अनुबन्धानुसार ठेका निरस्त न कर मात्र नोटिस जारी कर औपचारिकता पूरी की जा रही थी। अतः ठेका निरस्तकरण एवं जमा धनराशि जब्त किये जाने हेतु कार्यवाही अपेक्षित है।

(ज)- गौर मॉल गेट के सामने पार्किंग ठेका की धनराशि जमा न किये जाने पर समय से ठेका निरस्तकरण की कार्यवाही न लिये जाने के कारण नगर निगम को रू0 5,25,477 की आर्थिक

क्षति:- (1) उपर्युक्त ठेका पत्रावली की जाँच में प्रकाश में आया के दिनांक 25.11.2022 को उक्त ठेका की निविदा खोली गयी थी। जिनमें उच्चतम बोली के आधार पर रू0 10,11,000 में यह ठेका मैसर्स यू0आर0 कान्ट्रैक्टर को सूचना पत्र संख्या 187/पार्किंग/2022-23 दिनांक 23.01.2023 द्वारा ठेका धनराशि रू 10,11,000 + 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 रू0 1,81,980 + 2 प्रतिशत टी0सी0एस0 रू0 20,200 कुल रू0 12,13,200 एक सप्ताह के अन्तर्गत अर्थात् दिनांक 29.01.2023 तक समस्त धनराशि जमा करराये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर पुनः पार्किंग स्थल की नीलामी की जानी थी। सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा उक्त अवधि के अन्तर्गत न तो कोई धनराशि जमा की गयी और न ही उक्त पत्र का कोई जवाब दिया गया। इसके पश्चात् निगम अधिकारियों द्वारा पुनः सूचना पत्र संख्या 337/पार्किंग/2022-23 दिनांक 15.02.2023 द्वारा रू0 12,13,000 जमा कराने हेतु आदेश दिये गये। जिसके क्रम में फर्म द्वारा अपने पत्र दिनांक 07.02.2023 द्वारा अपेन पिता की बीमारी का कारण देते हुये उक्त धनराशि दो किश्तों में जमा कराने का आग्रह किया गया। जिस पर निगम अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही न लेते हुये अन्तिम नोटिस

संख्या 399/पार्किंग/2022-23 दिनांक 23.02.2023 द्वारा धनराशि जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर सम्बन्धित फर्म मैसर्स यू0आर0कान्ट्रैक्टर द्वारा अपने पत्र दिनांक 27.02.2023 द्वारा पुनः अपने पिता की बीमारी के कारण दो किश्तों में धनराशि जमा किये जाने का आग्रह किया गया। जिस पर निगम अधिकारियों द्वारा कोई आदेश नहीं लिया गया और न तो धरोहर राशि जब्त करते हुये ठेका निरस्त करने की कार्यवाही भी नहीं ली गयी। इस बीच द्वितीय बोली दाता मैसर्स वंश कन्सट्रक्शन द्वारा दिनांक 20.03.2023 द्वारा अपनी अधिकतम बोली रू0 10,10,000 पर ठेका लेने का आग्रह किया गया किन्तु निगम अधिकारियों द्वारा इस पर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। तत्पश्चात् उक्त ठेके को निरस्त कर रू0 60,000 धरोहर धनराशि जब्त करते हुये ठेके की पुनः नीलामी दिनांक 11.04.2023 को की गयी किन्तु प्रदेश नगर निगम चुनाव होने के कारण उक्त निविदायें दिनांक 15.05.2023 को खोली गयी। ठेके की बेस प्राईस रू0 10,11,000 के सापेक्ष मैसर्स आर0के0 कान्ट्रैक्टर की अधिकतम बोली रू0 12,37,786 प्राप्त हुयी। प्रभारी पार्किंग के सूचना पत्र संख्या 211/पार्किंग/2023-24 दिनांक 24.05.2023 द्वारा रू0 12,37,786 + 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 रू0 2,22,802 + 2 प्रतिशत टी0सी0एस0 रू0 14,85,344 एक सप्ताह की अवधि अर्थात् दिनांक 30.05.2023 तक निगम कोष में जमा कराने के आदेश दिये गये। जिसके क्रम में मैसर्स आर0के0 कान्ट्रैक्टर्स द्वारा दिनांक 03.06.2023 को समस्त धनराशि जमा करने पर पार्किंग प्रभारी के पत्रांक 409/पार्किंग/2023-24 दिनांक 17.06.2023 को कार्यादेश की दिनांक से एक वर्ष की अवधि हेतु कार्यादेश जारी कर दिया गया। जब सम्बन्धित फर्म द्वारा दिनांक 03.06.2023 को समस्त धनराशि जमा कर दी गयी थी तो इसी तिथि को कार्यादेश जारी कर दिया जाना चाहिये था। ऐसा न किये जाने के कारण दिनांक 03.06.2023 से दिनांक 17.06.2023 की अवधि कुल 14 विलम्ब के कारण रू0 14,85,344 × 14 / 366 = 56,816 की आर्थिक क्षति नगर निगम को पहुँचायी गयी थी।

(2) पूर्व निरस्त ठेका, जो कि मैसर्स यू0आर0 कान्ट्रैक्टर को स्वीकृत किया गया था, में ठेका शर्त के अनुसार दिनांक 29.01.2023 तक ठेका धनराशि जमा न किये जाने के बावजूद भी समय से ठेका निरस्तकरण कार्यवाही न लेकर अनावश्यक रूप से पत्राचार करते हुये पुनः ठेका नीलामी की प्रक्रिया न किये जाने के कारण नगर निगम को निम्नवत् न्यूनतम आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी थी—
पूर्व स्वीकृत ठेका धनराशि के अनुसार रू0 12,13,200
क्षति की अवधि दिनांक 30.01.2023 से ठेके की कार्यादेश तिथि 17.06.2023 के पूर्व तक 141 दिवस

क्षति $12,13,200 \times 141 / 365 = 4,68,661$

उक्त प्रकरण में अनावश्यक रूप से पत्राचार करने एवं समय से ठेका निरस्त न करने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उक्त अवधि में सम्बन्धित ठेके में अवैध रूप से पार्किंग वसूली का खेल खेला गया था। अन्यथा ऐसा कोई भी कारण नहीं था कि समय से ठेका निरस्त कर पुनः नीलामी प्रक्रिया का पालन न किया जाता। अतः उक्त प्रकरण में उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुये आर्थिक क्षति $\text{रु} 56,816 + 4,68,661 =$ कुल $\text{रु} 5,25,477$ की वसूली उत्तरदायी से कराते हुये निगम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(3) अनुबन्ध की शर्त संख्या-2 के अनुसार साईकिल से 5 रु0, मोटर साईकिल से 10 रु0, कार, टैम्पो व थ्री व्हीलर से 20 रु0 प्रति 12 घण्टे की दर से वसूली की जानी थी। इससे अधिक दरों से वसूली किये जाने पर निगम द्वारा ठेका निरस्त कर जमा धनराशि जब्त की जानी थी। पार्किंग स्थल पर निर्धारित धनराशि से अधिक वसूलने एवं पार्किंग स्थल पर लगे पार्किंग शुल्क दरों को छिपाने के सम्बन्ध में पार्किंग प्रभारी नगर निगम गाजियाबाद द्वारा नोटिस 664/पार्किंग/2023-24 दिनांक 17.07.2023 एवं 100/पार्किंग/2023-24 दिनांक 25.08.2023 जारी किया गया था। इससे स्पष्ट था कि सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा निरन्तर अधिक दरों से वसूली की जा रही थी किन्तु निगम अधिकारियों द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ठेका निरस्त न करके मात्र नोटिस जारी कर औपचारिकता पूरी की जा रही थी। अतः ठेका निरस्त कर जमा धनराशि जब्त किये जाने हेतु कार्यवाही अपेक्षित है।

(झ)– ठेका पार्किंग श्री कृष्ण वाटिका सैक्टर-4 वैशाली में समय से ठेका धनराशि जमा न किये जाने के बावजूद धरोहर राशि रु0 2,00,000 जब्त न किया जाना एवं कार्यादेश समय से जारी न किये जाने के कारण आर्थिक क्षति रु0 1,39,397 :-

(1) उपर्युक्त ठेका पत्रावली की जाँच में प्रकाश में आया कि दिनांक 25.11.2022 को प्राप्त निविदाओं में बेस प्राईस रु0 4,12,500 के सापेक्ष अधिकतम बोली श्री अरविन्द कुमार की रु0 8,00,000 प्राप्त हुयी थी। जिसके क्रम में प्रभारी पार्किंग नगर निगम गाजियाबाद के सूचना पत्र संख्या 185/पार्किंग/ 2022-23 दिनांक 23.01.2023 द्वारा ठेका धनराशि रु 8,00,000 + 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 रु0 1,44,000 + 2 प्रतिशत टी0सी0एस0 रु0 16,000 कुल रु0 9,60,000 एक

सप्ताह की अवधि अर्थात् दिनांक 29.01.2023 तक जमा किये जाने के आदेश दिये गये थे। निर्धारित अवधि में धनराशि जमा न करने पर धरोहर धनराशि जब्त कर पुनः नीलामी प्रक्रिया की जानी थी। जिसके सापेक्ष श्री अरविन्द कुमार द्वारा निर्धारित अवधि में धनराशि जमा न कराकर दिनांक 17.02.2023 को जमा किया गया जिसकी रसीद दिनांक 28.02.2023 में जारी की गयी। इस प्रकार निर्धारित अवधि में देय राशि जमा न किये जाने पर भी धरोहर राशि रू0 2,00,000 जब्त न करके प्रभारी द्वारा कार्यादेश संख्या 546/पार्किंग/2022-23 दिनांक 23.03.2023 जारी कर दिया गया। जो अनियमित था।

(2) सम्बन्धित कार्यादेश जारी किये जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि हेतु मान्य था। काग्र सूचना पत्र के अनुसार देय धनराशि दिनांक 29.01.2023 को ही कार्यादेश जारी किया जाना चाहिये था, किन्तु समय से धनराशि जमा न किये जाने के कारण कार्यादेश दिनांक 23.03.2023 अर्थात् 53 दिन विलम्ब से जारी किया गया। जिसके कारण नगर निगम को निम्नवत् आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी थी।

$$\text{रू0 } 9,60,000 \times 53 / 365 = 1,39,397$$

इसकी उत्तरदायी से वसूली कर निगम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(3) अनुबन्ध की शर्त संख्या-2 के अनुसार ठेकेदार को पार्किंग स्थल पर खड़े होने वाले साईकिल से 5 रू0, मोटर साईकिल से 10 रू0, कार, टैम्पो व थ्री व्हीलर से 20 रू0 प्रति 12 घण्टे की दर से वसूली की जानी थी। इससे अधिक दरों से वसूली किये जाने पर निगम को ठेका निरस्त करने एवं जमा धनराशि को जब्त कर पुनः ठेका छोड़े जाने का अधिकार था। सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा पार्किंग शुल्क सम्बन्धी बोर्डों के क्षतिग्रस्त करने एवं निर्धारित दरों से अधिक धनराशि वसूल किये जाने पर पार्किंग प्रभारी, नगर निगम गाजियाबाद द्वारा पत्रांक 396/पार्किंग/2023-24 दिनांक 14.06.2023, 593/पार्किंग/2023-24 दिनांक 05.07.2023 एवं पत्रांक 104/पार्किंग/2023-24 दिनांक 25.08.2023 द्वारा नोटिस जारी किये गये थे। जिससे स्पष्ट था कि सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करते हुये निरन्तर अधिक दरों से वसूली की जा रही थी किन्तु निगम अधिकारियों द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ठेका निरस्त न करते हुये मात्र नोटिस देने की कार्यवाही कर औपचारिकता निभाई जा रही थी। अतः अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ठेका निरस्त कर जमा धनराशि जब्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित है।

(ज)– ठेका पार्किंग सरस्वती शिशु मन्दिर क्रीड़ा स्थल में समय से ठेका धनराशि जमा न किये जाने के बावजूद धरोहर राशि रू0 2,35,000 जब्त न किया जाना एवं कार्यादेश देर से जारी किये जाने के कारण रू0 22,158 की आर्थिक क्षति :-

(1) उपरोक्त ठेका पत्रावली की जाँच में पाया गया कि दिनांक 31.05.2023 को ई-निविदा आमन्त्रित की गयी थी। प्रभारी पार्किंग के पत्रांक 527/पार्किंग/2023-24 दिनांक 08.06.2023 द्वारा सूचा दी गयी कि ठेका धनराशि रू0 9,62,800 (जी0एस0टी0 सहित रू0 11,55,360) एक सप्ताह में निगम कोष में जमा किया जाना था अन्यथा धरोहर राशि रू0 2,35,000 जब्त कर पुनः नीलामी प्रक्रिया की जानी थी। इस प्रकार उक्त से एक सप्ताह अर्थात् दिनांक 14.06.2023 को जमा किये जाने थे जिसके सापेक्ष मैसर्स पवन कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 20.06.2023 को देय धनराशि जमा की गयी। इस प्रकार सूचना स्वीकृति पत्र के अनुसार धरोहर धनराशि रू0 2,35,000 जब्त न करके पार्किंग प्रभारी नगर निगम गाजियाबाद द्वारा पत्रांक 475/पार्किंग/2022-23 दिनांक 21.06.2023 जारी किया जाना अपेक्षित था।

(2) सम्बन्धित कार्यादेश जारी किये जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि हेतु मान्य था। कार्य स्वीकृति पत्र के अनुसार देय धनराशि दिनांक 14.06.2023 तक जमा किये जाने पर दिनांक 14.06.2023 को ही कार्यादेश जारी किया जाना चाहिये थे, किन्तु समय से धनराशि जमा न किये जाने के कारण कार्यादेश दिनांक 21.06.2023 अर्थात् 07 दिन विलम्ब से जारी किया गया। इस प्रकार विलम्ब अवधि हेतु नगर निगम को रू0 $11,55,360 \times 7 / 365 =$ रू0 22,158 की आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी थी।

(3) अनुबन्ध की शर्त संख्या-2 के अनुसार ठेकेदार को सड़क पटरी पर खड़े होने वाले वाहन साईकिल से 5 रू0, मोटर साईकिल से 10 रू0, कार, टैम्पो व थ्री व्हीलर से 20 रू0 प्रति 12 घण्टे की दर से वसूली की जानी थी। इससे अधिक धनराशि प्राप्त करने पर निगम को ठेका निरस्त करने का अधिकार था एवं जमा धनराशि को जब्त कर पुनः ठेका छोड़ा जाना चाहिये था। सम्बन्धित फर्म द्वारा पार्किंग शुल्क दरों को छिपाने एवं पार्किंग शुल्क की रसीदों पर पार्किंग शुल्क की दरों का उल्लेख न किये जाने के सम्बन्ध में पत्रांक 618/पार्किंग/ 2023-24 दिनांक 25.10.2023 द्वारा नोटिस जारी किया गया था। जिससे स्पष्ट था कि सम्बन्धित फर्म द्वारा अनुबन्ध की

शर्तों का उल्लंघन कर निर्धारित दरों से अधिक दरों पर वसूली की जा रही थी। निगम द्वारा अनुबन्धानुसार ठेका निरस्त कर मात्र नोटिस जारी कर औपचारिकता पूरी की जा रही थी। अतः ठेका निरस्त कर जमा धनराशि जब्त किये जाने हेतु कार्यवाही अपेक्षित है।

(ट)– साईट-1 इन्डस्ट्रीयल एरिया बुलन्दशहर रोड गाजियाबाद का पार्किंग कठेका बिना निविदा प्रक्रिया के सीधे आवंटित किये जाना अनियमित आर्थिक क्षति रू0 5,49,300 :-

उपरोक्त ठेका पत्रावली की जॉच में प्रकाश में आया कि प्रभारी पार्किंग नगर निगम गाजियाबाद द्वारा प्रबन्धक एलिन इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड कविनगर गाजियाबाद को नोटिस पत्रांक 2719/ प्रा0पार्किंग/2021-22 दिनांक 28.02.2022 जारी किया गया कि बिना अनुमति प्राप्त किये सरकारी सम्पत्ति का उपयोग पार्किंग हेतु किया जा रहा है। नगर निगम की निर्धारित पार्किंग शुल्कके अनुसार माह मार्च 2022 से मार्च 2023 की अवधि हेतु रू0 5,85,000 पार्किंग शुल्क देय था। जिसके जिसके प्रतिउत्तर में प्रबन्धक एलिन इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा अपने संस्थान द्वारा सामाजिक कार्यों करने का हवाला देते हुये वर्ष 2022-23 हेतु रू0 4,00,000 प्रतिवर्ष की दर पर पार्किंग शुल्क लगाये जाने का निवेदन अपने पत्रांक **ELIN/60/22-23** दिनांक 08.04.2022 द्वारा किया गया। जिसके क्रम में प्रभारी पार्किंग द्वारा पत्रांक 3228/ पार्किंग/2022-23 दिनांक 28.04.2022 द्वारा उक्त पत्र के आधार पर यह ठेका रू0 4,00,000 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 रू0 22,000 एवं 2 प्रतिशत टी0सी0एस0 रू0 8000 कुल रू0 4,80,000 जमा कराते हुये वर्ष 2022-23 हेतु मैसर्स एलिन इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड को दे दिया गया। जिस हेतु निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पर अनुबन्ध भी नहीं कराया गया था। तत्पश्चात् वर्ष 2023-24 हेतु भी डी0डी0 संख्या 001551 दिनांक 10.04.2023 द्वारा रू0 4,80,000 जमा किये गये थे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जब नगर निगम द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु रू0 5,85,000 का पार्किंग शुल्क आरोपित किया गया था तो उसे बिना किसी आधार के अपनी मनमर्जी से रू0 4,00,000 परिवर्तित करके नगर निगम को निम्नवत् आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी थी।

वर्ष 2022-23 हेतु रू0 5,85,000 – 4,00,000 = रू0 1,85,000

वर्ष 2023-24 हेतु रू0 6,72,750 – 4,00,000 = रू0 2,72,750

(15 प्रतिशत वृद्धि के साथ न्यूनतम वृद्धि)

	रु0 4,57,750
(+) 18 प्रतिशत जी0एस0टी0व 2 प्रतिशत टी0सी0एस0	= रु0 91,550
कुल योग	= रु0 5,49,300

इस प्रकार जहाँ एक और निर्धारित शुल्क से कम शुल्क पर एवं दूसरे वर्ष में न्यूनतम 15 प्रतिशत वृद्धि न कर नगर निगम को आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी थी वही दूसरी और निविदा प्रक्रिया का अनुपालन न किया जाना भी आपत्तिजनक था। उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(ठ)– ठेका पार्किंग यशोदा अस्पताल के बाहर में समय से ठेका धनराशि जमा न किये जाने के बावजूद धरोहर राशि रु0 1,30,000 जब्त न किया जाना एवं कार्यादेश समय से जारी न किये जाने के कारण आर्थिक क्षति रु0 1,24,767 :-

(1) ठेका पत्रावली की जाँच में प्रकाश में आया कि दिनांक 25.11.2022 को प्राप्त निविदाओं में बेस प्राईस रु0 12,80,000 के सापेक्ष अधिकतम बोली रु0 16,55,000 श्री मनजीत सिंह की प्राप्त हुई थी। किन्तु श्री मनजीत सिंह के प्रपत्र अपूर्ण होने के कारण द्वितीय बोलीदाता श्री अरविन्द कुमार को रु0 16,50,000 पर स्वीकृत की गयी। प्रभारी पार्किंग के पत्रांक 191/पार्किंग/2022-23 दिनांक 23.01.2023 ठेका धनराशि रु0 16,50,000 + 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 रु0 2,97,000 एवं 2 प्रतिशत टी0सी0एस0 रु0 33,000 कुल रु0 19,80,000 एक सप्ताह की अवधि अर्थात् दिनांक 29.01.2023 तक निगम में जमा कराये जाने थे। निर्धारित अवधि में धनराशि जमा न किये जाने पर धरोहर राशि जब्त कर पुनः नीलामी की कार्यवाही ली जानी थी। श्री अरविन्द द्वारा निर्धारित अवधि में ठेका धनराशि जमा न करके डिमांड ड्राफ्ट 699540 दिनांक 03.02.2023 जमा कर दिनांक 04.02.2023 को अनुबन्ध किया गया। पत्रांक 372/पार्किंग/2022-23 दिनांक 20.02.2023 जारी किया गया। निर्धारित अवधि में शर्तानुसार ठेका धनराशि जमा न किये जाने पर धरोहर राशि रु0 1,30,000 जब्त कर पुनः ठेका नीलामी प्रक्रिया न कियाजाना अनियमित था।

(2) सम्बन्धित कार्यादेश जारी किये जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि हेतु मान्य था। कार्य के सूचना पत्रानुसार देय धनराशि दिनांक 29.01.2023 तक जमा कराकर इसी तिथि को कार्यादेश जारी किया जाना चाहिये था। किन्तु समय से धनराशि जमा न करने एवं अनुबन्ध करने

के 16 दिन बाद कार्यादेशजारी किये जाने के कारण जनबूझ कर नगर निगम को दिनांक 29.01.2023 से दिनांक 20.02.2023 तक अर्थात् 23 दिन हेतु रू0 19,80,000×23= रू0 1,24,767 की आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी थी। उत्तरदायी से इसकी वसूली कर निगम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(3) अनुबन्ध की शर्त संख्या-2 के अनुसार ठेकेदार को पार्किंग स्थल पर खड़े होने वाले वाहन साईकिल से 5 रू0, मोटर साईकिल से 10 रू0, कार, टैम्पो व थ्री व्हीलर से 20 रू0 प्रति 12 घण्टे की दर से वसूली की जानी थी। इससे अधिक दरों पर वसूली किये जाने पर निगम को ठेका निरस्त करने एवं जमा धनराशि को जब्त कर पुनः ठेका नीलामी की कार्यवाही की जानी थी। सम्बन्धित ठेकेदार श्री अरविन्द कुमार (मैसर्स भारद्वाज ट्रेडिंग कम्पनी) द्वारा पार्किंग शुल्क सम्बन्धी बोर्डों को क्षतिग्रस्त कर पार्किंग शुल्क की दरों छिपाने व पार्किंग शुल्क की रसीदों पर दरों का उल्लेख न कर अधिक दरों से पार्किंग शुल्क वसूल किये जाने के कारण नोटिस पत्रांक 137/पार्किंग/2023-24 दिनांक 06.05.2023, पत्रांक 99/पार्किंग/2023-24 दिनांक 25.08.2023 एवं नोटिस पत्रांक 617/पार्किंग/2023-24 दिनांक 25.10.2023 जारी कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली गयी थी। जबकि अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ठेका निरस्त करते हुये जमा धनराशि को जब्त कर पुनः ठेका नीलामी की प्रक्रिया की जानी चाहिये थी। उक्त के सम्बन्ध में कार्यवाही लिया जाना अपेक्षित है।

(ड)- आलोच्य अवधि में पार्किंग शुल्क कर से कम आय प्राप्त होने के कारण नगर निगम को आर्थिक क्षति रू0 2,16,37,017 :-

शासनादेश संख्या 343/नौ-99-78ज-97 दिनांक 15.04.1997 के अनुसार नगर निकायों को अपनी आय में वृद्धि हेतु ठेके की मद में प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये वर्ष 2018-19 में प्राप्त आय के आधार पर गणना की जाय तो वर्ष 2022-23 में पार्किंग शुल्क के रूप में रू0 3,92,36,529 प्राप्त होनी चाहिये थी। वर्ष 2018-19 में उक्त मद में प्राप्त आय क्रमशः रू0 2,24,33,613 पार्किंग शुल्क से प्राप्त आय थी।

उक्त के सम्बन्ध में गत एवं विगत वर्षों में निरन्तर आपत्तियाँ उठाये जाने के बावजूद भी उक्त मदों में शासनादेशानुसार आय में वृद्धि नहीं हो रही थी। आलोच्य अवधि के क्लासीफाईड


रजिस्टर एवं बजट के अनुसार पार्किंग शुल्क मद में रू0 1,76,25,512 प्राप्त थे। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है गत एवं विगत में विज्ञापन शुल्क में भी वृद्धि न होने सम्बन्धित आपत्ति उठायी गयी थी। जिसके लक्ष्य के सापेक्ष निगम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये विज्ञापन मद की आय को बढ़ाया गया था। किन्तु निगम द्वारा पार्किंग शुल्क की आय बढ़ाये जाने हेतु ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया था। जिसके कारण नगर निगम को प्रतिवर्ष लाखों रूपये की आर्थिक क्षति हो रही थी। आलोच्य अवधि में भी उक्त मद में नगर निगम को रू0 3,92,65,529-1,76,25,512= रू0 2,16,37,017 की न्यूनतम आर्थिक क्षति हुयी थी।

अतः उक्त के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुये उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक/प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु नगर निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

9- अधिभार के प्रकरण :- इस सम्परीक्षा आख्या भाग-क के मुख्य प्रस्तर-1 से 8 में अनेक वित्तीय अनियमितताएँ इस प्रकृति की है, जिससे नगर निगम निधि को क्षति, हानि एवं अपव्यय नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पहुँचायी गयी है, जिन पर नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा-के अधीन निदेशालय स्तर से समुचित निर्देश प्राप्त होने पर अधिभार के प्रस्ताव तैयार कर उत्तरदायित्व नियत करते हुये समुचित कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है।

स्थान : मेरठ

दिनांक : 16.04.2024


(देवेन्द्र)
उप निदेशक
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

भाग—'ख'

1. गत सम्परीक्षा आख्या की समीक्षा :- आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा के समय गत वर्ष की सम्परीक्षा आख्या संस्था कार्यालय में अप्राप्त थी। संस्था द्वारा गत-विगत वर्षों की अनिस्तारित आपत्तियों के निस्तारणार्थ अनुपालन आख्या तैयार कर सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी थी जिससे इसकी समीक्षा किया जाना सम्भव न हो सका। गत एवं विगत वर्षों की अत्याधिक 3813 आपत्तियां वर्ष 2020-21 तक निस्तारण हेतु शेष थी। इतनी भारी मात्रा में अनिस्तारित आपत्तियों का शेष रहना आपत्तियों के निस्तारण हेतु निगम के उच्चाधिकारियों की उदासीनता का द्योतक है। अतः संलग्न परिशिष्ट-1 में संदर्भित आपत्तियों के निस्तारणार्थ नगर आयुक्त एवं लेखाधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

2- परिसम्पत्ति एवं दायित्व का विवरण तैयार न कराया जाना अनियमित :- आलोच्य अवधि हेतु निगम द्वारा नकद परिसम्पत्ति एवं दायित्व का विवरण नहीं बनाया गया था। नकद परिसम्पत्ति एवं दायित्व का विवरण नहीं बनाये जाने से निगम की आर्थिक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। नकद परिसम्पत्ति एवं दायित्व का विवरण बनाकर सम्परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

3. वित्तीय स्थिति :- सम्परीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों के आधार जहां तक सुनिश्चित किया जा सका आलोच्य अवधि में नगर निगम की वित्तीय स्थिति संलग्न परिशिष्ट-2 के अनुसार थी।

टिप्पणी (1) :-आय-व्यय का विवरण/संकलन बाह्य गणना पर आधारित है जो अनन्तिम एवं परिवर्तनीय है।

(2) बजट में उल्लिखित प्रारम्भिक शेष रु0 4,52,97,47,789 के सापेक्ष निगम निधि तथा यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 के प्रारम्भिक शेष रु0 4,53,30,75,345 में रु0 33,27,556 का अन्तर था। इसी प्रकार बजट में उल्लिखित अन्तिम शेष रु0 4,29,69,38,902 के सापेक्ष निगम निधि एवं यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 की रोकड़बहीयों में अंकित इतिशेष रु0 4,30,02,66,457.83 में रु0 33,27,555.83 का अन्तर था। प्रारम्भिक शेष एवं इतिशेष के उक्त अन्तर का कारण स्पष्ट करते हुए इसे शुद्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(3) यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 के रोकडबह शेष एवं बैंक शेष के अन्तर रु0 185.90 को भी स्पष्ट करते हुए शुद्ध किया जाय।

(4) निगम निधि के रोकडबही के अन्तिम शेष रु0 4,21,00,57,310.83 एवं बैंक शेष रु0 4,67,24,22,335.78 के अन्तर रु0 46,23,65,024.95 का कारण बैंक समाधान विवरण बनाकर स्पष्ट करते हुए अन्तर को शुद्ध किया जाना अपेक्षित है।

(5) परिशिष्ट-ख के अनुसार निगम निधि के बैंक खाते के अवशेष एवं रोकडबही में काफी अन्तर था। यह अन्तर विगत कई वर्षों से चला आ रहा था। गत एवं विगत वर्षों की सम्परीक्षा में उक्त के संबंध में लगातार आपत्ति उठायी जा रही थी किन्तु प्रतिवर्ष आपत्ति उठाये जाने के बावजूद भी बैंक समाधान विवरण न बनाये जाने के कारण लेखे में गम्भीर वित्तीय अनियमितता एवं व्यपहरण जैसी सम्भावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः बैंक समाधान विवरण बनाकर अन्तर स्पष्ट करते हुए बिना भुने चैकों की धनराशि का विवरण तैयार कर सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

(6) प्रमाणित किया जाय कि वित्तीय स्थिति में उल्लिखित बैंक खातों के अतिरिक्त निगम के पास अन्य कोई बैंक खाते संचालित नहीं थे।

(7) दिनांक 31.03.2023 को स्थायी अग्रिमों का विवरण प्रस्तुत करके सत्यापन कराया जाना अपेक्षित है।

(8) निगम द्वारा अत्याधिक कुल 58 बैंक खाते संचालित किये गये थे जिनमें से दिनांक 31.03.2023 को 07 बैंक खातों का बैलेन्स शून्य था एवं कई बैंक खातों से कोई भी लेन-देन नहीं किया गया था तथा कई खाते डारमेन्ट हो गये थे। अत्याधिक बैंक खाते संचालित किये जाने का औचित्य स्पष्ट कराया जाय अन्यथा जिन बैंक खातों से कोई लेन-देन नहीं हो रहा था अथवा बैलेन्स शून्य था, उन्हें बन्द कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(9) निगम द्वारा राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंकों के अतिरिक्त अन्य बैंकों में भी खाते संचालित किये जा रहे थे। यह पूर्णतः अनियमित एवं शासनादेश संख्या 3/2016/ए-1-170/दस-2016-10 (33)/2010 वित्त(लेखा) अनुभाग-1 दिनांक 23 फरवरी 2016 का भी उल्लंघन था। इन बैंक खातों को बन्द कराकर जमा धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंकों में स्थानान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। इस संबंध में गत एवं विगत वर्षों से लगातार

आपत्ति उठायी जा रही थी फिर भी राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंकों के अतिरिक्त अन्य बैंकों में खाते संचालित करना निगम के वित्तीय हितों के प्रतिकूल एवं अनियमित था। इस संबंध में निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(10) नगर निगम निधि एवं यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 की रोकडबहियां पृथक-पृथक अनुरक्षित होने के कारण इनकी वित्तीय स्थिति भी पृथक रूप से अंकित की गयी है।

(11) नगर निगम द्वारा भारी मात्रा में बैंक खाते अनुरक्षित/संचालित किये जा रहे थे जिनमें से निम्नलिखित बैंक खाते परिचालित न होने के कारण डारमेन्ट अर्थात् निष्क्रिय हो गये थे। इन खातों को पुनः परिचालित कराया जाय अथवा इन्हें बन्द कराया जाना अपेक्षित है। इन खातों का विवरण निम्नवत् है—

क्र०सं०	बैंक का नाम	खाता संख्या	31.03.2023 को खाते में जमा धनराशि
1	यूनियन बैंक आफ इण्डिया, नया गंज	428502010270493	1353
2	----"----- मॉडल टाउन	398602010869357	2153
3	-----"-----वसुन्धरा	617501010050081	152453.50
4	पंजाब नेशनल बैंक, औद्योगिक क्षेत्र, विजय नगर	3946002100005512	868753.40
	---"---सामान्य, विजय नगर	3946002100002579	1496339.58
		योग	25,21,052.48

उक्त 5 बैंक खातों के डॉरमेंट होने के कारण निगम की रु० 25,21,052.48 धनराशि अवरूद्ध पड़ी थी एवं बैंक द्वारा डॉरमेंट खातों पर चार्ज लगाये जाने के कारण निगम पर अनावश्यक व्यय भी पड़ रहा था। अतः अनावश्यक खातों को यथाशीघ्र बन्द किया जाय।

(12) खाता आख्यानुसार निगम के एच०डी०एफ०सी०, राजनगर खाता संख्या 01531110000014 में दिनांक 31.03.2021 को 30 209105.74 जमा थे, किन्तु बैंक द्वारा दिनांक 31.

03.2021 को ही खाते की स्थिति ब्लाकड/डॉरमेंट दर्शाकर जमा धनराशि रु0 209105.74 को अनक्लेक्ड एकाउंट फण्डस ट्रांसफर टू आर0बी0आई0 डीफ एकाउंट में ट्रांसफर करके खाते का बैलेन्स शून्य दिखाया गया था जिसके कारण नगर निगम को रु0 209105.74 की आर्थिक क्षति हुई थी। उक्त के संबंध में कृत कार्यवाही/धनराशि की वापसी का सत्यापन कराया जाना अपेक्षित है।

(13) निगम निधि एवं यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 की आय एवं व्यय की संहत स्थिति परिशिष्ट-3 पर दी गयी है।

4. राजकीय अनुदान :- प्रमाणित किया जाता है कि आलोच्य अवधि में निगम को प्राप्त निम्नलिखित राजकीय अनुदानों का उपभोग उन्हीं शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया गया था जिनके लिये वे प्राप्त हुए थे। यदि कहीं कोई विचलन किया गया था तो उसका उल्लेख इस आख्या में यथास्थान कर दिया गया है। आलोच्य अवधि में सम्परीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित विवरणानुसार नगर निगम को आवर्तक/अनावर्तक अनुदान प्राप्त हुए थे-

(क) आवर्तक अनुदान :-

क्र0	अनुदान का विवरण	प्राप्त धनराशि	प्राप्ति तिथि
	पंचम राजय वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त अनुदान निदेशक, स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-		
1	8/2170/317(3)/पंचम/रा0वि0आ0/2022-23 दिनांक 29.04.2022	27,06,15,757	02.05.2022
2	8/2207/317(3)/पंचम/रा0वि0आ0/2022-23 दिनांक 26.05.2022	25,97,07,400	28.05.2022
3	8/2259/317(3)/पंचम/रा0वि0आ0/2022-23 दिनांक 29.06.2022	24,19,55,216	05.07.2022
4	8/2304/317(3)/पंचम/रा0वि0आ0/2022-23 दिनांक 29.07.2022	24,18,40,094	02.08.2022

5	8 / 2352 / 317(3) / पंचम / रा0वि0आ0 / 2022-23 दिनांक 26.08.2022	23,94,38,077	30.08.2022
6	8 / 2427 / 317(3) / पंचम / रा0वि0आ0 / 2022-23 दिनांक 28.09.2022	24,05,57,850	30.09.2022
7	8 / 2490 / 317(3) / पंचम / रा0वि0आ0 / 2022-23 दिनांक 20.10.2022	25,68,35,972	22.10.2022
8	8 / 2587 / 317(3) / पंचम / रा0वि0आ0 / 2022-23 दिनांक 30.11.2022	25,71,45,414	02.12.2022
9	8 / 2680 / 317(3) / पंचम / रा0वि0आ0 / 2022-23 दिनांक 30.12.2022	26,71,45,414	04.01.2023
10	8 / 2791 / 317(3) / पंचम / रा0वि0आ0 / 2022-23 दिनांक 02.02.2023	26,71,45,414	06.02.2023
11	8 / 2871 / 317(3) / पंचम / रा0वि0आ0 / 2022-23 दिनांक 27.02.2023	26,71,45,414	28.02.2023
12	8 / 2899 / 317(3) / पंचम / रा0वि0आ0 / 2022-23 दिनांक 01.03.2023	50,59,868	31.03.2023
13	8 / 3060 / 317(3) / पंचम / रा0वि0आ0 / 2022-23 दिनांक 31.03.2023	28,14,67,279	31.03.2023
	योग-	3,09,60,59,169	

(ख) अनावर्तक अनुदान :-

क्र0	अनुदान का विवरण	प्राप्त धनराशि	प्राप्ति का दिनांक
(क)	कान्हा गौशाला :-		
1	8 / 2546 / (343) कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना / 2022-23 दिनांक 16.11.2022	89,40,000	25.11.2022

		योग-	89,40,000	
(ख)	स्मार्ट सिटी योजना :-			
1.	90 / 2022 / 51 / नौ-9-2022-03ज / 22 दिनांक 31.03.2022		21,02,500	22.04.2022
2.	115 / 2022 / 1421 / नौ-9-2022-123ज / 22 दिनांक 16.08.2022		15,53,35,000	31.08.2022
3.	23 / 2023 / 461 / नौ-9-2023-003-1585596-150ज / 21 दिनांक 20.03.2023		1,21,00,000	31.03.2022
		योग-	16,95,37,500	
(ग)	अमृत योजना :-			
1.	एस.एम.एम.यू. / 7909 / 1065 / 2021-22 दिनांक 28.07.22		19,50,00,000	08.08.2022
		योग-	19,50,00,000	
(घ)	15वां वित्त आयोग :-			
1.	8 / 2502 / 320(2) / 15वां वि0आ0 / 2022-23 दिनांक 05.10.2022		1,22,00,00,000	05.11.2022
		योग-	1,22,00,00,000	
(ङ)	अवस्थापना निधि :-			
1.	8 / 2945 / 139(2) / 02प्रतिशत अति.स्टा.शुल्क / 19-20 दिनांक 16.03.2023		33,89,75,621	18.03.2023
		योग-	33,89,75,621	
(च)	स्वच्छ भारत मिशन :-			

1.	एन.ई.एफ.टी. द्वारा सीधे प्राप्त	1,46,76,417	04.03. 2023
	योग—	1,46,76,417	

टिप्पणी :-(1) प्रमाणित किया जाय कि नगर निगम को वर्ष 2022-23 में उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई आवर्तक/अनावर्तक प्राप्त नहीं हुआ था।

(2) निगम द्वारा अनावर्तक अनुदान पंजी अनुरक्षित नहीं की गयी थी। अनुदान पंजी के अभाव में अनुदानवार उपभोग की गयी धनराशि का संकलन वाह्य गणना पर आधारित है जो अनन्तिम एवं परिवर्तनीय है। अनावर्तक अनुदान पंजी अनुरक्षित करके अनुदान की प्राप्त धनराशि एवं उपभोग की गयी धनराशि अंकित करके दिनांक 31.03.2023 को उपभोग हेतु अवशेष धनराशि का सत्यापन कराया जाय।

(3) प्रयुक्त अनुदानों के विवरण क्रमांक (1) व (2) विगत 23 वर्षों से अप्रयुक्त चले आ रहे हैं। उक्त अनुदानों की धनराशि रु0 1,62,995 का उपभोग न किये जाने के कारण उक्त सीमा तक अनुदान की धनराशि अवरुद्ध पड़ी रही। अतः उक्त के उपभोग न किये जाने का कारण स्पष्ट करते हुए अप्रयुक्त अनुदानों की धनराशि ब्याज सहित शासन के संबंधित विभागों को वापस किया जाना अपेक्षित है।

(4) अप्रयुक्त अनुदानों के विवरण क्रमांक (3)(4) एवं (6) पर अंकित सांसद एवं विधायक निधि से प्राप्त अनुदानों रु0 7,20,854 विगत कई वर्षों से अप्रयुक्त चले आ रहे हैं। इनके उपभोग न किये जाने का कारण स्पष्ट करते हुए अप्रयुक्त अनुदानों की धनराशि को संबंधित विभाग को वापस किया जाना अपेक्षित है।

(5) अप्रयुक्त अनुदानों के विवरण में क्रमांक 5 के (1) से (12) तक पर अंकित अनुदान 12वें वित्त आयोग से वर्ष 2005-06 से 2009-10 के मध्य प्राप्त थे। जिनमें से रु0 1,54,73,720 अभी तक भी उपभोग हेतु अवशेष थे। इसके उपभोग के संबंध में शासन से प्राप्त अनुमति, यदि ली गयी थी तो सम्परीक्षा में नहीं दिखायी गयी। अतः इस धनराशि को निगम खातों में अवरुद्ध रखने का

औचित्य स्पष्ट करते हुए इस धनराशि को शासन को ब्याज सहित वापस करते हुए सम्परीक्षा को अवगत कराया जाय।

(6) अप्रयुक्त अनुदानों के विवरण के क्रमांक 7 पर अंकित राजस्व विभाग से प्राप्त अनुदान की अवशेष धनराशि रु0 3,71,574 का उपभोग न किये जाने का कारण स्पष्ट करते हुए इसे ब्याज सहित वापस किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) आवर्तक अनुदान पंजी अनुरक्षित नहीं की गयी थी। बाह्य गणना/रोकड़बही के आधार पर संकलित चतुर्थ राज्य वित्त एवं पंचम राज्य वित्त की संस्तुतियों से प्राप्त अनुदान, उपभोग एवं शेष अनुदान का विवरण निम्नवत् था—

<u>विवरण</u>	<u>राज्य वित्त आयोग</u>
01.04.2022 को प्रारम्भिक शेष—	31,52,91,164
वर्ष में प्राप्त अनुदान —	<u>3,09,60,59,169</u>
योग—	3,41,13,50,333
वर्षान्तर्गत उपभोग —	<u>3,06,91,50,771</u>
31.03.2023 को शेष अनुदान —	<u>34,21,99,562</u>

अनुदान पंजी अनुरक्षित कर इसका भौतिक सत्यापन कराया जाय।

(8) अप्रयुक्त अनुदानों के क्रमांक 8 पर अंकित 14वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों की अप्रयुक्त धनराशि रु0 8,52,17,777 का उपभोग आलोच्य अवधि में किया जाना दर्शाया गया था।

(9) अप्रयुक्त अनुदानों के क्रमांक 10 पर अंकित यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 व 2013-14 में प्राप्त अनुदान रु0 2,44,070 अप्रयुक्त थे। इनके उपभोग अथवा वापसी किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(10) स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत आलोच्य अवधि में रु0 16,95,37,500 अनुदान प्राप्त हुआ था। जिसके सापेक्ष रु0 15,74,37,500 का व्यय किया गया था। विगत वर्षों का अप्रयुक्त अनुदान रु0 1,29,06,480 सहित कुल रु0 2,50,06,480 उपभोग हेतु अवशेष थे। यह अनियमित एवं

आपत्तिजनक था। उक्त धनराशि के उपभोग किये जाने अथवा संबंधित विभाग को वापस किये जाने की कार्यवाही लिया जाना अपेक्षित है।

(11) अमृत योजनान्तर्गत अप्रयुक्त अनुदान क्रमांक (i) से (v) रु0 37,58,671 वर्ष 2016 से वर्ष 2021 के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों में से अप्रयुक्त अनुदानों की धनराशि थी। इसका उपभोग न किये जाने का कारण स्पष्ट करते हुए इसे उपभोग किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा इसकी वापसी सुनिश्चित की जाय।

आलोच्य अवधि में प्राप्त अनुदान रु0 19,50,00,000 को दस वर्ष हेतु एफ.डी.आर. में विनियोजित किया गया था।

(12) आलोच्य अवधि में अवस्थापना निधि के अन्तर्गत रु0 33,89,75,621 प्राप्त हुए थे जो कि अप्रयुक्त रहे। अतः इसका उपभोग किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(13) स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत अवशेष अनुदान रु0 2,87,54,073 निगम के पत्रांक-1019/n0आ0/2022-23 दिनांक 27.05.2022 द्वारा शासन के नोडल खाते में वापस कर दिये गये थे।

(14) नगरीय जल निकासी योजना हेतु नगर निगम को वर्ष 2018-19 में रु0 1,00,00,000 अनुदान प्राप्त हुआ था। जिसे नगर निगम द्वारा दिनांक 30 मई, 2019 को बैंक संख्या 030212 व्यय प्रमाणक संख्या 714 द्वारा जल निगम को हस्तान्तरित (अस्थायी अग्रिम) किया गया था। इसमें से कितनी धनराशि व्यय हो चुकी थी, इसका उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ था। अतः इसका उपभोग प्रमाणपत्र प्राप्त कर सत्यापन कराया जाय।

(15) आलोच्य अवधि में 15वां वित्त आयोग के अन्तर्गत रु0 1,22,00,00,000 की धनराशि प्राप्त थी जिसमें से रु0 45,51,47,349 का व्यय किये जाने के उपरान्त रु0 76,48,52,651 उपभोग हेतु अवशेष थे। गत एवं विगत वर्षों की अवशेष धनराशि रु0 4,43,68,36,806 में से रु0 3,81,38,52,686 का उपभोग किया गया था। इस प्रकार 15वां वित्त के अन्तर्गत वर्षान्त में रु0 1,38,78,36,773 उपभोग हेतु अवशेष थे। इसका उपभोग निर्दिष्ट उद्देश्यों पर किया जाय अन्यथा इसकी वापसी कराया जाना अपेक्षित है।

(16) कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु अप्राप्य योजनान्तर्गत आलोच्य अवधि में रु0 89,40,000 प्राप्त हुए थे जिसमें से कोई धनराशि आलोच्य अवधि में व्यय नहीं की गयी थी। अतः योजना की अप्रयुक्त धनराशि का उपभोग किया जाय अन्यथा की स्थिति में इसे वापस किया जाय।

(17) अनुदानों का संहत विवरण संलग्न परिशिष्ट-4 पर दिया गया है।

(18) अप्रयुक्त अनुदानों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-5 प्रपत्र-66 में दिया गया है।

(19) अनुदानों से कराये गये निर्माण कार्यों एवं अन्य व्ययों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-6 पर दिया गया है।

5. राजकीय ऋण एवं उनके प्रतिदान की स्थिति :- सम्परीक्षा में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर जहां तक सुनिश्चित किया जा सका, आलोच्य अवधि में निगम को न तो कोई राजकीय ऋण प्राप्त हुआ था और न ही किसी धनराशि का प्रतिदान किया गया था।

टिप्पणी :-(1) नगर निगम द्वारा राजकीय ऋण पंजी अनुरक्षित नहीं की गयी थी। इसे अनुरक्षित न किये जाने का कारण स्पष्ट करते हुए इसे अनुरक्षित कराया जाना अपेक्षित है।

(2) वर्ष 2018-19 की सम्परीक्षा आख्यानुसार दिनांक 31.03.2019 को कुल मूलधन रु0 18,68,27,600 तथा एन.सी.आर. से प्राप्त ऋण पर देय ब्याज सहित धनराशि बकाया थी। एन.सी.आर. से प्राप्त ऋण से संबंधित अभिलेख/शासनादेश, जिनसे ऋण अनुमन्य हुआ था, को प्रस्तुत कर सत्यापन कराया जाय तथा दिनांक 31.03.2023 को बकाये की स्थिति स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

(3) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज से प्राप्त लेखा पर्ची प्रस्तुत करके दिनांक 31.03.2023 को अवशेष मूलधन एवं इस पर देय ब्याज का सत्यापन कराया जाय।

(4) वर्ष 2022-23 में किसी भी ऋण के प्रतिदान हेतु कोई बजट प्राविधान नहीं किया गया था। इसका कारण स्पष्ट कराया जाय।

(5) वर्ष 2022-23 में दिनांक 31.03.2023 को प्राप्त प्रतिदान एवं प्रतिदान हेतु शेष ऋणों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-7 पर दिया गया है।

6. विनियोजन :- आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में निगम द्वारा विनियोजन से संबंधित उपलब्ध कराये गये अभिलेख/सूचना/विवरण के अनुसार निगम द्वारा निम्न विवरणानुसार धनराशि विनियोजित थी।

क्र०	खाता संख्या व तिथि	धनराशि	वर्ष में प्राप्त ब्याज	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता मूल्य
(क)	आई.डी.एफ.सी. बैंक				
1.	10103170824 दिनांक 15. 09.2022	19,50,00,000	65,27,158	14.09. 2032	19,50,00,000
	योग-	19,50,00,000	65,27,158		
(ख)	एच.डी.एफ.सी. बैंक आर.डी.सी. गाजियाबाद				
1.	50300539258282 दि० 02. 08.2021	130,00,000	4,46,330		
2.	50300539570831 दि० 03. 08.2021	130,00,000	5,07,254		
3.	50300539698161 दि० 04. 08.2021	130,00,000	5,08,821		
4.	50300540012781 दि० 05. 08.2021	130,00,000	5,10,388		
5.	50300540265231 दि० 06. 08.2021	130,00,000	5,11,955		
6.	50300540553400 दि० 07. 08.2021	130,00,000	5,85,708		
7.	50300541347290 दि० 09. 08.2021	130,00,000	5,89,285		
8.	50300541706265 दि० 11.8. 2021	130,00,000	5,92,862		

9.	50300541706723 दि० 11. 08.2021	130,00,000	5,92,862		
10.	50300541964011 दि० 12. 08.2021	130,00,000	5,79,073		
11.	50300542241386 दि० 13. 08.2021	130,00,000	5,80,861		
12.	50300542906671 दि० 16. 08.2021	130,00,000	5,86,227		
13.	50300543123578 दि० 17. 08.2021	130,00,000	5,88,016		
14.	50300543482340 दि० 18. 08.2021	130,00,000	5,89,804		
15.	50300543774034 दि० 19. 08.2021	130,00,000	5,91,593		
16.	50300544330592 दि० 21. 08.2021	130,00,000	5,95,170		
17.	50300545282147 दि० 24. 08.2021	130,00,000	6,00,536		
18.	50300545282147 दि० 25. 08.2021	130,00,000	6,02,324		
19.	50300546150364 दि० 26. 08.2021	90,00,000	4,18,233		
	योग	24,30,00,000	1,05,77,302		

टिप्पणी :- (1) क्रमांक (क) 1 पर अंकित विनियोजन अमृत योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि रु0 19,50,00,000 से किया गया था। उक्त विनियोजन से प्राप्त ब्याज रु0 32,81,610 दिनांक 15.12.2022 को एवं रु0 32,45,548 दिनांक 15.03.2023 को रोकड़बही में आय पक्ष में दर्शाये गये थे।

(2) क्रमांक (ख) 01 से 19 तक कुल रु0 24,30,00,000 का विनियोजन एच.डी.एफ.सी. बैंक, आर.डी.सी., गाजियाबाद में नगर निगम के बैण्ड के ब्याज भुगतान हेतु अवस्थापना/निगम निधि से किया गया था।

(3) आलोच्य अवधि हेतु उक्त विनियोजनो पर रु0 1,05,77,602 का ब्याज प्राप्त दर्शाया गया था जो कि उक्त विनियोजनों के सापेक्ष दिनांक 31.03.2023 तक प्राप्त दर्शाया गया था।

(4) उपरोक्त विनियोजन पत्र नगर निगम में मूल रूप में उपलब्ध नहीं थे। सम्परीक्षा में अवगत कराया गया कि संबंधित बैंकों द्वारा विनियोजन पत्र जारी न करके सभी एफ.डी.आर. डिजिटल रूप में रखी गयी है।

(5) निगम के स्तर पर कोई विनियोजन पंजी अनुरक्षित नहीं की गयी थी। विनियोजन पंजी अनुरक्षित किया जाना अपेक्षित है।

(6) संबंधित सभी विनियोजनों की वार्षिक ब्याज दर अंकित नहीं थी जिनके अभाव में बैंक ब्याज नियमानुसार प्राप्ति की पुष्टि न हो सकी। अतः ब्याज दरों का सत्यापन कराया जाना अपेक्षित है।

(7) प्रमाणित किया जाय कि निगम द्वारा उपर्युक्त विनियोजनों के अतिरिक्त अन्य कोई विनियोजन नहीं कराये गये थे।

(8) क्रमांक (ख) 1 से 19 तक के विनियोजनों का परिपक्वता मूल एवं परिपक्वता तिथि ज्ञात न हो सकी है। अतः विनियोजनों की परिपक्वता तिथि एवं परिपक्वता मूल्य स्पष्ट कराया जाय।

7. सम्परीक्षा शुल्क के आरोपण एवं देयता की स्थिति :- सम्परीक्षा शुल्क के आरोपण के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के वित्त लेखा परीक्षा अनुभाग-2 के शासनादेश सं0 आडिट-2-695/दस-2018-355(i) 2017 दिनांक 01.10.2018 के द्वारा शासन ने स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 द्वारा सम्परीक्षित संस्थाओं से सम्परीक्षा शुल्क समाप्त किये जाने के

आदेश निर्गत किये गये हैं। अतः उक्त शासनादेश के अनुपालन में वर्ष 2022-23 की सम्परीक्षा हेतु कोई सम्परीक्षा शुल्क आरोपित नहीं की गयी।

शासनादेश सं० 1/2019/आडिट-2-1155/दस-2019-355(i)/2017 दिनांक 27.09.2019 के अनुसार स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० एवं मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें उ०प्र० द्वारा सम्परीक्षित संस्थाओं पर बकाया सम्परीक्षा शुल्क का अपलेखन किया गया है।

8- कर एवं करेत्तर राजस्व की समीक्षा :-

(क)- विविध करों एवं राजस्व की मांग समाहरण पंजी अपूर्ण :- गृहकर, जलकर एवं सीवर कर की मांग एवं समाहरण पंजी जोनवार बनायी गयी थी। परन्तु आलोच्य वर्ष की मांग एवं समाहरण पंजी अपूर्ण थी तथा इस पर मांग वसूली की धनराशि अंकित नहीं की गयी थी। गत एवं विगत वर्षों की सम्परीक्षा में भी मांग एवं समाहरण पंजी अपूर्ण रहने सम्बन्धी आपत्ति की गयी थी। जोनल कार्यालयों में कम्प्यूटर से रसीदें निर्गत की गयी थी परन्तु इसकी कार्यालय प्रति अनुरक्षित करके केवल प्रतिदिन कुल जमा का विवरण अंकित था। इसके अभाव में इनकी जांच सम्भव न हो सकी। यह अनियमित एवं आपत्तिजनक था। गृहकर, जलकर एवं सीवर कर की मांग समाहरण पंजी पूर्ण एवं सत्यापित कराकर सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

उपर्युक्तानुसार ही दुकान किराया, भवन किराया, जल मूल्य तथा अस्थायी प्रयोग भूमि हेतु मांग समाहरण पंजिकाओं को अद्यावधिक पूर्ण करके लेखाबन्दी नहीं की गयी थी। इन्हें पूर्ण एवं लेखाबन्दी कराकर सक्षम अधिकारी से सत्यापनोपरान्त सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

आलोच्य अवधि में निगम के अन्तर्गत स्वकर निर्धारण प्रणाली लागू थी। इसके बाद भी आलोच्य अवधि में निर्धारित किये गये करों की सूची नहीं बनायी गयी थी। अतः वर्ष 2022-23 में प्रत्येक वार्डवार/जोनवार निर्धारित किये गये करों की कर सूची बनाकर सक्षम अधिकारी से सत्यापनोपरान्त सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

इसी प्रकार विभिन्न ठेकेजातों यथा पार्किंग, विज्ञापन शुल्क, प्रेक्षा कर, तरणताल आदि ठेकेजातों से सम्बन्धित मांग समाहरण पंजी भी अद्यावधिक पूर्ण एवं लेखाबन्दी के सत्यापनोपरान्त

सम्परीक्षा में नहीं दिखायी गयी। जिससे उक्त मदों के बकाया की स्थिति ज्ञात न हो सकी। अतः इन्हें पूर्ण एवं लेखाबन्दी कराकर सत्यापनोपरान्त सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त स्थिति में विविध करों एवं राजस्व की मांग समाहरण की स्थिति/विवरण तैयार किया जाना सम्भव न हो सका और न ही एल0ए0ओ0 106 पूर्ण न किया जा सका। वर्गीकृत सार पंजिकाओं एवं बजट के अनुसार आलोच्य अवधि में विभिन्न मदों से निम्न विवरणानुसार आय प्राप्त हुई थी।

क्रमांक	मद का नाम	प्राप्त आय
1	गृहकर	70,81,09,184
2	जलकर	58,14,88,271
3	सीवर कर	25,60,73,341
4	विज्ञापन कर/शुल्क	19,01,12,329
5	प्रेक्षाकर	10,12,980
6	भवन एवं दुकान किराया	1,50,49,202
7	अस्थायी प्रयोग भूमि	11,22,726
8	तरणताल	73,51,000
9	पानी का टैंकर	8,74,600
10	पार्किंग	1,76,25,512
	योग-	1,77,88,19,145

टिप्पणी :- (1) उक्त का विवरण संलग्न परिशिष्ट-‘8’ में भी दिया गया है।

(ख)- नगर निगम की दुकानों से बकाया कराये की वसूली न कया जाना
र एवं वलम्ब ब्याज न लगाये जाने के कारण आ र्थक क्षति **10594985.00**
--:1439470.00रू

(1).सम्परीक्षा में उपलब्ध अ भलेखों के अनुसार निम्ना क्त ववरण के अनुसार दुकाने कराये पर उठायी गयी थी।

क्र०	स्थान	दुकानों की संख्या
.1	रामानुज दयाल मा कर्ट समते राम रोड़	320
.2	क्यू मा कर्ट टाऊन स्कूल ,पुरानी तहसील , पुरानी सब्जी मा कर्ट व सुभाष ,मा कर्ट मा कर्ट आदि।	406
.3	एमा कर्ट 0ब्लाक क्यू-	373
.4	पा लका ट्रक स्टैण्ड	265
.5	नेहरू नगर	363
	योग	1727

नियमावली आदि अ भलेख सम्परीक्षा में उपरोक्त दुकानों से सम्बन्धित बायलाज प्रस्तुत नहीं कये उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराया गया क इससे सम्बन्धित कोई बायलाज निगम द्वारा तैयार नहीं कया है। बायलाज एवं दुकान आवंटन पत्राव लयों के अभाव में दुकानों के कराये का निर्धारण एवं कराया वृद्ध ,दुकान आवंटन प्र क्रया , जमा एवं बकाया की , नाम परिवर्तन की प्र क्रया एवं प्री मयम धनरा श के निर्धारण स्थिति ज्ञात न हो सकी। जोनों में स्थित दुकानों के कराये से सम्बन्धित निगम एवं करायेदारों के मध्य हुए अनुबन्ध भी सम्परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। जिसके कारण करायेदारी की अव ध नाम परिवर्तन की शर्तों स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध न होने की , दशा में राजस्व क्षति होने की पूर्ण सम्भावना थी। यह स्थिति नगर निगम के वतीय एवं व धक होतों के सवर्था प्रतिकूल थी। अतः नगर निगम के उच्चा धकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कया जाता है क दुकान मकान कराया से सम्बन्धित कराया/ अनुबन्ध पत्र आदि अ भलेख अद्दाव धक पूर्ण कर एवं सक्षम ,सम्प त पंजी ,पंजी अ धकारी से सत्यापनोउपरान्त सम्परीक्षा में उपलब्ध कराये जाये। कम्प्यूटर द्वारा तैयार ववरणानुसार दुकानों के कराये की मांगवसूली की स्थिति निम्नवत थी।-

क्र०	स्थल	-04-01 को 2022 बकाया	वर्ष की मांग	योग	वर्ष में वसूली	31.03.2023 में बकाया शेष
------	------	----------------------------	--------------	-----	-------------------	--------------------------------

.1	रामानुज दयाल मा कर्ट	524948	1577676	2102624	116940	1985684
.2	क्यु 0 मा कर्ट	183212	2947025	3130237	70788	3059449
.3	ए ब्लॉक- क्यु मा कर्ट	328636	1332792	1661428	150096	1511332
.4	पा लका ट्रक स्टैण्ड	213006	639489	852495	152507	699988
.5	नेहरू नगर	150758	3282814	3433572	95040	3338532
		1400560	9779796	11180356	585371	10594985

10594985 उपर्युक्त से स्पष्ट था क कराये के रूप में एक भारी धनरा श रु वसूली हेतु अवशेष थी। जिसकी वसूली न कये जाने के कारण निगम को आ र्थक क्षति होने की पूर्ण सम्भावना थी। अतः बकाया की वसूली हेतु वशेष अभियान के तहत वसूली हेतु कार्यवाही अपे क्षत है।

(2). सम्परीक्षा में अवगत कराया गया क बकाया कराये की धनरा श पर कोई वलम्ब नहीं कया जाता था। जव क गृहकर % 12 जलकर इत्यादि के बकाया पर , वा र्षक ब्याज लए जाने का प्रा वधान नगर निगम द्वारा कया हुआ था। उक्त वलम्ब व्याज की व्यवस्था दुकान कराये के ब्याज पर लागू न कये जाने के कारण जहां एक ओर करायेजारों को समय से जमा न की प्रवृ त्त को बढ़ावा दिया जा रहा था वहीं दूसरी ओर निगम को निम्नवत आ र्थक क्षति पंहुचायी जा रही थी।-

दिनांक 1400560 = % 12 के बकाया पर देय 31.03.2022x12%= 168067.2

दिनांक % 12 के बकाया पर देय 31.03.2023ब्याज 10594985 =x12%=1271398

योग1439470 रु =

(3) 585371 के सापेक्ष मात्र रु 11180356 आलोच्य अवध की कुल मांग रु . % 5.23 अर्थातवसूली कसी भी दृष्टिकोण से सन्तोषजनक नहीं थी। अतः चालू वर्ष की मांग सहित बकाया वसूली शत प्रतिशत कराये जाने हेतु निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(4)सम्परीक्षा में उपलब्ध बकाया ववरण में नेहरु नगर की कुल मांग . 3433572 दर्शायी ग 2481407 की वसूली दर्शाकर बकाया धनराश 95040 के सापेक्ष रुयी थी जबकी वास्तव में यह बकाया धनराश रु =95040-3433572रु होती थी। इस 3338532 कम कर 857125 =2481407-3338532 प्रकार बकाया धनराश को त्रुटिपूर्ण रूप से रु दिया गया था। यह नगर निगम को प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति थी। उक्त के सम्बन्ध में कार्यवाही लेते हुए इसे सहीकराया जाय।

(5)दुकानों के सापेक्ष वसूली संख्या का ववरण निम्नवत है .

क्र०	स्थान	दुकानों की कुल संख्या	दुकाने , जिनसे कराया वसूला	बकाया कराया वसूली हेतु दुकाने
.1	नेहरु नगर	14	01	13
.2	मोहन नगर	43	04	39
.3	राजनगर	35	0	35
.4	पटेल मार्ग	28	0	28
.5	वजय नगर	29	1	28
.6	सहानी	27	1	26
.7	नवयुग मार्केट	19	0	19
.8	गन्दा नाला	32	0	32
.9	धूकना मोड़	13	1	12
.10	क वनगर	74	5	69
.11	अर्थला	16	0	16

.12	साहिबाबाद	25	2	23
.13	मेरठ रोड	8	0	8
.14	पालका ट्रक स्टेण्ड	265	31	234
.15	क्यू-मा कर्ट ए 0 ब्लाक	48	1	47
.16	क्यू-मा कर्ट बी 0 ब्लाक	41	4	37
.17	क्यू-मा कर्ट सी 0 ब्लाक	14	2	12
.18	क्यू-मा कर्ट डी 0 ब्लाक	14	1	13
.19	क्यू-मा कर्ट ई 0 ब्लाक	37	0	37
.20	अन्य	219	22	197
.21	क्यू मा कर्ट	172	3	169
.22	पुरानी तहसील	30	1	29
.23	रजिआ फस .	17	0	17
.24	टाउन स्कूल	26	1	25
.25	पुरानी सब्जी मंडी	48	4	44
.26	सुभाष मार्केट	38	1	37
.27	गांधीनगर	10	0	10
.28	मोहन चत्रलोक	29	1	28
.29	पानी की टंकी रामलीला मैदान	2	0	2
.30	जीरोड 0टी0	36	3	33
31	रामानुज दयाल मार्केट	320	21	299

	योग	1727	111	1616
--	-----	------	-----	------

उपर्युक्त से स्वतः ही स्पष्ट था क नगर निगम कर्मचारियों द्वारा अत्यन्त निम्न स्तर की वसूली की गयी थी। स्वयं ,जाना कया वसूली से दुकानों 111 मात्र सापेक्ष के दुकानों 1727 से रुप वशेष ध्यान का उच्चा धकारियों में सम्बन्ध इस था। रहा दर्शा को प्र क्रया वसूली ही में आकृष्ट कया जाता है।

(ग) नगर निगम द्वारा जलमूल्य का आरोपण न कये जाने के कारण नगर निगम को आ र्थक क्षति रु -34,72,15,500.00

शासनादेश संख्या-1810-नौ-2-96-57(2)/96 नगर वकास अनुभाग-2, लखनऊ दिनांक 08.01.1997 के अनुसार जलपूर्ति व्ययों में हो रही वृद्ध को दृष्टिगत रखते हुए निगम द्वारा उप व ध बनाकर रु 75 प्रतिमाह प्रति घरेलू संयोजन तथा रु 300 प्रतिमाह गैर घरेलू संयोजनों पर लागू कया जाना चाहिये था। कन्तु नगर निगम द्वारा शासनादेशानुसार कोई कार्यवाही नहीं ली गयी थी एवं जलमूल्य की धनरा श आरो पत कर वसूल नहीं की जा रही थी। नगर निगम द्वारा जलमूल्य आरो पत न कये जाने के कारण निगम को निरन्तर आ र्थक क्षति हो रही थी। निगम में जल कनेक्शनों से सम्ब धत कोई अ भलेख अनुर क्षत नहीं कये गये थे। जल संयोजनों की पर्जों/अ भलेख अनुर क्षत करके संयोजन संख्या आवंटित कया जाना चाहिए था, जब क नगर निगम द्वारा जल संयोजन पंजी अनुर क्षत ही नहीं की गयी थी। इस कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाया क नगर निगम द्वारा अथवा जल निगम द्वारा कतने कनेक्शन कहां-कहां ध्यान वशेष रूप से आकृष्ट कया जाता है।

सम्परीक्षा में जलकर अनुभाग द्वारा जल संयोजन की पंजिका उपलब्ध न कराये जाने से यह ज्ञात न हो सका क नगर निगम में जल संयोजनों की संख्या आलोच्य अव ध में कतनी थी। वगत सम्परीक्षा आख्या के अनुसार घरेलू संयोजनों की संख्या 266782 तथा गैर घरेलू संयोजनों की संख्या 29520 थी।

सम्परीक्षा में उपलब्ध कराये गये ववरण के अनुसार वर्ष 2022-23 में 933 संयोजन संयोजित कये थे। इनका घरेलू एवं गैर घरेलू संयोजन का वर्गीकरण नहीं कया गया था। यदि इन सभी को घरेलू कनेक्शन भी माना जाय तो दिनांक 31.03.2023 को कुल घरेलू संयोजनों की संख्या-266782+933=267715 तथा गैर घरेलू संयोजनों की संख्या-29520 थी।

इस प्रकार जलमूल्य लागू न कये जाने से आलोच्य वर्ष में नगर निगम को घरेलू कनेक्शनों हेतु $\text{रु}267715 \times 75 \times 240943500 = 12$ एवं गैर घरेलू कनेक्शनों हेतु $\text{रु} 29520 \times 300 \times 12 = 106272000$ = कुल $\text{रु} = 106272000 + 240943500 = \text{रु} 347215500$ की आर्थक क्षति हुई थी। जल मूल्य हेतु नगर निगम के बजट में कोई आय नहीं दर्शायी गयी थी। जल मूल्य का आरोपण न कया जाना नगर निगम के आर्थक हितों के प्रतिकूल था। इस संबन्ध में आवश्यक प्रभावी कार्यवाही कये जाने हेतु निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट कया जाता है।

(घ) नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत शासनादेशानुसार लाइसेन्स न बनाये जाने के कारण आर्थक क्षति $\text{रु} 31,49,860$:-

नगर निगम अधिनियम की धारा-452 के अधीन एवं समय-समय पर बनायी गयी उपवधियों के अन्तर्गत व्यावसायिक गतिवधियों हेतु लाइसेन्स शुल्क लगाने एवं वसूल करने हेतु प्रावधान कये गये थे। उत्तर प्रदेश शासन के वाणज्य लाइसेन्स के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या-161-सी0एम0/नौ-9-97923 ज/97 दिनांक 16 दिसम्बर, 1997 नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ द्वारा लाइसेन्स शुल्क की दरें निर्धारित की गयी थी।

नगर निगम की सम्परीक्षा के समय प्रकाश में आया कि नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा लाइसेन्स बनाने का कार्य सम्बन्धित जोन कार्यालयों को दिया गया था। सम्बन्धित जोन के कर निरीक्षक को निर्धारित लाइसेन्स शुल्क प्राप्त करने एवं पुराने लाइसेन्स का नवीनीकरण का कार्य करने के उपरान्त निर्धारित 39 मर्दों के बनाये गये लाइसेन्सों का शुल्क नवीनीकरण शुल्क तथा बिलम्ब शुल्क प्राप्त करके सम्बन्धित लेखा शीर्षक में कराने एवं उसकी वत्तीय वर्ष 2022-23 में नगर निगम गाजियाबाद सीमान्तर्गत स्थित समस्त मर्दों के प्रतिष्ठानों एवं वाहनों को निर्गत कये गये ट्रेड लाइसेन्सों की संख्या चन्हित एवं दिये गये नोटिसों की संख्या से अत्यधिक कम थे। जिस कारण नगर निगम को आर्थक क्षति हुई थी। सभी 39 मर्दों के लाइसेन्स न बनाया जाना भी गम्भीर प्रकरण था एवं नगर निगम के वत्तीय हितों के सर्वथा प्रतिकूल था। शासन द्वारा समय-समय पर निकायों से अपनी स्वयं के श्रोतों की आय बढ़ाये जाने के निर्देशों के क्रम में नगर द्वारा कोई प्रयास परिलक्षित था। कम बनाये गये लाइसेन्सों का ववरण निम्नवत है।-

क्र०	मद का नाम	वर्ष 2022-23 में चन्हित व नोटिस दिये गये प्रतिष्ठानों की संख्या	जारी लाइसेसों की संख्या	कम बनाने लाइसेन्स×दर	आ र्थक क्षति
1.	होटल लाजिंग तथा गेस्ट हाउस तथा बारात घर	187	.77	110x3000	330000
2.	तीन सतारा होटल	06	-3	3x9000	27000
3.	बारात घर	57	37	20x3000	60000
4.	रेस्टोरेन्ट, जलपान गृह, इटिंग हाउस	350	159	191x1800	343800
5.	यूनानी/आयुर्वेदिक/होम्यो क्लीनिक	09	04	05x3000	15000
6.	न र्सीग होम(20 बेड तक)	69	22	47x2000	94000
7.	न र्सीग होम(20 बेड से ऊपर)	17	05	12x5000	60000
8.	प्रसूति गृह(20 बेड तक)	23	05	18x4000	72000
9.	प्रसूति गृह(20 बेड से ऊपर)	02	0	02x5000	10000
10.	गेस्ट हाउस होटल(20 बेड से कम)	40	12	28x3000	84000
11.	प्राइवेट अस्पताल	61	52	09x5000	45000
12.	पैथोलॉजी सेन्टर	85	39	46x1000	46000
13.	एक्सरे क्लीनिक	61	12	49x2000	98000
14.	डेन्टल क्लीनिक	285	137	148x3000	444000
15.	प्राइवेट क्लीनिक	281	121	160x3000	480000

16.	फाईनेंस कम्पनी, चट फन्ड	31	12	19x5000	95000
17.	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	08	0	08x5000	40000
18.	इन्श्योरेन्स कम्पनी(प्रति शाखा)	08	02	06x12000	72000
19.	बार/ वयर	50	42	08x6000	48000
20.	देशी शराब(प्रति दुकान)	104	77	27x6000	162000
21.	वदेशी शराब(प्रति दुकान)	75	46	29x9000	261000
22.	मांडल शांप	06	03	03x12000	36000
23.	आटो रिक्शा 2 शीटर	6978	6902	76x360	27360
24.	ठेला/ ठेली	1700	1553	147x100	14700
25.	मनी बस	119	61	58x1000	58000
26.	बस	110	47	63x2000	126000
27.	ठेला (हाथ वाला)	114	104	10x100	1000
		योग =3149860			

टिप्पणी- (1). सम्बन्धित ववरण में आईस फैक्ट्री की चन्हिकरण शून्य दर्शाया गया था, जो क वास्त वक नहीं था। यह सम्भव ही नहीं था क इतने बड़े जिले में नगर निगम सीमान्तर्गत कोई आईस फैक्ट्री न हो। इस सम्बन्ध में पुनः सर्वे कराकर नियमानुसार लाइसेन्स बनाया जाना अपे क्षत है।

(2). उपरोक्त चन्हित प्रतिष्ठानों की संख्या वस सर्वे के आधार पर तैयार की गयी थी, की स्थिति स्पष्ट नहीं करायी गयी। जिसके आधार पर उक्त आंकड़ों का सत्यापन न हो सका एवं सर्वे रिपोर्ट के अभाव में यह प्रतीत हो रहा थी क यह आंकड़ें वास्त वक न होकर अनुमानित आदार पर बनाये गये थे। अतः सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जोनवार आंकड़ों का सत्यापन कराया जाय।

(3). नगर निगम के सभी जोनों द्वारा शासनादेश के अनुपालन में सभी व्यवसायिक संस्थानों पर लाइसेंस शुल्क आरोपित कर वसूल न कये जाने के आर्थिक हितों के नितान्त प्रतिकूल थी। उक्त क्षति की गणना मात्र नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के आधार पर आगणत की गयी थी। यदि निगम द्वारा व्यापक सर्वेक्षण कराया जाय तो नगर निगम की लाइसेन्स मद की आय में कई गुना वृद्ध हो सकती है। अतः नगर निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि नगर निगम सीमान्तर्गत अवस्थित सभी व्यवसायिक संस्थानों हेतु शासनादेश में वर्ष 39 मदों का वस्तुतः सर्वे कराकर इन पर लाइसेन्स शुल्क आरोपित कर वसूली कराये जाने हेतु प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही ली जाय अन्यथा की स्थिति में प्रति वर्ष नगर निगम को हो रही आर्थिक क्षति हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए उत्तरदायी के वरुद्ध प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

(4). नगर द्वारा उपलब्ध ववरण परि शष्ट-29 पर संलग्न है।

(5). उपर्युक्त के अतिरिक्त व्यापारिक वाहनों, मोटर-स्कूटर गैराज, वाहन एजेन्सी पेट्रोल/डीजल पम्प स्टेशन, गैस आपूर्ति गोदाम, जनरल मर्चेन्ट, जूतों कताबों लोहा व मार्बल व्यापारी, हार्डवेयर, समेन्ट, रेत इत्यादि इलेक्ट्रानिक वस्तु शोरूम, मठाई, सब्जी फर्नीचर शोरूम, सभी प्रकार की दवाईयों, पेन्ट आभूषण मसालों, बिजली का सामान, हेयर कटिंग सैलून, अनाज वक्रेता, टैन्ट व कैटरिंग, कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान, 5 वीं व 12 वीं तक के प्राइवेट स्कूल तथा मैनेजमेन्ट व इन्जीनियरिंग कालेज इत्यादि संस्थानों व व्यवसायों से भी लाइसेन्स शुल्क आरोपण कर प्राप्त न कये जाने के कारण निगम को प्रतिवर्ष लाखों रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचायी जा रही थी।

9— अन्य विविध अनियमितताएँ/सूचनाएँ :-

(1) नगर निगम द्वारा वज्ञापन हेतु डी दरों पर भुगतान न कर अधिक दरों 0पी0वी0ए0 पर वज्ञापन एजेन्सियों को भुगतान कये जाने के कारण अनियमित एवं आपत्तजनक -3767343.00 तथा अधिक भुगतान रु उप सम्परीक्षा माहों के व्यय प्रभावकों की जाँच में प्रकाश में आया की नगर निगम द्वारा उ सरकार के सूचना एवं जनसम्पर्क 0प्र 0 लखनउ 89/1173 व. वभाग वज्ञापन 0सं 0एवं अ 0सू/2840 - वभाग के आदेश संख्या द्वारा स्वीकृत वज्ञापन नीति एवं वज्ञापन मान्यता नियमावली 19.02.1991 दिनांक

से लागू की गयी थी। जिसे बोर्ड 01.02.1991 दिनांक के प्रस्ताव संख्या 733-द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार एवं अंगीकार कया गया था।

सम्परीक्षा में जाँच के समय प्रकाश में आया क नगर निगम द्वारा उक्त शासनादेश एवं बोर्ड के निर्देशों का पालन नहीं कया गया था। इस नियमावली के अनुसार वज्ञापन बिना ऐजेन्सी के माध्यम से सीधे डी0ए0वी0पी0 रेट पर दिया जाना चाहिये था एवं वज्ञापन व्यावसायिक दरों पर न देकर डी0ए0वी0पी0 दरों से ही भुगतान कया जाना चाहिए कन्तु नगर निगम द्वारा डी0ए0वी0पी0 दरों पर भुगतान न करके ऐजेन्सियों को व्यावसायिक दरों पर भुगतान कया गया था। जो क अनिय मत एवं आप तजनक था।

इस प्रकार वज्ञापन हेतु अ धक एवं अनिय मत भुगतान कया गया था। गत एवं वगत वर्षों से निरन्तर आप त उठाये जाने पर भी इसे बन्द नहीं कया गया था। इस प्रथा पर तत्काल रोक लगाते हुए नियमानुसार डी0ए0वी0पी0 दरों पर भुगतान कया जाए। उक्त ववरण मात्र उपसम्परीक्षा माहों में कये गये भुगतानों का था। अतः सम्पूर्ण वर्ष वज्ञापनों हेतु कये गये भुगतानों की व्यापक जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही हेतु निगम के उच्चा धकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट कया जाचा है। ववरण निम्नवत है-

क्रमांक	वज्ञापन ऐजेन्सी/समाचार पत्र का नाम	बिल की धनरा श	वा0स0/दिनांक	भुगतान रा श
1.	मै0 सुदर्शन एडवरटाईजिंग	150192	50/01.03.2023	147100
2.	मै0 सुदर्शन एडवरटाईजिंग	353640	51/01.03.2023	339490
3.	मै0 सुदर्शन एडवरटाईजिंग	603490	52/01.03.2023	579350
4.	मै0 सुदर्शन एडवरटाईजिंग	48720	546/18.03.2023	47740
5.	मै0 सुदर्शन एडवरटाईजिंग	482766	547/18.03.2023	463450

6.	मै0 धारा न्यूज	107100	496/14.03.2023	105000
7.	वक्रान्त हलचल	25000	118/02.02.2023	24500
8.	मै0 सुदर्शन एडवरटाईजिंग	503748	1286/31.03.2023	483590
9.	मै0 सुदर्शन एडवरटाईजिंग	162372	1287/31.03.2023	159100
10.	मै0 सुदर्शन एडवरटाईजिंग	276276	1288/31.03.2023	265224
11.	मै0 सुदर्शन एडवरटाईजिंग	100800	1289/31.03.2023	98780
12.	मै0 सुदर्शन एडवरटाईजिंग	181356	1290/31.03.2023	177700
13.	मै0 उदय भू म	90720	1276/31.03.2023	88900
14.	मै0 उदय भू म	120960	1277/31.03.2023	118500
15.	मै0 उदय भू म	26250	1278/31.03.2023	25700
16.	मै0 उदय भू म	80640	1279/31.03.2023	79000
17.	मै0 उदय भू म	92400	1280/31.03.2023	90550
18.	मै0 उदय भू म	191520	1281/31.03.2023	187690
19.	मै0 उदय भू म	138600	1282/31.03.2023	135820
20.	मै0 उदय भू म	120960	1283/31.03.2023	118500
21.	मै0 उदय भू म	55440	1284/31.03.2023	54300
22.	मै0 हिन्दुस्तान मी डया वेंचर्स ल मटेड	149268	1293/31.03.2023	146280
			योग	37९67९343

(2) अस्थायी अ ग्रमों के समायोजन न कराये जाने के कारण नगर निगम को आर्थिक क्षति रु 53,99,07,385 एवं आलोच्य अवध की अस्थाई अ ग्रम पंजी पूर्ण न कया जाना अनियमतः-

आलोच्य अवध की सम्परीक्षा में नगर निगम द्वारा दिनांक 03-09-2015 से दिनांक 31-03-2022 तक की अस्थाई पंजी सम्परीक्षा में प्रस्तुत की गयी। उक्त पंजी दिनांक 31-03-2022 के बाद अपूर्ण थी। इसमें वर्ष 2022-23 की कोई प्रवृष्टि नहीं की गयी थी। जिसके कारण आलोच्य अवध के अग्रमों की स्थिति ज्ञात न हो सकी। अस्थाई अ ग्रम पंजी पूर्ण न कया जाना अनियमत एवं आपत्जनक था। इसे अद्वैत धक पूर्ण कराया जाना अपेक्षित है।

उक्त पंजी की जांच में प्रकाश में आया कि अस्थायी अ ग्रम पंजी की प्रत्येक प्रवृष्टि सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं थी। दिनांक 03-09-2015 से पूर्व की अस्थाई अ ग्रम पंजी भी सम्परीक्षा में अप्रस्तुत रही जिससे अग्रमों के समायोजन की स्थिति अज्ञात रही। अस्थाई अ ग्रम पंजी का अनुरक्षण त्रुटिपूर्ण ढंग से कया गया था। प्रत्येक वर्ष हेतु अस्थायी अ ग्रम पंजी पृथक-पृथक अनुरक्षित की जानी चाहिये थी। निरन्तर एक ही अस्थाई पंजी अनुरक्षित कये जाने से अग्रमों के समायोजन की स्थिति अज्ञात रहती थी। अतः नियमानुसार अद्वैत धक अस्थायी अ ग्रम पंजी बनाकर पूर्व के असमायोजित अग्रमों की प्रवृष्टि करके अस्थायी अग्रमों की प्रवृष्टि करके अस्थायी अग्रमों की कुल धनराश रु 539907385 का सत्यापन कराया जाय तथा समस्त असमायोजित अग्रमों को शीघ्र समायोजित कराये जाने की कार्यवाही हेतु निगम के उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कया जाता है।

अग्रम पंजी में दिनांक 03-09-2015 से प्रवृष्टि कये गये अग्रमों से यह स्पष्ट नहीं था कि उन अग्रमों के पूर्व में दिये गये अग्रमों के साथ समायोजित कया गया था। अतः यह स्पष्ट कया जाय कि अग्रम पंजिका में प्रवृष्टि पीछे से अग्रणीत करके लाये गये हैं अथवा नहीं। अग्रमों का समायोजन इतनी लम्बी अवध से न कराया जाया अनियमत एवं आपत्जनक था जिससे निगम को आर्थिक क्षति हो रही थी।

आलोच्य वर्ष के अस्थाई अग्रमों की कम्प्यूटराईज्ड सूची उपलब्ध करायी थी। इनकी प्रवृष्टि अग्रमों की कम्प्यूटराईज्ड सूची उपलब्ध करायी थी। इनकी प्रवृष्टि अग्रम पंजी में न कया जाना पूर्णतः अनियमत था। संलग्न परिशिष्ट-30 के अनुसार रु 539907385 के अस्थायी अग्रमों के एक लम्बी अवध तक समायोजित न कये जाने के कारण उक्त धनराश के दुरुपयोग/दुर्वनियोग कये जाने की पूर्ण सम्भावना थी।

टिप्पणी: 1. प्रमाणित किया जाय क उपरोक्त के अतिरिक्त कोई अन्य धनराश अग्रम के रूप में भुगतान नहीं की गयी थी।

(3) अनुदान धनराशियों से प्राप्त ब्याज को शासन के निर्धारित लेखा शीर्षक में वापस न किया जाना अनियमित रु -520573.00

आलोच्य अवध की सम्परीक्षा में प्रकाश में आया क नगर निगम को व भन्न शासकीय योजनाओं हेतु राजकीय अनुदान प्राप्त हुए थे। जिनसे बैंक द्वारा निर्धारित दर से वर्ष में ब्याज की प्राप्ति हुई थी। इस ब्याज के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1564/दस-7/97 दिनांक 02 मार्च, 1998 के क्रम में शासनादेश संख्या-ए-122/दस-2012-10(33)/2010 दिनांक 31 मार्च, 2012 एवं शासनादेश संख्या-10-20/ए-1-52/दस-2015-10(33)/2010 दिनांक 29 मई, 2015 के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये थे क योजनान्तर्गत स्वीकृत मूल धनराश को ही व्यय किया जाय। उस पर बैंक से प्राप्त व्याज को शासन के निर्धारित लेखा शीर्षक में वापस किया जाय। कन्तु सम्परीक्षा अवध में अनुदानों से प्राप्त उक्त बैंक ब्याज की धनराशियों को वापस नहीं किया गया था। यह राजस्व क्षति का प्रकरण था। अतः अनुदानों पर प्राप्त बैंक ब्याज को शासन को वापस न कये जाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस बैंक ब्याज की धनराशियों को तत्काल शासन के निर्धारित लेखा शीर्षक में वापस किया जाना अपेक्षित है। प्राप्त बैंक ब्याज का ववरण निम्नवत है-

क्र0	अनुदान का मद	प्राप्त बैंक ब्याज की धनराश
1.	14 वां वत्त आयोग	7003845
2.	स्मार्ट सटी मशन	355874
3.	अमृत योजना	313301
4.	कान्हा गडशाला एवं वेसहारा पशु आश्रय योजना	77673
5.	15 वां वत्त आयोग	44263880
6.	योग	52014573

(4) प्रेक्षाकर की वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही न करने से लक्ष्य से कम आय प्राप्त होने कारण निगम को आर्थिक क्षति रु 487020-

जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, गाजियाबाद के पत्रांक-372 दिनांक 03-08-2023, 708 दिनांक 31-10-2023, उप निदेशक मेरठ, मण्डल मेरठ के पत्रांक-में0मं/वृत्त/1436 दिनांक 22-08-2023 अध्याचन संख्या- 22 दिनांक 06-09-2023 निर्गत कये जाने एवं बार-बार मौखिक रूप से मांग कये जाने पर प्रेक्षाकर से सम्बन्धित पत्रावली एवं सम्बन्धित अभिलेख अप्रस्तुत रहे। नगर निगम के बजटानुसार प्रेक्षाकर से आलोच्य अवधि की प्रस्तावित आय रु 1500000 थी कन्तु इस लक्ष्य के सापेक्ष मात्र रु 1012980 की आय प्रेक्षाकर के रूप में प्रदर्शित थी, जो कलक्ष्य रु 487020 कम थी। उक्त से स्पष्ट था कि नगर निगम द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सार्थक प्रयास नहीं कये जा रहे थे। जिसके कारण नगर निगम को लक्ष्य से रु 487020 की कम आय प्राप्त हुयी थी। यह आपत्जनक था। अतः प्रेक्षाकर से आय बढ़ाये जाने हेतु प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही कये जाने हेतु निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(5) नगर निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों के मोबाइल बिलों का भुगतान निगम निधि से किया जाना अनियमित रु 1,85,360 :-

व्यय प्रमाणकों की जांच में प्रकाश में आया कि व्यय प्रमाणक संख्या 598 दिनांक 21.03.2023 द्वारा रु 77,380 का भुगतान मैसर्स रिलायंस जिओ डिजिटल को कुल 224 निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों के मोबाइल व्यय के संबंध में किया गया था। संबंधित बिल जोकि माह फरवरी, 2023 की अवधि के संबंध में था को मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा सत्यापित करते हुए बिल पर अंकित किया गया था कि "प्रश्नगत सिम अधिकारियों/कर्मचारियों को दिये गये है।"

उक्त के संबंध में यह स्पष्ट नहीं था कि किस शासनादेश/नियम के अन्तर्गत निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मोबाइल बिलों का भुगतान निधि से किया गया था। अतः संबंधित शासनादेश सम्परीक्षा में प्रस्तुत कर भुगतान का सत्यापन कराया जाय।

(2) इसी प्रकार व्यय प्रमाणक संख्या 486 दिनांक 22.02.2023 द्वारा भी कुल 332 मोबाइलों के सिम के संबंध में रु 1,07,980 का भुगतान किया गया था।

(6) नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश शासन की स्वीकृति के उपरान्त रु 150 करोड़ के बाण्ड निर्गमन पत्रावली के सम्बन्ध में:-

नगर निगम, गाजियाबाद की स्थापना भारत के संवधान के अनुच्छेद-143 क्यू (1) (सी) एवं 30प्र0 म्यूनि सपल कारपोरशन एक्ट- 1959 के अन्तर्गत नोटी फकेशन संख्या-2671-छि-7-1994 दिनांक 26-08-1994 द्वारा की गयी थी।

नगर निगम, गाजियाबाद के पत्र दिनांक 05.12.2018 में उल्लिखित प्रस्तावों के अनुमोदन के क्रम में शासन के आदेश संख्या-5008/नौ-5-2018-167सा/2018 दिनांक 18.12.2018 द्वारा नगर निगम को रु 150 करोड़ के म्यूनिसिपल बाण्ड जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। नगर निगम द्वारा म्यूनिसिपल बाण्ड जारी करने संबंधी प्रस्ताव माननीय कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 12.05.2018 को सर्वसम्मिति से स्वीकृत किया गया था।

वशेष सचव, 30प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग-9 के पत्र संख्या-547/नौ-9-2021-58ज/18 दिनांक 04 मार्च, 2021 द्वारा म्यूनिसिपल बाण्ड जारी करने सम्बन्धी अनुबन्ध का अनुमोदन प्रदान कये जाने के सम्बन्ध में तीन बिन्दुओं पर सूचना की मांग की गयी थी। जिसे नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद के पत्र संख्या-1328/70आ0/2020-21 दिनांक 05-03-2021 द्वारा यह अवगत कराया गया था क निगम द्वारा शासनादेश संख्या-एम-109/नौ-9-19-58ज/18(जी0ओ0) दुनांक 30-07-2019 को सभी शर्तों का समावेश अनुबन्ध में कर लया गया है।

नगर निगम द्वारा जनवरी, 2021 से बाण्ड निर्गमन हेतु प्रोजैक्ट का चयन, रेटिंग एजेन्सियों, रजिस्ट्रार, लां वक्स, सेवी इत्यादि से सम्बन्धित प्र क्रयाओं को प्रारम्भ कया गया था। क्रे डट रेटिंग के लये दो फर्म (1) ब्रिक वर्क (2) इण्डिया रेटिंग का चयन कया गया। नगर निगम के मर्चन्ट बैंकर्स(1) मैसर्स ए0के0 कै पटल एवं (2) एच0डी0एफ0सी0 थे, जिन्होने सेवी के प्रावधानों के अन्तर्गत ड्यू डलीजैन्स कया था। इसके पश्चात बाण्ड के लये बी0एस0ई0 के इलैक्ट्रोनिक बि डंग प्लेटफार्म पर दिनांक 31-03-2021 को बो लया आमन्त्रित की गई जिसमे नगर निगम, गाजियाबाद को रु 150 करोड़ 8.10% ब्याज दर पर उपलब्ध हुआ था। बाण्ड था।

बाण्ड का एलाटमेन्ट बोलीदाताओं को दिनांक 06-04-2021 एवं वी0एस0ई0 पर बाण्ड की लस्टिंग दिनांक 08-04-2021 को की गयी थी।

बाण्ड निर्गमन का मुख्या उद्देश्य रु 150 करोड़ इन्दिरापुरम स्थित सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट को हर शयरी सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट में परिवर्तित कर 40 एम0एल0डी0 संशोधित जल को औद्दोगिक मानक अनुसार साहिबाबाद औद्दोगिक क्षेत्र स्थित औद्दोगिक इकाइयों को जल की आपूर्ति करने के लिये एवं उससे आय प्राप्त करने हेतु किया गया था। उक्त रु 150 करोड़ के बाण्ड शासन से वचार्-वमर्श करने के उपरान्त निवेशकों को निर्गत किये गये थे जो नगर निगम द्वारा उक्त उद्देश्य हेतु खोले गये एच0डी0एफ0सी0 बैंक काते में प्राप्त हो गये थे।

प्रोजेक्ट की कुल लागत रु 320 करोड़ निर्धारित की गयी थी जिसमें 150 करोड़ नगर निगम, गाजियाबाद एवं रु 170 करोड़ मैसर्स वी0ए0टैक वैबेज ल मटेड द्वारा निवेश किये जाने थे। यह प्रोजेक्ट एच0ए0एम0(hybrid Annuity model) बन रहा है।

भारत सरकार के पत्रांक- के-1612/02/2018 अमृत/11/अमृत-11 वी दिनांक 21-09-2021 द्वारा अमृत योजना के अन्तर्गत नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा निर्गत किये गये रु 150 करोड़ के म्युनि सपल बाण्ड के दृष्टिगत इन्सेन्टिव के रूप में रु 19.50 करोड़ की धनराशि दिनांक 08 अगस्त, 2022 में निगम को 50प्र0 शासन द्वारा अमृत योजना के अन्तर्गत ही गई थी, जिसे 50प्र0 शासन के नगर विकास अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-274/2021/139/नौ-5-2022-221बजट/15टी0सी0 दिनांक 08 जनवरी, द्वारा अवमुक्त किये जाने के उपरान्त निगम द्वारा इसे सावध जमा में वनियोजित कर दिया गया था।

उपरोक्त बाण्ड के सम्बन्ध में निगम द्वारा किये गये ब्याज के भुगतान का ववरण निम्नवत है-

क्र0	अवध	ब्याज की धनराशि(रु)
1.	अक्टूबर, 2021	57866933
2.	अप्रैल, 2022	57753100
3.	अक्टूबर, 2022	57690955

4.	अप्रैल, 2023	58449139
5.	अक्टूबर, 2023	58765654
	योग	290525781

उक्त प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनर शप के अन्तर्गत इन्दिरा पुराम सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट को तृतीयक ट्रीटमेन्ट प्लान्ट में परिवर्तित कर संशोधित जल को साहिबाबाद औद्दोगिक क्षेत्र में आपूर्ति कये जाने हेतु हाईब्रिड एनु पटी मॉडल पर लगाया गया था तथा न्यूनतम टेण्डर के आधार पर मैसर्स वी0ए0 टैक वबाग ल मटे, चेन्नई को महाप्रबन्धक(जल) के पत्रांक-28/जलकल/दिनांक 03-01-2022 द्वारा कार्यादेश निर्गत कया गया था तथा मैसर्स वी0ए0 टैक वबाग ल मटेड की च्छ फर्म मैसर्स गाजियाबाद वाटर सोल्यूशन प्रा0 ल0 के साथ दिनांक 23-05-2022 को अनुबन्ध कया गया था। प्रोजेक्ट पूर्ण करने की अवधि 24 माह थी। अनुबन्ध के अनुसार मैसर्स वी0ए0 टैक वबाग ल0 द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु गठित की गयी च्छए गाजियाबाद वाटर सोल्यूशन प्रा0 ल0 को नगर निगम द्वारा देय अंश अंकन रु 150 को 08 समान त्रैमा सक समान कशतों में भुगतान कया जाना था। सम्परीक्षा ती थ प्रोजेक्ट का 70.81% ही कार्य पूर्ण कया गया था। जब क कार्याव ध समाप्त हो चुकी थी। इससे स्पष्ट था क कार्य गति काफी धीमी थी। ऐसी स्थिति में प्रोजेक्ट पूर्ण होने में अभी और समय लगना सुनिश्चित था। स्पष्ट है क प्रोजेक्ट समय से पूर्ण न होना नगर निगम के वतीय होतों के पूर्णतः प्रतिकूल था। प्रोजेक्ट का मूल उद्देश्य औद्दोगिक क्षेत्रों में जलापूर्ति कर भूजल के दोहन को रोका जाना था। इस प्रकार प्रोजेक्ट जितना बलम्ब से पूर्ण होगा उतना ही अतिरिक्त भूजल का दोहन कया जा रहा था। अतः बलम्ब से प्रोजेक्ट पूर्ण कये जाने के सम्बन्ध में अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्यवाही कये जाने हेतु नगर निगम के उच्चा धकारियों का ध्यान वशेष रूप से आकृष्ट कया जाता है।

(7) मैसर्स साहनी बंसल एण्ड एसो सएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को अनौ चत्यपूर्ण एवं अनान्य भुगतान रु 23,29,320:-

सम्परीक्षा माहों के व्यय प्रमाणको की जाँच में प्रकाश में आया क व्यय प्रमाणक संख्या-1357 दिनांक 31-03-2023 द्वारा माह अक्टूबर, 2022 से दिसम्बर, 2022 तक रु 582330 बिल

के सापेक्ष कटौती उपरान्त रु 523100 का भुगतान “प्रोफेशनल चार्जज फआर मैन्टीनेन्स ऑफ प्रापर्टी टैक्स रिकार्डस आफ जोनस एण्ड हैड आ फस” हेतु कया गया था।

यहाँ उल्लेखनीय है क नगर निगम समस्त प्रापर्टी टैक्स सभी जोनों में कम्प्यूटराईज्ड सस्टम एवं नगर निगम की बेवसाईट पर सीधे जमा कया जा रहा था। जिस हेतु वर्ष 2022-23 के लए मैसर्स कम्प्यूटर केन्द्र को उनके बिल रु 697337 के सापेक्ष रु 669400 का भुगतान हाउस टैक्स व लंग पोर्टल एवं आन लाईन पेमेन्ट मोड के वा र्षक अनुरक्षण हेतु भुगतान कया गया था। सभी जोनों में टैक्स प्राप्ति हेतु कम्प्यूटर आपरेट्र नियुक्त थे, रोकड बहियां निगम के ल पकों द्वारा लखी जा रहीं थी एवं मांग समाहरण पंजिया वर्षों से अपूर्ण थी। फर मैसर्स साहनी बंसल एण्ड एसो सएट्स चार्टर्ड एकाटन्टेन्ट द्वारा ऐसा कौन सा कार्य कया जा रहा था जिस हेतु रु 23500 07 क र्मयों हेतु 18% जी0एस0टी0 सहित रु 194110 प्रतिमाह $\times 12 = 2329320$ का भुगतान कया जा रहा था। जब क निगम के जोनों एवं मुख्यालय में अत्यन्त अनुभवी एवं योग्य कर्मचारी व अ धकारी कार्यरत थे, जिनका उत्तरदायित्व इन कार्यों का पूर्ण कराया जाना था। इस प्रकार उक्त फर्म को भुगतान अनौ चत्यपूर्ण एवं अमान्य था।

(8)–आऊटसोरसिंग पर मैन पावर आपूर्ति हेतु मैसर्स एस.सी.एम. प्रोटेक्शन प्रा0 लि0 को 18 प्रतिशत जी.एस.टी. का अदेय भुगतान रु 6,99,075 :-

व्यय प्रमाणकों की जांच में प्रकाश में आया कि नगर निगम द्वारा मैसर्स एस.सी.एम. प्रोटेक्शन प्रा0 लि0 से सुरक्षा गार्डों एवं गन मैनों की आपूर्ति प्राप्त की जा रही थी। सम्बन्धित बिलों में कर्मियों की देय धनराशि के अतिरिक्त फर्म को 18 प्रतिशत की दर से जी.एस.टी. का भुगतान भी किया गया था। जबकि शासनादेश सं0 3272/नौ-5-2019-179 सा/2019 दिनांक 20 सितम्बर 2019 के अनुसार आऊटसोरसिंग पर लेबर आपूर्ति हेतु जी.एस.टी. की देयता नहीं थी। इसके बावजूद भी बिलों में सम्मिलित 18 प्रतिशत जी.एस.टी. का भुगतान किया जाना अनियमित था। इस सम्बन्ध में यदि कोई अन्य शासनादेश/नियम था तो उसे सम्परीक्षा में प्रस्तुत कर स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी। सम्परीक्षा माहों में किये गये भुगतानों का विवरण निम्नवत है—

क्र0	व0 सं0/दिनांक	भुगतान धनराशि	16 प्रतिशत जी.एस.टी. की राशि
------	---------------	---------------	------------------------------

1.	239 / 17.02.2023	429500	39789
2.	240 / 17.02.2023	215420	34231
3.	241 / 17.02.2023	1781790	283124
4.	340 / 02.03.2023	215420	34231
5.	341 / 02.03.2023	1781780	283124
6.	342 / 02.03.2023	154600	24576
			699075

अतः उपरोक्त बिलों में सम्मिलित 18 प्रतिशत जी.एस.टी. की राशि मात्र उप सम्परीक्षा माहों में किये गये भुगतानों से सम्बन्धित थी। अतः सम्पूर्ण अवधि में किये गये भुगतानों में किये गये जी.एस.टी. की गणना करते हुए उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(9)– मैसर्स एच.ई.सी. इन्वार्डरो इण्डिया प्रा० लि०, मुम्बई, महाराष्ट्र को दिये गये अग्रिम रु 14676417 का समायोजन न कराया जाना अनियमित :-

व्यय प्रमाणकों की जांच में प्रकाश में आया कि व्यय प्रमाणक सं० 487 दिनांक 04.03.2023 द्वारा नगर निगम गाजियाबाद में मोबाईल एफ.एफ.एस.एम. ऑन साईट डि-वाटरिंग वाहन की आपूर्ति एवं 02 वर्ष के रख-रखाव हेतु मैसर्स एच.ई.सी. इन्वार्डरो इण्डिया प्रा० लि०, मुम्बई, महाराष्ट्र को रु 14676417.00 का भुगतान किया गया था। व्यय प्रमाणक के साथ संलग्न प्रपत्रों के अनुसार मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित भारत मिशन की राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति की 11वीं बैठक दिनांक 17.11.2022 के कार्यक्रम के अनुसार नगर निगम गाजियाबाद में मोबाईल एफ.एफ.एस.एम. ऑन साईट डि-वाटरिंग की आपूर्ति एवं 02 वर्ष के रख-रखाव का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था। जिसके क्रम में निदेशालय द्वारा प्राप्त आर. एफ. पी. को प्रकाशित कराकर तकनीकी एवं वित्तीय निविदायें खोली गयीं। सबसे न्यूनतम निविदा मैसर्स एच.ई.सी. इन्वार्डरो इण्डिया प्रा० लि०, अंधेरी, महाराष्ट्र की रु 6,33,07,800.00 की स्वीकृत की गयी थी। अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 08.03.2023 को स्वीकृति हेतु अवाश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किये जाने के उपरान्त एल.ओ.ए. निर्गत करते हुये अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया था। अनुबन्ध के बिन्दु सं० 13 के अनुसार सम्बन्धित फर्म को पूंजीगत लागत का 30 प्रतिशत बैंक

गारण्टी सं० 0111222JPG010937 दिनांक 16.09.2022 द्वारा रु 14942340.00 की बैंक गारण्टी दिनांक 31.10.2022 को नगर निगम में उपलब्ध करायी गयी थी। जिसके सापेक्ष नगर निगम द्वारा फर्म को रु 14676417.00 का अग्रिम भुगतान किया गया था।

उल्लेखनीय है कि संलग्न नोटिंग के अनुसार परफारमैन्स बैंक, गारण्टी व फर्म द्वारा प्रस्तुत प्रोफार्मा इन्वायस में क्रेता आर्डर सं० एल.ओ.ए. सं० 552/जलकल/2021-22 दिनांक 16 मार्च 2022 दिया गया था। किन्तु सम्परीक्षा समय तक उपरोक्त वाहन की आपूर्ति नहीं की गयी थी। अनुबन्ध के अभाव (सम्परीक्षा में) यह स्पष्ट नहीं था कि वाहन आपूर्ति हेतु फर्म को कितना समय दिया गया था एवं विलम्ब की दशा में दण्ड प्राविधानित था अथवा नहीं। इस प्रकार अग्रिम के समायोजन के सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों का ध्यान नियमानुसार कार्यवाही हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(10)– गंगाजल परियोजना के संचालन एवं रख-रखाव हेतु परियोजना प्रबन्धक, गंगाजल परियोजना ईकाई, उत्तर प्रदेश जल निगम को भुगतान रु 50,00,000 के उपभोग लेखा/समायोजन नगर निगम द्वारा प्राप्त न किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक :-

सम्परीक्षा माहों के व्यय प्रमाणकों की जांच में प्रकाश में आया कि नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा व्यय प्रमाणक सं० 49 दिनांक 04.03.2023 द्वारा रु 25,00,000.00 एवं व्यय प्रमाणक सं० 188 दिनांक 09.02.2023 द्वारा रु 25,00,000.00 कुल रु 50,00,000.00 50 क्यूसेक गंगाजल परियोजना के संचालन एवं रख-रखाव हेतु परियोजना प्रबन्धक, गंगाजल परियोजना ईकाई, उत्तर प्रदेश, जल निगम को देय रु 100 लाख के सापेक्ष भुगतान किये गये थे। एक्त देय एवं भुगतान धनराशि किस अवधि के संचालन एवं रख-रखाव हेतु भुगतान किया गया था, स्पष्ट नहीं था।


उक्त दोनो अग्रिमों से सम्बन्धित उपभोग लेखा/समायोजन भी सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अग्रिमों के सापेक्ष कार्यों की प्रगति के सम्बन्ध में कोई अभिलेख न होना तथा अग्रिम धनराशियों का उपभोग लेखा/समायोजन प्राप्त न किया जाना नगर निगम की उदासीनता का द्योतक था। अतः सम्बन्धित समस्त अभिलेख प्राप्त कर स्थिति स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

निष्कर्ष :- इस सम्परीक्षा आख्या में वर्णित उपर्युक्त अभ्युक्तियों एवं अनियमितताओं के अतिरिक्त लेखे का रख-रखाव सामान्यतया सन्तोषजनक था, यद्यपि इसमें पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है। सम्परीक्षा आख्या में उठायी गयी महत्वपूर्ण वित्तीय अनियमितताओं पर प्रशासन का ध्यान त्वरित कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है। सम्परीक्षा में निर्गत मूल आपत्ति पत्र उत्तर सहित सम्परीक्षा टोली को वापस नहीं किये गये। इसे अब सीधे उत्तर सहित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को वापस किये जाने की कार्यवाही की जाय।

सम्परीक्षा आख्या भाग-3/स्वच्छ आपत्ति पत्र में अब कुल 43 पद शेष हैं।

स्थान : मेरठ

दिनांक : 16.04.2024



(देवेन्द्र)

उप निदेशक

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र०
मेरठ मण्डल, मेरठ।

सम्परीक्षा टोली के सदस्यों के नाम :-

1. श्री देवेन्द्र कुमार, व०ले०प०
2. " अनिल कुमार, व०ले०प०
3. " मनोज कुमार मिश्रा, व०ले०प०

सम्परीक्षा आख्या भाग-ख के प्रस्तर 1 में संदर्भित

लेखे का नाम- नगर निगम, गाजियाबाद

अवधि - 2022-23

अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण

अवधि	सम्परीक्षा आख्या के अनुच्छेद	पद	योग
1981-82	3टि0(1)(2)(3)(4)(अ)4टि0(2)(3)5,6(2)(3)7(1)(2)9,11टि0(अ)(ब)(स)(द) 12टि0,13टि0(1)(2),14,15,16,17,18(अ)(ब)(स)19(1)(2),39,40(1)(2)(3) 41(1)(2)(3)(4)42,43,44,45(1)(2)46,47,48,49(2),50,51(2)52,53,54,55,56 ,57,58,59(1)(2)(3)(4)(5)(6)61,62,63,64,65,66(1)67(क)(ख)(ग)(घ)68,69, 70(1)(2)(3)(4)71,72(2)(3)73टि0(1)(2)(3)(4),74,75,76(1)(2)77	-	89
1982-83	17(ख)(घ)18(1)(2)(3)(4)(5)(ख)(1)(2)(3)(4)(5)(6)19(क)(4)	-	14
1983-84	3टि0(1)(2)(3)(4)4टि0,6टि0(1)(2)(3)7टि0(1)(2)(3)(4)8टि0(1)(2)10,11टि (1)(2)12,13टि0(1)(2)(3)(4)(5)14,17,18(1)(2)(3)(4)19,20,21(2)22,23,24,25(1)(2) 26(1)(2)27,28(1)(2)(3)(4)(5)(6)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(1)(2)(3)27 (1)(2)(3)30(1)(2)31,32,33,34(1)(2)35(1)(2)	-	65
1984-85	3टि0(1)(2)(3)4टि0(2)5टि0(1)(2)(3)(4)7टि0(1)(2)(3)(4)8(1)(2)10,11 (1)(2)(3)12,13(1)(2)(3)(4)(5)14,15(1)(2)(3)(4)(5)(1)(2)(3),16(क) 17,18,19,20,21,22,23,24(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)25(क)(1)(2)(4) (5)(ख)(1)(2)(3)	-	61
1985-86	3टि0(1)(2)(3)4टि0(1)(2)(3)(4)5टि0(1)(2)(3)(4)6टि0(1)(2)(3)(4)8टि0 (1)(2)(3)(4)(5)9टि0(1)(2)(3)(4)10,11टि0(1)(2)14टि0(1)14(ख)15(1)(2) 16(1)(2)17,18,19(क)(1)(2)(ख)20,21,22,23,24,25,26,27	-	46
1986-87	3टि0(1)(2)(3),4टि0(1)(2)(3)(4)5,6(1)(2)(3)(4)12,14टि0(1)(2)15(2)(3) 16(क)(ख)17,18,19,20नोट(1)(2)21,22,23,24(1)(2)25(2)27,28,29,30, 31,32,33(क)(ख)(ग)(घ)(ड)(च)(छ)(ज)(झ),34,35(1)(2)(3)36,37,38 (1)(2)39(1)(2)(3)40(1)(2)(4)41,42,43,44,45,46	-	64
1988-89	3टि0(1)(2)4टि0(1)(2)(3)5(1)(2)(3)5(क)(1)(2)(3)(4)(5)टि06(1)(2) 14,15टि0(1)(2)(ग)(घ)(ड)(च)17,18,19,20,21,22,23,24टि025टि0,26,27,28, 29,30(क)(ख)(ग)(घ)(1)(2)(3)(4)31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43	-	56
1989-90	3टि0(1)(2)(3)(4)4टि0(1)(2)(3)(4)4टि0,5टि0(1)(2)8,9,10,11,12टि0, 13टि0नोट14(1)(2)(क)नोट16(1)(2)(3),17,18,19,20(ख)(1)(2)(3)(ग) (1)(2)(3)(ड)(च)(छ)(ज)22(1)(2)23नोट,24,25(1)(2)(3)(4),26,27 (1)(2)28,29(1)(2)30,31(क)(ख)32(1)(2)(3),33,34,35,36(1)(2)37नोट (1)(2)38,39	-	71
1990-91	3टि0(1)(2)(3)(4)(6)4टि0(1)(2)(3)5टि0(1)(2)(3)6,7टि0(1)(2)(3),8,10,11	-	21

1991-92	12नोट13टि0(1)(2)14,15टि0(1)(2),16(क)(ख)(ग)(घ)(ङ)(1)(2)(3)(4) (च)(1)(2)(छ)(ज)17(1)(2)18,19(1)(2)20,21नोट(1)(2)(3)22,23(1)(2)(3) (4)(5)(6)(7)(8)(1)(2)। नोट24(ख)(ग)(ङ0)(च)(छ)(ज)(झ)(ञ)25नोट, 26नोट27,28,31,32(1)(2)(3)35	—	54
1992-93	1,3टि0(1)(4)4टि0(1)(2)5टि0(1)(2)(3)6टि0(1)(2)टि0(1)(2)11,12,13टि0, 14टि0(1)(2)15,16टि0(1)(2)17(1)(2)18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32,33(1)(2)34,35,36(1)(2)37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, 48,49,50,51,52,53,54,55,56	—	63
1993-94	3टि0(1)(2)4टि0(1)(2)(3)5टि0(1)(2)(3)(4)(5)6टि0(1)(2)(3)10,11,12टि0 (1)(2)(3)(4)(5)13,14,15टि0(1)(2)(3)16(1)(2)17टि0(क)(ख)(ग)(1)(2)(घ) 19(क)टि0(1)(2)20(1)(2)(3)21(4)22,23टि025(क)(ख)(ग)26,27,28,29(क) (ख)30(1)(2)(3)31(क)(ख)32(क)(ख)33(2)35(क)(ख)36(1)(2)(3)(4)(5)37	—	77
1994-95 (प्रथम छमाही)	3टि0(1)(2)(3)4टि0,5टि0(1)(2)(3)6टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)8,9(1)(2)(3)(4) (5)10,11टि0(1)(2)12(1)(2)13टि0,14(1)(2)15(1)(2)16(1)(2)17(1)(2) 18टि0,19,20(1)(2)(3)(4)21(1)(2)(3)24(1)(2)(3)25(1)(2)26,27 (1)(2)(3)(4)28(1)(2)(3)29,30,31(1)(2)(1)(2)32(1)(2)33(1)(2)(3)(4)(5) 34(1)(2)(3)35(1)(2)(3)	—	79
1994-95 (द्वितीय छमाही)	3टि0(1)(2)4(1)(2)(3)(4)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)6(1)(2)टि0(1)7 (1)(2)(3)(4)(1)(2)(3)(क)(ख)(2)9,10(1)(2)(3)(4)11(1)(2)(3)12,13,14,15 (1)(2)(3)(4)(5)16(1)(2)17(1)(2)18(1)(2)(3)(4)19(1)(2)20	—	52
1995-96	1(क)(ख)2,3,4(1)(2)(3)(4)(5)6,7(ख)(1)(2)(3)(ग)(घ)(ङ)(च)(छ)(ज)	—	19
1996-97	1(अ)2,3,4टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10),7,9(1)(ब)2(क)(ख)3टि0, 4टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9),10,11,15,6,7,8(2)(3)(4)(7)	—	36
1997-98 से 1998-99	1,2,3टि0(1)(2)(3)(क)(ख)4टि0(1)(2)(3)(4)4(अ)(क)(ख)(ग)(घ)4(ब) (क)(ख)(ग)(घ)(ङ)(च)2(क)(ख)1,3,4,5(ग)(घ)2(क)(ख)(ग)(घ) 4(क)(ख)(ग)(घ)(ङ) 5(क)(ख)(ग)(घ)प्रथम,द्वितीय,तृतीय,चतुर्थ, पंचम किस्त 7(1)(2)(3),3(क)4,5,6,7,8,9,10(1)(2)(3)(4)(5)9(क)(ख)(ग)(घ)(ङ) 11(क)(ख)(ग)(घ)12(1)(2)(3)(4)(5)15(1)(2)(3)(4)(5)16(क)(ख)(ग)(घ) (ङ)(च)(छ)(ज)(झ)(ञ)19(1)(2)(3)(4)(5)(6)20(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9) 21,22,23(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)27(1)28(क)(ख)(ग)(घ)(ङ)(च) (छ)(ज)29,30(क)(ख)(ग)टि0(1)(2)	—	133
1999-2000	1(क)(ग)(घ)(ङ)(छ)(ज)(ण)(त)(थ)(ध)(न)(प)(फ)(ब)2,3टि0,4(1)(2)(5)(6)	—	22
2000-01 (प्रथम छमाही)	1(ए)(बी)(1)(2)(3)(4)(सी)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(डी)(1)(2)(3)(4)(5)(ई)(1)(2) (3)(4)(एफ)(1)(2)(जी)(एच)(आई)(जे)(के)(एल)(एम)(ओ)(पी)(क्यू)(आर) (एस)2,3टि0(1)(2)(3)(4)(5)6,7,8	—	46
2000-01 (द्वितीय छमाही)	1(ए)(बी)(सी)(डी)(इ)(एफ)(जी)(एच)(आई)(जे)(के)(एल)(एम)(ओ)(पी)(क्यू) (आर)(एस)(टी)(यू)(वी)(डब्ल्यू)(एक्स)(वाई)(क)(ख)(ग)(घ)(ङ)(च)(छ)(ज)(झ)(ञ) (ट)(ठ)(ड)2,3टि0,2टि0,1,2,3,4टि0(1)5,6,7(2)(3)(4)7,8(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)	—	58

2001-02	1(क)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)(36)(37)(38)(39)(40)(41)(42)(43)(44)(45)(46)(47)(48)(49)(50)(51)(52)(53)(54)(55)(56)(57)(58)(59)(60)(61)(62)(63)(64)(65)(66)(67)(68)(69)(70)(71)(72)(73)(74)(75)(76)(77)(78)(79)(80)(81)(82)(83)(84)(85)(86)(87)(88)(89)(90)(91)(92)(93)(94)(95)(96)(97)(98)(99)(100)(101)(102)(103)(104)(105)(106)(107)(108)(109)(110)(111)(112)(113)(114)(115)(116)(117)(118)(119)(120)(121)(122)(123)(124)(125)(126)(127)(128)(129)(130)(131)(132)(133)(134)(135)(136)(137)(138)(139)(140)(141)(142)(143)(144)(145)(146)(147)(148)(149)(150)(151)(152)(153)(154)(155)(156)(157)(158)(159)(160)(161)(162)(163)(164)(165)(166)(167)(168)(169)(170)(171)(172)(173)(174)(175)(176)(177)(178)(179)(180)(181)(182)(183)(184)(185)(186)(187)(188)(189)(190)(191)(192)(193)(194)(195)(196)(197)(198)(199)(200)(201)(202)(203)(204)(205)(206)(207)(208)(209)(210)(211)(212)(213)(214)(215)(216)(217)(218)(219)(220)(221)(222)(223)(224)(225)(226)(227)(228)(229)(230)(231)(232)(233)(234)(235)(236)(237)(238)(239)(240)(241)(242)(243)(244)(245)(246)(247)(248)(249)(250)(251)(252)(253)(254)(255)(256)(257)(258)(259)(260)(261)(262)(263)(264)(265)(266)(267)(268)(269)(270)(271)(272)(273)(274)(275)(276)(277)(278)(279)(280)(281)(282)(283)(284)(285)(286)(287)(288)(289)(290)(291)(292)(293)(294)(295)(296)(297)(298)(299)(300)(301)(302)(303)(304)(305)(306)(307)(308)(309)(310)(311)(312)(313)(314)(315)(316)(317)(318)(319)(320)(321)(322)(323)(324)(325)(326)(327)(328)(329)(330)(331)(332)(333)(334)(335)(336)(337)(338)(339)(340)(341)(342)(343)(344)(345)(346)(347)(348)(349)(350)(351)(352)(353)(354)(355)(356)(357)(358)(359)(360)(361)(362)(363)(364)(365)(366)(367)(368)(369)(370)(371)(372)(373)(374)(375)(376)(377)(378)(379)(380)(381)(382)(383)(384)(385)(386)(387)(388)(389)(390)(391)(392)(393)(394)(395)(396)(397)(398)(399)(400)(401)(402)(403)(404)(405)(406)(407)(408)(409)(410)(411)(412)(413)(414)(415)(416)(417)(418)(419)(420)(421)(422)(423)(424)(425)(426)(427)(428)(429)(430)(431)(432)(433)(434)(435)(436)(437)(438)(439)(440)(441)(442)(443)(444)(445)(446)(447)(448)(449)(450)(451)(452)(453)(454)(455)(456)(457)(458)(459)(460)(461)(462)(463)(464)(465)(466)(467)(468)(469)(470)(471)(472)(473)(474)(475)(476)(477)(478)(479)(480)(481)(482)(483)(484)(485)(486)(487)(488)(489)(490)(491)(492)(493)(494)(495)(496)(497)(498)(499)(500)(501)(502)(503)(504)(505)(506)(507)(508)(509)(510)(511)(512)(513)(514)(515)(516)(517)(518)(519)(520)(521)(522)(523)(524)(525)(526)(527)(528)(529)(530)(531)(532)(533)(534)(535)(536)(537)(538)(539)(540)(541)(542)(543)(544)(545)(546)(547)(548)(549)(550)(551)(552)(553)(554)(555)(556)(557)(558)(559)(560)(561)(562)(563)(564)(565)(566)(567)(568)(569)(570)(571)(572)(573)(574)(575)(576)(577)(578)(579)(580)(581)(582)(583)(584)(585)(586)(587)(588)(589)(590)(591)(592)(593)(594)(595)(596)(597)(598)(599)(600)(601)(602)(603)(604)(605)(606)(607)(608)(609)(610)(611)(612)(613)(614)(615)(616)(617)(618)(619)(620)(621)(622)(623)(624)(625)(626)(627)(628)(629)(630)(631)(632)(633)(634)(635)(636)(637)(638)(639)(640)(641)(642)(643)(644)(645)(646)(647)(648)(649)(650)(651)(652)(653)(654)(655)(656)(657)(658)(659)(660)(661)(662)(663)(664)(665)(666)(667)(668)(669)(670)(671)(672)(673)(674)(675)(676)(677)(678)(679)(680)(681)(682)(683)(684)(685)(686)(687)(688)(689)(690)(691)(692)(693)(694)(695)(696)(697)(698)(699)(700)(701)(702)(703)(704)(705)(706)(707)(708)(709)(710)(711)(712)(713)(714)(715)(716)(717)(718)(719)(720)(721)(722)(723)(724)(725)(726)(727)(728)(729)(730)(731)(732)(733)(734)(735)(736)(737)(738)(739)(740)(741)(742)(743)(744)(745)(746)(747)(748)(749)(750)(751)(752)(753)(754)(755)(756)(757)(758)(759)(760)(761)(762)(763)(764)(765)(766)(767)(768)(769)(770)(771)(772)(773)(774)(775)(776)(777)(778)(779)(780)(781)(782)(783)(784)(785)(786)(787)(788)(789)(790)(791)(792)(793)(794)(795)(796)(797)(798)(799)(800)(801)(802)(803)(804)(805)(806)(807)(808)(809)(810)(811)(812)(813)(814)(815)(816)(817)(818)(819)(820)(821)(822)(823)(824)(825)(826)(827)(828)(829)(830)(831)(832)(833)(834)(835)(836)(837)(838)(839)(840)(841)(842)(843)(844)(845)(846)(847)(848)(849)(850)(851)(852)(853)(854)(855)(856)(857)(858)(859)(860)(861)(862)(863)(864)(865)(866)(867)(868)(869)(870)(871)(872)(873)(874)(875)(876)(877)(878)(879)(880)(881)(882)(883)(884)(885)(886)(887)(888)(889)(890)(891)(892)(893)(894)(895)(896)(897)(898)(899)(900)(901)(902)(903)(904)(905)(906)(907)(908)(909)(910)(911)(912)(913)(914)(915)(916)(917)(918)(919)(920)(921)(922)(923)(924)(925)(926)(927)(928)(929)(930)(931)(932)(933)(934)(935)(936)(937)(938)(939)(940)(941)(942)(943)(944)(945)(946)(947)(948)(949)(950)(951)(952)(953)(954)(955)(956)(957)(958)(959)(960)(961)(962)(963)(964)(965)(966)(967)(968)(969)(970)(971)(972)(973)(974)(975)(976)(977)(978)(979)(980)(981)(982)(983)(984)(985)(986)(987)(988)(989)(990)(991)(992)(993)(994)(995)(996)(997)(998)(999)(1000)	—	93
2002-03	1(क)2(क)2(ग)2(3)2(घ)2(3)4(4)टिप्पणी 5(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(ख)(ग) (घ)(1)(2)(3)(च)(छ)(2)(3)(4)(5)(6)(ज)(झ)(1)(2)(3)(ट)(ठ)(ड)(ढ)(3)(4)(5)(6)(7)(8) (i)(ii)(iii)(ढ)(ण)(त)(थ)(1)(2)(3)(द)(2)(3)(ध)(1)(2)(3)(4)(5) (7)(9)(1)(2)(11,13,14,15(ग)(1)(2)(3)(4)16(7)(प)(फ)(ब)(भ)(म)(य)(र) (ल)(व)(श)(ष)(स)(ह)(क्ष)(त्र)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(ज)(1)(2) (i)(iii)(i)(ii)(iii)(1/5)(1/6)वर्ष2001-02केआपत्तियों(1)(2)(3)(4)(5)(6) (7)(8)(9),2,3,4,5,6टिप्पणी सम्पूर्ण 7	—	122
2003-04	1(क)(1)(2)(1)(2)(ख)(ग)(1)(2)(3)(4)(1)(2)(3)(5)(6)(7)(1)(2)(3)(1)(घ) (i)(ii)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(1)(घ)(1)(2) 1(घ)(1)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(1)(घ)(1)(2) 1(घ)(1)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(1)(2)(3)(15)(1)(2)(3) (16)(17)(18)(19)(20)(1)(2)(3)(21)(22)1(ड0)(1)(2)(3)(1)(2)(4)(5)(1)(2) (6)(7)(8)(9)(1)(2)(3)(4)(10)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13) (14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(1)(च)(1)(1)(2)(2)(1)(2)(3)(4)(5)(6) (1)(2)(3)(4)(7)3टि0(1)(2)(4)(1)(3)(4)(5)(6)7(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9) (10)(11)(12)(13)(14)	1से10	143
2004-05	1(क)(1)(2)(3)(ख)(1)(2)(3)(ग)(घ)(1)(2)(ड0)(च)(छ)(1)(2)(3)(4)(5)(6) (ज)(1)(2)(झ)(ज)(क)(ख)(ग)(घ)(ड.) (ट)(ठ)(क)(ख)(ग)(घ)(ड.) (1)(2)(3) (ढ)(1)(2)(ण)(1)(2)(त)(थ)(द)(ध)(न)(य)(र)(1)(2)(3)(ल)(1)(2)(व)(स) (1)(2)(ष)(1)(2)(21)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(ह)(1)(2)(3)3टि0 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)4टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)5,6टि0(1)(2)(3),7,8(क) (ख)(1)(अ)(ब)9(क)(ख)(ग)	1से 37	122
2005-06	1(क)(1)(2)(3)(4)(5)(ख)(ग)(घ)(ड)(च)(छ)(ज)(झ)(ज)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) (ट)(ठ)(ड)(ढ)(ण)(त)(थ)(द)(1)(2)(ध)(1)(2)(3)(न)(य)(र)(ल)(व)(श)(ष)(स) (ह)(अ)(1)(2)(3)(क)(ख)(ग)(आ)(क)(ख)(ग)(ई)(उ)(ऊ)2,3टि0(1)(2)(3) 4टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)5टि0(1)(2)7,8,9(क)(ख)	3,4,5, 6,11, 12,13, 14,15	73
2006-07	1(क)(1)(2)(3)(अ)(ब)(ii)(iii)(i)(ii)(iii)(vi)(ख)(1)(2)(3)टि0(ग)(1)(2)(3) (4)टि0(घ)(1)(2)(ii)(क)(ड)(च)(छ)(ज)(झ)(i)(ii)(iii)(ख)टि0(i)(ii)(iii)(त्र) (i)(ii)(iii)(ट)(i)(ii)(iii)(iv)(ड)(i)(ii)(iii)(iv)(ढ)(त)(थ)(द)(ध)(न)(प)(i)(ii) (iii)(फ)(ब)(भ)(म)(1)(2)(य)(र)(1)(2)(ल)(व)(श)(ष)3टि0(i)(ii)(iii)(iv)(v) (vi)(vii)(viii)4टि0(क)(ख)(i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)(vii)(viii)(ix)(x)5	1से 42	140

	(i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)7(1)(2)8,9(क)(ख)(i)(ii)(iii)(iv)10(क)(ख)(i)(ii)(ख)(ग)(घ)		
2007-08	1(क)(1)(2)(3)(ख)(1)(2)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(ग)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(ग)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(घ)(1)(अ)(ब)(स)(द)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)3टि0(1)(2)(3)(4)3(क)3(ख)4टि0(1)(2)(3)(4)5,6टि0(1)(2)(3)7टि0(1)(2)(3)(4)8,9(क)(ख)(ग)(घ)(ड.)च	1 से 32	91
2008-09	भाग-“क” 1(क)(ख)(ग)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(घ)(1)(2)(3)(ड.)च(1)(2)(छ)(ज)(झ)(1)(2)(ज)(2)(क)(ख)(ग)(घ)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(ड)3(क)(ख)(1)(2)(ग)(घ)(ड.)च(छ)(ज)(झ)(ज)(ट)(ठ)(ड)(ढ)(ण)(त)4,5,6,7(क)(ख)(ग)(घ)(ड.)च(छ) भाग-“ख” 1,2टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)3,4(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)5टि0(1)(2)(3)6,7टि0(1)(2)(3)(4)8,9,10टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)	1 से 10	104
2009-10	भाग-“क” 1,2,3,4,5,6(i)(ii)(iii)(iv)(v)7(1)(2)8,9,10(i)(ii)11,12,12(i)(ii)13,14,15,16,17,18,19,20(i)(ii)21टि0(i)(ii)22(क)(ख)(ग)टि0 23(क)(ख)24,25,26(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(क)(ख) भाग-“ख” (एक)(दो)(i)(ii)(तीन)(चार)टि0(1)(2)(3)(4)(5)(पाँच)टि0(i)(ii)(iii)(iv)(छ)(सात)(आठ)(नौ)टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)	1 से 53	123
2010-11	भाग-“क” 1,2,3,4,5,6,7,7(ख)8(1)(2)(3)(4),9,10(i)(ii)(iii)(v)11(i)(ii)(iii)12(i)(ii),13,14,15टि0(i)(ii)16 भाग-“ख” 5(क)(ख)(ग)9(i)(ii)(iii)(iv)टि0	2,3,4,5, 7,8,10, 11,12,1 3,15,16 ,17,18, 19,20,2 2,23,24 ,25,26, 28,29,3 0,31,34	61
2011-12	भाग-“क” 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11(a),12,13,14,15,16,17,18,19,20(i)(ii)(iii)(iv)(v)21(1)(2)(3)(4)टि0(i)(ii),22,23,24,25,26,27,28(1)(2)(3)(4)(5)(6),29,30 भाग-“ख” 2टि0(i)(ii)(iii)(iv)(v)3टि0ख(1)(6)(7)(8)(9)(10)(ग)टि0(1)(2)4टि0(ii)(iii)(iv),6,7,8,9,10(i)(ii)(iii)	1 से 25	67
2012-13	भाग-“क” 1(क)(1)(2)(3)(4)(क)(ख)(i)(ii)(iii)(5) 1(ख)(1)(2) 1(ग)(1)(2)(1)(2)(3)(4)(5)(3) 1(घ)(1)(2)(3)(4) 1(ड.) 1(च) 1(छ)(1)(2)(3)(4) 1(ज)टि0(1)(2) 1(झ) भाग-“ख” 9टि0(4)10(1)(2)(3)(4)(5)	18,19	37
2013-14	भाग-“क” 1,2(1)(2)(3)3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 भाग-“ख” 1,2टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)3टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)4,5टि0(1)	1 से 56	117

	(2)6,7,8,9 (1)(2)(3)(4)(5)(6)10		
2014-15	भाग-"क" 1,2,3,4,5,6,7(क)(ख)(ग)(घ)(ङ.) (च)(छ)(ज)(झ)8,9, 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 भाग-"ख" 1,2(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)3टि0(1)(2)(3)(4) (5)(6)4,5टि0(1)(2)6,7,8,9टि0(1)(2)(3)(4)10	1 से 37	95
2015-16	भाग-"क" —1(क)(ख)(ग)(घ)(क)(ख)(ङ.)(क)(ख)(च)(क)(ख)(छ)(ज) (क)(ख) (ग)(घ)(ङ.)(च)(झ)(ज)(क)(ख)(ग)(ट)(ठ)(ड)(ढ)(ण)(त)(थ)(द)(ध)(न) 2,3,4, 5, 6, 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,53,54,55 भाग-"ख" —2टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16) (17)(18)3टि0(1)(2)(3)4,5टि0(1)(2)6,7,8,9टि0(1)(2)(3)(4)10	1 से 67 तक	183
2016-17	भाग-"क" —1,2,3,4(1)(2),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29(1)(2)(3),30(1)(2),31(1)(2),32 भाग-"ख" —2टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(10)3टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) (9)(10)(11 (12), 4,5टि0(1)(2)(3)(4),6टि0(1)(2)(3)(4),7,8,9,10,11(1)(2)(3) (4)(5)(6) 7(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)	1 से 47 तक	131
2017-18	भाग-"क" —1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 (1)(2)(3)(4), 24(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9), 25(1)(2)(3), 26,27(1)(2) 28, 29, 30,31,32(1)(2)(3), 33,34,35,36(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 37,38(क)(ख)(ग) 39,40,41,42,43(1)(2), 44(1), 45,46,47,48(1)(2)(3), 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62(1)(2)(3), 63,64 भाग-"ख" —2टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11), 3टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) (8)(9)(10)(11)(12)(13)(15) 4,5टि0(1)(2)(3)(4) 6टि0(1)(2)(3)(4) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1 से 11 तक	151
2018-19	भाग-क: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9(1)(2)(3)(4)(5)(6), 10(1)(2)(3)(4)(5), 11(1)(2), 13(1)(2)(3)(4)(5)(6), 14(1)(2)(3)(4), 15(1)(2)(3)(4)(5), 16(1)(2) (3)(4), 17(1)(2), 18(1)(2), 19(1)(2)(3), 20(1)(2), 21(1)(2), 22, 23(1)(2)(3), 24(1)(2), 25(1), 26(1)(2)(3), 27(1)(2)(3), 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39(1)(2), 40, 41(1)(2), 42, 43, 44, 45(1)(2), 46, 47(1)(2), 48, 49, 50(1)(2), 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,72,73,74, 75 भाग-ख :: 2टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9), 3टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) (9)(10)(11)(12), 4टि0(1)(2)(3)(4), 5टि0(1)(2)(3)(4)(5), 6, 7, 8, 9, 10टि0	1 से 11	164
2019-20	भाग-क : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10(1)(2)(3), 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19(1)(2)(3), 20(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7), 21(1)(2)(3), 22(1)(2), 23(1)(2)(3)(4), 24(1)(2), 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7), 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43(1)(2)(3)(4)(5), 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,	—	309

	<p>64(1), 65, 66(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7), 67(क)(1)(2)(3)(4)(5) (ख)(2)(3)(4)(5)(6), (ग)(2)(3)(4)(5)(6), (घ)(2)(3)(4)(5) (6), 68(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7), 69(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12) (13), 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9), 84(1)(2)(3)(4), 85, 86, 87(1)(2)(3)(4)(5), 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104(1)(2)(3)(4), 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139(1)(2)(3), 140, 141, 142, 143, 144(क)(1)(2)(3), (2)(3)(4)(5)(6), बसुन्धरा जोन (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17) (18)(19)(20) (21)(22)(23)(24), मोहन नगर जोन (1)(2)(3)(4)(5)(6)</p> <p>भाग-ख : 2टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12), 3टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15), 4टि0(1)(2)(3)(4), 5टि(1)(2)(4), 7, 8, 9, 10</p>		
2020-21	<p>भाग-क : 1, 2, 3, 4(1)(2)(3), 5, 6, 7, 8, 9, 10(1)(2)(3), 11, 12, 13(1)(2), 14(1)(2)(3)(4), 15(1)(2)(3)(4) (5)(6), 16(1)(2)(3)(4) (5)(6), 17(1)(2)(3)(4) (5), 18(1)(2)(3)(4) (5)(6)(7), 19, 20, 21, 22, 23(1)(2), 24, 25(1)(2)(3)(4), 26, 27(1)(2)(3)(4), 28, 29, 30(1)(2)(3), 31, 32, 33, 34, 35(1)(2), 36, 37, 38, 39(1)(2)(3)(4) (5)(6)(7)(8)(9)(10), 40(1)(2), 41, 42(1)(2), 43, 44, 45(1)(2)(3)(4) (5)(6)(7), 46(1)(2)(3), 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58(1)(2)(3)(4) (5), 59(1)(2)(3)(4), 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67(1)(2), 68(1)(2), 69(1)(2)(3)(4) (5), 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79(1)(2), 80, 81(1)(2), 82(1)(3)(4)(5), 83(1)(2)(3)(4) (5), 84, 85(1)(2)(3)(4), 86(1)(2), 87, 88(1)(2)(3)(4), 89(1)(2)(3)(4), 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100(1)(2)(3)(4)(5)(6), 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107(1)(2)(3)(4) (5)(6), 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117(1)(2)(3)(4) (5)(6)(7), 118(1)(2)(3), 119(1)(2)(3)(4) (5)(6)(7), 120(1)(2)(3)(4) (5)(6)(7), 121(1)(2)(3)(4) (5), 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169(1)(2)(3)(4), 170, 171(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) (9), 172, 173(1)(2)(3)(4)(5), 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184</p> <p>भाग-ख : 2टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12), 3टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15), 4टि0(1)(2)(3)(4)(6), 5टि(1)(2) (4), 7, 8, 9, 10</p>	-	361
2021-22	अप्राप्त	-	-
	योग-		3813

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र०, प्रयागराज।

सम्परीक्षा आख्या भाग-3

नगर निगम, गाजियाबाद वर्ष 2022-23

1. मैसर्स वर्तमान हलचल को विज्ञापन हेतु रु 75000 का अमान्य भुगतान:-

1. व्याज प्रमाणकों की जांच में प्रकाश में आया कि मैसर्स वर्तमान हलचल को इनके इन्वायस संख्या-02/2022 दिनांक 27.12.2022 रु 25,000 के क्रम में टी०डी०एस० रु 500 की कटौती करते हुए रु 24,500 का भुगतान किया गया था। किन्तु सम्बन्धित इन्वायस में विज्ञापन का प्रकार, कार्यादेश संख्या व दिनांक, विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि, विज्ञापन का साईज एवं प्रति वर्ग सेन्टीमीटर की दरों का कोई भी उल्लेख नहीं था और न ही सम्बन्धित अखबार की प्रति ही संलग्न की गयी थी। जिससे यह स्पष्ट न हो सका कि इस प्रकार का विज्ञापन, कब कराया गया था। तथा विज्ञापन किन दरों पर, कितने क्षेत्रफल में किस उद्देश्य हेतु कराया गया था। इन सभी के अभाव में विज्ञापन कराये जाने की पुष्टि न हो सकी। अतः सम्बन्धित भुगतान का सत्यापन आवश्यक अभिलेखों के द्वारा सत्यापित कराया जाय अन्यथा की स्थिति में भुगतान सम्परीक्षा में अमान्य था।

2. इसी प्रकार व्यय प्रमाणक संख्या-1292 दिनांक 31.03.2023 बिल रु 25,000 के सापेक्ष रु 24500 का भुगतान किया गया था।

(3) 118-व्यय प्रमाणक संख्या .दिनांक के सापेक्ष 25,000 बिल रु 02.02.2023 24,500 रु का भुगतान भी किया गया था।

2. व्यय प्रबन्धन एवं प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता सम्बन्धी शासनादेश के विरुद्ध पत्रिका में विज्ञापन हेतु व्यय रु 20000 किया जाना अनियमित:-

व्यय प्रमाणकों की जांच में पाया गया कि व्यय प्रमाणक संख्या-1285 दिनांक 31.03.2023 द्वारा यू०एस०एम० पत्रिका के माह जनवरी, 2022 में 1.5 पृष्ठ के विज्ञापन हेतु रु 20,000 बिल के सापेक्ष टी०डी०एस० कटौती के उपरान्त रु 19,600 का भुगतान किया गया था।

शासनादेश संख्या-4/2018/आ०जी०-1021/दस/2018-मित-1/2017 वित्त संसाधन (सामान्य) अनुभाग, लखनउ दिनांक 18 सितम्बर, 2018 के प्रस्तर(7) में विज्ञापन एवं प्रसार मद हेतु वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए मितव्ययिता बरते जाने हेतु स्पष्ट निर्देश दिये गये थे। इसके बावजूद भी उक्त शासनादेश का उल्लंघन करते हुए निगम द्वारा यू०एस०एम० पत्रिका में विज्ञापन कराकर निगम विधि से रु 20,000 का व्याज दिया जाना

अनियमित था। इस सम्बन्ध में स्थिति करते हुए आवश्यक कार्यवाही लिया जाना अपेक्षित है।

3. नगर निगम द्वारा बैंक खातों के स्थान पर चालू खातों में धनराशि जमा कराये जाने के कारण व्याज की आर्थिक क्षति रु 10608618.21-

नगर निगम की वर्ष 2022-23 की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के समय प्रकाश में आया कि यूनियम बैंक ऑफ इण्डिया, एक्सिस बैंक एवं आई0सी0आई0सी0आई0 बैंकों में निम्नांकित विवरणानुसार कुल 06 चालू खाते आलोच्य अवधि में रखे गये थे। जबकि उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010 वित्त लेखा अनुभाग-1, लखनऊ दिनांक 21-03-2012 के अनुसार किसी संस्था, संगठन एवं निकाय को किसी भी प्रकार की धनराशि को बैंक के चालू खाते में नहीं रखना था। बैंकों में निधियों का संचालन किया जाना था तो बैंक में बचत खाता खोलकर धनराशि जमा की जानी थी।

उक्त शासनादेश के अनुपालन में यदि नगर निगम द्वारा सम्बन्धित धनराशियों को बैंक के चालू खातों के स्थान पर बचत खातों में रखा जाता तो न्यूनतम 3% की दर से ब्याज की प्राप्ति होती। ऐसा न किये जाने के कारण नगर निगम को रु 1,06,08,618.21 की न्यूनतम आर्थिक क्षति हुयी थी।

क्र0	बैंक का नाम	खाता संख्या	खाते का प्रकार	31-03-2023 को अवशेष राशि
1.	यूनियम बैंक ऑफ इण्डिया	555201010024002	चालू	14,62,07,147.91
2.	यूनियम बैंक ऑफ इण्डिया	555201010024001	चालू	1,69,57,183.40
3.	एक्सिस बैंक	9220200477113610	चालू	17,04,335.01
4.	आई0सी0आई0सी0आई0 बैंकों	628605013722	चालू	11,93,864.19
5.	आई0सी0आई0सी0आई0 बैंकों	628605013723	चालू	57,815.47
6.	एच0 डी0एफ0सी0 बैंक	50200071576957	चालू	1,87,50,0261

योग- रु 35,36,20,606.98

इस प्रकार स्पष्ट था कि यदि नगर निगम द्वारा उपरोक्त धनराशि रु 35,36,20,606.98को बैंक के चालू खाते के स्थान पर बचत खाते में रखा जाता तो न्यूनतम %3 की दर से रु 1,06,86,618.21 ब्याज की प्राप्ति होती तथा उक्त सीमा तक नगर निगम को आर्थिक क्षति से बचाया जा सकता था। गत विगत वर्षों में निरन्तर आपत्ति उठाये जाने के बावजूद भी नगर निगम के उच्चाधिकारियों द्वारा चालू खातों को बचत खातों में परिवर्तित किये जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं लिये जाने के कारण नगर निगम को प्रतिवर्ष आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही थी। अतः उक्त के सम्बन्ध में प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही लिये जाने हेतु संस्था के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

4. अन्य आय मद की धनराशि की स्थिति अस्पष्ट एवं असत्यापित रु 13,98,69,139.00-

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में बजट की समीक्षा के समय प्रकाश में आया कि आलोच्य वर्ष में अन्य आय मद के रूप में निगम को रु की आय दर्शायी गयी थी। इस आय के सम्बन्ध में स्पष्ट नहीं किया गया था कि उक्त मदों की आय वास्तव में कौन-कौन से स्रोतों/मदों की आय थी एवं यह आय किस प्रकार की आय थी। जिसके कारण उक्त आय असत्यापित एवं अस्पष्ट थी।

अतः बजट एवं क्लासीफाईड एब्सट्रैक्ट में अन्य मदों की आयों की मद स्पष्ट रूप से अंकित की जाय ताकि सम्बन्धित अभिलेखों के द्वारा इन आयों को सत्यापित किया जा सके। दर्शायी गई अन्य आयों का विवरण निम्नवत है-

क्र०	विवरण	धनराशि
1.	1(6) अन्य	28139225.36
2.	5(3) अन्य	278100.00
3.	6(11) अन्य	24866693.81
4.	7(10) अन्य	86585120.00
5.	8(6) अन्य	शून्य
	योग	13,98,69,139.17

5. रोकड़ बही एवं बैंक पासबुकों शेष के मध्य नगर निधि खाते में रु 462365024.94 एवं यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 खाते में रु 185.90 के अन्तर को बैंक समाधान विवरण के माध्यम से स्पष्ट न किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक:-

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में प्रकाश में आया कि नगर निगम निधि की रोकड़ बही एवं उनके बैंक खातों के दिनांक 31-03-2023 के इतिशेष की धनराशि के मध्य अत्याधिक अन्तर था। रोकड़बही के अनुसार 31 मार्च 2023 को इतिशेष रु 4210057310.83 था जबकि बैंक खातों का दिनांक 31 मार्च, 2023 का इतिशेष रु 4672422335.78 था। इस प्रकार रोकड़ बही एवं बैंक एवं बैंक खातों में दिनांक 31-03-2023 को रु 4672422335.78-4210057310.83=462365024.95 का अन्तर था।

इसी प्रकार यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 खाते की रोकड़बही का दिनांक 31-03-2023 को इतिशेष रु 90209147 था जबकि उक्त तिथि को बैंक खातों का इतिशेष रु 90208961.10 था। इस प्रकार रोकड़ बही एवं बैंक खाते के मध्य भी रु 90209147-90208961.10= 185.90 का अन्तर था।

उक्त अन्तरों को बैंक समाधान विवरण बताकर स्पष्ट नहीं किया गया। यह अनियमित एवं आपत्तिजनक था। अतः उक्तानुसार रोकड़ बही एवं बैंक खातों के इतिशेष के मध्य अन्तर को स्पष्ट किये जाने हेतु बैंक समाधान विवरण प्रस्तुत किये जाने हेतु निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

6. वर्ष 2020-23 में ठेका मृतक पशु शव निस्तारण न छोड़े जाने के कारण निगम को आर्थिक क्षति:-

आलोच्य वर्ष की सम्परीक्षा में प्रकाश में आया कि वर्ष 2022-23 में नगर निगम के मदवार आय के विवरण में ठेका मृतक पशु शव निस्तारण से कोई भी आय प्राप्त नहीं दर्शायी गयी थी। जिससे यह स्पष्ट था कि आलोच्य अवधि हेतु ठेका मृतक पशु शव निस्तारण नहीं छोड़ा गया था। इस ठेके को न छोड़े जाने के कारण नगर निगम को आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी थी।

गत एवं विगत वर्षों से इस सम्बन्ध में निरन्तर आपत्ति किये जाने के बावजूद भी यह ठेका न छोड़े जाने के कारण नगर निगम को लगातार आर्थिक क्षति पहुँचायी जा रही थी। यह स्थिति अनियमित आपत्तिजनक व नगर निगम के आर्थिक हितों के प्रतिकूल थी। अतः ठेका मृतक पशु शव निस्तारण न छोड़े जाने के कारण को स्पष्ट करते हुए नगर निगम को हो रही आर्थिक क्षति की अद्वावधिक गणना/आंकलन करते हुए इसकी प्रतिपूर्ति कराये जाने हेतु प्रभावी/आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

7. शासनादेश के अभाव में कार किराये पर लिये जाने का औचित्य न किये जाने के कारण मैसर्स तिरुपति ट्रैवल्स, अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद को रु 2867220 का अग्राह्य व्यय:-

सम्परीक्षा माहों के व्यय प्रमाणकों की जांच से प्रकाश में आया कि निगम के विभिन्न अधिकारियों के प्रयोग हेतु निम्नविवरणानुसार मैसर्स तिरुपति ट्रैवल्स, अम्बेडकर रोड गाजियाबाद को कार किराये पर लिये जाने के सम्बन्ध में भुगतान किया गया था। उपरोक्त कारे निम्न विवरणानुसार अधिकारियों को प्रयोग करने हेतु निगम द्वारा मैसर्स तिरुपति ट्रैवल्स से किराये पर लेवर उपलब्ध करायी गयी थी। सम्परीक्षा में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उक्त सभी अधिकारी शासकीय वाहन हेतु शासनादेश के अनुसार अधिकृत थे अथवा नहीं तथा नगर निगम के स्वयं के वाहन न होने पर इन्हे किराये पर वाहन उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य था अतः सम्बन्धित शासनादेश/नियमों द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाय अन्यथा की स्थिति में यह निगम निधि पर अग्राह्य व्यय भार डालने का प्रकरण था विवरण निम्नवत है-

क्र०	वा०सं०/दिनांक	धनराशि	किराये की अवधि	अधिकारी का नाम व पदनाम
1.	545/18-03-2023	40320	अज्ञात	श्री विवक तिवारी, सहायक नगर आयुक्त
2.	545/18-03-2023	40320	अज्ञात	डा० आशीष कुमार त्रिपाठी, पशु चिकित्सा अधिकारी
3.	545/18-03-2023	40320	अज्ञात	श्री सुनील कुमार राय, जोनल प्रभारी
4.	545/18-03-2023	40320	अज्ञात	श्री भोला गौतम, सम्पत्ति अधीक्षक
5.	545/18-03-2023	40320	अज्ञात	नगर आयुक्त के स्टाफ हेतु(एस्कार्ट)
6.	545/18-03-2023	40320	अज्ञात	मा० महापौर के स्टाफ हेतु(एस्कार्ट)
7.	545/18-03-2023	40320	अज्ञात	श्री आश कुमार, सहायक अभियन्ता(जल)
8.	545/18-03-2023	40320	अज्ञात	श्री देशराज, अधिशासी अभियन्ता(निर्माण)
9.	545/18-03-2023	36960	अज्ञात	कर्नल दीपक शरण, प्रवर्तन प्रभारी
10.	545/18-03-2023	40320	अज्ञात	श्री सैय्यद फरीद अख्तर जैदी, अधिशासी अभियन्ता(निर्माण)

11.	545/18-03-2023	40320	अज्ञात	स्वच्छ भारत मिशन टीम प्रयोगगार्थ
12.	545/18-03-2023	40320	अज्ञात	श्री बिलाल सैफ, पर्यावरण अधिकारी
13.	545/18-03-2023	40320	अज्ञात	श्री गजेन्द्र, जोनल प्रभारी सिटी जोन
14.	545/18-03-2023	40320	अज्ञात	श्री पवन कुमार, सी0एस0एफ0आई0
15.	545/18-03-2023	40320	अज्ञात	श्री गजेन्द्र, जेड0एस0ओ0
16.	545/18-03-2023	80460	अज्ञात	प्रवर्तन दल (स्टॉफ), दो वाहन
17.	545/18-03-2023	80460	अज्ञात	जिलाधिकारी कार्यालय में दो वाहन
18.	544/18-03-2023	53200	इनोवा अक्टूवर 22	श्री अरुण कुमार यादव, अपर नगर आयुक्त
19.	544/18-03-2023	53200	इनोवा अक्टूवर 22	श्री शिव पूजन यादव, अपर नगर आयुक्त
20.	544/18-03-2023	53200	इनोवा अक्टूवर 22	श्री आनन्द त्रिपाठी, महाप्रबन्धक(जल)
21.	544/18-03-2023	40320	बोलेरो(अक्टूवर, 2022	श्री विवेक सिंह, मुख्य नगर लेखा परीक्षक
22.	544/18-03-2023	40320	बोलेरो(अक्टूवर, 2022	डॉ0 मिथलेश कुमार, नगर स्वास्थ्य अधिकारी
23.	544/18-03-2023	40320	बोलेरो(अक्टूवर, 2022	श्री एन0के0चौधरी, मुख्य अभियन्ता(निर्माण)
	योग=	1042920		

उपरोक्त वाहन किराये पर लिये जाने से सम्बन्धित मैसर्स तिरुपति ट्रैवल्स के बिलों पर गाडियों के रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित नहीं किये गये थे। यह अनियमित था। जिसके कारण यह स्पष्ट न हो सकी कि सम्बन्धित वाहन घरेलू थे अथवा व्यावसायिक। इसका कोई विवरण बिलों पर भी संलग्न नहीं किया गया था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि क्रमांक 1 से 17 तक के बिल भुगतान वाउचर के साथ संलग्न नहीं किये थे। जिसके अभाव में बिलों की वास्तविक धनराशि की पुष्टि न हो सकी। भुगतान विवरणों के साथ प्रति माह बाहनों की रीडिंग भी नहीं दी

गयी था जिससे यह ज्ञात न हो सका कि प्रतिमाह, प्रतिवाहन कितनी दूरी तय की जाती थी एवं कितना पेट्रोल/डीजल प्रतिमाह प्रयुक्त किया जा रहा था। सम्बन्धित वाहनों की लाग बुक भी सम्परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयीं जिसके अभाव में प्रयुक्त पेट्रोल/डिजल के उपभोग का सत्यापन भी सम्भव न हो सका।

सम्परीक्षा में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि नगर निगम में अधिकारियों हेतु स्वयं के कितने वाहन उपलब्ध थे, यदि नगर निगम में स्वयं के वाहन उपलब्ध थे तो फर्म से किराये पर लिये जाने का क्या औचित्य था। अतः वर, 2022-23 में किराये पर लिये गये कुल वाहनों की संख्या एवं वर्ष में किये गये कुल व्यय का विवरण तैयार करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों हेतु वाहन उपलब्धता के सम्बन्ध में शासनादेश/ निदेशक, स्थानीय निकाय के आदेशों को प्रस्तुत करते हुए स्थिति स्पष्ट करायी जाय अन्यथा की स्थिति में यह निगम निधि पर अग्राह्य व्यय भार था।

उपर्युक्त के साथ-साथ निम्नांकित विवरण के अनुसार भी वाहनों के किराये हेतु भुगतान किया गया था।

24.	1928/31-03-2023	80640	माह सितम्बर , 22 बोलेरों	जिलाधिकारी कार्यालय
25.	1928/31-03-2023	80640	-----“-----	प्रवर्तन दल
26.	1928/31-03-2023	40320	-----“-----	श्री गजेन्द्र जेड0एस0ओ0
27.	1928/31-03-2023	40320	-----“-----	श्री पवन कुमार, सी0एस0एफ0आई0
28.	1928/31-03-2023	40320	-----“-----	श्री बीलाल सैफी, पर्यावरण अधिकारी
29.	1928/31-03-2023	40320	-----“-----	श्री गजेन्द्र जेड0ओ0 सीटी जोन
30.	1928/31-03-2023	40320	-----“-----	एस0बी0एम0
31.	1928/31-03-2023	40320	-----“-----	श्री सैय्यद फरीद अख्तर, अधि0अभि0 निर्माण
32.	1928/31-03-2023	40320	माह सितम्बर, 22 डिजायर	श्री दीपक शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी
33.	1928/31-03-	40320	माह	श्री देशराज, अधि0अभि0

	2023		सितम्बर, 22 बोलेरो	निर्माण
34.	1928/31-03-2023	40320	-----“-----	श्री आस कुमार, ए0ई0 जलकल
35.	1928/31-03-2023	40320	-----“-----	श्री भोलानाथ, सम्पत्ति अधीक्षक
36.	1928/31-03-2023	40320	-----“-----	श्री सुनील कुमार राय, जेड0ओ0
37.	1928/31-03-2023	40320	-----“-----	डा0 आशीष त्रिपाठी वैरी अधिकारी
38.	1928/31-03-2023	40320	-----“-----	श्री विवेक तिवारी, एस0एन0ए0
39.	46/02-02-2023	80640	माह अगस्त 2022	प्रवर्तन दल
40.	-----“-----	40320	-----“-----	श्री गजेन्द्र, जेड0एस
41.	-----“-----	40320	-----“-----	श्री पवन कुमार, सी0एस0एफ0आई0
42.	-----“-----	40320	-----“-----	श्री बीलाल सैफी, पर्यावरण अधिकारी
43.	-----“-----	40320	-----“-----	श्री गजेन्द्र जेड0ओ0 सीटी जोन
44.	-----“-----	40320	-----“-----	एस0वी0एम0
45.	-----“-----	40320	-----“-----	श्री सैय्यद फरीद अख्तर, अधि0अभि0 निर्माण
46.	-----“-----	40960	-----“-----	कर्नल दीपक सरन, प्रवर्तन प्रभारी
47.	-----“-----	40320	-----“-----	श्री देशराज, अधि0अभि0 निर्माण
48.	-----“-----	40320	-----“-----	श्री आस कुमार, ए0ई0 जलकल
49.	-----“-----	40320	-----“-----	श्री भोलानाथ गौतम, सम्पत्ति अधीक्षक
50.	-----“-----	40320	-----“-----	श्री सनील कुमार राज, जेड0ओ0वैती अधिकारी(कविनगर)

51.	-----“-----	40320	-----“-----	श्री आशीष कुमार, वैटी अधिकारी श्री विवेक तिवारी, एन0एन0ए0
52.	1905/31-03-2023	40320	माह अक्टूबर, 22 बोलेरो	श्री ओमपाल सिंह, जेड0एस0ओ0
53.	1926/31-03-2023	113400	तीन माह, बोलेरो	अज्ञात
54.	1927/31-03-2023	80640	माह अक्टूबर, 22 बोलेरो	प्रवर्तन दल
55.	1927/31-03-2023	40320	माह अक्टूबर, 22 बोलेरो	श्री गजेन्द्र जेड0एस0ओ0
56.	1927/31-03-2023	40320	माह अक्टूबर, 22 बोलेरो	श्री पवन कुमार(सी0एस0एफ0आई0)
57.	1927/31-03-2023	40320	माह अक्टूबर, 22 बोलेरो	श्री बीलाल सैफी, पर्यावरण अधिकारी
58.	1927/31-03-2023	40320	माह अक्टूबर, 22 बोलेरो	श्री गजेन्द्र, सिटी जोन
59.	1927/31-03-2023	40320	माह अक्टूबर, 22 बोलेरो	एस0बी0एम0
60.	1927/31-03-2023	40320	माह अक्टूबर, 22 बोलेरो	श्री सैय्यद फरीद अख्तर, अधि0अभि0 निर्माण
61.	1927/31-03-2023	36960	-----“----- डिजारयर	श्री दीपक सरन, अतिक्रमण प्रभारी
62.	1927/31-03-2023	40320	माह अक्टूबर, 22 बोलेरो	श्री देशराज, अधि0अभि0 निर्माण
63.	1927/31-03-2023	40320	माह अक्टूबर, 22 बोलेरो	श्री आस कुमार, ए0ई0 जलकल
64.	1927/31-03-2023	40320	माह अक्टूबर, 22 बोलेरो	श्री भोलानाथ गौतम, सम्पत्ति अधीक्षक
65.	1927/31-03-2023	40320	माह अक्टूबर, 22 बोलेरो	श्री सुनील कुमार राय, जेड0ओ0

66.	1927/31-03-2023	40320	माह अक्टूबर, 22 बोलेरो	श्री आशीष वेटी अधिकारी
67.	1927/31-03-2023	40320	माह अक्टूबर, 22 बोलेरोश	श्री विवेक तिवारी, एस0एन0ए0

योग=1824300

कुल योग=10,42,960+18,24,300=28,67,220

8. आश्रय स्थल सुदामापुरी के रख-रखाव हेतु व्यय रु 28,00,000 असत्यापित:-

सम्परीक्षा माहों के व्यय प्रभावकों की जाछ में प्रकाश में आया कि व्यय प्रमाणक संख्या-185 दिनांक 04-02-2023 द्वारा डी0यू0डी0ए0 गाजियाबाद को माह सितम्बर, 2019 से दिसम्बर, 2021 तक कुल 28 माह हेतु रु 1,00,000 प्रतिमाह की दर से रु 56,000 की कटौती करते हुए रु 2744000 का भुगतान अप्राप्य स्थल सुदामापुरी के रख-रखाव हेतु किया गया था। उक्त भुगतान हेतु रु 1,00,000 प्रति माह की दर से बजट दर्शाकर एवं माह का व्यय रु 1,00,000 से अधिक दर्शाते हुए रु 1,00,000 बजट सीमा का भुगतान किया गया था।

उपरोक्त व्यय प्रमाणक के साथ कोई भी बिल अथवा बाउचर संलग्न नहीं थी जिससे रु 28,00,000 के व्यय का कोई सत्यापन सम्भव नहीं था। जिसके कारण भुगतान का औचित्य स्पष्ट न हो सका एवं भुगतान सम्परीक्षा में प्रस्तुत करते हुए भुगतान का सत्यापन कराया जाना अपेक्षित है।

9. मैसर्स अमित सिही एण्ड एसोसिएट, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को रु 3,00,000 का अमान्य भुगतान एवं निगम कोष पर अनावश्यक व्यय भार:-

व्यय प्रमाणकों की जांच में प्रकाश में आया कि व्यय प्रमाणक संख्या-2421 दिनांक 31-03-2023 द्वारा उक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म को निगम के पांचों जोनों में “ ब्रान्च कैश वेरिफिकेशन वर्क” हेतु माह जून, 2022 से दिसम्बर 2022 तक कुल 07 माह एवं सितम्बर 2021 से माह जनवरी 2022 तक कुल 12 माह हेतु रु 25000 प्रतिमाह की दर से रु 3,00,000 का भुगतान किया गया था। जिससे रु 3,00,000 की कटौती टी0डी0एस0 के रूप में की गयी थी।

उल्लेखनीय है कि नगर निगम के सभी जोनों में ब्रान्च कैश वेरिफिकेशन कार्य हेतु पर्याप्त संख्या में लेखा संबर्ग के अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं। जो कि उपर्युक्त कार्य हेतु पर्याप्त अनुभव एवं योग्यता रखते थे किन्तु इसके बावजूद भी मात्र “शोकड के सत्यापन कार्य” हेतु मैसर्स अमित सिही एण्ड एसोसिएट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म को रु 25,000 प्रति निरन्तर विगत वर्षों में आपत्ति किये जाने के बावजूद भी सेवाये लिया जाना अनौचित्यपूर्ण था साथ ही यह

व्यय निगम निधि पर एक अनावश्यक व्यय भार था। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

10. शासन को प्रेषित कर-करेतर मांग-वसूली विवरण में नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में वास्तविक वसूली से अधिक धनराशि अंकित किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक रु 30,17,74,669:-

आलोच्य अवधि हेतु नगर निगम द्वारा प्रस्तुत कर-करेतर मांग-वसूली का कम्प्यूटराईज्ड विवरण (प्रारूप-5) एवं आय-व्यय का मदवार विवरण तथा पुनरीक्षित बजट-2023-2024 की समीक्षा में प्रकाश में आया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कर मांग के सापेक्ष वसूली कुल रु 2066710000 थी जबकि आय-व्यय के मदवार विवरण में तथा पुनरीक्षित बजट 2023-24 में वित्तीय वर्ष 2022-23 में करों (राजस्व) की कुल वास्तविक वसूली रु 1,76,49,35,331 अंकित थी।

इस प्रकार नगर निगम द्वारा करों (राजस्व) की वसूली मदवार में रु 2066710000-1,76,49,35,331= 30,17,74,669 अधिक अंकित किया गया था।

इसी प्रकार उक्त विवरण में कर-करेतर मांग-वसूली विवरण(प्रारूप-5) में करेतर मांग के सापेक्ष कुल वसूली रु 36,66,91,600 अंकित थी जबकि आय-व्यय में करेतर की वास्तविक वसूली रु 75,28,36,118 अंकित था। इस प्रकार करेतर मांग-वसूली मदवार विवरण (प्रारूप-5) में करेतर आय रु 75,28,36,118-36,66,91,600=38,61,44,518 कम दर्शायी गयी थी। इस प्रकार वास्तविक कर-करेतर आय के सापेक्ष नगर निगम द्वारा प्रारूप-5 पर प्रेषित सूचनाओं में कर-करेतर आयों को वास्तविक रूप से अंकित न करके कम/अधिक दर्शाकर शासन को गलत सूचनाये भेजा जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक था।

अतः कर-करेतर मदों की समस्त आयों को वास्तविक रूप में अंकित न किये जाने का कारण स्पष्ट करते हुए उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही लिया जाना अपेक्षित है।

गाजियाबाद नगर निगम

(प्राकृत-5)

वित्तीय वर्षवार कार-कोलार चालू या विवरण (सन्ततीष 30 लाख में)

2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष
01 अर्ध	01 अर्ध	01 अर्ध	01 अर्ध	01 अर्ध	01 अर्ध	01 अर्ध	01 अर्ध
2020-21	2020-21	2021-22	2021-22	2022-23	2022-23	2023-24	2023-24
1403	1403	1403	1403	1403	1403	1403	1403
457281	457281	457281	457281	457281	457281	457281	457281
1608	1608	1608	1608	1608	1608	1608	1608
457281	457281	457281	457281	457281	457281	457281	457281
1608	1608	1608	1608	1608	1608	1608	1608
457281	457281	457281	457281	457281	457281	457281	457281

11-आऊटसोरसिंग के माध्यम से आपूर्तित सहायक लिपिक के भुगतान पर 18 प्रतिशत जी.एस.

टी. रु 10,465.20 का अधिक व अनियमित भुगतान :-

(1). व्यय प्रमाणकों की जांच से प्रकाश में आया कि मैसर्स डायनामिक एसोसिएट्स के बिल सं० 23 दिनांक 01.03.2023 द्वारा नगर निगम, गाजियाबाद में लिपिक कार्यों हेतु एक सहायक लिपिक की आपूर्ति हेतु माह जनवरी 23 व फरवरी 23 हेतु रु 21000 प्रतिमाह की दर से रु 42000.00 तथा 2 प्रतिशत कान्ट्रैक्टर लाभ के साथ रु 42840 का बिल प्रस्तुत किया गया था। जिस पर बिल में 18 प्रतिशत जी.एस.टी. रु 7711.20 भी जोड़ा गया था। जबकि जी.एस.टी. की देयता के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-3272/नौ-5-2019-179सा/2019 दिनांक 20 सितम्बर 2019 के अनुसार लेबर आपूर्ति पर जी.एस.टी. देय नहीं था। इसके बावजूद भी उपरोक्त बिल का भुगतान व्यय प्रमाणक सं० 450 दिनांक 03.03.2023 द्वारा रु 49540 दिया गया था जो कि पूर्णतः अनियमित था अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए जी.एस.टी. धनराशि रु 7711.20 की वापसी निगम कोश में कराया जाना अपेक्षित है।

(2). इसी प्रकार व्यय प्रमाणक सं० 248 दिनांक 17.02.2023 में थी बिल रु 17693 में जी.एस.टी. रु 2754 का अनियमित भुगतान किया गया था।

12-आऊटसोरसिंग के माध्यम से आपूर्तित पैराकारों के भुगतान पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी. रु 18,280.20 का अधिक भुगतान एवं पी.एफ. रु 3900 तथा ई.एस.आई. रु 1950 जमा की पुष्टि न कराया जाना अनियमित :-

(1). व्यय प्रमाणकों की जांच में प्रकाश में आया कि मैसर्स शिवालिक हाऊस कीपिंग सर्विस द्वारा बिल सं० 033 दिनांक 01.03.2023 द्वारा नगर निगम, गाजियाबाद में दिनांक 01.02.2023 से 28.02.2023 तक 03 बार पैरोकारों की आपूर्ति हेतु रु 15000 प्रतिमाह की दर से कुल रु 45000 पर 2 प्रतिशत कान्ट्रैक्टर लाभ के साथ 13 प्रतिशत पी.एफ. रु 3900 + ई.एस.आई. रु 975 व 18 प्रतिशत जी.एस.टी. रु 9140 सहित कुल रु 59914 का बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसका कटौतियों के उपरान्त व्यय प्रमाणक सं० 606 दिनांक 21.03.2023 द्वारा रु 57518 का भुगतान कर दिया गया था। यहां यह उल्लेखनीय है कि शासनादेश सं० 3272/नौ-5-2019-179सा/2019 दिनांक 20 सितम्बर 2019 के अनुसार आऊटसोरसिंग पर लेबर आपूर्ति हेतु जी.एस.टी. की देयता नहीं थी इसके बावजूद भी उपरोक्त भुगतान में जी.एस.टी. रु 9140.00 का भुगतान किया जाना अनियमित था। जी.एस.टी. भुगतान किये जाने का औचित्य

स्पष्ट करते हुए इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। इसी प्रकार तीन पैरोकारों की आपूर्ति हेतु व्यय प्रमाणक सं० 471 दिनांक 21.02.2023 द्वारा भी भुगतान किया गया था।

(2) सम्बन्धित बिल में 13 प्रतिषत पी.एफ. रु 3900 एवं 3.25 प्रतिषत की दर से ई.एस. आई. का भुगतान नगर निगम द्वारा सम्बन्धित फर्म को किया गया था, किन्तु इनकी जमा की पुष्टि स्वरूप फर्म द्वारा जमा के चालान प्रस्तुत नहीं किये गये थे जो कि अनियमित था। अतः उपरोक्त धनराशियों के जमा की पुष्टि सम्बन्धित चालानों द्वारा कराया जाना अपेक्षित है।

13-अधिशाली अभियन्ता, प्रथम निर्माण खण्ड, जल निगम, गाजियाबाद के कर्मचारियों को निगम निधि से भुगतान की स्थिति अस्पष्ट भुगतान रु 12,05,475 :-

व्यय प्रमाणकों की जांच में प्रकाश में आया कि कार्यालय अधिशाली अभियन्ता, प्रथम निर्माण खण्ड, जल निगम (नगरीय व ग्रामीण) गाजियाबाद के निम्नांकित कर्मचारियों को वेतन भुगतान किया गया था। उपरोक्त भुगतान कार्मिक प्रभारी, गाजियाबाद नगर निगम द्वारा किये गये थे। यहां यह उल्लेखनीय है कि जलकल अनुभाग, नगर निगम, गाजियाबाद में अधिसंख्यक पदों पर निगम के कर्मचारी नियुक्त/कार्यरत थे एवं शहरी आजीविका केन्द्र के माध्यम से भी कर्मचारियों की आपूर्ति ली जा रही थी एवं कुछ एस.टी.पी. का संचालन सीधे फर्मों के माध्यम से कराया जा रहा था। इसके बावजूद भी जल निगम के कर्मचारियों को किस आधार पर प्रतिनियुक्ति इत्यादि के माध्यम से दर्शाकर भुगतान किया गया था। अतः इनके प्रतिनियुक्ति व अन्य सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्तुत कर भुगतान का औचित्य स्पष्ट कराया जाय अन्यथा की स्थिति में यह भुगतान सम्परीक्षा में अमान्य थे—

क्र०	कर्मचारियों का नाम	पदनाम	वेतन	वा० सं०/दिनांक	वेतन माह
1.	श्री गौरव शर्मा	चौकीदार/माली	34119	334/02.03.23	फरवरी 23
2.	श्रीमति मन्जू	चौकीदार/माली	36129	334/02.03.23	फरवरी 23
3.	श्री गंगानाथ (द बॉडी शापिंग के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर दर्शाया गया था)	पम्प ऑपरेटर	50313	337/02.03.23	फरवरी 23
4.	चार कर्मचारी (नाम अंकित नहीं किये गये थे एवं प्रतिनियुक्ति पर दर्शाये गये थे)	सफाई कर्मी	175313	335/02.03.23	फरवरी 23

5.	श्री मायानन्द	चौकीदार	45458	336 / 02.03.23	फरवरी 23
6.	श्री पेशकार सिंह	चौकीदार	46269	336 / 02.03.23	फरवरी 23
7.	श्री अमित कुमार	वर्क एजेण्ट / अर्दली चौकीदार / माली	30942	336 / 02.03.23	फरवरी 23
8.	श्री मनवर सिंह	चौकीदार / माली	39156	338 / 02.03.23	फरवरी 23
9.	श्री धर्मेन्द्र कुमार	चौकीदार / माली	33926	338 / 02.03.23	फरवरी 23
10.	श्री अरुण पाल	चौकीदार	31652	338 / 02.03.23	फरवरी 23
11.	मौ० रज्जाक	चौकीदार	39156	339 / 02.03.23	फरवरी 23
12.	श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा	चौकीदार / माली	40303	339 / 02.03.23	फरवरी 23
13.	श्री मनवर सिंह	चौकीदार / माली	39156	242 / 17.02.23	जनवरी 23
14.	श्री धर्मेन्द्र कुमार	चौकीदार / माली	33926	242 / 17.02.23	जनवरी 23
15.	श्री अरुण पाल	चौकीदार / माली	31652	242 / 17.02.23	जनवरी 23
16.	श्री गौरव शर्मा	माली	34119	243 / 17.02.23	जनवरी 23
17.	श्रीमति मन्जू	सफाईकर्मी	36129	243 / 17.02.23	जनवरी 23
18.	चार कर्मचारी (नाम अंकित नहीं)	चौकीदार	175313	244 / 17.02.23	जनवरी 23
19.	श्री मायानन्द	चौकीदार	45458	545 / 23.02.23	जनवरी 23
20.	श्री पेशकार सिंह	अर्दली	46262	545 / 23.02.23	जनवरी 23
21.	श्री अमित कुमार	पम्प ऑपरेटर	30942	545 / 23.02.23	जनवरी 23
22.	श्री गंगानाथ	चौकीदार	50313	546 / 23.02.23	जनवरी 23
23.	मौ० रज्जाक	चौकीदार	39156	547 / 23.02.23	जनवरी 23
24.	श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा	चौकीदार	40313	547 / 23.02.23	जनवरी 23
			12.05.475		

14-नगर पालिका इन्टर कॉलेजों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन हेतु किया गया भुगतान सेवा पुस्तिकाओं एवं नियुक्ति पत्रावलियों के अभाव में असत्यापित रु 2,89,05,014 :-

आलोच्य वर्ष के वर्गीकृत सार के अनुसार ठेके पर अध्यापन कार्य (बजट कोड-14(4)) पर वर्ष 2022-23 में कुल 2,89,05,014 का भुगतान नगर पालिका इन्टर कॉलेज, गाजियाबाद के 07 विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान के रूप में किया गया था। इन भुगतानों के सम्बन्ध में सम्परीक्षा में प्रतिवर्ष आपत्ति की जा रही थी किन्तु इसके वेतन भुगतानों के औचित्य की पुष्टि के सत्यापनार्थ इन शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति पत्रावलियां, सेवा पुस्तिकायें, उपस्थिति पंजिकायें एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेख सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये थे। उक्त के अभाव में वेतन भुगतान का औचित्य व सत्यापन की पुष्टि नहीं की जा सकी थी। अतः इन्हे अविलम्ब सम्परीक्षा में प्रस्तुत करते हुए आवश्यक जांच कराया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में अधिक/अनियमित भुगतान किये जाने की पूर्ण सम्भावना थी। उप सम्परीक्षा माहों में किये गये भुगतानों का विवरण निम्नवत है-

क्र०	व्यय प्रमाणक संख्या/दिनांक	धनराशि	विवरण
1.	267/01.03.2023	884612.00	नगर पालिका बालिका इन्टर कॉलेज कैला भट्टा के 22 शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु वेतन भुगतान माह नवम्बर व दिसम्बर 2022
2.	268/01.03.2023	450291	नगर पालिका बालिका इन्टर कॉलेज महरौली के 13 शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन भुगतान माह नवम्बर व दिसम्बर 2022
3.	269/01.03.2023	689924	नगर पालिका बालिका इन्टर कॉलेज मकनपुर के 23 शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन भुगतान माह नवम्बर व दिसम्बर 2022
4.	270/01.03.2023	1091760	नगर पालिका बालिका इन्टर कॉलेज सिहानी के 26 शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन भुगतान माह नवम्बर व दिसम्बर 2022
5.	271/01.03.2023	175312	शहीद विजय सिंह पथिक सरस्वती विद्या मन्दिर नगर निगम गाजियाबाद के 05 शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन माह नवम्बर व दिसम्बर 2022

6.	272 / 01.03.2023	586986	नगर पालिका बालिका इण्टर कॉलेज चन्द्रपुरी के 17 शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन भुगतान माह नवम्बर व दिसम्बर 2022
7.	273 / 01.03.2023	1122814	नगर पालिका बालिका इण्टर कॉलेज साहिबाबाद के 26 शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन भुगतान माह नवम्बर व दिसम्बर 2022
		5001699	

15-नगर पालिका द्वारा सम्परीक्षा अवधि वर्ष 2022-23 में जैम पोर्टल से सामग्री क्रय एवं मैन पावर आपूर्ति न लेकर स्थानीय बाजार से कोटेशन/टेण्डर के आधार पर क्रय किये जाने के कारण शासनादेशों का उल्लंघन अनियमित :-

नगर निगम के विभिन्न अनुभागों के व्यय प्रमाणकों एवं सम्बन्धित पत्रावलियों की जांच से प्रकाश में आया कि नगर निगम के विभिन्न अनुभागों द्वारा उत्तर प्रदेश, शासन, लखनऊ के शासनादेश सं०-193/पांच-1-2020-3(11)/2016 दिनांक 04 फरवरी 2020, 5/2020/20/1/91-का-2/2020 दिनांक 25 जून 2020, 9/2020/717/छत्तीस-5-2020-8(26)/2020 दिनांक 18 अगस्त 2020, 31/2020/273/18-2-2020-97(ल०उ०/2016 टी.सी.) दिनांक 25 अगस्त 2020, 42/2020/ई-153/18-2-2020-97 (ल० उ०)/2016 टी.सी. दिनांक 07 दिसम्बर 2020 एवं शासनादेश सं०-3/2021/103/18-2-2021-97 (ल० उ०)/2016 टी.सी.-1 दिनांक 19 फरवरी 2021 के द्वारा सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि सभी सामग्रियों की आपूर्ति एवं मैन पावर की आपूर्ति इत्यादि की कार्यवाही जैम पोर्टल के माध्यम से ही की जाय किन्तु निगम द्वारा निरन्तर उपरोक्त शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए निरन्तर स्थानीय बाजार से कोटेशन/टेण्डरों के माध्यम से दरें प्राप्त कर क्रय, सामग्रियों की आपूर्ति एवं मैन पावर की आपूर्ति ली जा रही थी।

यह अनियमित एवं आपत्तिजनक था। इस प्रथा पर रोक लगाते हुए समस्त क्रय एवं मैनपावर की आपूर्ति जैम पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

16-जी.एस.टी. की धनराशि रु 3,03,91,000 ब्याज का भुगतान :-

व्यय प्रमाणकों की जांच में प्रकाश में आया कि व्यय प्रमाणक सं० 489 दिनांक 22.02.2023 द्वारा आकस्मिक व्यय प्रमाणक के माध्यम से जी.एस.टी. की धनराशि पर ब्याज का भुगतान किया गया था।

व्यय प्रमाणक पर उल्लिखित विवरण के अनुसार जी.एस.टी. विभाग द्वारा दिनांक 13.02.2023 को सम्मन जारी किया गया था। जी.एस.टी. विभाग को को माह अगस्त के व्यय प्रमाणक सं० 145 दिनांक 05.08.2022 द्वारा निगम के अधिकृत चार्टर्ड एकाउन्टेंट एवं विभागीय परिचर्चा उपरान्त रु 52273325.00 का भुगतान किया जा चुका था। वर्तमान में सम्बन्धित विभाग द्वारा ब्याज की मांग की गयी थी जिसके क्रम में चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा की गई गणना के ब्याज रु 30391000.00 का भुगतान किया गया था।

उपरोक्त से प्रतीत हो रहा था कि निगम द्वारा देय जी.एस.टी. की धनराशि को समय से जमा नहीं किया गया था जिसके कारण उक्त राशि पर ब्याज का भुगतान किया गया था। जब निगम द्वारा विभिन्न चार्टर्ड एकाउन्टेंटों से अनेक प्रकार के कार्य लेकर प्रतिवर्ष लाखों रुपये की धनराशि का भुगतान किया जा रहा था तो उसके बावजूद भी जी.एस.टी. राशि को देर से जमा कर उस धनराशि पर ब्याज का भुगतान किया जाना आधिक क्षति का प्रकरण था। सम्बन्धित अभिलेखों के द्वारा स्थिति स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

17-सिविल अपील सं०- 8430/2022 म्युनिसिपल कारपोरेशन गाजियाबाद बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड व अन्य में माननीय एन.जी.टी. द्वारा अधिरोपित क्षतिपूर्ति रु 150 करोड में रु 1,00,00,000 जिलाधिकारी गाजियाबाद के समक्ष जमा किये जाने सम्बन्धित अभिलेख

अप्रस्तुत:-

सम्परीक्षा माहों के व्यय प्रमाणकों की जांच में प्रकाश में आया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष योजित सिविल अपील सं० 8430/2022 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गाजियाबाद बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड व अन्य में सुनवाई करते हुए गाजियाबाद नगर निगम पर माननीय एन.जी.टी. द्वारा अधिरोपित क्षतिपूर्ति अकने रु 150 करोड में से रु 1,00,00,000.00 जिलाधिकारी गाजियाबाद के समक्ष जमा कराये जाने के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 27.01.2023 के अनुपालन में व्यय प्रमाणक सं० 187 दिनांक 07.02.2023 द्वारा जमा कराये गये थे। सम्बन्धित वाक्य के साथ अन्य कोई प्रपत्र अथवा अभिलेख संलग्न नहीं था कि

जिससे यह ज्ञात हो सकता कि उपरोक्त 150 करोड रुपये की क्षतिपूर्ति माननीय एन.जी.टी. द्वारा नगर निगम गाजियाबाद पर आरोपित की गई थी। अतः उपरोक्त वाद से सम्बन्धित समस्त अभिलेख पत्रावली सम्परीक्षा में उपलब्ध कराकर भुगतान का औचित्य एवं सत्यापन कराया जाना अपेक्षित है।

18-विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृति के पूर्व निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक:-

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में अनापत्ति प्रमाण पत्र पत्रावली की मांग किये जाने पर नगर निगम द्वारा अवगत कराया गया कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा बिना नगर निगम, गाजियाबाद से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये ही भवनों के मानचित्र स्वीकृत किये जा रहे थे, जबकि शासनादेश सं० 3310/नौ-7-04-33ई/03 दिनांक 06 सितम्बर 2004 में निर्देशित किया गया था कि विकास प्राधिकरणों द्वारा नक्शे (मानचित्र) पास करते वक्त नगर निगम तथा जल संसाधन से सीवर लाईन, जल निकासी एवं पानी के कनेक्शनों की स्थिति ज्ञात की जानी चाहिए थी। उपरोक्त शासनादेश के अतिरिक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं० 00107/नौ-आ-3- मानचित्र स्वीकृति/2004 दिनांक 06 जुलाई 2004 में भी स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि पुराने निर्मित क्षेत्र, जिसकी अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढीकरण एवं रख-रखाव का दायित्व इस नगर की स्थानीय निकाय का होता है, के भवन/भू-विन्यास/मानचित्र स्वीकृति करते समय प्राधिकरणों के द्वारा नगर की स्थानीय निकाय के सीवर लाईन, जलापूर्ति की पाईप लाईन एवं जल निकासी की स्थिति जाने बगैर मानचित्र स्वीकृत कर दिये जाते हैं जिससे बाद में समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

उपरोक्त शासनादेश का विकास प्राधिकरण द्वारा अनुपालन करने से नगर निगम के उपरोक्त शासनादेश में वर्णित सम्पत्तियों पर अतिक्रमण था उन सुविधाओं के विस्तार हेतु पूंजीगत व्यय किये जाने की सम्भावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता था तथा अतिक्रमण की स्थिति में नगर निगम को भविष्य में न्यायालय की प्रक्रिया से भी गुजरना पड सकता था।

अतः इस सम्बन्ध में नगर निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि नगर निगम द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के साथ-साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु शुल्क निर्धारण की कार्यवाही भी अमल में लायी जाय जिससे नगर निगम की आय में वृद्धि हो सके एवं निगम को आर्थिक क्षति से बचाया जा सके।

19-विकास योजनाओं/परियोजनाओं सम्बन्धी अनियमिततायें :-

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में विकास योजनाओं/परियोजनाओं सम्बन्धी निम्नांकित अनियमिततायें प्रकाश में आयीं-

(1). नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा कोई योजना पंजी अनुरक्षित नहीं की गयी थी, यदि अनुरक्षित की गयी थी तो उसे वर्तमान सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(2). आलोच्य अवधि के पूर्व क्रियान्वित/हस्तगत/पूर्ण हो चुकी योजनाओं/परियोजनाओं के सम्बन्ध में कोई जानकारी सम्परीक्षा में नहीं दी गयी।

इस सम्बन्ध में अभिलेखों द्वारा स्थिति स्पष्ट करायी जाय।

(3). निगम क्षेत्र के समेकित एवं सुनियोजित विकास हेतु नगर निगम द्वारा कोई प्लान/नेटवर्क तैयार किया गया था, अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में सम्परीक्षा में स्थिति स्पष्ट नहीं करायी गयी।

(4). आलोच्य अवधि में पूर्व में भिन्न-भिन्न योजनाओं से सम्बन्धित मदवार कितनी-कितनी राशियां अवशेष के रूप में विद्यमान थी के सम्बन्ध में स्थिति अस्पष्ट रही।

(5). उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 57(क) की उपधारा (2)(3)(क)(ख)(1 से 16) में अधिनियम की धारा 57(क) के दृष्टिगत सम्पूर्ण महानगर फेज के लिये विकास योजना के प्रारूप को तैयार किया जाना था। अधिनियम की धारा 57(क) क उपधारा 7 में निर्दिष्ट निम्न विषयों की योजनाओं का प्रारूप तैयार किये जाने हेतु संज्ञान में लिया जाना था।

(1). नगरीय निकायों द्वारा तैयार की गई योजनाओं में।

(2). निकाय के मध्य सामान्य हित के मामले, जिसके अन्तर्गत उपक्षेत्र की सम्भावित स्थानीय योजना जल एवं अन्य प्राकृतिक साधनों में हिस्सा उप संरचना का स्वीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण।

(3). भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा निश्चित समस्त उद्देश्य और प्राथमिकतायें।

(4). इन विनियमों क सीमा और प्रकृति, जो भारत सरकार और राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा महानगर क्षेत्र में किया जाना सम्भव हो तथ अन्य उपलब्ध साधन चाहे वे वित्तीय हो या अन्य।

(5). अन्य संस्थाओ तथा संगठनों में परामर्श लेना, जिन्हे राज्यपाल आदेश और विनिर्दिष्ट करें। अधिनियम की धारा 57(क) की उपधारा (6)।

20- नगर निगम द्वारा एकुअल आधारित दोहरी लेखा प्रणाली के अनुसार लेखा-भिलेख अनुरक्षित न किया जाना शासकीय निर्देशों के प्रतिकूल एवं आपत्तिजनक :-

नगर निगम की आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में लेखाभिलेखों के अवलोकन/जांच से प्रकाश में आया कि नगर निगम द्वारा एकुअल आधारित दोहरी लेखा प्रणाली के अनुसार

लेखाभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था। उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-4094/9-5-2008-119 सा./07 दिनांक 02 जून, 2008 एवं शासनादेश संख्या-1552/नौ-5-2011-119 सा./2007 दिनांक 18 मार्च, 2011 तथा निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक-8/2939/2012-13 दिनांक 01.04.2011 द्वारा लेखाभिलेखों का अनुरक्षण एकुअल आधारित दोहरी प्रणाली के अनुसार अनुरक्षित किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे। इसे सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-5, लखनऊ के आदेश संख्या-912/न0वि0-5-19-404 एम0ए0/2017 दिनांक 08 मार्च, 2019 द्वारा उत्तर प्रदेश, नगर महापालिका लेखा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2019 प्रख्यापित की गयी थी, के द्वारा भी नगर निगम से प्रोदभवन आधारित दोहरी लेखा प्रणाली के अनुसार लेखाभिलेखों के अनुरक्षण किये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे। किन्तु नगर निगम द्वारा उपरोक्तानुसार लेखाभिलेख अनुरक्षित नहीं किये जा रहे थे। इस प्रकार शासकीय निर्देशों की नगर निगम द्वारा अवहेलना किये जाने की स्थिति परिलक्षित हुई जो कि अनियमित एवं आपत्तिजनक था। अतः इस सम्बन्धम में शासकीय निर्देशों के अनुपालन में लेखाभिलेखों का अनुरक्षण एकुअल आधारित दोहरी लेखा प्रणाली के आधार पर सुनिश्चित कराये जाने हेतु नगर निगम के प्रशासनिक/उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

21- नगर निगम द्वारा वर्ष 2022-23 में विभिन्न फर्मों/ठेकेदारों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों से काटे गये आयकर टी0डी0एस0, जी0एस0टी0, रॉयल्टी एवं लेबर सैस से सम्बन्धित पंजी, जमा के चालान तथा उनको निर्गत फार्म-16 एवं 16ए की प्रति अप्रस्तुत :-

(1) आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, गाजियाबाद के पत्रांक-372 दिनांक 03.08.2023, उप निदेशक, मेरठ मण्डल, मेरठ के पत्रांक-मे0मं0/वृत्त/1436 दिनांक 22.08.2023 एवं मेरे अधियाचन संख्या 22 दिनांक 02.09.2023 जारी किये जाने एवं मौखिक रूप से मांग किये जाने के बावजूद भी नगर निगम द्वारा वर्ष 2022-23 में विभिन्न फर्मों/ठेकेदारों/सप्लायरों से काटे गये आयकर टी0डी0एस0, जी0एस0टी0 रॉयल्टी एवं लेबर सैस से सम्बन्धित पंजी, जमा के चालान तथा उनको निर्गत फार्म-16ए की प्रति सम्परीक्षा में आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी जिसके कारण काटे गये आयकर टी0डी0एस0, जी0एस0टी0 रॉयल्टी एवं लेबर सैस की उनके सम्बन्धित विभाग में जमा की पुष्टि न हो सकी तथा यह भी ज्ञात न हो सका कि नगर निगम द्वारा उक्त को फार्म 16ए निर्गत किये गये थे अथवा नहीं।

(2) नगर निगम में वर्ष 2022-23 में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से काटे गये आयकर, टी0डी0एस0 की गणना की जांच हेतु आयकर, टी0डी0एस0 पंजी, अधिकारियों/कर्मचारियों की आय का विवरण, आयकर की गणना सम्बन्धी प्रपत्र अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 80सी एवं अन्य धाराओं के अन्तर्गत मांगी गयी अन्य छूटों से सम्बन्धित प्रपत्र तथा अधिकारियों/कर्मचारियों को जारी किये गये फार्म 16 की प्रतियां आदि अभिलेख सम्परीक्षार्थ प्रस्तुत न किये जाने के कारण इनकी सम्यक् जांच सम्भव न हो सकी।

अतः उपरोक्त समस्त अभिलेखों को सम्परीक्षा में प्रस्तुत कर आवश्यक जांच कराये जाने हेतु संस्था के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

22- जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंध :-

उत्तर प्रदेश शासन के अर्द्धशासकीय आदेश संख्या-120सी0एम0(1)/9-7-2001-29ज /2001/न0वि0 अनुभाग 07 दिनांक 22.11.2001 के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन और हैण्डलिंग नियम 1988 के राजपत्र में दिनांक 22 जुलाई 1988 से प्रवृत्त होने एवं उक्त प्राविधानों के तहत जीव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु निर्देश दिये गये थे इसके अतिरिक्त नगरीय क्षेत्रों में बायोमेडिकल बेस्ट के निस्तारण विषयक शासनादेश संख्या-5911/नौ-5-2009-324सा/09 न0वि0 अनु0 दिनांक 13.08.09 एवं उक्त के क्रम में निर्गत शा0सं0 2163/नौ-5-2011-324सा/09 न0वि0 अनुभाग-5 दिनांक 20 अप्रैल 2011 द्वारा गठित कमेटी के माध्यम से बायोमेडिकल बेस्ट के निस्तारण तथा अनुश्रवण हेतु निर्देश दिये गये थे।

उपरोक्त के अतिरिक्त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2010 के अध्याय-7 में भी बायोमेडिकल बेस्ट/ जो बायोमेडिकल बेस्ट मैनेजमेंट एण्ड हैण्डलिंग रूल्स 1988 पर आधारित है से सम्बन्धित योजना एवं प्रबंधन के सम्बन्ध में विस्तृत प्राविधान दिये गये हैं। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में नगर निगम गाजियाबाद द्वारा की गयी कृत कार्यवाही की स्थिति से सम्परीक्षा को अवगत कराया जाय।

23- नगर निगम सीमान्तर्गत विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर एवं सब स्टेशनों का उपयुक्त किराया निर्धारित करके वसूल न किया जाना नगर निगम के आर्थिक हितों के विपरीत :-

निदेशक, स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-8/931-140-उ0प्र0 पावर कारपोरेशन/2017-18 दिनांक 17.07.2017 द्वारा ट्रांसफार्मर और सब स्टेशनलों का उपयुक्त किराया निर्धारित करके विद्युत विभाग से वसूल किये जाने हेतु शा0सं0 406/नौ-9-1997-95/

जनरल/96 दिनांक 10.02.1997 के प्रस्तर-6 में निम्नलिखित व्यवस्था अंकित है का उल्लेख करते हुए निदेशित किया गया था। शासन के अनुसार विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर एवं सब स्टेशनों का किराया स्थानीय निकायों को प्राप्त नहीं हो पा रहा है यद्यपि इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार विभाग किसी भी स्थान पर विद्युत खम्भा निःशुल्क लगाने का अधिकार रखता है, किंतु ट्रांसफार्मर और सब स्टेशनों के लिए उनको ऐसी छूट अनुमनय नहीं है। अतः आवश्यक है कि स्थानीय निकाय अपनी सीमा में लगे समस्त विद्युत ट्रांसफार्मर और सब स्टेशनों का उपयुक्त किराया निर्धारित करके विद्युत विभाग से वसूल करें।

निदेशक के उपरोक्त निर्देशों के क्रम में निगम द्वारा क्या कार्यवाही की गयी सम्परीक्षा में अस्पष्ट रहा। इस सम्बन्ध में कार्यवाही न किया जाना निगम के आर्थिक हितों के विपरीत था।

24- आन्तरिक नियंत्रण का अभाव :-

किसी विभाग/कार्यालय के क्रिया कलापों पर प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण होने के लिए आवश्यक था कि आदेशों, नियमों, विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए एवं नियमानुसार आवश्यक रिपोर्ट/रिटर्न सम्बन्धित उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया जाए जिससे अनियमितता आदि पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। नगर निगम, गाजियाबाद की आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में पाया गया कि निम्नांकित स्तर पर आन्तरिक नियंत्रण का अभाव था—

- (1) प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक इकाई को अपनी आगामी वर्ष हेतु कार्ययोजना बनायी जानी चाहिए थी लेकिन नगर निगम गाजियाबाद द्वारा उक्त प्राविधान का अनुपालन नहीं किया जा रहा था।
- (2) उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग के प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक इकाई/संगठन को अपने क्षेत्राधिकार की सड़कों के लिए एक सड़क रजिस्टर का रख-रखाव करना चाहिए था। नगर निगम गाजियाबाद द्वारा उक्त रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था।
- (3) कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्वालिटी एश्योरेन्स रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था।
- (4) नगर निगम के पथ प्रकाश विभाग द्वारा निष्प्रोज्य सामग्री रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था।
- (5) विद्युत विभाग में प्राविधान है कि ऐसी डेली डायरी विद्युत रजिस्टर का रख-रखाव किया जाए गाजियाबाद नगर निगम द्वारा उक्त अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था।
- (6) क्रय की गयी सामग्रियों की प्रति से पूर्व उनकी गुणवत्ता का सत्यापन किया जाना अपेक्षित था लेकिन नगर निगम द्वारा उक्त व्यवस्था का पालन नहीं किया गया था।

(7) वित्तीय प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक इकाई का जर्नल खाते का रख-रखाव करना चाहिए था, नगर निगम द्वारा उक्त अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा था।

(8) निर्माण कार्यों को पूर्ण करने में हो रहे विलम्ब को नियंत्रित करने के लिए हिन्दरेन्स रजिस्टर का रख-रखाव किया जाना चाहिए था। निर्माण विभाग द्वारा उक्त रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था।

(9) वित्तीय प्राविधानों के अनुसार भुगतान बिल की सकल राशि अथवा निर्बल राशि से यदि कम भुगतान करना है तो जितनी राशि का भुगतान किया जाना है उसका उल्लेख स्पष्ट रूप से भुगतान बिल्स वाउचर्स में किया जाना चाहिए था। नगर निगम द्वारा इसका पालन किया गया था। उपरोक्त बिन्दुओं पर आवश्यक/प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु संस्था के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

25-सार्वजनिक सम्पत्तियों पर अनाधिकृत कब्जा/निर्माण न होने विषयक प्रमाण पत्र वांछित :-

नगर निगम द्वारा अनुरक्षित सम्पत्तियों की स्थिति पूर्ण रूप से अधिनियमान्तर्गत स्पष्ट नहीं थी। नगर क्षेत्र में अनाधिकृत कब्जे अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण हटाये जाने संबंधी राजाज्ञा संख्या-4030/नौ-1-92 न0वि0 अनुभाग-2 दिनांक 27.04.1992 शा0सं0 7539/वि0सं0नि0वि0/13 दिनांक 20.05.2013 तथा शा0सं0 3079/नौ-12-16(ज)/2012 दिनांक 14.12.2012 के परिप्रेक्ष्य में सम्परीक्षा में स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी। इसके अतिरिक्त शा0सं0 646/नौ-92012-102(ज) 2013 दिनांक 03.04.2013 व तद्विषयक निदेशक स्थानीय निकाय, लखनऊ के पत्र संख्या 03/1456सा/154 सा/13 दिनांक 25.04.13 (सम्पत्तियों क संरक्षण एवं अनाधिकृत कब्जा विषयक) के अनुपालन में निर्धारित प्रारूप पर निदेशालय की वेबासाइट पर उपलब्ध कराये जाने की स्थिति से सम्परीक्षा में अवगत नहीं कराया गया जिससे सम्पत्तियों की क्षति एवं दुर्विनियोग आदि से सम्बन्धित प्रकरणों की समीक्षा नहीं की जा सकी।

26- नगर निगम के कर्मचारी आवासों में विद्युत संयोजन की स्थिति अज्ञात एवं आवास पंजी अग्रस्तुत :-

सम्परीक्षा में बार-बार उपरोक्त विद्युत संयोजनों से सम्बन्धित अभिलेख मांगे जाने पर भी संस्था द्वारा नगर निगम कर्मचारी आवासों की विद्युत संयोजनों की स्थिति/विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी अभिलेख जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि सम्बन्धित आवासों में विद्युत संयोजन नगर निगम के नाम से था या आवासित कर्मचारी के नाम से आवास विद्युत बिल का भुगतान नगर निगम द्वारा किया जा रहा था या सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा की स्थिति अस्पष्ट रही। अतएव उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्परीक्षा में स्थिति स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

आवास आवंटन पत्रावली बार-बार मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं की गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात न हो सका कि नगर निगम के पास कितने आवास हैं एवं कितने आवासों का आवंटन किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम किया गया है एवं किन शर्तों पर किया गया है। मकान किराया बिजली पानी सीवर आदि से निगम को किननी आय प्राप्त हुई है तथा आवासों के अनुरक्षण पर कितना व्यय किया गया है। अतः आवास पंजी प्रस्तुत की जाये।

27- उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और विक्रय विनियमन) नियमावली, 2017 के संबंध में कार्यवाही न लिया जाना अनियमित :-

शासन के पत्र संख्या 452/नौ-9-2017-171ज/06 टी0सी0 दिनांक 22.05.2017 एवं निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या -3/828/281- पथ विक्रेता 117 दिनांक 25.05.2017 द्वारा दिनांक 10.05.2017 से प्रभावी पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली, 2017 के उपबन्धों के अनुसार नगर पथ विक्रय समिति का गठन, पथ-विक्रेताओं का सर्वेक्षण, पंजीकरण, पथ विक्रेता प्रमाणपत्र जारी करना, विक्रय परिक्षेत्रों का सीमांकन, नये पथ विक्रेता बाजार बनाने, पथ विक्रेताओं को पुनर्स्थापित किये जाने, पथ विक्रेताओं के परिचय पत्र जारी करने इत्यादि की योजना/समय सारणी का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना था।

सम्परीक्षा में यह स्पष्ट नहीं कराया गया कि निगम द्वारा उक्त पत्र के अनुपालन में कमेटी का गठन कब किया गया था। उक्त पथ-विक्रेता कमेटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों कौन-कौन थे। नगर निगम द्वारा पथ-विक्रेताओं का सर्वेक्षण कराया गया था अथवा नहीं। सर्वे रिपोर्ट की अनुपलब्धता के कारण पथ विक्रेताओं के पंजीकरण की संख्या भी ज्ञात न हो सकी। उक्त मद में नगर निगम को आलोच्य अवधि में कोई आय प्राप्त नहीं थी।

अतः नगर निगम द्वारा नियमावली/पत्र के अनुपालन में पथ विक्रेताओं को प्रमाण पत्र जारी करना, विक्रय क्षेत्रों का सीमांकन, नये पथ विक्रेता बाजार बनाने, पथ विक्रेताओं को पुनर्स्थापित करने एवं पथ विक्रेताओं को परिचय पत्र जारी करने का कार्य न किया जाना अनियमित था।

इस प्रकार उक्त नियमावली के अन्तर्गत लम्बित कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

28- नगर निगम में आनलाईन जमा किया गया गृहकर, जलकर एवं सीवर कर की धनराशि रु0 1,55,56,70,796.23 असत्यापित :-

नगर निगम की रोकड़बही, बजट एवं क्लासिफाईट पंजी के अनुसार वर्ष 2022-23 में नगर निगम को गृहकर रु0 71,81,09,183.74 जलकर रु0 58,14,88,271.32 एवं सीवर कर रु0 25,60,73,341.17 कुल रु0 1,55,56,70,796.23 आनलाईन प्राप्त हुए थे, किन्तु आनलाईन जमा धनराशियों से सम्बन्धित कोई लेखा-जोखा निगम के पास उपलब्ध नहीं था। निगम के खातों में सीधे आनलाईन धनराशियां जमा की गयी थी किन्तु इन धनराशियों के सम्बन्ध में भवन स्वामी एवं मदवार मांग वसूली पंजी तैयार नहीं की गयी थी जिसके कारण यह स्पष्ट न हो सका कि जमा योग्य समस्त धनराशि जमा की गयी है अथवा नहीं। साथ निगम द्वारा समय समय दी जाने वाली छूट नियमानुसार दी गयी थी, की जांच भी सम्भव न हो सकी।

निगम द्वारा ऐसे अभिलेख अनुरक्षित नहीं किये गये थे जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आनलाईन ट्रांजैक्शन से प्राप्त समस्त धनराशियां नगर निगम के बैंक खातों में जमा हो गयी थी। आनलाईन प्राप्त धनराशियों की मांग वसूली पंजी में प्रविष्टियां करने के उपरान्त भवन स्वामियों को बकाया धनराशियों का नोटिस जारी किये जाने के उपरान्त ही सुनिश्चित किया जा सकता था कि आनलाईन प्राप्त समस्त धनराशियां निगम को प्राप्त हो गयी थी एवं किसी भी धनराशि का व्यपहरण/लोप नहीं किया गया था।

अतः आनलाईन जमा धनराशियों सहित समस्त करों से सम्बन्धित मांग वसूली पंजियों में भवनवार व मदवार बकाया, वर्ष की मांग एवं वसूली तथा वर्षान्त में बकाया का विवरण तैयार करने के उपरान्त आनलाईन प्राप्त धनराशियों के जमा का सत्यापन कराये जाने हेतु नगर निगम के उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

29- सिटी जोन में प्रस्तुत नाम परिवर्तन की पत्रावलियों में पायी गयी अनियमितताएं :-

सिटी जोन में नाम परिवर्तन (म्यूटेशन) की पत्रावलियों की जांच में समय प्रकाश में आया कि जोन में नाम परिवर्तन से संबंधित प्रक्रियात्मक व्यवस्था को नहीं अपनाया जा रहा था। नाम परिवर्तन करने से पूर्व संबंधित सम्पत्ति के स्वामित्व परिवर्तन संबंधी विज्ञापन जोन द्वारा किसी भी समाचार पत्र में नहीं प्रकाशित किया जाता था।

पत्रावलियों में देखा गया कि संबंधित जोन कार्यालयों द्वारा सम्पत्ति के स्वामित्व में नाम परिवर्तन से संबंधित सभी पक्षों यथा ठेला, विक्रेता भाई, बहनों अथवा अन्य दावेदारों को नोटिस नहीं निर्गत किया जाता था। मात्र एक नोटिस क्रेता को निर्गत किया जाता था।

सिटी जोन

क्रमांक	सम्पत्ति का पता	केता का नाम	मन्तव्य
1-	64, सराय नजर अली	श्रीमती बिल्कीस बेगम	1. विक्रेता पक्ष को नोटिस प्राप्त नहीं था। 2. आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न नहीं थी। 3. म्यूटेशन F/0221112317166 संबंधित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं था।
2-	III F 216 A राकेश गर्ग	श्री अभिषेक शर्मा	1. म्यूटेशन MU20221161 832139 530 दिनांक 09.01.23 संबंधित द्वारा हस्ताक्षरित नहीं था। 2. आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न नहीं थी।
3-	C-4/211 गुल मोहर एन्क्लेव	श्रीमती सुमिता व नेहल दीप	1. म्यूटेशन MU2023020 52401583/ 05-02-23 दिनांक 09.01.23 हस्ताक्षरित नहीं था।
4-	76/A/F गांधी नगर	श्रीमती सरोज देवी	1. नोटिस केवल केता पक्ष को दिया गया था। विक्रेता पक्ष को नहीं। 2. म्यूटेशन पत्र संबंधित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थी। 3. स्वप्रमाणित आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न नहीं थी।
5-	155 A हरदेव सहाय	श्री वासुदेव तिवारी	1. म्यूटेशन आर्डर सं0-MO/2023/ 27521 दिनांक 31.03.2023 पर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे। 2. आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न नहीं थी।
6-	446 A बाल्मीकि अन्य	श्रीमती प्रीति पाण्डेय	1. स्वप्रमाणित आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न नहीं थी। 2. नोटिस विक्रेता पक्ष को नहीं दिया

				गया था।
7-	188 भट्टा जात	श्री चन्द्रशेखर बटरा	1.	आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न नहीं थी।
8-	191 पक्की मोरी	श्री ओमप्रकाश खन्ना व श्रीमती ज्योति खन्ना	1.	पत्रावली में संलग्न रजिस्ट्री सत्यापित नहीं थी।
			2.	आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न नहीं थी।
9-	158/3 बजरिया	श्री नवनाथ जाधव	1.	नाम परिवर्तन MU2022 1130121515917 दिनांक 13.12.22 संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं थी।
			2.	पत्रावली में संलग्न रजिस्ट्री स्वप्रमाणित नहीं थी।
10-	III M-45 B/F नेहरू नगर	श्रीमती रूबी व राहुल	1.	रजिस्ट्री की छायाप्रति स्वप्रमाणित नहीं थी।
			2.	आधार कार्ड की छायाप्रति स्वप्रमाणित नहीं थी।
11-	147 सोहन लाल	श्री ईश्वर सिंह	1.	रजिस्ट्री की छायाप्रति स्वप्रमाणित नहीं थी।
			2.	पत्रावली में संलग्न आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न नहीं थी।
12-	II B-10 नेहरू नगर	श्रीमती मीनाक्षी गोयल व पंकज गोयल	1.	रजिस्ट्री की छायाप्रति स्वप्रमाणित नहीं थी।
			2.	पत्रावली में संलग्न आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न नहीं थी।

30- साईं मन्दिर दान पत्र हेतु प्राप्त धनराशि में रु0 100 कम जमा किया जाना :-

सम्परीक्षा माहों की आय संबंधी रसीदों की जांच में पाया गया कि साईं मन्दिर दान पात्र से प्राप्त धनराशि की कुल संख्या-72 में रसीद संख्या-3562 से 3575 तक की कुल धनराशि रु0 868 प्राप्त थी जबकि रोकड़बही में दिनांक 21.02.2023 को उक्त धनराशि के सापेक्ष रु0 768 जमा थे। इस प्रकार रु0 868-768=100 कम जमा किये गये थे। अतः कम जमा धनराशि का कारण स्पष्ट करते हुए संबंधित से रु0 100 निगम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

31- सिटी जोन में प्रस्तुत नवीन करारोपण की पत्रावलियों में पायी गयी अनियमितताएं :-

नगर निगम अन्तर्गत सिटी जोन की नवीन करारोपण से संबंधित पत्रावलियों की जांच के समय प्रकाश में आया कि नवीन करारोपण से संबंधित प्रक्रियात्मक व्यवस्था को नहीं अपनाया जा रहा था। नवीन करारोपण की पत्रावलियों से संबंधित सम्पत्ति की फोटो संलग्न नहीं थी एवं न ही सम्पत्ति मालिक पर कितना कर बकाया था इसकी स्थिति से संबंधित कोई भी पत्र संलग्न किया जाता था जिससे सम्परीक्षा में यह ज्ञात न ही हो सका कि करारोपण करते समय बकाया की क्या स्थिति थी।

पत्रावलियों में संबंधित अधिकारियों के हस्ताक्षरों का अभाव था। सम्परीक्षा में निम्नलिखित पत्रावलियां प्रस्तुत की गयी थी। उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई पत्रावलियां प्रस्तुत नहीं की गयी थी।

क्र०सं०	सम्पत्ति का पता	भवन स्वामी का नाम	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल
1	एफ0-094 के डब्ल्यू राजनगर एक्सटेंशन	श्री चन्दन सिंह और सोनिया	346 वर्ग फीट
2	आर-1407 एस.जी. ग्रांड राजनगर एक्स०	श्रीमती मानसी कपूर और विपिन कपूर	188 वर्ग फीट
3	यू0जी0-34 के डब्ल्यू	श्रीमती मिथलेश सिंघल/रवि कुमार	503 वर्ग फीट
4	भूखण्ड सं० 209 रिछपाल पुरी	श्री राजकुमार पुत्र राम चन्द्र	22.29 वर्ग मी०
5	मकान नं० 39 दुकान नं० 8 रामानुज दयाल मौहल्ला नयी बस्ती	श्री गौरव कुमार गुप्ता	122 वर्ग फीट

6	एल0जी0-062 के0 डब्ल्यू दिल्ली-6 राजनगर एक्स0	श्रीमती सविता एण्ड दीपशिखा	295 वर्ग फीट
7	एस0-047 के0 डब्ल्यू दिल्ली-6	रानी देव और अभिषेक शाह	137 वर्ग फीट
8	22/6 एफ एफ प्लाट नं0-22 दुकान नं0 6 नयी बस्ती गाजियाबाद	श्री विशान कुमार	110 वर्ग फीट
9	एफ-022 के0 डब्ल्यू दिल्ली-6	श्रीमती अपूर्वा बंसल और वीनस अग्रवाल	142 वर्ग फीट
10	999 एल धूमना	श्रीमती कविता शर्मा व आदित्य यादव	-

32- कवि नगर जोन में प्रस्तुत नाम परिवर्तन की पत्रावलियों में पायी गयी अनियमितताएं एवं आलोच्य वर्ष से संबंधित नवीन करारोपण से संबंधित पत्रावलियां प्रस्तुत न किया जाना अनियमित:-

कविनगर जोन में नाम परिवर्तन(म्यूटेशन) की पत्रावलियों की जांच के समय प्रकाश में आया कि जोन में नाम परिवर्तन से संबंधित प्रक्रियात्मक व्यवस्था को नहीं अपनाया जा रहा था। नाम परिवर्तन संबंधी विज्ञापन जोन द्वारा किसी भी समाचार पत्र में नहीं प्रकाशित किया जाता था।

पत्रावलियों में देखा गया कि संबंधित जोन कार्यालयों द्वारा सम्पत्ति के स्वामित्व में नाम परिवर्तन से संबंधित सभी पक्षों यथा क्रेता, विक्रेता भाई बहनों अथवा अन्य दावेदारों को नोटिस नहीं निर्गत किया जाता था। मात्र एक नोटिस क्रेता को निर्गत किया जाता था। अधिकांश पत्रावलियों में म्यूटेशन आदेश की कापी पर जोनल अधिकारी के हस्ताक्षरों का अभाव था। मात्र बिना हस्ताक्षरों का म्यूटेशन आर्डर पत्रावलियों में संलग्न किया जाना अनियमित था।

अधिकांश पत्रावलियों में क्रेता एवं विक्रेता पक्ष के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न नहीं थी।

(2) कविनगर जोन में नवीन करारोपण से संबंधित पत्रावलियां सम्परीक्षा में मौखिक एवं लिखित अधियाचन सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जिस कारण उक्त नवीन करारोपण से संबंधित पत्रावलियों की सम्परीक्षा संभव न हो सकी।

क्रमांक	सम्पत्ति का पता	केता का नाम		मन्तव्य
1-	416 चिरंजीव विहार सैक्टर-2 कविनगर	श्रीमती नूतन भारद्वाज पत्नी श्री कुलदीप शर्मा	1.	नाम परिवर्तन रसीद F/03041423 28183 पर जोनल अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे।
			2.	संबंधित केता के आधार कार्ड की छायाप्रति स्वप्रमाणित नहीं।
			3.	नाम परिवर्तन नोटिस विक्रेता द्वारा प्राप्त नहीं था।
2-	71 चिरंजीव विहार सैक्टर-10 कविनगर	श्री विजय कुमार व श्रीमती रुचि	1.	नाम परिवर्तन रसीद F/022315232 3561 पर संबंधित के हस्ताक्षर नहीं थे।
			2.	नोटिस केवल केता पक्ष को प्राप्त था।
			3.	संबंधितों के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति नहीं थी।
3-	120 लाल कुआं	श्रीमती मंजू सिंह पत्नी रवि प्रकाश राय	1.	म्यूटेशन आर्डर Mo/2023/ 27468 दिनांक 31.03.2023 जोनल अधिकारी से हस्ताक्षरित नहीं।
			2.	नाम परिवर्तन नोटिस केवल केता पक्ष को प्राप्त था।
			3.	नाम परिवर्तन रसीद F/0222122 336001 संबंधित अधिकारी से हस्ताक्षरित नहीं थी।
4-	एसएफ-1 चिरंजीव विहार सै0-10ए	श्रीमती शिप्ता चंद पत्नी पुरेन्द्र भूषण चन्द	1.	म्यूटेशन आर्डर सं0 Mo/2023/ 27094 दिनांक 19.03.2023 जोनल अधिकारी से सत्यापित नहीं।
			2.	नाम परिवर्तन रसीद F/0131122 325131 राजस्व निरीक्षक एवं लिपिक द्वारा सत्यापित नहीं
			3.	आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न नहीं।
5-	जी0-19 बी	श्री गोविन्द सिंह	1.	म्यूटेशन आर्डर सं0 Mo/2023/

	संजय नगर	पुत्र कृष्ण सिंह		24489 दिनांक 19.03.2023 पर जोनल अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं।
			2.	नाम परिवर्तन नोटिस केवल क्रेता पक्ष को प्राप्त था।
			3.	नाम परिवर्तन रसीद सं0 F/11041 12253250 पर संबंधित आर.आई. के हस्ताक्षर नहीं।
6-	159 चिरंजीव विहार सै0-1	मुकेश जैन व नरेश कुमार जैन	1	म्यूटेशन आर्डर सं0 Mo/2023/27205 पर जोनल अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं।
			2.	संबंधित क्रेता पक्ष के नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं।
7-	12, चिरंजीव विहार सै0-1	श्रीमती भारती गुप्ता व धर्मेन्द्र गुप्ता	1.	म्यूटेशन आर्डर सं0 Mo/2023/27387 पर जोनल अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं।
			2.	नोटिस केवल क्रेता पक्ष को दिया गया था।
			3	नाम परिवर्तन पिन सं0 सी.एन. 24013 हस्ताक्षरित नहीं था।
8-	201 चिरंजीव विहार सै0-5	विनोद कुमार गुप्ता पुत्र जगदीश चन्द गुप्ता	1.	म्यूटेशन आर्डर सं0 Mo/2023/27303 जोनल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं।
			2.	क्रेता/विक्रेता पक्ष के आधार कार्ड स्वप्रमाणित नहीं थे।
9-	डी.डी. 240 अवंतिका	विपिन त्यागी पुत्र श्री श्याम सुन्दर	1.	म्यूटेशन आर्डर सं0 Mo/2023/27206 दिनांक 31.03.2023 जोनल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं था।
			2.	क्रेता विक्रेता के आधार कार्ड स्वप्रमाणित नहीं थे।

33- वसुन्धरा जोन, मोहन नगर जोन की नाम परिवर्तन एवं नये करारोपण की पत्रावलियां अप्रस्तुत एवं विजय नगर जोन के अभिलेख अप्रस्तुत :-

सम्परीक्षा के दौरान बार-बार मौखिक रूप से मांग किये जाने तथा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पत्रांक-372 दिनांक 03.08.2023, उप निदेशक महोदय, मेरठ मण्डल, मेरठ के पत्रांक मे0मं0/वृत्त/1436 दिनांक 22.08.2023, अधियाचन सं0 30 दिनांक 06.09.2023 एवं 88 दिनांक 26.12.2023 निर्गत किये जाने के बावजूद भी वसुन्धरा जोन एवं माहन नगर जोन की आलोच्य अवधि से सम्बन्धित नाम परिवर्तन एवं नये करारोपण की पत्रावलियां सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयीं। इसी प्रकार विजय नगर जोन के आलोच्य अवधि से संबंधित नये करारोपण एवं नाम परिवर्तन की पत्रावलियां प्रस्तुत नहीं की गयीं जिसके कारण उपरोक्त जोनों में वर्षान्तर्गत नाम परिवर्तन एवं नये करारोपण संबंधी जांच किया जाना सम्भव नहीं हो सका। उपरोक्त के संबंध में प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

34- नगर निगम के सभी जोनों में कम्प्यूटर से निर्गत रसीदों की द्वितीय प्रति नियमानुसार प्रत्येक तिथिवार सुरक्षित न रखा जाना अनियमित :-

नगर निगम के समस्त जोनों की सम्परीक्षा माहों की आय की जांच से प्रकाश में आया कि कम्प्यूटर से भवन स्वामियों को निर्गत रसीद की द्वितीय प्रति निगम द्वारा सुरक्षित नहीं रखी जाती थी जिससे इनकी जांच सम्भव न हो सकी। सम्परीक्षा के समय मात्र तिथिवार वसूल की गयी धनराशि का विवरण ही उपलब्ध कराया गया था उस विवरण को रोकडबही में 10प्रतिशत गृहकर, 10 प्रतिशत जलकर एवं 04 प्रतिशत सीवर कर के रूप में अंकित कर दिया जाता था जिससे यह स्पष्ट न हो सका कि किन-किन भवन स्वामियों द्वारा कितनी धनराशि जमा की गयी थी तथा कितनी जमा होनी चाहिये थी निगम द्वारा अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न किये जाने से सम्परीक्षा माहों में प्राप्त आय की गणना किया जाना सम्भव न हो सका तथा मांग वसूली पंजी अनुरक्षित न किये जाने से जमा की पुष्टि न की जा सकी। नियमानुसार निर्गत रसीदों में गृहकर, जलकर, एवं सीवर कर की धनराशि पृथक-पृथक अंकित कर रसीदों के आधार पर मांग वसूली पंजी पूर्ण कर रसीदों को तिथिवार अनुरक्षित किया जाय जिससे मांग वसूली पंजी तथा गृहकर निर्धारण आदि की सम्यक जांच सम्भव हो सके।

35— नगर निगम के जोनों में करों एवं राजस्व की आउटडोर वसूली न किया जाना अनियमित एवं वित्तीय हितों के प्रतिकूल :-

नगर निगम के जोनों में करों के संग्रहण एवं राजस्व की वसूली से संबंधित जांच किये जाने पर प्रकाश में आया कि सभी जोनों में मात्र ऑनलाइन एवं काउन्टर पर ही करदाताओं द्वारा स्वयं ही करों को जमा किया जाता था। जोनों में स्थित कर्मियों द्वारा आउटडोर कलैक्शन नहीं किया गया था अथवा नाम मात्र का ही किया गया था। यह स्थिति जहां एक ओर निगम की राजस्व वसूली के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रतिकूल थी और राजस्व की कम वसूली हो रही थी वहीं दूसरी ओर आउटडोर कलैक्शन न होने के कारण करदाताओं को समय से कर जमा न किये जाने की प्रवृत्ति को बल दिया जा रहा था। इसके कारण प्रतिवर्ष बकाया करों में वृद्धि होना पूर्णतः सुनिश्चित था। अतः विभिन्न जोनों में आउटडोर कलैक्शन बढ़ाये जाने हेतु निगम अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

36— स्वास्थ्य अनुभाग की पत्रावलियां सम्परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना अनियमित रु0 189098382 :-

स्वास्थ्य अनुभाग की वर्ष 2022-23 सम्परीक्षा वर्ष की पत्रावलियों को सम्परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक एवं लिखित रूप में जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पत्रांक-372 दिनांक 03.08.2023 व पत्रांक 610 दिनांक 10.10.2023 एवं उप निदेशक मेरठ मण्डल, मेरठ के पत्रांक-मे0मं0/वृत्त/1436 दिनांक 22.08.2023 तथा अधियाचन सं0 28 दिनांक 06.09.2023 के द्वारा मांग किये जाने पर भी पत्रावलियां एवं उनसे संबंधित स्टॉक बुक सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

सम्परीक्षा में उक्त पत्रावलियों को प्रस्तुत नहीं किये जाने से पत्रावलियों की सम्यक् जांच नहीं हो सकी। स्वास्थ्य अनुभाग द्वारा वर्ष के अन्तर्गत किये गये भुगतानों का सत्यापन नहीं हो सका जोकि आपत्तिजनक एवं अनियमित था। सम्परीक्षा में प्रस्तुत रही पत्रावलियों का विवरण निम्नलिखित था।

क्र0सं0	व्यय प्रमाणक सं0	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	493	20.02.23	631900	प्राईम सिक्योरिटी
2	494	---"---	640100	---"---
3	495	---"---	631900	---"---
4	496	---"---	631900	---"---

5	497	---	640100	---
6	413	02.03.23	2608400	मै0 नेचर ग्रीन वेस्ट कलक्शन
7	452	04.03.23	6758800	मै0 जे0एस0 एनवायरॉ सर्विस
8	453	---	7353700	मै0 जे0एस0 ---
9	454	---	7745900	मै0 नेचर ग्रीन बेस्ट एण्ड कलैक्शन
10	532	16.03.23	980346	गोवंश चारा
11	532	---	998770	---
12	534	---	961146	---
13	535	---	59738	---
14	579	18.03.23	771680	मै0 प्राईम क्लीनिंग सर्विस
15	580	---	766220	---
16	581	---	570700	---
17	455	02.03.23	8876700	मै0 नेचर ग्रीन बेस्ट कलक्शन ट्रासपोर्टेशन
18	456	---	6011090	---
19	457	---	6180900	---
20	2259	31.03.23	5370400	मै0 ओम स्वच्छता कारपोरेशन
21	2260	---	5625500	---
22	2261	---	5605900	---
			70421790	
23	2262	---	4130800	---
24	2263	---	2318400	---
25	2264	---	1144900	---
26	2278	---	7478700	मै0 मेटो बेस्ट हैडलिंग प्रा0लि0
27	2279	---	7675100	---

28	2280	---	4283300	---
29	2281	---	2747100	मै0 नेचर ग्रीन
30	2282	---	2612400	---
31	2283	---	2421100	---
32	2284	---	2935200	---
33	2285	---	7948200	---
34	2286	---	4399900	---
35	2287	---	5040700	---
36	2288	---	2513600	---
37	1589	---	364700	मै0 सुलभ इन्टरनेशनल
38	1590	---	435300	---
39	1641	---	57600	मै0 भारत इन्टरप्राइजेज
40	1620	---	898200	मै0 लिजास अर्थ मूवर्स
41	1621	---	467700	मै0 प्राईम क्लीनिंग सर्विस
42	1622	---	485692	---
43	1623	---	475900	---
44	1624	---	475900	---
			61310392	
45	1625	---	467700	मै0 प्राईम क्लीनिंग सर्विस को भुगतान
46	405	02.03.23	2957100	नेचर ग्रीन बेस्ट क्लक्शन/ वसुन्धरा जोन
47	406	---	2996000	---
48	407	---	2775200	---
49	408	---	2575900	---
50	409	---	2427400	---

51	410	---"---	2418500	---"---कविनगर जोन
52	411	---"---	2432900	---"---
53	412	---"---	2267800	---"---
54	46	02.02.23	732200	ड्राइवरों को भुगतान
55	72	---"---	83000	सफाई उपकरण व्यय
56	73	---"---	68300	---"---
57	280	21.02.23	129200	रात्रि कालीन सफाई
58	281	---"---	129200	---"---
59	231	14.02.23	400000	जमानत राशि भुगतान
60	266	21.02.23	1484300	वाहन मरम्मत
61	267	---"---	4446600	वाहन संचालन व मरम्मत
62	268	---"---	5056400	---"---
63	270	---"---	129200	रात्रि कालीन सफाई
64	271	---"---	129200	---"---
			34106100	
65	272	---"---	129200	---"---
66	273	---"---	129200	---"---
67	274	---"---	142300	---"---
68	275	---"---	142300	---"---
69	276	---"---	142300	---"---
70	277	---"---	142300	---"---
71	278	---"---	129200	---"---
72	279	---"---	129200	---"---
73	342	---"---	146000	ढेका सफाई कर्मी
74	343	---"---	146000	---"---

75	344	---	109500	---
76	345	---	109500	---
77	346	---	109500	---
78	347	---	109500	---
79	348	---	124100	---
80	349	---	124100	नार्थ इण्डिया डवलपर्स/ सफाई कार्य
81	350	---	124100	---
82	351	---	124100	---
83	352	---	146000	---
84	353	---	149000	---
85	354	---	146000	---
			2753400	
86	355	---	146000	---
87	863	18.06.22	841900	मै० दिव्य इन्टरप्राइजेज
88	864	---	841900	---
89	865	---	841900	---
90	866	---	841900	---
91	867	---	841900	---
92	868	---	841900	---
93	869	---	841900	---
94	870	---	841900	---
95	871	---	841900	---
96	872	---	841900	---
97	873	---	841900	---

98	874	---"---	631400	---"---
99	875	---"---	631400	---"---
100	537	22.12.22	2663500	मै० नेचर ग्रीन टूल्स एण्ड मशीन
101	538	---"---	2384500	---"---
102	539	---"---	2219500	---"---
103	540	---"---	2569500	---"---
			20506700	

37- विधि अनुभाग की वर्ष 2022-23 की पत्रावलियां सम्परीक्षा में अप्रस्तुत रु० 10814832 :-

विधि अनुभाग की वर्ष 2022-23 की पत्रावलियों को सम्परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक एवं लिखित रूप में जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पत्रांक 372 दिनांक 03.08.23 एवं पत्रांक 610 दिनांक 10.10.23 एवं उप निदेशक मेरठ मण्डल, मेरठ के पत्रांक-मे०मं०/वृत्त/1436 दिनांक 22.08.23 तथा अधियाचन संख्या 28 दिनांक 06.09.23 एवं सं० 25 दिनांक 06.09.23 एवं अधि० सं० 105 दिनांक 31.01.2024 द्वारा मांग किये जाने के बावजूद पत्रावलियां उपलब्ध नहीं करायी गयी। उपरोक्त के अभाव में विधि अनुभाग द्वारा किये गये भुगतान असत्यापित/आपत्तिजनक थे। सम्परीक्षा में अप्रस्तुत रही पत्रावलियों का विवरण निम्नलिखित था-

क्र०सं०	वाउचर सं०	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	1361	31.03.23	10800	एडवोकेट सुरेन्द्र कुमार सचदेवा
2	1362	---"---	10800	---"---
3	1363	---"---	10800	---"---
4	1364	---"---	9900	---"---
5	1365	---"---	9900	---"---
6	1370	---"---	9900	एडवोकेट भूपेन्द्र त्यागी
7	1371	---"---	7650	---"---
8	1372	---"---	7650	---"---
9	1373	---"---	9900	---"---

10	1374	---	10350	---
11	1375	---	1440	एडवोकेट रमेश चन्द
12	1376	---	2520	---
13	1377	---	1440	---
14	1378	---	3000	---
15	1379	---	7900	---
16	1380	---	2790	---
17	1381	---	2430	---
18	1383	---	3000	---
19	1384	---	3150	---
20	1385	---	1260	---
21	1386	---	1530	---
22	1387	---	11700	---
23	1388	---	9900	सरदार मनमीत सिंह एडवोकेट
24	1390	---	9000	---
25	1391	---	9000	---
26	1392	---	13950	---
27	1395	---	5490	विवेक कुमार शर्मा एडवोकेट
28	1396	---	7020	---
29	1398	---	7650	गीता रानी एडवोकेट
30	1402	---	5850	सुनील दत्त त्यागी
31	1403	---	4500	दिनेश कुमार त्यागी
32	1404	---	5850	---
33	1405	---	4500	---
34	1406	---	4500	---
35	1407	---	5850	---

36	1408	---	5850	---
37	1409	---	5850	---
38	1410	---	5850	---
39	1411	---	5850	---
40	1412	---	4500	---
41	1413	---	4500	---
42	1414	---	4500	---
43	1415	---	5850	---
44	1416	---	5850	---
45	1417	---	5850	---
46	1422	---	6140	तबीस शेख एडवोकेट
47	1424	---	8842	---
48	1431	---	27900	श्रीमती निरंजना सिंह एडवोकेट
49	1432	---	15520	---
50	1433	---	46800	---
51	1435	---	31050	---
52	1437	---	14850	विभव मिश्रा एडवोकेट
53	1438	---	14850	---
54	1439	---	14850	---
55	1440	---	59400	---
56	1442	---	84600	पी०के० सिंह
57	1445	---	16200	---
58	1446	---	9900	---
59	1447	---	11700	---
60	1448	---	63910	कौशल कुमार गोयल लीगल एडवार्डजर

61	07	02.02.23	1000	अपील हेतु
62	186	07.02.23	10000000	---"---
63	187	07.02.23	100000	---"---

38-अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड (ई0/एम0) उत्तर प्रदेश जल निगम, गाजियाबाद को भुगतान रु 1,86,87,000 का उपभोग लेखा/समायोजन प्राप्त न किया जाना अनियमित :-

सम्परीक्षा माहों के व्यय प्रमाणकों की जांच में प्रकाश में आया कि इन्दिरापुरम स्थित 56 एम.एल.डी., एस.टी.पी. के विद्युत एवं यान्त्रिक कार्यों के रेनोवेशन एवं रिहैबिलिटेशन कार्य हेतु अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड (ई./एम.) उत्तर प्रदेश जल निगम, गाजियाबाद को इनके खाता सं0 6133000100012164 में व्यय प्रमाणक सं0 492 दिनांक 20.02.2023 द्वारा 1,86,87,000 में से टी.डी.एस. रु 3,73,800 की कटौती करते हुए रु 1,83,13,200 का भुगतान किया गया था।

उक्त अग्रिम के सापेक्ष कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में कोई अभिलेख प्राप्त नहीं था। जिससे दिये गये अग्रिम की धनराशि के दुरुपयोग होने की पूर्ण सम्भावना थी। अतः उक्त अग्रिम के सम्बन्ध में निगम द्वारा की गई कार्यवाही से सम्परीक्षा को अवगत कराया जाय अन्यथा की स्थिति में उपयोग/समायोजन लेखा प्राप्त न किया जाना निगम के आर्थिक हितों के प्रतिकूल था।

39- प्रकाश अनुभाग की पत्रावलियां एवं उनसे संबंधित भण्डार पंजियां सम्परीक्षा में अप्रस्तुत रु0 22784404 :-

प्रकाश अनुभाग की वर्ष 2022-23 की अनुदान से संबंधित पत्रावलियां एवं आलोच्य माहों की पत्रावलियां सम्परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक रूप से एवं लिखित रूप से जिसमें जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पत्रांक 372 दिनांक 03.08.23 व पत्रांक 610 दिनांक 10.10.23 एवं उप निदेशक मेरठ मण्डल, मेरठ के पत्रांक मे0मं0/वृत्त/1436 दिनांक 22.08.23 तथा अधियाचन संख्या 23 दिनांक 06.09.23 द्वारा मांग किये जाने के बावजूद पत्रावलियां उपलब्ध नहीं करायी गयी। उपरोक्त के अभाव में प्रकाश अनुभाग द्वारा किये गये भुगतान असत्यापित/आपत्तिजनक थे। सम्परीक्षा में अप्रस्तुत रही पत्रावलियों का विवरण निम्नलिखित था-

क्र0सं0	व्यय प्रमाणक सं0	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	39	02.02.23	27244	विजली सामान कय
2	41	---"---	207400	---"---

3	108	01.03.23	93600	आहूजा लाईट एण्ड साउंड
4	551	18.03.23	857600	मै० नन्दिनी
5	2240	31.03.23	8585400	मै० एनर्जी ऐफिसियंसी सर्विसेज
6	2241	---"---	8314600	---"---
7	2396	---"---	931000	मै० आर०के० इन्ट०
8	2397	---"---	94200	---"---
9	2398	---"---	275300	---"---
10	1679	---"---	334200	मै० कैपिटल
11	1680	---"---	27300	---"---
12	1682	---"---	21900	---"---
13	1689	---"---	505600	मै० एम०आर. इण्डिया
14	1690	---"---	364000	---"---
15	1697	---"---	23300	मै० नन्दिनी इन्ट०
16	1665	---"---	923600	मै० बंसल ट्रेडर्स
17	1666	---"---	176400	---"---
18	1678	---"---	23500	मै० केपिटल कन्स०
19	1718	---"---	203600	मै० एम०के० कन्स०
20	1719	---"---	101900	मै० संकल्प एनर्जी
21	1720	---"---	500000	मै० शशांक इलै०
22	1704	---"---	96560	मै० एस०ए० इन्ट०
23	1714	---"---	96200	मै० संगम एसोसिएट

40- निगम की आय से संबंधित रसीद बुकों (एम०एस०सी-5) का सम्परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक :-

आलोच्य अवधि की सम्परीक्षा में बार-बार मौखिक रूप से एवं जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पत्रांक 372 दिनांक 03.08.23 व पत्रांक 708 दिनांक 31.10.23 एवं उप निदेशक मेरठ मण्डल, मेरठ के पत्रांक मे०मं०/वृत्त/1436 दिनांक 22.08.23 तथा अधियाचन संख्या 22

दिनांक 06.09.23 एवं अधियाचन सं0 97 दिनांक 11.01.2024 द्वारा लिखित रूप में आय से संबंधित रसीदों की मांग की गयी ।

सम्पत्ति अनुभाग द्वारा आय से संबंधित निम्नलिखित रसीदों को सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त रसीद बुकों की सम्यक जांच सम्भव न हो सकी ।

क्र0सं0	रसीद बुक सं0	सम्बन्धित
1	26362	किराया / भवन दुकान
2	26124	नकल फीस
3	26358	लाई.शुल्क
4	26345	कुटेशन शुल्क
5	26242	दाह संस्कार
6	26255	लाई0 शुल्क
7	79	जुर्माना अतिक्रमण
8	26223	नकल फीस
9	138	जुर्माना अतिक्रमण
10	26359	लाई0 शुल्क
11	26359	निर्माण (लाई0 शुल्क)
12	187	जुर्माना अतिक्रमण
13	26312	पाई बुकिंग
14	06	जुर्माना अतिक्रमण
15	26256	लाई0 शुल्क
16	186	गाय छोड़ने का जुर्माना
17	26299	कूड़े विक्रय से आय
18	190	नर्सरी अतिक्रमण
19	26371	जल संयोजन एवं सीवर संयोजन
20	183	गाय छोड़ने का जुर्माना
21	103	—“—
22	34	जुर्माना पालिथीन
23	26346	कुटेशन शुल्क
24	26360	लाई0 शुल्क
25	176	जुर्माना गन्दगी करने पर
26	09	जुर्माना गीला सूखा कूड़ा
27	66, 63, 30, 64, 178, 37, 68, 67, 32, 69, 88, 139, 26380, 26361, 26381, 23, 26382	जुर्माना घरेलू कूड़ा

41- निर्माण विभाग की वर्ष 2022-23 से संबंधित पत्रावलियां अप्रस्तुत रु0 33,53,67,786 :-


निर्माण अनुभाग की वर्ष 2022-23 से संबंधित पत्रावलियों को सम्परीक्षा में प्रस्तुत किये जाने हेतु बार-बार मौखिक रूप से एवं जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पत्रांक 372 दिनांक 03.

08.23 एवं उप निदेशक मेरठ मण्डल, मेरठ के पत्रांक मे0मं0/वृत्त/1436 दिनांक 22.08.23 तथा अधियाचन संख्या 26 दिनांक 06.09.23 द्वारा मांग किये जाने के बावजूद भी संलग्न परिशिष्ट-32 में उल्लिखित पत्रावलियां सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयीं। जिसके कारण इनकी सम्यक जांच सम्भव न हो सकी। उपरोक्त के संबंध में आवश्यक एवं प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

42- नजूल :- गत एवं विगत वर्षों की सम्परीक्षा आख्या के अनुसार नगर निगम, गाजियाबाद के पास कोई नजूल सम्पत्ति नहीं थी। इसकी पुष्टि कार्यालय, जिलाधिकारी, गाजियाबाद से प्रमाण पत्र प्राप्त कर कराया जाय।

43- सफाई कर्मचारी कल्याण निधि की स्थापना न किया जाना अनियमित :- सफाई कर्मचारी कल्याण निधि की स्थापना एवं प्रावधानों से सम्बन्धित नियमावली नगर पालिका विज्ञापित सं0 204 एच/ग्यारह-ए-63-49 दिनांक 09.02.1956 द्वारा बनायी गयी थी किन्तु नगर निगम द्वारा सफाई कर्मचारी कल्याण निधि की स्थापना नहीं की गयी थी। नगर निगम में भारी संख्या में नियमित सफाई कर्मचारी एवं दैनिक वेतन तथा संविदा पर कार्यरत थे। इसके बावजूद भी सफाई कर्मचारी कल्याण निधि की स्थापना न किया जाना सफाई कर्मचारियों के हित में न था एवं शासनादेश के प्रतिकूल था। अतः इस निधि की स्थापना करके सम्परीक्षा में जांच कराया जाना अपेक्षित है।

स्थान : मेरठ
दिनांक : 16.04.2024


(देवेन्द्र)
उप निदेशक
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

वित्तीय स्थिति - वर्ष 2022-23

नगर निगम, जालिमबाद

विवरण	नगर निगम वि. सं.	पूर्व वर्ष की तुलना में वर्धन/घटन
01 अप्रैल, 2022 की प्रारम्भिक शेष -	4,44,32,78.414 = 17	8,97,96,931 = 100
वर्ष की आय -	7,41,91,08,263 = 17	4,12,216 = 100
योग -	11,86,23,86,677 = 17	9,02,09,147 = 100
वर्ष का व्यय -	7,65,23,29,366 = 34	शून्य
31-03-2023 की इतिशेष -	4,21,00,57,310 = 83	9,02,09,147 = 100
शेकड वर्ष के अनुसार शेष -	4,21,00,57,310 = 83	9,02,09,147 = 100
31-03-2023 के बैंक शेष -	4,67,24,22,335 = 78	9,02,08,961 = 10
शेकड वर्षी एवं बैंक शेष में अन्तर -	46,23,65,024 = 95	185 = 90

इतिशेष का विवरण :-

बैंक का नाम / शाखा	खाता संख्या	खाते का प्रकार	31-3-2023 को अवशेष धनराशि
--------------------	-------------	-------------------	------------------------------

(1) शहरीय नौबागार, जालिमबाद

अवस्थापना निधि

ईड कोड सं० - 8448002

2,03,214 = 100

(2) भारतीय स्टेट बैंक, नवयुग मार्केट

(i) वेतन खाता 34869682084 ब० खा० 41,41,20,205 = 40

(ii) भूपी सीपी सीपी

स्टेट नोडल खाता 34679226106 ब० खा०

47,897 = 100

- 694. (296)

क्र० बैंक का नाम / शाखा खाता संख्या खाते का प्रकार 31.03.22 की अवधि का चयन राशि

(3) अनुविधन बैंक ऑफ इण्डिया

(i) सामान्य, निगम परिसर	555201010024002	पा० खा०	14,62,07,147 = 91	—
(ii) सामान्य, नया जेज	428502010270493	ब० खा० (डी० डे० अ०)	1353 = 00	—
(iii) सामान्य, कावेरि नगर	448402010092154	ब० खा०	7,73,231 = 87	—
(iv) सामान्य, कोडल टाउन	398602010869357	ब० खा० (डोरमेन्ट)	2,153 = 00	—
(v) सामान्य, निगम परिसर	555202010509405	ब० खा०	21,03,949 = 81	—
(vi) कुलन प्रीमियम, निगम परिसर	555202010509916	ब० खा०	34,60,05162 = 92	—
(vii) सामान्य, वसुधरा	617501010050081	ब० खा० (डोरमेन्ट)	152453 = 50	—
(viii) युवा चार्ज, निगम परिसर	555201010024001	पा० खा०	1,69,57,103 = 40	—

(4) कनरा बैंक

(i) सामान्य, मालीवाड़ा	11490101027894	ब० खा०	45,76,689 = 00	—
(ii) विद्यालय, नवपुत्रा मॉडर्न	85562200001327	ब० खा०	11,55,644 = 39	—
(iii) रमिसस बैंक				
(i) रमिसस बैंक, नवपुत्रा मॉडर्न	922020047713610	पा० खा०	17,04,335 = 01	—
(ii) सामान्य, नवपुत्रा मॉडर्न	921010022416550	ब० खा०	1,82,18,209 = 85	—

(6) सेंट्रल बैंक

(i) विद्यालय, सिदानी	1391830856	ब० खा०	13,92,232 = 09	—
----------------------	------------	--------	----------------	---

(7) इण्डियन बैंक

(i) रोडकॉरिंग, नवपुत्रा मॉडर्न	50203004752	ब० खा०	6,98,680 = 36	—
--------------------------------	-------------	--------	---------------	---

(8) पंजाब नेशनल बैंक

(i) औद्योगिक क्षेत्र, विलय नगर	3946002100005512	ब० खा० (डोरमेन्ट)	8,68,753 = 40	—
(ii) सामान्य, विलय नगर	3946002100002579	ब० खा० (- - -)	14,96,339 = 58	—

(iii) 14 वां वि० आ०, अखोडकर रोड	3703000102211257	ब० खा०	14,38,21,952 = 96	—
(iv) 15 वां वि० आ०, अखोडकर रोड	4483000100059729	ब० खा०	1,69,46,41,113 = 46	—
(v) अमृत योजना, भवयुग मार्केट	0294000110120710	ब० खा०	34,31,800 = 80	—
(vi) अमृत योजना, भवयुग मार्केट	0294001100000368	ब० खा०	81,39,034 = 10	—
(vii) आर्य समाज, कौशांबी	3000000100247438	ब० खा०	93,91,762 = 50	—
(viii) स्मार्ट सिटी मिशन, भवयुग मार्केट	02940011000000890	ब० खा०	3,19,51,149 = 00	—
(ix) स्वच्छ भारत मिशन, अखोडकर रोड	4483000100037301	ब० खा०	1 = 00	—
(x) सामान्य, अखोडकर रोड	3703000102283874	ब० खा०	10,15,999 = 84	—
(xi) अन्न-स्थापना निधि, अखोडकर रोड	3703000102210072	ब० खा०	68,421 = 70	—
(xii) विद्यालय, मऊनपुर	4052000100024286	ब० खा०	9,03,066 = 55	—
(xiii) यु. आई. डी. एस. एस. एम. पी.				

अखोडकर रोड	3703000102224127	ब० खा०	1,44,81,67 = 10	44,81,67 = 10
भवयुग मार्केट	0674000102125976	ब० खा०	1,08,05,807 = 00	108,05,807 = 00
भैरव नगर	1116000100202347	ब० खा०	2,49,84,987 = 00	249,84,987 = 00

योग = 9,02,08,961 = 10

(9) आई. सी. आई. सी. आई. बैंक

(i) ई-टेकसिंग, आर. पी. सी. राजनगर	628601041088	ब० खा०	1,47,07,752 = 75	—
(ii) आन लाइन, — " —	628605013722	चा० खा०	11,93,864 = 19	—
(iii) आफै लाइन, — " —	628605013723	चा० खा०	57,815 = 47	—
(iv) जुमनि, — " —	628601044011	ब० खा०	28,49,979 = 46	—
(v) स्वच्छ भारत मिशन, —	104801002012	ब० खा०	शून्य	—

(10) एच. डी. एफ. सी. बैंक

(i) जी. ए. ए. बॉण्ड ऑफिसेशन	50100416327598	ब० खा०	76,72,38,849 = 00	—
(ii) जी. ए. ए. बॉण्ड (स्की) लेखा	50200056920639	एस्को खाता	10,79,93,239 = 00	—
(iii) — " — (ए. डी. जी. कार्ड (बॉण्ड का धूल दान)	50200056920409	एस्को खाता	34,50,00,000 = 00	—

(iv) जी. एन. एन. कॉण्ड एस्को 2वाला	50 2000 56 920 385	एस्को 2वाला	9,80,00,000 = 00	—
(v) — " — बंधू लीसी 2वाला	502000 56 920 205	— " —	— " —	शून्य
(vi) — " — सामान्य जल 2वाला	50100 4163 27612	सांफाउ 2वाला	बं० 2वा०	21,22,21,796 = 42
(vii) — " — इन्डियन एन. वी. ए. वी. ए. एस्को 2वाला	502000 71576957	एस्को 2वाला	— " —	18,75,00,261 = 00
(viii) ऑटो क्षेत्र कविनगर	501000 5618 1541	अयो खीप 2वाला	शून्य	—
(ix) सामान्य, कविनगर	501000 5618 1653	— " —	60,73,771 = 00	—
(x) ऑटो क्षेत्र, विजयनगर	501000 5618 1577	— " —	शून्य	—
(xi) सामान्य, विजयनगर	501000 561 01601	— " —	12,56,163 = 00	—
(xii) ऑटो क्षेत्र, सिटी जोन	501000 5618 1627	गैर लेन-डेनरी	शून्य	—
(xiii) सामान्य, सिटी जोन	501000 5618 1525	अयो खीप	42,06,372 = 71	—
(xiv) जी. एन. एन. रैप लेखा	501000 5501 31795	बं० 2वा०	53 = 01	—
(15) वेस्ट अवर चार्ज (सी. एड. डी.)	50100 4689 50019	बं० 2वा०	139,538 = 00	—
(16) क्यूरेशन 2वाला	50100 280 416233	बं० 2वा०	103,87,336 = 32	—
(17) पुता पंजीकरण	50100 3322 31486	बं० 2वा०	2970,185 = 14	—
(18) सामान्य	50100 1035 86052	बं० 2वा०	5325,570 = 00	—
(19) — " —	0153 1110 0000 14			
(20) ऑटो क्षेत्र ओहा नगर	501000 5618 1475	सामूची वरि गैर लेन डेनरी	शून्य	—
(21) सामान्य, ओहा नगर जोन	501000 5618 1488	अयो खीप	शून्य	—
(22) ऑटो क्षेत्र वासुदेवरा जोन	501000 5618 1491	— " —	17,85,098 = 00	—
(23) सामान्य वासुदेवरा जोन	501000 561 80498	— " —	300,000 = 00	—
(24) इ. एम. डी.	50100 26 4496541	— " —	62,07,733 = 96	—
		बं० 2वा०	8,72,57,738 = 95	—
योग =			4,67,24,22,335 = 78	9,02,08,11 = 1

697

279

परिशिष्ट - 2(1)

गाजियाबाद नगर निगम

वर्ष 2022-2023 का आय-व्यय माहवार

क्र०सं०	माह	आय	व्यय	वाउचर संख्या (व्यय)
1	अप्रैल 2022	82680815.32	494291873.00	1 To 1367
2	मई 2022	661794907.73	583554899.00	1 To 1091
3	जून 2022	154271674.34	511057456.00	1 To 1074
4	जुलाई 2022	473890257.59	876689570.00	1 To 1164
5	अगस्त 2022	1055317738.15	388826179.00	1 To 566
6	सितम्बर 2022	564463033.37	773906372.00	1 To 1416
7	अक्टूबर 2022	477067462.74	821956886.00	1 To 1792
8	नवम्बर 2022	1358094024.53	282748631.00	1 To 512
9	दिसम्बर 2022	380450673.48	741507550.00	1 To 685
10	जनवरी 2023	405762785.25	456629065.00	1 To 1141
11	फरवरी 2023	638553738.12	350697917.00	1 To 557
12	मार्च 2023	1166761152.55	1370462968.34	1 To 2430
	योग-	7419108263.17	7652329366.34	
	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.	412216.00	0.00	
	महायोग-	7419520479.17	7652329366.34	

सहायक लेखाधिकारी
नगर निगम गाजियाबाद

2

-698-

5 शुल्क

6.2 शीड कार्ड	36,61,710 = ₹
6.3 सीवर संयोजन	17,59,818 = ₹
6.4 पल संयोजन	28,88,106 = ₹
6.5 जनम-मृत्यु पंजीकरण	14,395 = ₹
6.7 अर्थ दांड	63,10,953 = ₹
6.8 प्रतिलिपि शुल्क	13,595 = ₹
6.11 अन्य	
6.12 सारंगी मन्दिर दानपात्र से	2,48,66,694 = ₹
6.13 झरर चार्ज	2,10,440 = ₹
	1,77,51,014 = ₹

6 शासकीय अनुदान एवं अन्य प्रदो से आय

7.1 स्टाम्प शुल्क से आय	33,89,75,621 = ₹
7.2 राज्य विन्त आयोग	
7.9 जी० डी० ए०	3,09,60,59,169 = ₹
7.10 अन्य	6,19,36,800 = ₹
	8,65,85,120 = ₹

7 पूंजीगत आय

7.14 14वां विन्त आयोग (व्याज सहित)	70,03,845 = ₹
7.15 स्वच्छ भारत मिशन	
7.16 स्मार्ट सिटी मिशन	1,46,76,417 = ₹
7.17 अमृत योजना	16,95,37,500 = ₹
7.18 जाम्हा जरुशाला एवं बेसहरा पशु आप्रण योजना	19,53,13,301 = ₹
7.19 15वां विन्त आयोग	90,17,673 = ₹

8 विविध आय

8.1 व्याज	1,26,42,63,880 = ₹
8.2 शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त	7,20,31,037 = ₹
	20,79,078 = ₹

- २०१ -

282

8.3 बैंकों की प्रतिभूतियां / जमानते

14,48,10,294 = ८०

7.7 ड्यू आरिंडी ऑ एसा एसा एसा एसी

4,12,216 = ७०

नगर निगम, गाज़ियाबाद

व्यय का विवरण - वर्ष - 2022-23

क्र०	विवरण	रकम
1.	सार्वजनिक निर्माण	
9.1.	अधिष्ठान	5,73,40,965 = ₹
9.2.	गत वर्ष में कराये गये निगम फण्ड के अनुसंधान कार्यों के अन्वेष	84,48,36,512 = ₹
9.3.	वाडों के अनुसंधान कार्य एवं मार्ग व सड़क निर्माण	27,62,25,634 = ₹
9.5.	स्टोर	4,23,000 = ₹
9.6.	भवन निर्माण एवं मरम्मत कार्य	6,50,327 = ₹
9.7.	पैच कार्य	1,60,37,133 = ₹
9.8.	अल्पिन वस्ती / शहरी गरीबी क्षेत्र / ग्रामीण क्षेत्र विकास	10,05,200 = ₹
9.11.	सड़कों का सौन्दर्यकरण एवं सुदृश्य	17,34,000 = ₹
9.12.	डीजल पर व्यय	28,62,100 = ₹
2.	जल रकमराशि एवं निस्वारा	
10.1.	अधिष्ठान	15,96,95,175 = ₹
10.2.	गत वर्ष में कराये गये निगम फण्ड के अनुसंधान कार्यों के अन्वेष भुगतान	19,82,21,030 = ₹
10.3A.	हैण्डपम्प स्थापना	94,06,862 = ₹
10.3B.	नली पाइप लाइन	1,45,46,120 = ₹
10.3C.	नालकूप रिजर्व एवं स्थापना	2,29,30,490 = ₹
10.4A.	नालकूपों आदि का ठेके पर संभालन व अनुसंधान कार्य	6,62,45,499 = ₹

10.4B	परिपत्रक अर्थात्	1,41,91,074 = ₹
10.4C	हैल पत्र अर्थात् एवं रिपोर्ट	49,36700 = ₹
10.6	गंगाजल पत्र योजना	1,25,00,000 = ₹
10.8A	सीवर व्यवस्था	38,47,871 = ₹
10.9	स्टोर	77,52,950 = ₹
10.10	शहरी मलिन धरती / शहरी गरीब धरती / शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में पैपल योजना	1,29,80,824 = ₹
10.11	विद्युत विभाग हेतु स्तंभों के विद्युत संपर्क एवं ट्रांसफार्मर सुपरविजन।	16,70,370 = ₹
10.12	आजों के रमिडिएशन का कार्य	16,38,300 = ₹
10.13	डीजल पर व्यय	2,11,39,286 = ₹
10.14	बालाबों का सौन्दर्यकरण / पुनः स्थापना	95,89,000 = ₹
10.15	आवृत्ति कार्य	28,11,868 = ₹

3 पत्र प्रकाश विभाग

11.1	अधिष्ठान	2,84,77,051 = ₹
11.2	गत वर्ष में कार्य गति निगम कार्य के अनुसंधान कार्य के अवशेष भुगतान	3,20,00,962 = ₹
11.3	अनुसंधान कार्य स्टोर सामग्री उपकरणों का खर्च खर्च	1,54,91,824 = ₹
11.4	हैल पर अनुसंधान कार्य	2,76,62,557 = ₹
11.5	विद्युत बिलों का भुगतान	79,34,239 = ₹
11.9	डीजल पर व्यय	76,06,494 = ₹

५ स्वास्थ्य विभाग

12.1.1	अधिष्ठान	52,93,86,824 =₹
12.1.2	अधिष्ठान	98,58,508 =₹
12.2	गत वर्ष में कराये गये निगम कार्य के अनुसूचित कार्यों के अतिरिक्त श्रुतान	7,88,28,027 =₹
12.3	सफाई सामग्री उपकरण	3,96,40,791 =₹
12.4	टैका / अस्थाई श्रमिकों की सफाई कार्य	57,48,83,523 =₹
12.4A	राजि कालीन सफाई कार्य	37,52,100 =₹
12.5	नालों की सफाई एवं शिल्ट उठाना	25,65,140 =₹
12.6	संक्रामक रोगों की रोकथाम व आकास्मिक कार्य	1,16,50,320 =₹
12.7	शहरी मलिन बस्ती / शहरी गरीब क्षेत्र / शहरी ग्रामीण क्षेत्र का सफाई कार्य।	14,97,77,397 =₹
12.8	डोर डू डोर सारिमरी कालेक्षण	5,18,98,100 =₹
12.9	सेक्रेटरी कार्यालय	11,66,200 =₹
12.10	वीजल पर व्यय	30,16,59,777 =₹

६ उद्यान विभाग

13.1	अधिष्ठान	3,99,19,931 =₹
13.2	गत वर्ष कराये गये निगम कार्य के अनुसूचित कार्यों का अतिरिक्त श्रुतान	6,98,28,127 =₹
13.3	टैके पर पार्कों का अनुसूचित कार्य	11,99,98,958 =₹
13.4	विद्युत बिलों का श्रुतान	37,518 =₹
13.5	अनुसूचित उपकरण मरम्मत, अण्डर आदि	3,70,52,338 =₹
13.6	शहरी मलिन बस्ती / शहरी गरीब क्षेत्र / शहरी ग्रामीण क्षेत्र के पार्कों के विकास कार्य	1,28,30,040 =₹

13.7	पत्तों की क्षतिग्रस्त वाइरिंग्स व फुटपाथ निर्माण	17,98,200 = 00
13.8	डीजल पर व्यय	3,17,14,337 = 00
<hr/>		
6	शिक्षा, खेल कूद, समाज कल्याण एवं पुस्तकालय	
14.1	अधिष्ठान	15,78,364 = 00
14.3	पुस्तकालय, अवन भरमहा आदि	1,54,979 = 00
14.4	ठेके पर अध्यापन कार्य	2,89,05,014 = 00
<hr/>		
7	सम्यक्ति एवं प्रवर्तन विभाग	
15.1	सम्यक्ति एवं प्रवर्तन विभाग	13,06,629 = 00
15.2	ठेके एवं जमा धन की वापसी	1,27,27,500 = 00
15.3	निगम की भूमियों के रख-रखाव पर व्यय	20,53,057 = 00
<hr/>		
8	विधि विभाग	
16.1	अधिष्ठान	35,02,657 = 00
16.2	अधिवक्ता फीस	77,77,051 = 00
16.3	विविध व्यय	53,539 = 00
<hr/>		
9	सूचना कायलिय	
17.1.1	सूचना कायलिय	8,99,41,031 = 00
17.1.2	आडि विभाग	37,00,177 = 00
17.1.3	लेखा विभाग	40,89,145 = 00
17.1.4	कार विभाग	5,49,85,729 = 00
17.1.5	पर्यटन युग्म	94,71,593 = 00
17.1.6	चेशान	29,30,07,805 = 00
17.1.7	सांख्यिक बीमा	14,47,600 = 00

17.2	सामान्य स्टोर के जल वर्ष के भुगतान	3,98,42,898 = 00
17.3	सामान्य स्टोर	2,97,97,206 = 00
17.4	रेजीजोन	19,74,846 = 00
17.6	जमानत	6,21,01,507 = 00
17.8	सार्वजनिक संस्थाओं के अनुदान एवं अनुग्रहराशि	7,70,017 = 00
17.9	विविध ठेके पर कार्य मीरिंग सम्मलेट, विज्ञापन	
17.10	कम्प्यूटरीकरण	1,49,34,937 = 00
17.11	कन्सलटेन्सी फीस	44,04,480 = 00
17.12	विविध व्यय	48,94,200 = 00
17.13	ठेके पर रखे गये तकनीकी कार्रियों पर व्यय	2,98,33,504 = 00
17.14	डीजल व पेट्रोल	6,54,92,911 = 00
17.16	जाऊशाला	95,65,064 = 00
17.17	श्रमिकों पर व्यय (जाऊशाला)	3,00,00,000 = 00
18.2	व्याज	1,00,00,000 = 00
18.3	म्यूनििसिपल बोर्ड से सम्बन्धित कन्सलटेन्सी फीस	11,84,77,571 = 00
18.4	प्रोजेक्ट के सापेक्ष व्यय	1,12,93,660 = 00
19.1	प्रौद्योगिक क्षेत्रों में कार्य गये विकास कार्य	56,55,22,168 = 00
19.2	भा० सदन, कार्यकारिणी, महापौर प्राथमिकता के अन्य विकास कार्य	71,66,500 = 00
19.4A	अवस्थापना विकास निधि	34,55,400 = 00
19.10	अन्य	1,91,20,854 = 00
19.11	जी० पी० ए०	8,08,33,971 = 00
19.13	14 वां वित्त आयोग व्यय	4,64,64,467 = 00
19.14	खटक भारत मिशन	26,70,63,118 = 00
19.15	स्मार्ट सिटी मिशन	4,79,28,822 = 00
19.18	15 वां वित्त आयोग व्यय	15,72,89,506 = 00
		1,55,67,88,985 = 00

आपका नाम: डॉ. सुरेश चंद्र शर्मा

पृष्ठ सं. 104

वर्ष 2022-23 में

नगरपालिका परिषद/जिला पंचायत/नगर पंचायत/क्षेत्र पंचायत नगर निगम के आय और व्यय की तालिका
(अनुसूची 1 के अंतर्गत रूपों में)

क्रम संख्या	स्थानीय निकाय का नाम	1 अंश को प्रारम्भिक अवधि	वर्ष को आय				प्रारम्भिक अवशेष संचित निगम 3+4 (घ)	वर्ष के कुल व्यय	31 मार्च को संचित अवशेष
			राजकीय अनुदानों और अंशों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से आय	अन्य राजकीय अनुदान	आवृत्त राजकीय अनुदान	राजकीय ऋण			
1	2	3	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	5	6	7
1	नगर निगम	44,32,78,44	2,37,59,19,556	83,29,538	309,60,59,169	—	11,86,23,88,677	4,81,00,57,311/=	
2	श्री. आर. डी. एस. (सा.स.) श्री. खाला	8,97,96,931	4,12,216	—	—	—	9,02,09,147	9,02,09,147/=	
योग		4,32,30,75,375					11,95,25,95,824	4,85,82,93,622	4,39,02,71,458/=

पी0 एस0 यू0 पी0-8 स्या0 निरु ले0-6-1-14-50,000 प्रतिग (डि0टी0पी0/आफसेट)।

Signature

-709-

2009-23

परिशिष्ट - 4

समरपालिका: नरिन्द्र/जल: 3 वायव्य/घोरे पंचायत

कार्यक्रम: आर्थिक विवरण (अंक पूर्ण रूपमा)

1	2	3	4	5
आय का शीर्षक	वर्ष का वास्तविक	वर्ष 1 के अनुमानित	कुल आवधिक अनुमान	वर्ष 1 के अनुमानित अनुमानों की संतुष्टि
1. आय से प्राप्त: <ul style="list-style-type: none"> (क) विद्यालय (ख) चिकित्सा (ग) जल-सुप्लाई (घ) नहर (ङ) अन्य (च) लाभांश (छ) नगरपालिका (ज) कार्यालय (झ) अन्य प्रयोजन (ञ) शिवालय 	3,09,60,59,169 1,22,00,00,000 89,40,000 19,50,00,000 33,89,75,621 16,95,37,500 1,46,76,417	3,09,60,59,169 1,22,00,00,000 89,40,000 19,50,00,000 33,89,75,621 16,95,37,500 1,46,76,417	3,09,60,59,169 1,22,00,00,000 89,40,000 19,50,00,000 33,89,75,621 16,95,37,500 1,46,76,417	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2. आय से प्राप्त नुस्ते बाजार से लिये गये	5,04,31,88,707	5,04,31,88,707	5,04,31,88,707	100%
3. आय से प्राप्त नुस्ते	5,04,31,88,707	5,04,31,88,707	5,04,31,88,707	100%
4. कुल आय	8,14,02,48,876	8,14,02,48,876	8,14,02,48,876	100%
5. कुल व्यय	5,04,31,88,707	5,04,31,88,707	5,04,31,88,707	100%
6. कुल शेष	3,09,60,59,169	3,09,60,59,169	3,09,60,59,169	100%

नरिन्द्र/जल: 3 वायव्य/घोरे पंचायत

(290)

क्र.सं.	विषय	शासनादेश संख्या	दिनांक	धनराशि
1	एस.एफ.सी.	शा0आवंटन आदेश सं0-8/2170/317(3)/पंचम/रा0वि0आ0/2022-23 दिनांक-29.04.2022	02.05.2022	270615757
2	एस.एफ.सी.	शा0आवंटन आदेश सं0-8/2207/317(3)/पंचम/रा0वि0आ0/2022-23 दिनांक-26.05.2022	28.05.2022	259707400
3	एस.एफ.सी.	शा0आवंटन आदेश सं0-8/2259/317(3)/पंचम/रा0वि0आ0/2022-23 दिनांक-29.06.2022	05.07.2022	241955216
4	एस.एफ.सी.	शा0आवंटन आदेश सं0-8/2304/317(3)/पंचम/रा0वि0आ0/2022-23 दिनांक-29.07.2022	02.08.2022	241840094
5	एस.एफ.सी.	शा0आवंटन आदेश सं0-8/2352/317(3)/पंचम/रा0वि0आ0/2022-23 दिनांक-26.08.2022	30.08.2022	239438077
6	एस.एफ.सी.	शा0आवंटन आदेश सं0-8/2427/317(3)/पंचम/रा0वि0आ0/2022-23 दिनांक-28.09.2022	30.09.2022	240557850
7	एस.एफ.सी.	शा0आवंटन आदेश सं0-8/2490/317(3)/पंचम/रा0वि0आ0/2022-23 दिनांक-20.10.2022	22.10.2022	256835972
8	एस.एफ.सी.	शा0आवंटन आदेश सं0-8/2587/317(3)/पंचम/रा0वि0आ0/2022-23 दिनांक-30.11.2022	02.12.2022	257145414
9	एस.एफ.सी.	शा0आवंटन आदेश सं0-8/2680/317(3)/पंचम/रा0वि0आ0/2022-23 दिनांक-30.12.2022	04.01.2023	267145414
10	एस.एफ.सी.	शा0आवंटन आदेश सं0-8/2791/317(3)/पंचम/रा0वि0आ0/2022-23 दिनांक-02.02.2023	06.02.2023	267145414
11	एस.एफ.सी.	शा0आवंटन आदेश सं0-8/2871/317(3)/पंचम/रा0वि0आ0/2022-23 दिनांक-27.02.2023	28.02.2023	267145414
12	एस.एफ.सी.	शा0आवंटन आदेश सं0-8/2899/317(3)/पंचम/रा0वि0आ0/2022-23 दिनांक-01.03.2023	31.03.2023	5059868
13	एस.एफ.सी.	शा0आवंटन आदेश सं0-8/3060/317(3)/पंचम/रा0वि0आ0/2022-23 दिनांक-31.03.2023	31.03.2023	281467279
			योग=	3096059169

1	स्मार्ट सिटी	शा0 आदेश संख्या-90/2022/51/नौ-9-2022-03ज/22 दिनांक- 31-03-2022	22.04.2022	2102500
2	स्मार्ट सिटी	शा0 आदेश संख्या-115/2022/1421/नौ-9-2022-12ज/22 दिनांक-16.08.2022	31.08.2022	15335000
3	स्मार्ट सिटी	शा0 आदेश संख्या-23/2023/461/नौ-9-2023-003-1585596-150ज/21 दिनांक-20.03.2023	31.03.2023	12100000
			योग=	169537500

1	अमृत योजना	आवंटन आदेश सं0-एस.एम.यू./7909/1065/2021-22 दिनांक 28.07.2022	08.08.2022	195000000
---	------------	--	------------	-----------

1	15वॉ वित्त	शा0आवंटन आदेश सं0-8/2502/320(2)/15वां वि.आ./2022-23 दिनांक 05.10.2022	05.11.2022	1220000000
---	------------	---	------------	------------

1	काढा गौशाला	शा0आवंटन आदेश सं0-8/2546/(343) काढा गौशाला एवं वेसहारा पशु आश्रय योजना/2022-2023 दिनांक-16.11.2022	25.11.2022	8940000
---	-------------	--	------------	---------

1	अवस्थापना निधि	शा0आवंटन आदेश सं0-8/2945/139(2)/02प्रतिशत अति.स्ता.शुल्क/19-20 दिनांक 16.03.2023 वित्तीय वर्ष 2022-23	18.03.2023	338975621
---	----------------	---	------------	-----------

आख्याभाज - खंड प्रस्तर '3' में संशोधन

स्पा10 नि0 ले0 सं0-66

बं० 2022-23 के अंतर्गत उत्तर बिजम, आलिपयार द्वारा अप्रयुक्त अनुदानों की तालिका

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षीय प्रारम्भिक अवशेष	नवीनीकरण प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अस्तित्व अवशेष	मन्तव्य	
1. स्पा सं०-1067/नं०-1-5-2000 - 174 (4) दिनांक 30.06.2000	श्री आर्य के अस्ति कर की अरजत	200,000	31.3.2000	703	-	703	295	703		
2. स्पा सं०-149/नं०-1-98 दिनांक 30.3.1998	श्री आर्य के अस्ति कर की अरजत	1,73,100	अज्ञात	162,292	-	162,292	95	1,62,292		
3. स्पा सं०-149/नं०-1-98 दिनांक 30.3.1998	श्री आर्य के अस्ति कर की अरजत	200,000	अज्ञात	162,995	-	162,995	-	162,995		
3. स्पा सं०-149/नं०-1-98 दिनांक 30.3.1998	श्री आर्य के अस्ति कर की अरजत	3,76,200	29.05.2000	3,76,200	-	3,76,200	-	3,76,200		

संख्या संख्या _____ दिनांक _____ के अंतर्गत में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, _____ विभाग को प्रेषित।

निदेशक,
स्थानीय निवि लेखा,
उत्तर प्रदेश।

श्री 0 प्रस 0 पी 10-9 स्पा 10 नि 0 ले 0 सं 0-3-8-99-100,000 (जाब)।

७१५ (२१२)

२०२१-२३ के अंतर्गत वार्षिक विवरण सारणीकरण, अंतः अथवा अंतर्गत अंतर्गत की शक्ति

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
राज्यीय अर्थोपार्जन सेवा निधि/सिद्धि/अनुदान/व्यय/...	अनुदान का प्रकार	अनुदान की शक्ति	अनुदान की शक्ति	अनुदान की शक्ति	अनुदान की शक्ति	अनुदान की शक्ति	अनुदान की शक्ति	अनुदान की शक्ति	अनुदान की शक्ति	अनुदान की शक्ति
(ii)	आ. सं. ८/५२६८(२) आ. सं. ११/५१/१२ दि. ३१ द्वितीय क्रि. २००५-०६ दि. १६.०९.२००६	—	1,52,95,000	28-11-06	21,16,307	—	21,16,307	—	21,16,307	—
(iii)	आ. सं. ८/५२६८(१) आ. सं. ११/५१/१२ दि. ३१ द्वितीय क्रि. २००५-०६ दि. १६.०९.२००६	प्रथम क्रि. की शक्ति	77,000	28-11-06	77,000	—	77,000	—	77,000	—
(iv)	आ. सं. ८/५५३९/- दि. १९-२००६-०७/ २०५/२००६ दि. २३.१०.२००६	अनुदान की शक्ति	1,52,95,000	31-01-2007	1,76,546	—	1,76,546	—	1,76,546	—

कुल अनुदान की शक्ति ३,४२,९७,५४६/-

कुल अनुदान की शक्ति ३,४२,९७,५४६/-

कुल अनुदान की शक्ति ३,४२,९७,५४६/-

आ. सं. १०-१०-११ दि. ३०-११-११-१००,००० (अनु.)

293

राज्य अर्थ विभाग, राजस्थान

वर्ष 2022-23 के अनुदान

क्र.सं.	राजकीय आदेश संख्या तथा विधिक/वित्तसे अनुदान स्वरूप	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक घत/झाति	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षिक आर्थिक अनुदान	व्ययिक्तता प्राप्त आवेदन	संग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	व्ययिक्त से अनुदान	मन्व्य
1										
4	अनुदान संख्या 11-2-04	ग्रुप-DR कार्ड का सौंपीकरण	150,000	18.5.2004	150,000	-	150,000	-	150,000	11
5	वित्त आयोग की अनुदान संख्या 247/2005	वित्त आयोग की अनुदान	152,95,000	03-03-2006	159,499	-	159,499	-	159,499	

पदाधिकारी संख्या
दिनांक

के अन्तर्गत में मंडल/लेखा/कार्ड, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा संविदा, उत्तर प्रदेश आगत, विभाग को प्रेषित।

निदेशक,
राजकीय वित्त लेखा,
उत्तर प्रदेश।

वै. सं. 10 सं. 10 सं. 10-9 स्वा० नि० दे० सं. 3-8-99-100,000 (जात्र)।

294

सं० 2022-82 के अन्तर्गत भारत सरकार के अर्थ विभाग की अधिका

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि जिसके अनुसार खर्च किया हुआ	अवदान का प्रयोजन	अवदान की मौलिक प्रमाणादि	अनुदान, आदि की तिथि	अनुदान में प्रयोजित व्यय	अनुदान में प्रयोजित व्यय	अनुदान में प्रयोजित व्यय	अनुदान में प्रयोजित व्यय	अनुदान में प्रयोजित व्यय	अनुदान में प्रयोजित व्यय	अनुदान में प्रयोजित व्यय
(vi) 2010-8/177/9-12 वां दि० आ० दि० वि० दि० 2006-07 दि० 28.05.2007	—	1,29,95,000	05.07.07	49,51,995	—	—	49,51,995	—	49,51,995	—
(vii) 2010-8/1592/92/12 वां दि० आ० दि० वि० दि० 2007-08 दि० 20.08.2007	साठ साठ प्रकाश इकाई	1,53,09,880	31.03.08	3,06,197	—	—	3,06,197	—	3,06,197	—
(viii) 2010-8/172/9/12 वां दि० आ० दि० वि० दि० 11.02.08	—	1,53,09,880	31.03.08	19,29,785	—	—	19,29,785	—	19,29,785	—

राजकीय आदेश संख्या 2010-8/172/9/12 वां दि० आ० दि० वि० दि० 11.02.08 के अन्तर्गत भारत सरकार के अर्थ विभाग की अधिका

वित्त विभाग
राजकीय आदेश संख्या
सं० 2022-82

दि० 2010-8/172/9/12 वां दि० आ० दि० वि० दि० 11.02.08 (अनुदान)

७२५

२०२१-२३ वर्ष के लिए आयकर विवरण की जांच

क्रमांक नि. ०३०३०-०९

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
राजस्व विभाग द्वारा जारी किया गया आयकर विवरण का क्रमांक	अदाता का प्रयोग	अदाता की तिथि	अदाता की तिथि	अदाता की तिथि	अदाता की तिथि	अदाता की तिथि	अदाता की तिथि	अदाता की तिथि	अदाता की तिथि	अदाता की तिथि
(vii)	आ.सं-०८/८६७/१२/१२ वां क्रि.आ. दिनांक २००७-०८ दिनांक ११.०२.०८	सदर, आर्य प्रकाश व्यवस्था	१४,८८०	३१-०३-०८	१४,८८०	-	१४,८८०	-	१४,८८०	-
(ix)	आ.सं-८/१५१२/१२ वां क्रि.आ. दिनांक २००८-०९	-	१५,३०९,८८०	२५-११-०८	१९,९०,६६१	-	१९,९०,६६१	-	१९,९०,६६१	-
(x)	आ.सं-८/३०२७/१२/१२ वां क्रि.आ. दिनांक २००८-०९ दिनांक २१.०१.२००९	-	१५,३०९,८८०	३१-०३-०९	२६,२६,२३६	-	२६,२६,२३६	-	२६,२६,२३६	-

राजस्व विभाग द्वारा जारी किया गया आयकर विवरण का क्रमांक

अदाता का प्रयोग

अदाता की तिथि

अदाता की तिथि

अदाता की तिथि

अदाता की तिथि

अदाता की तिथि

अदाता की तिथि

अदाता की तिथि

अदाता की तिथि

अदाता की तिथि

क्रमांक नि. ०३०३०-०९

२०२१-२३ वर्ष के लिए आयकर विवरण की जांच

क्रमांक नि. ०३०३०-०९

2020-21

223

296

2020-21

संशोधन विभाग, दिल्ली

क्र.सं.	विवरण	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
क्र.सं.	विवरण	अनुदान कोड	अनुदान का प्रकार	अनुदान की तिथि	अनुदान की राशि	अनुदान की प्रकृति	अनुदान की तिथि	अनुदान की राशि	अनुदान की प्रकृति	अनुदान की तिथि	अनुदान की राशि	अनुदान की प्रकृति
(xi)	आप 8/670/92/12 का हिस्सा प्रदान करने के लिए 2008-09 के लिए 01.01.2010	14833350	अनुदान	6.01.10	5.62307				5.62307		5.62307	
(xii)	राजाजी अग्रहार के लिए प्रतिक के अग्रहार (र)	14833350	अनुदान	21.03.10	5.62307				5.62307		5.62307	
					15473720				15473720		15473720	

संशोधन विभाग, दिल्ली

2020-21

223

296

2020-21

संशोधन विभाग, दिल्ली

(xi)

(xii)

संशोधन विभाग, दिल्ली

2020-21

223

296

2020-21

संशोधन विभाग, दिल्ली

225 (297)

2022-23 के संक्षेप अर्थात् विप. आदिमा. वि. का संक्षेप

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
राज्यीय आदिम संस्था तथा विभिन्न विधायक संस्थान स्वीकृत कुंठा	अवधि का प्रारंभ	अवधि की समाप्ति	अवधि की आरंभ तिथि	अवधि की समाप्ति तिथि	अवधि की प्रारंभ तिथि	अवधि की समाप्ति तिथि	अवधि की प्रारंभ तिथि	अवधि की समाप्ति तिथि	अवधि की प्रारंभ तिथि	अवधि की समाप्ति तिथि
6	संसद विधि से प्राप्त अनुदान स्वीकृत क्षेत्र अर्थात्	संसद विधि से प्राप्त अनुदान स्वीकृत क्षेत्र	780,382	11.12.14	1,94,654	-	1,94,654	-	1,94,654	-
7	भ्राजस अनुभाग से प्राप्त अनुदान	भ्राजस अनुभाग से प्राप्त अनुदान	1,10,22,000	23.12.11	3,71,574	-	3,71,574	-	3,71,574	-
	आ.सं. 2021/Ho-24/12 (34) 2011 दिनांक 11.04.2011	संवैधानिक परिसरवाहियों की प्रारम्भ								

कुल कुंठा 1,18,02,382

कुल प्रत्यक्ष 4,66,228

कुल अप्रत्यक्ष 1,13,36,154

कुल कुंठा 1,18,02,382

कुंठा नं. 30 39-68

कुंठा नं. 30 39-68

229

298

स्था0 नि0 ले0 सं0-66

वर्ष 2023-23

के अंतर्गत आर. नि. नि. द्वारा अग्रपुस्त अनुदानों की तालिका

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्राप्त अवशेष	वर्षांतर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षांत में आबिगम अवशेष	मंतव्य	
8। एवं विर आदेश की संसुत्ति सं प्राप्त अनुदान :- (i) 0/1204/17/III / एवं वि आ 2018-19 दिनांक 31.01.2018 (ii) 0/2076/17/ (iv) एवं वि आ 2018-19 दिनांक 04.12.2018	विकास कार्य पेडा	395,34,340	20.02.19	10867460	—	10867460	10867460	शून्य		
9। आई सीटी मिशन के अंतर्गत प्राप्त अनुदान :- निदेशक नवरीय दिनांक 30.09.2015 का प्रारंभ (i) पी. एम. प्र. / 215/41 / आई सीटी मिशन / 2015-16 दिनांक 18.03.2016 (ii) पी. एम. प्र. / 231/41 / आई सीटी मिशन / 2015-16 दिनांक 23.04.2016	सहायक प्रशासन पेडा	42,35,00,600	14.01.2020	29,06,480	—	29,06,480	29,06,480	शून्य		
		200,00,000	17.6.2016	1,00,00,000	—	1,00,00,000	1,00,00,000	शून्य	100.00.000	
		200,00,000	17.6.2016	1,00,00,000	—	1,00,00,000	1,00,00,000	शून्य	100.00.000	

निदेशक, नवरीय दिनांक 30.09.2015 का प्रारंभ

निदेशक

स्थानीय निधि सेबा,
उत्तर प्रदेश।

पी0 एच0 यू0 पी0-9 स्था0 नि0 ले0 सं0-3-8-99-100,000 (बाब)।

के अंतर्गत द्वारा अग्रयुक्त अनुदानों की तालिका

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान की मौलिक धमराशि	अनुदान प्राप्त की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षारम्भ में आवृत्त प्राप्त अनुदान	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	शेष	वर्षारम्भ में अस्तित्व में अवशेष	मूल्य		
व.सं. 2022-23 के अन्तर्गत एए-										
(i) 90/2022/51/11/9-2022-03/1/22 -दिनांक 31.03.2022	21,02,500	22.04.2022	-	21,02,500	21,02,500	21,02,500	21,02,500	21,02,500	21,02,500	21,02,500
(ii) 115/2022/1421/11/9-2022-123/1/22 -दिनांक 16.08.2022	15,53,35,000	31.08.2022	-	15,53,35,000	15,53,35,000	15,53,35,000	15,53,35,000	15,53,35,000	15,53,35,000	15,53,35,000
(iii) 23/2023/461/11/9-2023-003-1585596/ 150/21 दिनांक 20.3.2023	12,10,00,000	31.3.2023	-	12,10,00,000	12,10,00,000	12,10,00,000	12,10,00,000	12,10,00,000	12,10,00,000	12,10,00,000
10 अ. अ. सी. एस. (एस.एस.) डी. के अन्तर्गत अनुदान										
(i) अजगर	206000	14.3.2013	206000	-	206000	206000	206000	-	206000	206000
(ii) अजगर	458,38070	23.11.2013	38070	-	38070	38070	38070	-	38070	38070
		योग-	2,44,070	-	2,44,070	2,44,070	2,44,070	-	2,44,070	2,44,070

संख्या संख्या _____ दिनांक _____ के आदेशों में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, _____ विभाग की प्रेषित।

निदेशक;
स्थानीय निर्माण सेवाएं;
उत्तर प्रदेश।

वर्ष के अंतर्गत द्वारा अग्रयुक्त अनुदानों की तालिका

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
राजकीय वादेश संस्था तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धरणादि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षीय आर्थिक अवशेष	वर्षीय प्राप्त आयुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धरणादि	वर्षान्त में अस्तित्व अवशेष	मन्तव्य	
1. अग्रत योजना नरि प्राप्त अनुदान - निदेशक / सिद्धम निदेशक (अग्रत) - वारिस निवास निदेशक 3080 कृषि संस्थान - (i) एस.एम.एस. सं. सं. 7/17/2 / अग्रत-36/2016 दिनांक 12.10.2016 (ii) एस.एम.एस. सं. सं. 19/56/39(3)/2017 दिनांक 12.10.2017 (iii) एस.एम.एस. सं. सं. 15/82/628/2018 दि. 31.3.18 (iv) अनुपालन सं. सं. 17/251/1974/2021-22 दिनांक 28.12.2021	पार्क एवं स्त्री स्वयं सेविका संस्था की अग्रत संस्था की अग्रत	37,29,000 46,57,100 30,40,981 5,40,000 19,93,810	24.01.2017 — 4.8.2018 23.3.2020 05.01.2022	57,000 10,00,000 21,67,481 4,41,000 93,190	— — — — —	57,000 10,00,000 21,67,481 4,41,000 93,190	— — — — —	— — — — —	— — — — —	

संस्था का संख्या _____ दिनांक _____ के अंतर्गत में महल्लिखकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, _____ विभाग की प्रेषित।

सं. _____

निदेशक,

स्थानीय निधि लेखा,
उत्तर प्रदेश।

वर्ष के अन्तर्गत द्वारा अग्रयुक्त अनुदानों की तालिका

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षांतर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य	
वर्ष 2022-23 में प्राप्त (1) सा.सं. एम.प्र./2019/1065/2021-22 दिनांक 28.07.2022 12 अग्रस्थापना निधि- वर्ष 2021-22 का (2) आदेश संख्या- 8/2945/139(20/02)स्थाप अति. सा. प्र. सं. 19-20 दिनांक 16.03.2023 वित्तीय वर्ष 2023-24	विकास कार्य	195000000 योग 338975621	06.06.2022 10.03.2023	- 37.58671 -	195000000 195000000 338975621	195000000 198758671 338975621	257 257 -	195000000 198758671 338975621	अ. प्र. अ. 10 वर्ष के	
		योग				338975621		338975621		

संख्या संख्या _____ दिनांक _____ के अन्तर्गत में महल्लिखकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विभाग को प्रेषित।

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा,
उत्तर प्रदेश।

द्वारा अप्रयुक्त अनुदानों की तालिका

के अन्तर्गत

वर्ष

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
राजकीय आवेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अस्तित्व में अवशेष	मन्सूब			
19 स्वयं, भारत विद्युत के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान - विद्युत / विद्युत निदेशक (एस.बी.एस.) - पश्चिम निदेशक संयुक्त के पत्रांक -										
(i) बी.एस. सं/1437/427(4)/2018 दि. 19.12.18	अग्नि सुरक्षा	70,76,000	19.12.2018	11,76,000	11,76,000		अग्नि			
(ii) बी.एस. सं/2394/429(4)/2019 दि. 01.07.19	सुरक्षा	1,38,93,400	29.7.2019	86,39,000	86,39,000		अग्नि			
(iii) बी.एस. सं/2568/429(6)/2019 दि. 14.8.19	सुरक्षा	82,50,000	22.8.2019	40,61,633	40,61,633		अग्नि			
(iv) बी.एस. सं/2561/427(6)/2019 दि. 14.8.19	(एस.आर.एस.)	33,62,000	22.8.2019	4,30,000	4,30,000		अग्नि			
(v) बी.एस. सं/1437/427(10)/2020 दि. 11.11.21	सुरक्षा	83,36,040	02.12.2021	83,36,040	83,36,040		अग्नि			
(vi) बी.एस. सं/733/427(10)/2020 दि. 11.11.2021	सुरक्षा	28,22,400	2.12.2021	28,22,400	28,22,400		अग्नि			
(vii) बी.एस. सं/142/427(10)/2020 दि. 11.11.2021	सुरक्षा	17,50,000	02.12.2021	17,50,000	17,50,000		अग्नि			

उत्तर प्रदेश के (एस.बी.एस.)
1019/7-आ.1/2022-23
दिनांक 27.5.2022
केस नोटिस पत्रांक 24
वापस मिले गये।

स्वाका संख्या _____ दिनांक _____ के अर्थ में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विभाग को प्रेषित।

सं० _____

दिनांक _____

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा,
उत्तर प्रदेश।

वर्ष के अन्तर्गत द्वारा अभ्युक्त अनुदानों की तालिका

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	प्रदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक घनराशि	अनुदान प्राप्त की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	वर्ष में व्यय की गई घनराशि	योग	वर्ष में व्यय की गई घनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्सूख
(viii) सी.एस. 2/185/427(10)/2020.21 दिनांक 11/11/2020	अनुदान का प्रयोजन	20,00,000	02-12-2021	15,39,000	—	15,39,000	15,39,000	15,39,000	—	उपरोक्त - 1019 17-301/2022 - 23 डि. नो. 29-5-2022.61 - 1550 पं. नो. 2 से प्राप्त।
वर्ष 2022-23 में अनुदान		1,46,76,417	04-03-2023	—	1,46,76,417	1,46,76,417	1,46,76,417	1,46,76,417	—	
(i) सी.एस. 2/185/427(10)/2020.21				2,87,54,073	1,46,76,417	4,34,30,490	4,34,30,490	4,34,30,490	—	

राजकीय संस्था _____ दिनांक _____ के अन्तर्गत में महल्लिखकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, _____ विभाग को प्रेषित।

निदेशक,
स्थानीय निधि सेवा,
उत्तर प्रदेश।

4

- 239 -

304

स्थापित नं० ले० सं०-66

वर्ष के अंतर्गत द्वारा अग्रपुस्त अनुदानों की तालिका

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
राजकीय आवेश संख्या तथा तिथि जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान की प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षांत में अन्तिम अवशेष	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षांत में अन्तिम अवशेष	मसख्य		
14 नवम्बर 1951 को मिला गया अनुदान	राजकीय आवेश संख्या 100.00.000	अनुदान की प्रयोजन	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षांत में अन्तिम अवशेष	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षांत में अन्तिम अवशेष	मसख्य		
15 15 वां किंग्स प्रोग्राम के अंतर्गत अनुदान	100.00.000	अनुदान की प्रयोजन	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षांत में अन्तिम अवशेष	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षांत में अन्तिम अवशेष	मसख्य		
(i) 6/3082/320/15 वां किंग्स प्रोग्राम/2020-21	विकास कार्य	60.50.00.000	13-11-2020	376924.094	4628341	376924.094	4628341	376924.094		
(ii) 6/3077/320/15 वां किंग्स प्रोग्राम/2020-21	विकास कार्य	60.50.00.000	19-11-2020	512031.088	304553.877	512031.088	304553.877	512031.088		
(iii) 6/1280/320/15 वां किंग्स प्रोग्राम/2020-21	विकास कार्य	60.50.00.000	31-3-2021	394265.050	113010	394265.050	113010	394265.050		
(iv) 6/1284/320/15 वां किंग्स प्रोग्राम/2021-22	विकास कार्य	60.50.00.000	01-06-2021	300115.776	209120.508	300115.776	209120.508	300115.776		
(v) 6/2084/320/15 वां किंग्स प्रोग्राम/2021-22	विकास कार्य	15.25.00.000	21-3-2022	1525.00.000	104568.879	1525.00.000	104568.879	1525.00.000		

संख्या संख्या दिनांक के अंतर्गत के अंतर्गत में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विभाग को प्रेषित।

निदेशक,
स्थानीय निधि सेवा,
उत्तर प्रदेश।

शीट सं० यू० पी०-9 स्थापित नं० ले० सं०-3-8-99-100,000 (जाब)।

वर्ष के अंतर्गत द्वारा अग्रयुक्त अनुदानों की तालिका

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षांतर्गत प्राप्त अनुदान	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षांत में अस्तित्व में अवशेष	मत्स्य		
वर्ष 2022-23 में प्रारंभ										
(i) 6/2502/320(2)/15 का कि आ0/2022-23 दिनांक 05.10.2022	विकास कार्य	1220000000	05.11.2022	-	1220000000	1220000000	1220000000	764852651		
16 गांधी स्थानान्तरण - गांधी स्थानान्तरण एवं बेसला	गांधी स्थानान्तरण	8940000	25.11.2022	442683808	1220000000	565636000	565636000	1287836773		
पुत्र आरक्षण योजना/2022-23 दिनांक 16.11.2022					8940000	8940000	8940000	8940000		
						8940000	8940000	8940000		

स्वासा संख्या _____ दिनांक _____ के अंतर्गत में महल्लेखकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, _____ विभाग को प्रेषित।

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा,
उत्तर प्रदेश।

743-

स्था 0 नि 0 ले 0 सं 0-66

वर्ष 2022-23

366

के अन्तर्गत उत्तर विभाग, जलियार द्वारा अग्रयुक्त अनुदानों की तालिका

राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	व्ययित प्रारम्भिक अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अस्तित्व में अवशेष	मन्तव्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आदेश - 1 दि 16	3 का महलिया	क्र.सं. - 1 का योजना	703	-	162292	-	703	703		
		क्र.सं. - 2 का योजना	162292	-	376200	-	162292	162292		
		क्र.सं. - 3 का योजना	376200	-	150000	-	376200	376200		
		क्र.सं. - 4 का योजना	150000	-	15433720	-	150000	150000		
		क्र.सं. - 5 का योजना	15433720	-	194654	-	15433720	15433720		
		क्र.सं. - 6 का योजना	194654	-	371574	-	194654	194654		
		क्र.सं. - 7 का योजना	371574	-	8521777	-	371574	371574		
		क्र.सं. - 8 का योजना	8521777	-	169537500	-	8521777	8521777		
		क्र.सं. - 9 का योजना	169537500	-	244070	169537500	169537500	244070		
		क्र.सं. - 10 का योजना	244070	-	19500000	-	244070	244070		
		क्र.सं. - 11 का योजना	19500000	-	33875621	19500000	19500000	33875621		
		क्र.सं. - 12 का योजना	33875621	-	43430490	33875621	33875621	43430490		
		क्र.सं. - 13 का योजना	43430490	-	10000000	43430490	43430490	10000000		
		क्र.सं. - 14 का योजना	10000000	-	122000000	10000000	10000000	122000000		
		क्र.सं. - 15 का योजना	122000000	-	8940000	122000000	8940000	138783773		
		क्र.सं. - 16 का योजना	8940000	-	19117122	8940000	19117122	19117122		
		अवशेष	19117122	-	15658800	19117122	15658800	1976490758		

राजकीय संख्या दिनांक के अन्तर्गत महलियाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विभाग को प्रेषित।

निदेशक,
स्थानीय निधि सेवा,
उत्तर प्रदेश।

शी 0 एस 0 यू 0 पी 0-9 स्था 0 नि 0 ले 0-3-8-99-100,000 (जाब)।

परिचय - '6'

आयकर/व्यापार कर/जीएसटी/एसटी/वेयर सेस टेक्स विवरण-

माजियाबाद नगर निगम

वित्तीय वर्ष 2022-2023 आयकर/व्यापार कर/जीएसटी/एसटी/वेयर सेस टेक्स विवरण-

क्र.सं.	कर्म का नाम	कार्य का विवरण	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14 वीं वित्त आयोग-अप्रैल 2022																		
1	श्री. गवरी सिंह कान्हेरकर	वार्ड-36 प्रशासकीय गाँव में मुख्य सड़क पर इन्टरलॉकिंग टारस का कार्य।	4508534	831380	0	0	16628	16628	0	8314	10	0	789800	30-Apr-22	1330			
2	श्री. बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा. लि.	आपरेशन कार्यकरण के अन्तर्गत वार्ड-16 मिलाक दुबई का सुदृढीकरण का कार्य।	2227792	635911	0	0	12719	12719	0	6360	13	0	604100	30-Apr-22	1324			
3	श्री. बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा. लि.	आपरेशन कार्यकरण के अन्तर्गत वार्ड-16 मिलाक दुबई का सुदृढीकरण का कार्य।	1473864	739708	0	0	14795	14795	0	7398	20	0	702700	30-Apr-22	1325			
4	श्री. डी.के.एस.एच.एच.एच. इन्फ्रिया प्रा. लि.	विद्युत नगर जेन के अन्तर्गत विद्युत अकबरापुर का जीर्णोद्धार कार्य।	3884299	987518	0	0	19751	19751	0	9876	40	0	938100	30-Apr-22	1326			
5	श्री. डी.के.एस.एच.एच.एच. इन्फ्रिया प्रा. लि.	विद्युत नगर जेन के अन्तर्गत कन्वर्जिट विद्युत प्रदाय विहार का जीर्णोद्धार कार्य।	3887792	1437625	0	0	28753	28753	0	14377	42	0	1365700	30-Apr-22	1327			
6	श्री. ज्योत्सना एल.के.	क्षेत्री योजना के सै-4 रिला सेट्टल पार्क निर्माण व सौन्दर्यकरण कार्य।	1151300	789808	0	0	15857	15857	0	7929	1065	0	749100	30-Apr-22	1323			
7	श्री. शकुन्तली कपूर	वार्ड-01 लड्डनगर कालोनी रिला विद्युत वन मर्यादा का कार्य।	2689060	1665369	0	0	33308	33308	0	16654	99	0	1582000	30-Apr-22	1333			
8	श्री. एन.पी.इन्टरप्राइजेज	वार्ड-12 प्राथमिक विद्युत सारण टारस/कॉन्क्रीट व रोलिंग आदि निर्माण कार्य।	159951	86066	0	0	1722	1722	0	861	61	0	81700	30-Apr-22	1332			
9	श्री. एन.पी.इन्टरप्राइजेज	वार्ड-12 प्राथमिक विद्युत सारण टारस/कॉन्क्रीट व रोलिंग आदि निर्माण कार्य।	392500	264044	0	0	5281	5281	0	2641	41	0	250800	30-Apr-22	1331			
10	श्री. राज इन्टरप्राइजेज	वार्ड-52 जी.टी.डी. पर जन कम्पस के सारने आर.सी.डी. नाले का निर्माण कार्य।	3847480	315758	0	0	6316	6316	0	3158	68	0	299900	30-Apr-22	1329			
11	श्री. डी.के.एस.एच.एच.एच. इन्फ्रिया प्रा. लि.	वार्ड-61 जी.टी.डी. पर जन कम्पस के सारने आर.सी.डी. नाले का निर्माण कार्य।	4249799	522179	0	0	10444	10444	0	5222	69	0	496000	30-Apr-22	1328			
12	श्री. एन.पी.इन्टरप्राइजेज	वार्ड-52 जी.टी.डी. पर जन कम्पस के सारने आर.सी.डी. नाले का निर्माण कार्य।	7724000	7724000	0	0	7724	7724	0	0	96	0	7561700	30-Apr-22	12222			
			Total	15998366	0	0	7724	165574	320054	0	82790	1624	0	15421600				
15 वीं वित्त आयोग-अप्रैल 2022																		
1	श्री. नरेश कुमार सिंह	वार्ड-80 शाहीनार गाँव में मुख्य सड़क पर इन्टरलॉकिंग टारस का कार्य।	1469690	874763	504	0	17496	17496	0	8748	19	0	830500	30-Apr-22	1337			
2	श्री. रमेश कुमार सिंह	वार्ड-78 शाहीनार गाँव में मुख्य सड़क पर इन्टरलॉकिंग टारस का कार्य।	1887149	1149419	1187	0	22989	22989	0	11495	59	0	1090700	30-Apr-22	1361			
3	श्री. शैलेश कुमार सिंह	वार्ड-85 एवं 75 सायबानगर साहिबाबाद क्षेत्र में रिला कुल-9 पार्क में सौन्दर्यकरण हेतु घास एवं सजावटी पौधों की आपूर्ति एवं लगाने का कार्य।	793157	536502	0	0	10731	10731	0	5366	5	0	520400	30-Apr-22	1354			
4	श्री. शैलेश कुमार सिंह	वार्ड-18 विभिन्न वार्ड ब्लॉक में सौन्दर्यकरण तहत घास एवं सजावटी पौधों की आपूर्ति।	420321	273868	0	0	5478	5478	0	2739	51	0	265600	30-Apr-22	1355			
5	श्री. शैलेश कुमार सिंह	वार्ड-18 विभिन्न ब्लॉक में रिला कुल पार्क में सौन्दर्यकरण कार्य।	340070	245323	0	0	4907	4907	0	2454	62	0	237900	30-Apr-22	1356			
6	श्री. शैलेश कुमार सिंह	26 पार्क की आवश्यक मर्यादा एवं पूर्ण सौन्दर्यकरण का कार्य।	4479323	2425407	1448	0	48509	48509	0	24255	86	0	2302600	30-Apr-22	1335			
7	श्री. शैलेश कुमार सिंह	वार्ड-18 शाहीनार में कुल पार्क को सौन्दर्यकरण कार्य।	498936	227262	0	0	4546	4546	0	2273	43	0	220400	30-Apr				
8	श्री. शैलेश कुमार सिंह	वार्ड-85 सायबानगर में एच-237 जी.टी.डी रोड तक आर.सी.डी. नाले का कार्य।	9559941	1238747	0	0	24775	24775	0	12388	9	0	1176800	30-Apr				
9	श्री. शैलेश कुमार सिंह	वार्ड-10 डी.के.एस.एच.एच.एच. कालोनी में ए-ब्लॉक पार्क के घास तारस नाली व इन्टरलॉकिंग टारस सारने का कार्य।	3755042	1347651	0	0	26954	26954	0	13477	66	0	1280200	30-Apr				

गाजियाबाद नगर निगम
2022-2023 आयकर व्यापार कर/जीएसटी/रायल्टी/लेबर सेस टैक्स विवरण-308

क्र.सं.	धर्म का नाम	कार्य का विवरण	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
क्र.सं.	धर्म का नाम	कार्य का विवरण	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	शालाजी इन्फोकॉम्प्यूटर्स	वार्ड-16 मोटा में प्रस्तावित से मेड रोड तक नाला निर्माण एवं सड़क में इन्टरलॉकिंग टाइलस लगाने का कार्य।	28922100	4368257	0	0	87366	87366	0	43683	42	0	4149800	30-Apr-22	350			
11	शालाजी इन्फोकॉम्प्यूटर्स	वार्ड-75 सायनगर में बी-ब्लॉक की अक्टूबे सड़क गलियों में नाली व इन्टरलॉकिंग टाइलस लगाने का कार्य।	14630355	2973803	0	0	59477	59477	0	29739	10	0	2825100	30-Apr-22	1351			
12	शालाजी इन्फोकॉम्प्यूटर्स	शमला का मिनी एस्टेट पर एक नया 30 एचपीओ का निर्माण कार्य।	5778408	3632252	0	0	72646	72646	0	36323	37	0	3450600	30-Apr-22	1362			
13	श्रीन आर्टिस्ट स्टीम प्रॉडिक्ट लिमिटेड	वार्ड-56 विरजीव विहार एवं अवलिका कालोनी में कुल 3 पार्कों में सौन्दर्यकरण कार्य।	445430	349738	0	0	6995	6995	0	3498	45	0	339200	30-Apr-22	1338			
14	श्रीन आर्टिस्ट स्टीम प्रॉडिक्ट लिमिटेड	कुल मिलाकर 17 पार्कों की आवश्यकता सम्मत व पूर्ण सौन्दर्यकरण कार्य।	4440020	2165141	0	0	43303	43303	0	21652	83	0	2056800	30-Apr-22	1343			
15	श्रीन आर्टिस्ट स्टीम प्रॉडिक्ट लिमिटेड	वार्ड-07 सुयामपुरी स्थित विभिन्न ब्लॉकों में 4 पार्कों में सौन्दर्यकरण का कार्य।	847584	323210	0	0	6465	6465	0	3253	12	0	313500	30-Apr-22	1339			
16	श्रीन आर्टिस्ट स्टीम प्रॉडिक्ट लिमिटेड	वार्ड-54 एवं 61 से-5 स्थित कुल 6 पार्कों का सौन्दर्यकरण कार्य।	568868	514991	0	0	10300	10300	0	5150	41	0	499500	30-Apr-22	1340			
17	श्रीन आर्टिस्ट स्टीम प्रॉडिक्ट लिमिटेड	वार्ड-62 गोकुलपुर के विभिन्न ब्लॉकों में स्थित कुल 9 पार्कों में सौन्दर्यकरण सहित बास एवं सजावटी पौधों की आपूर्ति का कार्य।	784157	454496	0	0	9090	9090	0	4545	61	0	440800	30-Apr-22	1341			
18	श्रीन आर्टिस्ट स्टीम प्रॉडिक्ट लिमिटेड	वार्ड-48 प्रतापविहार से-12 विभिन्न ब्लॉकों में स्थित कुल 5 पार्कों में सौन्दर्यकरण का कार्य।	507701	409928	0	0	8199	8199	0	4100	29	0	397600	30-Apr-22	142			
19	शालाजी इन्फोकॉम्प्यूटर्स	वार्ड-21 कौशाम्बी अन्तर्गत अपार्टमेंट स्थित पार्क का सौन्दर्यकरण का कार्य।	838163	589384	504	0	11788	11788	0	5894	10	0	559400	30-Apr-22	1358			
20	शालाजी इन्फोकॉम्प्यूटर्स	वार्ड-15 प्रतापविहार एवं ब्लाक डाटाअन्वेषक पार्क के सामने स्थित ग्रीन बेल्ट में कार्य।	4753514	2316726	1129	0	46335	46335	0	23168	59	0	2199700	30-Apr-22	1359			
21	शालाजी इन्फोकॉम्प्यूटर्स	वार्ड-15 प्रतापविहार से-11 ई-ब्लाक मॉडल-600 के सामने पार्क की चार दिवारी सम्मत एवं सुदृश्य निर्माण का कार्य सम्मान का कार्य।	508343	417861	454	0	8358	8358	0	4179	12	0	396500	30-Apr-22	1360			
22	शालाजी इन्फोकॉम्प्यूटर्स	वार्ड-04 प्रतापविहार से-11 बी-ब्लाक के सामने पार्क की चार दिवारी सम्मत एवं सुदृश्य निर्माण कार्य।	640197	599325	456	0	11987	11987	0	5994	88	0	580800	30-Apr-22	1348			
23	शालाजी इन्फोकॉम्प्यूटर्स	वार्ड-39,88 स्थित कुल 6 पार्कों में सौन्दर्यकरण के सहित बास एवं सजावटी पौध-पौधों की आपूर्ति।	881650	586472	0	0	11730	11730	0	5865	77	0	568800	30-Apr-22	1337			
24	शालाजी इन्फोकॉम्प्यूटर्स	वार्ड-18 शाहीनगर एच-ब्लाक मॉडल-22 के सामने स्थित पार्क में सौन्दर्यकरण सहित बास एवं सजावटी पौधों की आपूर्ति।	422537	388000	0	0	7760	7760	0	3880	60	0	376300	30-Apr-22	1336			
25	शालाजी इन्फोकॉम्प्यूटर्स	गोकुलपुर में एच-ब्लाक रोड पर डैम बांध सुधार कार्य।	4485174	426125	0	0	8523	8523	0	4262	17	0	404800	30-Apr-22	1346			
26	शालाजी इन्फोकॉम्प्यूटर्स	गोकुलपुर में जी0 एवं एच ब्लाक की नया वाली क्रॉड डैम बांध सुधार कार्य।	4036657	382486	0	0	7650	7650	0	3825	61	0	363300	30-Apr-22	1347			
27	शालाजी इन्फोकॉम्प्यूटर्स	वार्ड-36 कौली वार्ड- वीक से चांसिपुर फाटक तक पूर्ण भेय आवारा तक आउटरीसी0 नाले का कार्य।	13959154	3449589	0	0	68992	68992	0	34496	9	0	3277100	30-Apr-22	1334			
28	शालाजी इन्फोकॉम्प्यूटर्स	वार्ड-24 संकटविहार/कुशा विहार की आन्तरिक सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	18658129	9800089	0	0	196002	196002	0	98001	84	0	9310000	30-Apr-22	1344			
29	शालाजी इन्फोकॉम्प्यूटर्स	वार्ड-17 नैनाल गोल्ल से मल्ल के मकान तक आउटरीसी0 नाला व सड़क निर्माण कार्य।	1132184	1074594	0	0	21492	21492	0	10746	1064	0	1019800	30-Apr-22	1345			
30	शालाजी इन्फोकॉम्प्यूटर्स	वार्ड-38,44,45,85,86 सहित उर्वर में 2 नया 15 एचपीओ नाला निर्माण एवं आवश्यक निगम कार्य।	5687500	171977	0	0	0	0	0	0	0	0	171977	30-Apr-22	1364			

गाजियाबाद नगर निगम

वित्तीय वर्ष 2022-2023 आयकर/व्यापार कर/जीएसटी/रायल्टी/सेबि सेस देक्स विवरण-

309

क्र.सं.	फर्म का नाम	कार्य का विवरण	दंड/सेबि	रायल्टी	T.D.S 1%	आयकर	जी.एस.टी.	व्यापार कर	सेस	अन्य/प्रायसी	कुल राशि	दिनांक	वाउचर सं.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-31	श्री इंडस्ट्रियल/डीडी/रुग्ना इस्टाब्लिशमेंट	कार्य का विवरण	5687500	92609	0	0	0	0	0	0	92609	30-Apr-22	1365		
		वार्ड-38,44,45,85,86 सेबि उभय में 2 नग 15 एकाईडि नलकूप अधिकरण एवं आयकर निर्माण कार्य।													
32	श्री इंडस्ट्रियल/डीडी/रुग्ना इस्टाब्लिशमेंट	कार्य का विवरण	5687500	70270	0	0	0	0	0	0	70270	30-Apr-22	1367		
		वार्ड-5,10,20,39,63,64 काका उभय में 2 नग 15 एकाईडि नलकूप निर्माण का कार्य।													
33	श्री इंडस्ट्रियल/डीडी/रुग्ना इस्टाब्लिशमेंट	कार्य का विवरण	5687500	214244	0	0	0	0	0	0	214244	30-Apr-22	1366		
		वार्ड-5,10,20,39,63,64 काका उभय में 2 नग 15 एकाईडि नलकूप निर्माण का कार्य।													
14 वॉ विल आयोग-मई 2022			Total	440990509	5682	0	870843	772655	0	435448	2301	0	42003600		
1	श्री सलार कन्सो कंपनी	वार्ड-63 सेबि-5 में सलार डेपॉसी से जोड़ी पब्लिक स्कूल तक आरएसीडीड नगला निर्माण का कार्य।	14955092	474332	0	0	9487	9487	0	4744	13614	0	437000	7-May-22	162
2	श्री आकरा कन्सो	वार्ड-59 कर्पोरेट विद्यालय डारणा गेट के करी का सुदृढीकरण का कार्य।	499102	324299	0	0	6486	6486	0	3243	84	0	308000	7-May-22	163
3	श्री सलार कन्सो	वार्ड-59 उद्योग/रिड पार्क में सब का इंटरलॉकिंग टर्नस लगाने का कार्य।	933058	730209	0	0	14605	14605	0	7303	1096	0	692600	7-May-22	161
4	श्री सलार कन्सो	वार्ड-59 प्रत्येक विद्यालय सिगनेच गेट के करण का इंटरलॉकिंग टर्नस भीचालस व सैडई अंदरे निर्माण।	312032	280203	0	0	5605	5605	0	2803	1090	0	265100	7-May-22	160
5	श्री कैप्टरी एसीडो	वार्ड-46 कर्पोरेट विद्यालय मायुति विहार का सुदृढीकरण का कार्य।	1898667	367254	0	0	7346	7346	0	3673	89	0	348800	13-May-22	785
6	श्री सीपरी एसीडो	वार्ड-46 प्रत्येक विद्यालय गुरार का सुदृढीकरण का कार्य।	1371478	485622	0	0	9713	9713	0	4857	39	0	461300	13-May-22	784
7	श्री सलार कन्सो	वार्ड-70 बकपुरी प्रदर्शनी पठशाळा में रंगई/गुनाई विद्या,डिड बर्षींग/गुनाई/सुरासेबिल भीचालस सैड गेट फर्न टर्नस मरम्मत का कार्य।	1519312	89232	0	0	1785	1785	0	893	69	0	84700	13-May-22	779
8	श्री सलार कन्सो	वार्ड-63 एसीडो प्रदर्शनी पठशाळा नं-2 की रंगई गुनाई टर्नस हेन्ड बर्षींग गुनाई विद्यालय एवं गाउड में टर्नस काउन्सी कार्य।	1553839	39077	0	0	782	782	0	391	22	0	37100	13-May-22	778
9	श्री सलार कन्सो	वार्ड-20 श्रीपुरा प्रत्येक विद्यालय से रंगई गुनाई गुनाई फर्न टर्नस भीचालस मरम्मत एवं विद्युतीकरण कार्य।	2285691	414818	0	0	8297	8297	0	4149	75	0	394000	13-May-22	780
10	श्री एफकेआर/डैक्टर एच विलडर्स	आपरेशन कमाण्डर के अन्तर्गत 91 बर्षींगर सुदृढीकरण का कार्य।	3532406	339744	0	0	6795	6795	0	3398	56	0	322700	13-May-22	781
11	श्री कृष्णा एसीडो	वार्ड-10 डीएलएलको की एच कालोनी में प्रदर्शनी पठशाळा में रंगई गुनाई फर्न में टर्नस तथा सलार सेबिल विद्युतीकरण तथा मुख्य रोड से क्लो तक एचोव का निर्माण कार्य।	2571367	651907	0	0	13039	13039	0	6520	5009	0	614300	13-May-22	783
12	श्री सीता कन्सो	आपरेशन कमाण्डर के अन्तर्गत वार्ड-42 कर्पोरेट शाहपुर बर्षींग का सुदृढीकरण का कार्य।	3783628	1604608	0	0	32093	32093	0	16047	75	0	1524300	13-May-22	782
13	श्री आरएसीडीड/डिस्ट्रिक्ट इंजीनियरिंग	वार्ड-64 राजनगर में एलए टी सेल से-1 कट तक दोनो तरफ गार्ड के साथ-साथ रिटर्निंग बाल आरएसीडीड कार्य।	7190000	3915741	0	0	78315	78315	0	39158	53	0	3719900	13-May-22	1023
14	श्री पीपीएरिवलकॉन प्राइवेटो	नेटवर्क रोड नन्दाग्राम मुख्य मार्ग से काका फर्न तक डिवाइडर निर्माण एवं डैच द्वारा सडक सुधार कार्य।	23024260	3708571	0	0	74172	74172	0	37086	41	0	3523100	13-May-22	1020
15	श्री सुरील मॉ एच कंपनी	वार्ड-17 डिप्टन विहार स्थित नगर निगम सूत्र पर गार्डन कैन्टी का कार्य।	93800515	10029473	0	0	200590	200590	0	100295	98	0	9527900	13-May-22	1021
16	श्री एएलएस कार्य	नगर निगम के अन्तर्गत 14 वॉ विल के अन्तर्गत 50 लाख से अधिक कार्य हेतु डीपीआर/आर पैपर करने का कार्य।	165463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13-May-22	

गजियाबाद नगर निगम

वित्तीय वर्ष 2022-2023 आयकर/ब्यापार कर/वी0एसडी0/रायल्टी/सेवर सेस टैक्स विवरण-310

क्र.सं.	वर्ग का नाम	कार्य का विवरण	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	क्रो.मार्डन इन्जीनरिंग	वार्ड-64 गणपत में विभिन्न सर्विस रोड का सुधार कार्य।	14997309	1346402	0	0	26929	26929	0	13465	79	0	1279000	13-May-22	1061
			Total-	24801492	0	0	496039	496039	0	248025	21589	0	23539800		
1	क्रो.मार्डन इन्जीनरिंग	वार्ड-80 रावेन्द्रनगर विनय स्टील पार्क को पूर्ण करना।	939512	727192	1703	0	14544	14544	0	7272	29	0	689100	7-May-22	167
2	क्रो.मार्डन इन्जीनरिंग	वार्ड-45 रिडमन एरकोस से जेबनाग डार भेजे हुये जीएटीपीरोड तक एवं क्राफ्टा पुल की एप्रीव ड्रेस द्वारा सुधार कार्य।	22963555	3992675	0	0	79854	79854	0	39927	40	0	3793000	7-May-22	164
3	क्रो.मार्डन इन्जीनरिंग	वार्ड-47 राज भैस एलेक्सी से कविगनर जाला निर्माण कार्य।	10683600	4918114	0	0	98363	98363	0	49182	6	0	4672200	7-May-22	165
4	क्रो.सविन सुमार कार्पेस्टर	वार्ड-49 एफएलवाक से एच-30 तक अम्बेडकर रोड तक जाला निर्माण कार्य।	26424720	4747881	0	0	94958	94958	0	47479	86	0	4510400	7-May-22	166
5	क्रो.एएचएफएनए	गीगागल पुलिस चौकी सड़क के दोनों तरफ साइड पटरी का सीटर्सकरण का कार्य।	6853943	3005748	0	0	60115	60115	0	30058	60	0	2855400	7-May-22	170
6	क्रो.जुरैर अक्का कम्पनी	वार्ड-25 बालाजी स्टीटस से एली रोड तक आरसीसी0 जाला निर्माण कार्य।	7469770	1260896	0	0	25218	25218	0	12609	51	0	1197800	7-May-22	171
7	क्रो.मोयराधन कार्पेस्टर	वार्ड-49 गन्धामन गार्डियन मेजर आशाराम लाली पार्क को विस्तारित करने का कार्य।	2879719	2095402	1008	0	41909	41909	0	20955	21	0	1989600	7-May-22	169
8	क्रो.वीक साहनी	वार्ड-67 बस स्टैंड से रंझपुर कट तक संवयनार तक सर क्षेत्रीय का कार्य।	910660	909907	79935	0	18199	18199	0	9100	74	0	784400	7-May-22	168
9	क्रो.अरुण कंसुअम्पनी	वार्ड-23 गन्धामल फाटक से ईश्वर के मकान तक ईस द्वारा संवय सुधार का कार्य।	3332888	3099529	0	0	61991	61991	0	30996	51	0	2944500	13-May-22	791
10	क्रो.बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स	वार्ड-83 स्वयम्भूत एरस में काली मन्दिर वाली सड़क तक का सुधार एवं जाला निर्माण का कार्य।	10169587	5672651	0	0	113454	113454	0	56727	16	0	5389000	13-May-22	800
11	क्रो.बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स	वार्ड-20 शीपुर में लाल मेढकी सड़क का निर्माण कार्य।	9189299	1993946	0	0	39879	39879	0	19940	20048	0	1874200	13-May-22	799
12	क्रो.मार्ड इन्फिया डेवलपर्स	राहुड पुली से गणपत एरस0 चौक तक रोड का ईस द्वारा संवय सुधार कार्य।	19881422	7837402	0	0	156749	156749	0	78375	5029	0	7440500	13-May-22	802
13	क्रो.श्रीबालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स	वार्ड-86 बूजा गटली जर्न पर अंधूरा बने जाने को पूर्ण करने का कार्य।	9988092	3475609	0	0	69513	69513	0	34757	26	0	3301800	13-May-22	801
14	क्रो.शान्तनु कंसु	वार्ड-62 मोदियपुर में दुर्ग ब्यासपर्स टायर तक रोड का ईस द्वारा सड़क सुधार कार्य।	7508450	7210272	0	0	144206	144206	0	72103	2057	0	6847700	13-May-22	797
15	क्रो.श्रीवीरप्रभाजोकेकर प्राइवेट	आरसीसी0 प्लाई ओवर से विवेकानन्द नगर प्लाई ओवर से संवय नगर तक रोड का ईस द्वारा सड़क सुधार का कार्य।	18534790	1290685	0	0	25814	25814	0	12907	5050	0	1221100	13-May-22	786
16	क्रो.श्रीवीरप्रभाजोकेकर प्राइवेट	आरसीसी0 प्लाई ओवर से संवयनगर प्लाई ओवर तक रोड का ईस द्वारा सड़क सुधार कार्य।	21941379	3989985	0	0	79800	79800	0	39900	5085	0	3785400	13-May-22	787
17	क्रो.वीपीपीरिलकॉन प्राइवेट	वार्ड-57 शालीमार गार्डन में के विजय पार्क रोड पर बने जाने की पुर्तिया से दिल्ली की सीमा तक सड़क सड़क का ईस द्वारा सुधार कार्य।	5166467	4657097	0	0	93142	93142	0	46571	42	0	4424200	13-May-22	793
18	क्रो.आरसीसी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स	वार्ड-42 लालकुआ सड़क शीपुर एन्डवेर के संवय चौकी के मकान से सुधार के मकान तक गली एवं गली निर्माण कार्य।	5871770	1873139	0	0	37463	37463	0	18732	81	0	1779400	13-May-22	792
19	क्रो.बुजा एली	विभिन्न स्थानों पर ग्रास फेर लगाने का कार्य।	3336341	2927975	0	0	58560	58560	0	29280	75	0	2781500	13-May-22	788
20	क्रो.आशाराम इन्फ्रास्ट्रक्चर	वार्ड-52 चौपरी मंड बूजा पर से ईस नगर जीएटीपी रोड भेजे हुये आरसीसी0 जाला निर्माण कार्य।	10347990	4386298	0	0	87726	87726	0	43863	83	0	4166900	13-May-22	790
21	क्रो.एएचएफएनए	प्राय डिक्टर से जीएटीपीरोड चौक तक सड़क के दोनों तरफ साइड पटरी का सीटर्सकरण कार्य।	628095	688310	0	0	13767	13767	0	6884	92	0	653300	13-May-22	796

गण्डियाबाद नगर निगम

वित्तीय वर्ष 2022-2023 आयकर/व्यापार कर/वीएचएडी/राश्वाली/लेबर सेस डेक्स विवरण-312

क्र.सं.	वर्ग का नाम	विवरण	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50	फर्म का नाम	कार्य का विवरण	रेचर राशि	वर्ग और	राश्वाली	T.D.S 1%	आयकर	जी.एस.टी.	व्यापार कर	सेस	अन्य/राश्वाली	कटौती	मुदान राशि	दिनांक		
51	को ईंधन/इंधन/वीएडी/0	15 एचपी0 नलकूप का विद्युत संयोजन का कार्य।	88749	6237	0	0	0	0	0	0	0	0	88749	23-May-22	15	905
52	को ईंधन/इंधन/वीएडी/0	15 एचपी0 नलकूप का विद्युत संयोजन का कार्य।	6237	155537	0	0	0	0	0	0	0	0	6237	23-May-22	15	906
53	को ईंधन/इंधन/वीएडी/0	15 एचपी0 नलकूप का विद्युत संयोजन का कार्य।	155537	18259	0	0	0	0	0	0	0	0	155537	23-May-22	15	908
54	को ईंधन/इंधन/वीएडी/0	15 एचपी0 नलकूप का विद्युत संयोजन का कार्य।	18259	83031	0	0	0	0	0	0	0	0	18259	23-May-22	15	909
55	को ईंधन/इंधन/वीएडी/0	15 एचपी0 नलकूप का विद्युत संयोजन का कार्य।	83031	41980	0	0	0	0	0	0	0	0	41980	23-May-22	15	910
56	को ईंधन/इंधन/वीएडी/0	15 एचपी0 नलकूप का विद्युत संयोजन का कार्य।	41980	160989	0	0	0	0	0	0	0	0	160989	23-May-22	15	903
57	को ईंधन/इंधन/वीएडी/0	15 एचपी0 नलकूप का विद्युत संयोजन का कार्य।	160989	19258	0	0	0	0	0	0	0	0	19258	23-May-22	15	904
58	को ईंधन/इंधन/वीएडी/0	15 एचपी0 नलकूप का विद्युत संयोजन का कार्य।	19258	94756	0	0	0	0	0	0	0	0	94756	23-May-22	15	901
59	को वरुण कस्तुरि कम्पनी	वार्ड-97 राप्रय मैन रोड टीकी से लेबर टी-वाइन्ड तक नोले तरफ आरएसीपी0 नाला निर्माण कार्य।	7336	4390245	0	0	87805	87805	0	43903	32	0	4170700	23-May-22	15	1029
60	को प्रमोद कुमार सिंघल	वार्ड-46,15 विद्युतकां सौक से चयन सिक कालोनी तक सडक के दोनो तरफ सार्ड पट्टी का सौन्दरकरण कार्य।	18670560	2752804	1804468	0	36090	36090	0	18045	43	0	1714200	23-May-22	15	1026
61	को महेश इन्जीनियरिंग	वार्ड-70 जलपुरी स्थान एक्सेस में मेन नाला हेतु ग्राउण्डवॉटर के बरतार वाली सडक पर जल पिछासी हेतु नाला निर्माण का कार्य।	8573175	6604875	0	0	132098	132098	0	66049	6030	0	6268600	23-May-22	15	1027
62	को जलपुत्र कम्पनी	वार्ड-97 राप्रय पूर्वनगर पुलिसा चौकी से भीमेश जलपुर चौकी तक सडक सुधार का कार्य।	4767909	527460	0	0	10550	10550	0	5275	5085	0	496000	23-May-22	15	1028
63	को इरुपत इन्टरनैशनल	वार्ड-5,10,20,29 काला उखन में 2 नग 15 एचपी0 नलकूप अधिष्ठापन का कार्य।	5687500	2194225	0	0	43885	43885	0	21943	12	0	2084500	23-May-22	15	1073
64	को सुरा वाटर सप्लाय कम्पनी	वार्ड-30 जी-ब्लॉक ग्रीन बेल्ट नोडियुस में 15 एचपी0 नलकूप अधिष्ठापन एवं आरक्षक पिलान का कार्य।	3265850	1422034	0	0	28441	28441	0	14221	31	0	1350900	23-May-22	15	1072
65	को स्टेल एव पाइपस	वार्ड-47 महेन्द्र इनक्लेव 15 एचपी0 मिनी नलकूप अधिष्ठापन एवं आरक्षक पिलान का कार्य।	3397100	1459364	0	0	29188	29188	0	14594	94	0	1386300	23-May-22	15	1071
66	को एलकोवेनी/पैडिंग कम्पनी	जलकल स्टोर में 35 एचपी0 5 नग पीवर एण्य की आपूर्ति। अधिष्ठापन एवं आरक्षक पिलान का कार्य।	1522500	380625	0	0	381	381	0	381	31	0	372600	27-May-22	15	1070
67	को इंदी वाटर ट्रांसफार्मर एवड इन्फ्रस्ट्रक्चर	15 एचपी0 नलकूप अधिष्ठापन एवं आरक्षक पिलान का कार्य।	3430000	1601299	0	0	32026	32026	0	16013	34	0	1521200	27-May-22	15	1066
68	को इरुपत इन्टरनैशनल	वार्ड-19 पेलनगर जी-ब्लॉक थिय मंदिर पार्क में 15 एचपी0 नलकूप अधिष्ठापन एवं आरक्षक पिलान का कार्य।	3892473	1707967	0	0	34160	34160	0	17080	67	0	1622500	27-May-22	15	1074
69	को इरुपत इन्टरनैशनल	वार्ड-46 बागुति विहार प्राईमरी स्कूल के अन्तर एक नग 15 एचपी0 नलकूप अधिष्ठापन का कार्य।	5687500	1337996	0	0	26760	26760	0	13380	96	0	1271000	27-May-22	15	1077
70	को इरुपत इन्टरनैशनल	15 एचपी0 नलकूप अधिष्ठापन का कार्य।	5687500	1353246	0	0	27065	27065	0	13533	83	0	1285500	27-May-22	15	1076
71	को शान्तनु कस्तुरि	वार्ड-21 भीमपुर/कोशाची में रिफर सडक के सामने से होकर रोडिडन वु डेवेल सडक एवं नली निर्माण कार्य।	1141341	982797	0	0	19656	19656	0	9828	1057	0	932600	27-May-22	15	1065
72	को शान्तनु कस्तुरि	वार्ड-21 भीमपुर में जुगम कालोनी की पिछेन सडक/नलको का सुधार कार्य।	5967280	5773013	0	0	115461	115461	0	57731	1060	0	5483300	27-May-22	15	1064
73	को बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर	वार्ड-16 मोरटा में ट्रांसफार्मर से नेट रोड तक नाला निर्माण एवं इन्टरलाकिंग ट्रांस लानिंग का कार्य।	28922100	7901164	0	0	158024	158024	0	79012	4	0	7506100	27-May-22	15	1062
74	को शान्तनु कस्तुरि	वार्ड-72 कोशाची ए-ब्लॉक में रिफर मने मंदिर तक सडक की सुधारकार्य का कार्य।	2831239	2565237	0	0	51305	51305	0	25653	74	0	2436900	27-May-22	15	1063
14 वीं वित्त आयोग-जून 2022			Total-	157578531	83654	1466	3093280	3145116	0	1546653	54884	0	149653478			

गण्डियाबाद नगर निगम

313

वित्तीय वर्ष 2022-2023 आयकर/ब्यापार कर/जीएसटी/रायस्ती/लेबर सेस टेक्स विवरण

क्र.सं.	कर्म का नाम	कर्म का विवरण	टैडर पंक्ति	टर्म ओवर	गैरटी	T.D.S 1%	आयकर	जी.एस.टी.	ब्यापार कर	सेस	अव्य/गैरटी	कलौती	मुफ्तान गौरी	दिनांक	राउटर सं०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	श्री रोहन इन्डिया वेस्ट मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	कार्य का विवरण वार्ड-50 सिकरनी में नगर निगम में गैरवार्ड कार्य का निर्माण कार्य।	44895130	2438646	0	0	48773	48773	0	24387	13	0	2316700	1-Jun-22	3
2	श्री सीसा कंसो	वार्ड-38 अर्थात् कन्वेलिट विद्यालय में रोड निर्माण कार्य।	3111246	774007	0	0	15481	15481	0	7741	4	0	735300	1-Jun-22	7
3	श्री सविन विल्डर्स	वार्ड-50 कन्वेलिट विद्यालय नुरलगर सिकरनी का उन्नयन कार्य।	1327242	416370	0	0	8328	8328	0	4164	50	0	395500	1-Jun-22	6
4	श्री सविन विल्डर्स	वार्ड-11 कन्वेलिट विद्यालय आश्रय योजना नन्द्याम नीतिक उन्नयन का कार्य।	908987	506038	0	0	10121	10121	0	5061	35	0	480700	1-Jun-22	5
5	श्री एएचएचएस	प्राथमिक विद्यालय कैला भट्टा का जीर्णोद्धार का कार्य।	1347398	232651	0	0	4654	4654	0	2327	16	0	221000	1-Jun-22	28
6	श्री एएचएचएस	वार्ड-12 प्राथमिक विद्यालय सराय हिन्दुवासी में कक्षा कक्ष का शीवालय आदि का निर्माण कार्य।	283276	25000	0	0	500	500	0	250	50	0	23700	1-Jun-22	786
7	श्री एएचएचएस	वार्ड-12 प्राथमिक विद्यालय सराय पुल्हा में शीवालय व रसोई आदि निर्माण कार्य।	159951	72469	0	0	1450	1450	0	725	44	0	68800	1-Jun-22	784
8	श्री सीसा कंसो	वार्ड-42 कन्वेलिट शाहपुर कब्रिस्तान का सुदृढीकरण का कार्य।	3783628	1038790	0	0	20776	20776	0	10388	1550	0	985300	1-Jun-22	787
9	श्री एएचएचएस	आर्यभट्ट कक्षाकक्ष के अन्तर्गत वार्ड-91 अक्षितनगर का सुदृढीकरण का कार्य।	3532406	474782	0	0	9496	9496	0	4748	42	0	451000	1-Jun-22	851
10	श्री आनकम कंसो	वार्ड-19 प्राथमिक विद्यालय शिवापुरा में शिवालय शीवालय व दर्शनकरण का निर्माण कार्य।	505115	463937	0	0	9279	9279	0	4640	39	0	440700	1-Jun-22	853
11	श्री कन्दनोहन सिंह एडवोकेट	वार्ड-25 मोहल्ल अन्वेषक नगर में अर्द्धवर्गी विद्यालय भवन कापट्टीवाल एवं शीवालय आदि की मरम्मत का कार्य।	1125454	362983	0	0	7260	7260	0	3630	33	0	344800	1-Jun-22	852
12	श्री सीसा कंसो	गण्डियाबाद नगर निगम के अन्तर्गत सिकरनी विद्यालय की मरम्मत एवं सौन्दर्यकरण का कार्य।	9091046	922733	0	0	18455	18455	0	9228	95	0	876500	20-Jun-22	895
13	श्री एनजी एंकिरवासी सर्विसिज लिमिटेड	गण्डियाबाद नगर निगम के अन्तर्गत एच प्रकाश व्यवस्था को सुदृढीकरण करने हेतु विभिन्न वार्ड की एलएडयू/सीडी लाइट की मरम्मत का कार्य।	8847142	6847142	0	0	6848	136943	0	0	51	0	6703300	20-Jun-22	896
14	श्री सीसा कंसो	वार्ड-93 कैला भट्टा अमान कलौती साईं उपवन में सेवला मन्दिर से पुल तक आरसीसी/सीडी नाला निर्माण कार्य।	8285786	2677825	0	0	53557	53557	0	26779	32	0	2543900	24-Jun-22	1030
15	श्री शासन कंसो	जीसीडी/पब्लिक सड़क से जोड़क तक आरसीसी/सीडी नाला निर्माण का कार्य।	5782226	2627663	0	0	52554	52554	0	26277	78	0	2496200	24-Jun-22	1029
			Total-	19881036	0	0	267532	397627	0	130345	2132	0	19083400		
15 वॉ वित्त आयोग-जून 2022															
1	श्री गीतिका कंसो	विभिन्न जगहों पर आस वेयर लगाने का कार्य।	3336733	1990570	0	0	39812	39812	0	19906	40	0	1891000	1-Jun-22	11
2	श्री महेश्वर कंसो	वार्ड-50 नुरलगर सरकारी नल से संगम शिखर छोटे हुंजे आरसीसी/सीडी नाला निर्माण का कार्य।	57910860	25115666	0	0	502314	502314	0	251157	81	0	23859800	1-Jun-22	12
3	श्री सविन कुमार कंसो	वार्ड-49 एएचएचएस से एक-30 तक आबेडर रोड एक नाला निर्माण का कार्य।	26424720	3531836	0	0	70637	70637	0	35319	43	0	3355200	1-Jun-22	13
4	श्री सुनील गॉ एच कंसो	वार्ड-61 एवं 54 के अन्तर्गत सुन्दरवा रोड से बुद्ध चौक तक मुख्य सड़क का सुधार कार्य।	9862062	1804346	0	0	36087	36087	0	18044	28	0	1714100	1-Jun-22	65
5	श्री एएचएचएस	विषयनगर जौन में विभिन्न तक मुख्य सड़क का सुधार कार्य।	3820699	1918431	0	0	38369	38369	0	19185	8	0	1822500	1-Jun-22	10
6	श्री सुनील गॉ एच कंसो	वार्ड-17 तेलपुडी शिखर रोड के सामने विषयन शिखर गौल कंसो के सामने पुल तक आरसीसी/सीडी नाला निर्माण कार्य।	17667220	10148082	0	0	202962	202962	0	101481	77	0	9640600	1-Jun-22	66

राजियाबाद नगर निगम

355

314

वित्तीय वर्ष 2022-2023 आयकर/व्यापार कर/जीएसटी/रायल्टी/सेस सेस टैक्स विवरण-

क्र.सं.	वर्ग का नाम	कार्य का विवरण	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	श्री सुंदर कन्सल्टिंग कम्पनी	वार्ड-07 विहारपुर में न्यू पार्क की टंकी के सुदामपुरी बाला विडर्स एक आरपीसी0 नाला निर्माण कार्य।	5335550	4595192	0	0	91904	91904	0	45952	32	0	4365400	1-Jun-22	15	16		
8	श्री वीएचएनएनएचएच	वार्ड-21 भोजपुर में नीलकण्ठ टनर के इस्तर से जलता के सामने से आरपीसी0 नाला निर्माण कार्य।	1598471	877725	0	0	17555	17555	0	8778	1037	0	832800	1-Jun-22	14			
9	श्री विमला इंटरप्राइजेज	वार्ड-96 रिवत साई एक्वेड में वेजलर आपूर्ति का कार्य।	951609	116414	0	0	2329	2329	0	1165	91	0	110500	1-Jun-22	15			
10	श्री विमला इंटरप्राइजेज	वार्ड-19 बोझा में 110 एचएम0 व्यास की 800 मी0 पार्क-1 लाईन डालने का कार्य।	929961	145488	0	0	2910	2910	0	1455	13	0	138200	1-Jun-22	16			
11	श्री शकुम्भरी कन्सल्ट	वार्ड-21 रुचनी अण्डरग्राउंड के सामने रिवत पार्क की मरम्मत एवं रंगई पुनई का कार्य।	619021	492755	880	0	9856	9856	0	4928	35	0	467200	1-Jun-22	20			
12	श्री शकुम्भरी कन्सल्ट	वार्ड-07 लाल खाटर रिवत टंकी वाले पार्क को विकसित करने का कार्य।	1519946	1186545	550	0	23731	23731	0	11866	67	0	1126600	1-Jun-22	21			
13	श्री शकुम्भरी कन्सल्ट	वार्ड-51 प्रतापविकार से-11 ई ब्लॉक के सामने पार्क के धार दीवारी मरम्मत एवं रंगई पुनई का कार्य।	499848	435216	168	0	8705	8705	0	4353	85	0	413200	1-Jun-22	19			
14	श्री शकुम्भरी कन्सल्ट	वार्ड-07 लाल खाटर रिवत टंकी वाले पार्क को विकसित करने का कार्य।	940976	617793	502	0	12356	12356	0	6178	1	0	586400	1-Jun-22	22			
15	श्री सुनी हार्डवेयर	वार्ड-37 विक्रम एण्डलेव में कुल 2 पार्कों के सौकरकरण का कार्य।	190085	121864	0	0	2438	2438	0	1219	7	0	118200	1-Jun-22	18			
16	श्री प्रयाग कान्स्ट्रक्टर	वार्ड-73 शालीमार गार्डन एक्स-2 शिव चौक से सहित नगर मुख्या नाले तक नयेपुरी नाले का आरपीसी0 द्वारा जला निर्माण का कार्य।	9310000	1329436	0	0	26589	26589	0	13295	63	0	1262900	1-Jun-22	576			
17	श्री नार्थ इंडिया डेवलपर्स	एचएम सुनी से राजनगर एक्स0 चौक तक रोड का डैम द्वारा सड़क सुधार कार्य।	19881422	9279254	0	0	185586	185586	0	92793	89	0	8815200	1-Jun-22	571			
18	श्री वृष्णा एंजिनियरिंग	वार्ड-37 शालीमार गार्डन में के विजया पार्क रोड पर बड़े नाले की जुलिया से दिल्ली की सीमा तक बहिस्त सड़क का डैम द्वारा सुधार कार्य।	4082769	2410489	0	0	48210	48210	0	24105	64	0	2289900	1-Jun-22	575			
19	श्री एचएम इंटरप्राइजेज	वार्ड-56 विरजीव विहार से-7 पार्क के स्थान पर विरजीव विहार वाले पार्क में 15 एचएम0 नलकूप अधिष्ठापन का कार्य।	3411450	1685900	0	0	33718	33718	0	16859	5	0	1601600	1-Jun-22	572			
20	श्री एचएम इंटरप्राइजेज	वार्ड-62 रिवत रोड साइल में 15 एचएम0 नलकूप अधिष्ठापन एवं जांचक निर्माण कार्य।	3411450	1392579	0	0	27852	27852	0	13926	49	0	1322900	1-Jun-22	573			
21	श्री एचएम इंटरप्राइजेज	वार्ड-18 एच-ब्लॉक शालीमार में 15 एचएम0 नलकूप अधिष्ठापन एवं जांचक निर्माण का कार्य।	2843750	1049388	0	0	20988	20988	0	10494	18	0	996900	1-Jun-22	574			
22	श्री एचएम इंटरप्राइजेज कम्पनी	वार्ड-91 कविनगर में ब्लॉक पार्क में 15 एचएम0 नलकूप अधिष्ठापन एवं जांचक निर्माण कार्य।	3319750	1405187	0	0	28104	28104	0	14052	27	0	1334900	1-Jun-22	568			
23	श्री एचएम इंटरप्राइजेज कम्पनी	वार्ड-65 कविनगर चौ-ब्लॉक में 15 एचएम0 नलकूप अधिष्ठापन का कार्य।	3447500	1544983	0	0	30900	30900	0	15450	33	0	1467700	15-Jun-22	569			
24	श्री एचएम इंटरप्राइजेज कम्पनी	वार्ड-08 जीएचडीएच0 मार्क पार्क में 15 एचएम0 नलकूप अधिष्ठापन का कार्य।	3447500	1481748	0	0	29635	29635	0	14818	60	0	1407600	15-Jun-22	570			
25	श्री सुरेंद्र इन्फ्रास्ट्रक्चर्स	जलकल स्टेर में 20 एचएम0 के 50 नग समरिबल एच सीट की आपूर्ति।	4358448	4358448	0	4359	0	87169	0	0	20	0	4266900	15-Jun-22	789			
26	श्री एचएम इंटरप्राइजेज	जलकल स्टेर में 10 एचएम0 के 50 नग समरिबल एच सीट की आपूर्ति।	368387	368387	0	369	0	7768	0	0	30	0	380200	15-Jun-22	792			
27	श्री एचएम इंटरप्राइजेज	जलकल स्टेर में 10 एचएम0 के 50 नग समरिबल एच सीट की आपूर्ति।	1054192	1054192	0	1055	0	21084	0	0	53	0	1032000	15-Jun-22	793			
28	श्री एचएम इंटरप्राइजेज	जलकल स्टेर में 10 एचएम0 के 50 नग समरिबल एच सीट की आपूर्ति।	1054192	1054192	0	1055	0	21084	0	0	53	0	1032000	15-Jun-22	794			

वित्तीय वर्ष 2022-2023 आयकर/व्यापार कर/जीओएसटी/राजस्वी/सेवर सेस टेक्स विवरण

क्र.सं.	वर्ग का नाम	विवरण	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
29	शहरी इन्जीनियरिंग	जलवायु स्टोर में 10 एचपीओ के 50 नग सप्लायबल पंप सेट की आपूर्ति।	277419	277419	0	278	0	5549	0	0	0	0	0	92	0	271500	15-Jun-22	795
30	शहरी इन्जीनियरिंग	विभिन्न पार्कों की मरम्मत का कार्य।	3496198	2067269	1568	0	41346	0	0	20673	36	0	1962300	0	0	15-Jun-22	788	
31	शहरी इन्जीनियरिंग	वार्ड-17 सेवानगर डिजिटल विचार में सार्वजनिक स्टोर तक आरक्षित/सीमांकित नाला व सड़क निर्माण कार्य।	1862400	1801684	0	0	36034	0	0	18017	99	0	1711500	0	0	15-Jun-22	797	
32	शहरी इन्जीनियरिंग	वार्ड-17 सेवानगर गैलरी स्टूल से मलिन के मलान तक आरक्षित/सीमांकित नाला व सड़क निर्माण कार्य।	1132184	55793	0	0	1116	0	0	558	3	0	53000	0	0	15-Jun-22	790	
33	शहरी इन्जीनियरिंग	वार्ड-55,26 सेन कैम से गौशाला पुलिस चौकी तक सड़क सुधार कार्य।	9086750	1017434	0	0	20349	0	0	10175	61	0	966500	0	0	15-Jun-22	791	
34	शहरी इन्जीनियरिंग	मेटल टिपलास तक विस्कर्मा मार्ग व क सड़क सुधार का कार्य।	61938965	1852411	0	0	37049	0	0	18525	88	0	1759700	0	0	15-Jun-22	796	
35	शहरी इन्जीनियरिंग	वार्ड-35 पवन चौकान केवडीओ स्कूल होते हुये मंगल बाजार रोड तक आरक्षित/सीमांकित नाला निर्माण कार्य।	2846199	138522	0	0	2771	0	0	1386	94	0	131500	0	0	18-Jun-22	856	
36	शहरी इन्जीनियरिंग	वार्ड-35 अशोक यादव के मलान से शुरुआत मार्ग हासल के मार्ग का कार्य।	2022299	627929	0	0	12559	0	0	6280	31	0	596500	0	0	18-Jun-22	857	
37	शहरी इन्जीनियरिंग	वार्ड-21 सेवानगर में युवा बाजार रोड पर शीक्रेड स्टोर से शीक्रेड तक आरक्षित/सीमांकित नाला निर्माण कार्य।	2627964	2392238	0	0	47845	0	0	23923	1025	0	2271600	0	0	18-Jun-22	854	
38	शहरी इन्जीनियरिंग	वार्ड-33 गैलरी स्टडी से सेलेने रोड तक नाला निर्माण का कार्य।	3530512	1472429	0	0	29449	0	0	14725	6	0	1398800	0	0	18-Jun-22	855	
39	शहरी इन्जीनियरिंग	वार्ड-07 विहारपुर में नाला व टायरस लगाने का कार्य।	5335550	722650	0	0	14453	0	0	7227	17	0	686500	0	0	18-Jun-22	899	
40	शहरी इन्जीनियरिंग	वार्ड-37,38,45,73,80 आरक्षित/सीमांकित पार्क 15 एचपीओ तकसुआ अतिथिगृह एवं आरक्षित/सीमांकित नाला निर्माण कार्य।	3430000	928850	0	0	18577	0	0	9289	7	0	882400	0	0	18-Jun-22	898	
41	शहरी इन्जीनियरिंग	वार्ड-38 अर्थव्यवस्था वार्ड पार्क में 15 एचपीओ तकसुआ अतिथिगृह एवं आरक्षित/सीमांकित नाला निर्माण कार्य।	3430000	1523858	0	0	30478	0	0	15239	63	0	1447600	0	0	18-Jun-22	897	
42	शहरी इन्जीनियरिंग	15 एचपीओ तकसुआ अतिथिगृह का कार्य।	3461500	94546	0	0	0	0	0	0	0	0	94546	0	0	18-Jun-22	861	
43	शहरी इन्जीनियरिंग	15 एचपीओ तकसुआ अतिथिगृह का कार्य।	3461500	40210	0	0	0	0	0	0	0	0	40210	0	0	18-Jun-22	862	
44	शहरी इन्जीनियरिंग	वार्ड-24 पार्क व नगर क्षेत्र तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क तक आरक्षित/सीमांकित नाला निर्माण कार्य।	15665943	3904767	0	0	78096	0	0	39048	27	0	3709500	0	0	18-Jun-22	858	
45	शहरी इन्जीनियरिंग	वार्ड-16 मौरटा अवेन्यु पार्क का निर्माण का कार्य।	1288516	862866	459	0	17258	0	0	8629	62	0	819200	0	0	18-Jun-22	859	
46	शहरी इन्जीनियरिंग	वार्ड-62 एच-ब्लॉक रिहायश शिवालय ग्रीन बेल्ट की मरम्मत का कार्य।	1087917	1050505	1692	0	21011	0	0	10506	85	0	996200	0	0	18-Jun-22	860	
47	शहरी इन्जीनियरिंग	शोर टू शोर कूलिंग क्लेयान के कार्य हेतु 100 नग ई-बाहन की आपूर्ति।	21500000	860000	0	860	0	17200	0	0	40	0	841900	0	0	18-Jun-22	863	
48	शहरी इन्जीनियरिंग	शोर टू शोर कूलिंग क्लेयान के कार्य हेतु 100 नग ई-बाहन की आपूर्ति।	0	860000	0	860	0	17200	0	0	40	0	841900	0	0	18-Jun-22	864	
49	शहरी इन्जीनियरिंग	शोर टू शोर कूलिंग क्लेयान के कार्य हेतु 100 नग ई-बाहन की आपूर्ति।	0	860000	0	860	0	17200	0	0	40	0	841900	0	0	18-Jun-22	865	
50	शहरी इन्जीनियरिंग	शोर टू शोर कूलिंग क्लेयान के कार्य हेतु 100 नग ई-बाहन की आपूर्ति।	0	860000	0	860	0	17200	0	0	40	0	841900	0	0	18-Jun-22	866	
51	शहरी इन्जीनियरिंग	शोर टू शोर कूलिंग क्लेयान के कार्य हेतु 100 नग ई-बाहन की आपूर्ति।	0	860000	0	860	0	17200	0	0	40	0	841900	0	0	18-Jun-22	867	
52	शहरी इन्जीनियरिंग	शोर टू शोर कूलिंग क्लेयान के कार्य हेतु 100 नग ई-बाहन की आपूर्ति।	0	860000	0	860	0	17200	0	0	40	0	841900	0	0	18-Jun-22	868	
53	शहरी इन्जीनियरिंग	शोर टू शोर कूलिंग क्लेयान के कार्य हेतु 100 नग ई-बाहन की आपूर्ति।	0	860000	0	860	0	17200	0	0	40	0	841900	0	0	18-Jun-22	869	

गण्डियाबाद नगर निगम 316
 आरक/व्यापार कर/सीएसटी/रायल्टी/वेयर सेस टेक्स विवरण-

क्र.सं.	उप. का नाम	कार्य का विवरण	दोहर राशि	रन ओवर	गैलरी	T.D.S 1%	आपकर	जी.एस.टी.	व्यापार कर	सेस	अव.वे.गैलरी	करीबी	पुनःदान राशि	दिनांक	वाउचर सं०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
54	श्री इन्डिया इन्टरप्राइजेज	डोर टू डोर बूझ कलेक्शन के कार्य हेतु 100 नग ई-बालन की आपूर्ति।	0	8600000	0	860	0	17200	0	0	40	0	841900	18-Jun-22	870
55	श्री इन्डिया इन्टरप्राइजेज	डोर टू डोर बूझ कलेक्शन के कार्य हेतु 100 नग ई-बालन की आपूर्ति।	0	8600000	0	860	0	17200	0	0	40	0	841900	18-Jun-22	871
56	श्री इन्डिया इन्टरप्राइजेज	डोर टू डोर बूझ कलेक्शन के कार्य हेतु 100 नग ई-बालन की आपूर्ति।	0	8600000	0	860	0	17200	0	0	40	0	841900	18-Jun-22	872
57	श्री इन्डिया इन्टरप्राइजेज	डोर टू डोर बूझ कलेक्शन के कार्य हेतु 100 नग ई-बालन की आपूर्ति।	0	8600000	0	860	0	17200	0	0	40	0	841900	18-Jun-22	873
58	श्री इन्डिया इन्टरप्राइजेज	डोर टू डोर बूझ कलेक्शन के कार्य हेतु 100 नग ई-बालन की आपूर्ति।	0	645000	0	645	0	12900	0	0	55	0	631400	18-Jun-22	874
59	श्री इन्डिया इन्टरप्राइजेज	डोर टू डोर बूझ कलेक्शन के कार्य हेतु 100 नग ई-बालन की आपूर्ति।	0	645000	0	645	0	12900	0	0	55	0	631400	18-Jun-22	875
60	श्री शान्तनु कन्सो	वार्ड-24 शंकर विहार कृष्णा विहार की आंतरिक सड़क एवं नली निर्माण कार्य।	18658129	4238919	0	0	84779	84779	0	42390	71	0	4026900	18-Jun-22	1034
61	श्री प्रेम कन्सो	सॉफ्ट पट्टी का कार्य।	11900929	4682021	0	0	93641	93641	0	46821	2018	0	4445900	18-Jun-22	1033
62	श्री कृष्णा एस्तो	सीर उर्वी जर्न तक सड़क के दोनों सॉफ्ट पेर स्टाक का कार्य।	3567333	1462817	0	0	29257	29257	0	14629	1074	0	1388600	18-Jun-22	1031
63	श्री राजा कास्ट्रोर एण्ड इन्जीनी	वार्ड-88 में मशीनर के आकस से दोर रिक्त क्षेत्र तक नाला निर्माण कार्य।	5580599	2421173	0	0	48424	48424	0	24212	13	0	2300100	18-Jun-22	1032
64	श्री अकाश इन्फ्रास्ट्रक्चर	वार्ड-29 में बगीचा रोड से डिफेन्स कालोनी का आरंभिक नाला निर्माण कार्य।	10999156	3579726	0	0	71595	71595	0	35798	38	0	3400700	24-Jun-22	1036
65	श्री अकाश इन्फ्रास्ट्रक्चर	वार्ड-80 करगोट तक 150 फुट सॉफ्ट रोड का सुधार कार्य।	18019690	3565766	0	0	71316	71316	0	35658	76	0	3387400	24-Jun-22	1035
67	श्री इन्दुप इन्टरप्राइजेज	वार्ड-28 रिक्त नौलपनी कालोनी में 15 एचपीओ नलबूझ अधिव्यापन का कार्य।	3236450	1598528	0	0	31971	31971	0	15986	0	0	1518600	24-Jun-22	1045
68	श्री इन्दुप इन्टरप्राइजेज	वार्ड-28 रिक्त नौलपनी कालोनी में 15 एचपीओ नलबूझ अधिव्यापन का कार्य।	3236450	81732	0	0	0	0	0	0	0	0	81732	24-Jun-22	1052
69	श्री इन्दुप इन्टरप्राइजेज	वार्ड-28 रिक्त नौलपनी कालोनी में 15 एचपीओ नलबूझ अधिव्यापन का कार्य।	3236450	30227	0	0	0	0	0	0	0	0	30227	24-Jun-22	1053
70	श्री श्रीपीठक ग्रीनवुड प्राइवेट	वार्ड-60 स्याम्पाई में घास व सजावटी पौधों की आपूर्ति एवं पंजिंग का कार्य।	25362564	1291327	0	0	258265	258265	0	129133	74	0	12267500	24-Jun-22	1041
71	श्री श्रीन आर्ट लैण्ड स्कैन प्राइवेट	वार्ड-60 राजेन्द्रनगर में स्थित 12 पार्क के सौन्दर्यकरण हेतु घास व पेड़ पौधों की आपूर्ति का कार्य।	618207	541259	0	0	10826	0	0	5413	20	0	525000	24-Jun-22	1049
72	श्री श्रीन आर्ट लैण्ड स्कैन प्राइवेट	वार्ड-60 स्याम्पाई में घास व सजावटी पौधों की आपूर्ति एवं सजाने का कार्य।	1075762	946708	0	0	18935	0	0	9468	5	0	918300	24-Jun-22	1048
73	श्री श्रीन आर्ट लैण्ड स्कैन प्राइवेट	वार्ड-74 रिक्त कुल 6 पार्क के सौन्दर्यकरण हेतु घास व पेड़ पौधों की आपूर्ति एवं सजाने का कार्य।	642574	591018	0	0	11821	0	0	5911	86	0	573200	24-Jun-22	1050
74	श्री श्रीन आर्ट लैण्ड स्कैन प्राइवेट	वार्ड-91 कुल 2 पार्कों के सौन्दर्यकरण के सतत घास व सजावटी पौधों की आपूर्ति का कार्य।	853167	668919	0	0	13379	0	0	6690	50	0	648800	24-Jun-22	1046
75	श्री श्रीन आर्ट लैण्ड स्कैन प्राइवेट	घास एवं सजावटी पेड़ पौधों की आपूर्ति का कार्य।	1058077	956599	0	0	19132	0	0	9566	1	0	927900	27-Jun-22	1051
76	श्री श्रीन आर्ट लैण्ड स्कैन प्राइवेट	घास एवं सजावटी पेड़ पौधों की आपूर्ति का कार्य।	1167280	1062034	0	0	21241	0	0	10621	72	0	1030100	27-Jun-22	1047
77	श्री श्रीप इन्टरप्राइजेज	वार्ड-100,79,81 में पार्कों के सौन्दर्यकरण के सतत घास व सजावटी पौधों की आपूर्ति एवं सजाने का कार्य।	551653	422391	0	0	8446	0	0	4224	19	0	409700	27-Jun-22	1043
78	श्री महेशवर्क कास्ट्रोर	वार्ड-48 नन्दग्राम शहीद मेमोरियल स्मॉल पार्क को विकसित करना।	2879719	784316	1452	0	15687	15687	0	7844	46	0	743600	27-Jun-22	1044
79	श्री रॉयल कन्सो	मेरठ रोड से आरंभिक तक सॉफ्ट पट्टी पर ग्रास पेर लगाने का कार्य।	18343289	2072108	0	0	41442	41442	0	20722	2	0	1968500	27-Jun-22	1042

-765-

गण्डियाबाद नगर निगम

वित्तीय वर्ष 2022-2023 आयकर/व्यापार कर/जीओएसटी/रायस्ती/वेबर सेस टेक्स विवरण

317

क्र.सं.	वर्ग का नाम	कार्य का विवरण	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	वृत्तवार सं.
80	शुभत इन्टरप्रिजिन्स	आरपीसीडी सीवर लाईन डालने का कार्य।	4897230	2893959	0	0	57880	57880	0	28940	59	0	2749200	27-Jun-22	1069			
81	श्री शर्मा कन्स्ट्रक्शन्स	आरपीसीडी सीवर लाईन डालने का कार्य।	3033611	1612016	0	0	32241	32241	0	16121	13	0	1531400	27-Jun-22	1066			
82	श्री शर्मा कन्स्ट्रक्शन्स	आरपीसीडी सीवर लाईन डालने का कार्य।	2284997	551209	0	0	11025	11025	0	5513	46	0	523600	27-Jun-22	1067			
83	श्री गोपाल इन्टरप्रिजिन्स	वार्ड-94 सुलेमन ए-ब्लॉक एवं रामपुरी में 110 एमएमडी व्यास की रेनवटर एमएमडी/पीपीई पाईप लाईन डालने का कार्य।	9759380	5725796	0	0	114516	114516	0	57258	6	0	5439500	27-Jun-22	1070			
84	श्री गोपाल इन्टरप्रिजिन्स	वार्ड-41 सौर जर्ज मार्ग पर स्थित कौशाथी बस डिपो गेट से राज रोड तक आरपीसीडी नाला निर्माण कार्य।	4627870	2285160	0	0	45704	45704	0	22852	1000	0	2169900	27-Jun-22	1071			
85	श्री गोपाल इन्टरप्रिजिन्स	वार्ड-50/11 सुलेमन ए-ब्लॉक जल से संग्रह विहार तक आरपीसीडी नाला निर्माण कार्य।	57910860	15624994	0	0	312500	312500	0	156250	5244	0	14838500	27-Jun-22	1068			
अवसरायणा विकास निधि-जुलाई 2022			Total-	184426118	7271	17886	3325963	3577391	0	1662998	14588	0	175820015					
1	श्री गोपाल इन्टरप्रिजिन्स	वार्ड-83 राजेश्वर रोड-3 ब्लॉक 9.10 एवं 11 में सीवर लाईन से संचित साईट पर इंटरलॉकिंग टारस का कार्य।	5742464	389437	0	0	7789	7789	0	3895	10064	0	359900	13-Jul-22				
2	श्री गोपाल इन्टरप्रिजिन्स	नेहरूनगर स्थित अडिक्टोरियम सिटीजन क्लब लिफ्ट 4 एमएमडी/पीपीई ओडियम सिस्टम कास अलार्म आदि कार्य।	48623390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	13-Jul-22	753			
14 वें वित्त आयोग-जुलाई 2022			Total-	389437	0	0	7789	7789	0	3895	10064	0	859900					
1	श्री गोपाल इन्टरप्रिजिन्स	आपरेशन क्वार्टर अंतर्गत वार्ड-62 प्राथमिक विद्यालय सौकर्य कार्य।	1814093	510662	0	0	10214	10214	0	5107	3027	0	482100	14-Jul-22	753			
2	श्री गोपाल इन्टरप्रिजिन्स	वार्ड-18 प्राथमिक विद्यालय रामपुर 1 सौकर्य कार्य।	1770435	815043	0	0	16301	16301	0	8151	3090	0	771200	14-Jul-22	749			
3	श्री गोपाल इन्टरप्रिजिन्स	वार्ड-54 से-1/502,1/533,1/577 तक सड़क ड्रैस सुधार व इंटरलॉकिंग टारस लगाने व नाली सुधार कार्य।	19532800	5226780	0	0	104536	104536	0	52268	40	0	4965400	14-Jul-22	755			
4	श्री गोपाल इन्टरप्रिजिन्स	वार्ड-60 श्यामपार्क में साहिबाबाद स्टेज रोड पर स्थित नगर निगम बसिडक विद्यालय से 2 मील निर्माण कार्य।	1711430	25000	0	0	500	500	0	250	1050	0	22700	14-Jul-22	747			
5	श्री गोपाल इन्टरप्रिजिन्स	आपरेशन क्वार्टर के अंतर्गत वार्ड-30 प्राथमिक विद्यालय रामपुर सुदुर्गकरण कार्य।	1722446	729016	0	0	14581	14581	0	7291	4063	0	688500	14-Jul-22	754			
6	श्री गोपाल इन्टरप्रिजिन्स	वार्ड-76 श्यामी पीपल्स/पीपीई ब्लॉक से डबल रोड तक शीतप्रसन्न सड़क का सुधार कार्य।	11000000	718294	0	0	14366	14366	0	7183	3579	0	678800	14-Jul-22	752			
7	श्री गोपाल इन्टरप्रिजिन्स	महामया स्टेशन के सामने से नया बस अड्डे के कोने तक आरपीसीडी नाला निर्माण कार्य।	4998000	523781	0	0	10476	10476	0	5238	1291	0	496300	14-Jul-22	748			
8	श्री गोपाल इन्टरप्रिजिन्स	वार्ड-77 वैशाली टूरिज्म-एक में सीवर से संचित अतिसूक्ष्म सड़क सुधार कार्य।	10000000	658654	0	0	13178	13178	0	6589	9	0	625900	14-Jul-22	751			
9	श्री गोपाल इन्टरप्रिजिन्स	आपरेशन क्वार्टर अंतर्गत वार्ड-30 प्राथमिक विद्यालय रामपुर-02 का सौकर्य कार्य।	1672339	843967	0	0	16880	16880	0	8440	3067	0	798700	14-Jul-22	750			
10	श्री गोपाल इन्टरप्रिजिन्स	नगर निगम सीमांतवर्ति विपिन गार्ड में स्थापित स्थल जोले पर एमएमडी/पीपीई साईट लगाने हेतु 70 एवं 190 वाट की एमएमडी/पीपीई साईट को लगाने का कार्य।	13880385	13880385	0	13881	0	277608	0	0	96	0	13588800	28-Jul-22	1009			
11	श्री गोपाल इन्टरप्रिजिन्स	मीडनगर जैन कृष्ण इन्जी कालेज के सामने से जुलमीर रोसावटी के सामने 300 एमएमडी व्यास की 1100 मीटर आरपीसीडी सीवर लाईन डालने का कार्य।	4426672	1771475	0	0	35430	35430	0	17715	2500	0	1680400	28-Jul-22	961			

गणित्याबाद मार निगम

- 767 -
गणित्याबाद मार निगम
क/वी/एस/डी/राय/सी/सेर सेस टेक्स विवरण-

318

क्र.सं.	वर्ग का नाम	कर का विवरण	देवर राशि	उर्जा और	राय/सी	T.D.S 1%	आयकर	वी.एस.डी.	व्यापार कर	सेस	अन्य/प्राप्ती	कुल राशि	वित्तिक	कार्य सं.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	श्री राजवत करार	वार्ड-64 मरिगा गार्डन प्राथमिक विद्यालय में रंगई पुताई हेन्डवर्क युनिट सैटिक किट तथा रिट आदि का कार्य।	1643790	335653	0	0	6714	6714	0	3357	68	0	318800	28-Jul-22	1006
13	श्री माईन इन्जीनरिंग	वार्ड-65 विवेकानन्द मन्दिर के पीछे से रेलवे लाईन तक वाले के साथ आरएसीपीटी रिटिंग वाल का कार्य।	6993002	56500	0	0	1130	1130	0	565	1575	0	52100	28-Jul-22	941
14	श्री पीपीपीरिलकोन प्राविठि	मेड रोड नन्दग्राम मुख्य मार्ग से काका मार्ग तक हिरावर निर्माण व डैस सडक पुनार का कार्य तथा अन्येडकर खन से टैम्पु चीगाडे होते हुये ग्रीन सडक पुनार का कार्य।	23000516	1972269	0	0	39446	39446	0	19723	54	0	1873600	28-Jul-22	942
15	श्री एसकेवीकेलर्स	आपरेशन कायाकर के अन्तर्गत वार्ड-24 कम्पोजिट विद्यालय कागिपुरा का सौन्दर्यकरण का कार्य।	1440750	759141	0	0	15183	15183	0	7592	1583	0	719600	28-Jul-22	944
16	श्री एसकेवीकेलर्स	आपरेशन कायाकर के अन्तर्गत वार्ड-24 कम्पोजिट विद्यालय महरीली में प्राईमरी स्कूल का सुदृढीकरण का कार्य।	3040373	1588431	0	0	31769	31769	0	15885	2508	0	1506500	28-Jul-22	943
17	श्री एसकेवीकेलर्स	वार्ड-24 महरीली में गार निगम बालिका कलेज के नवीनीकरण का कार्य।	7070993	3963552	0	0	79271	79271	0	39636	54	0	3765300	28-Jul-22	1010
18	श्री आरपीपीआइएनर	प्रेमरा योजना के अन्तर्गत वार्ड-28 राजीव कालोनी स्थित कार्टेड्रा प्राथमिक विद्यालय की रंगई पुताई सौचालय मरम्मत फर्श में टर्नस रिक्वैन्ट जप हेतु औद्योगिक हेन्डवर्क युनिट समरसिवाल आदि का कार्य।	3010876	1087014	0	0	21741	21741	0	10871	61	0	1032600	28-Jul-22	1007
19	श्री प्रेम करार	वार्ड-18 कम्पोजिट विद्यालय रणपुर का सुदृढीकरण का कार्य।	2111424	1671797	0	0	33436	33436	0	16718	7	0	1588200	28-Jul-22	1008
20	श्री डीपीकेएसएडएकेके इण्डिया प्राविठि	वार्ड-18 कम्पोजिट विद्यालय अकनपुर औद्योगिक का कार्य।	3884299	2810372	0	0	56208	56208	0	28104	2052	0	2667800	28-Jul-22	991
21	श्री डीपीकेएसएडएकेके इण्डिया प्राविठि	विद्यमान जोन के अन्तर्गत कम्पोजिट विद्यालय प्रताप बिहार का नवीनीकरण का कार्य।	3887792	2238955	0	0	44780	44780	0	22390	5	0	2127000	28-Jul-22	992
22	श्री मोहित चौधरी	वार्ड-64 मरिगा गार्डन के रिक्वैन्डरु पॉन् में स्थित प्राईमरी पाठशाला में रंगई पुताई फर्श में टर्नस लगाने का कार्य।	1582485	228994	0	0	4580	4580	0	2290	44	0	217500	28-Jul-22	1005
23	श्री आरपीपीकेलर्सके इन्जीनरिंग	मेरठ रोड हिचन मोटल से पुताई पुताई तथा आरपीपीसी नाला निर्माण का कार्य।	43204986	8879237	0	0	177585	177585	0	88793	1174	0	8434100	28-Jul-22	963
24	श्री कनकोहन सिंह खुन्गी	आपरेशन कायाकर के अन्तर्गत वार्ड-53 कम्पोजिट रईसुर सुदृढीकरण का कार्य।	2648905	56496	0	0	1130	1130	0	565	71	0	53600	28-Jul-22	1004
25	श्री आशम करार	वार्ड-59 कम्पोजिट विद्यालय डरना गेट के पास टर्नस लगाने का कार्य।	499102	149854	0	0	2998	2998	0	1499	59	0	142300	28-Jul-22	960
26	श्री चन्द्रवीरन सिंह खुन्गी	वार्ड-07 मोल्ला बिरपुरा प्राईमरी विद्यालय खन बाजडीवाल एवं सौचालय आदि की मरम्मत का कार्य।	3596653	56000	0	0	1120	1120	0	560	0	0	53200	28-Jul-22	1003
27	श्री शालभु करार	वार्ड-38 अर्धला के पूर्वोक्त खन की बाजडीवाल का निर्माण कार्य।	8990016	604072	0	0	12082	12082	0	6041	67	0	573800	28-Jul-22	962
28	श्री प्रेम करार	वार्ड-43 सीर उर्जा मार्ग स्थित कडकड माल रमलीला खान के पीने और नाला एवं डैस पुनार का कार्य।	3149498	1127900	0	0	22558	22558	0	11279	5005	0	1066500	28-Jul-22	995
29	श्री प्रेम करार	वार्ड-04 में प्राथमिक विद्यालय विणपुर में सौचालय आदि मरम्मत का कार्य।	1830727	1771639	0	0	35433	35433	0	17717	56	0	1683000	28-Jul-22	996
30	श्री डीपीकेएसएडएकेके इण्डिया प्राविठि	विद्यमान जोन के अन्तर्गत वार्ड-04 व 14 के मध्य स्थित रीन चौक से सटोम भीडकल तिगाडे तक डैस का कार्य।	12316094	732558	0	0	14652	14652	0	7326	28	0	695900	28-Jul-22	994
31	श्री प्रेम करार	वार्ड-57 मकपुर बालिका विद्यालय के बच्चों की करार के सुगन्धद्रव्य खन हेतु पंच करार व सुरास हेतु चार दिवारी का निर्माण कार्य।	9727920	6621854	0	0	132438	132438	0	66219	59	0	6290700	28-Jul-22	997

319

गाजियाबाद नगर निगम

वित्तीय वर्ष 2022-2023 आयकर/व्यापार कर/जीएसटी/रायस्ती/लेबर सेस टेक्स डिस्ट्रिक्ट

क्र.सं.	उप. का नाम	कार्य का विवरण	डिप्टर एंशि	टर्न ओवर	पेयबल	T.D.S 1%	आयकर	जी.एस.टी.	व्यापार कर	सेस	अन्य/लेबरी	कटौती	सुगुण राशि	दिनांक	वाउचर सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	श्री डीकेएसएफएस्टेक इन्डिया प्राइवेट लि.	विपणनार्ज जोन के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय का कार्यालय का जीर्णोद्धार का कार्य।	2382063	2003159	0	0	40064	40064	0	20032	1099	0	1901900	28-Jul-22	993
33	श्री विपिन कंसरो	आपरेसन कायकल्प के अंतर्गत वार्ड-62 प्राथमिक विद्यालय गोविन्दपुरम का सुदृढीकरण का कार्य।	2345770	408242	0	0	8165	8165	0	4083	2529	0	385300	28-Jul-22	1002
34	श्री विपिन कंसरो	आपरेसन कायकल्प के अंतर्गत वार्ड-30 कम्पोजिट विद्यालय मधुबन बापूयाम का सुदृढीकरण का कार्य।	2668031	508025	0	0	10161	10161	0	5081	2522	0	480100	28-Jul-22	1001
35	श्री आईएचएचएफएल कंसर्पो	वार्ड-75 लालपुरा नगर में प्राईमरी एजुकेशनल लॉजिस्टिक्स आपरेसन विद्यालय हेतु शौचालय हेक्वाथिगन सूटिड तथा अतिरिक्त मार्ग का कार्य।	1144428	66080	0	0	1322	1322	0	661	75	0	62700	28-Jul-22	1000
36	श्री डीएम कंसरो	आपरेसन कायकल्प के अंतर्गत वार्ड-60 स्पोर्ट्स पार्क में नगर निगम बसिडल विद्यालय में प्रयागवार्ड एवं गाजियाबाद का निर्माण लॉजिस्टिक्स का कार्य।	7409696	5809063	0	0	116182	116182	0	58091	8	0	5518600	28-Jul-22	998
37	श्री आईएचएचएफएल कंसर्पो	वार्ड-34 शहीदनगर में वेगबोली राम स्कूल में रंगई पुनई डिजायनिंग हेतु शौचालय हेक्वाथिगन सूटिड सेलिक डेक का कार्य।	2452971	132541	0	0	2651	2651	0	1326	13	0	125900	28-Jul-22	999
38	श्री दर्शन कंसरो	वार्ड-63 एसीला में एसीला प्राईमरी हाउसिंग कम्प्लेक्स में सुदृढीकरण का कार्य।	1849019	589052	0	0	11782	11782	0	5891	97	0	559500	28-Jul-22	1111
39	श्री दर्शन कंसरो	आपरेसन कायकल्प के अंतर्गत वार्ड-92 प्राथमिक विद्यालय बरौड का सुदृढीकरण का कार्य।	2382598	1319102	0	0	26383	26383	0	13192	2544	0	1250600	28-Jul-22	109
40	श्री दर्शन कंसरो	वार्ड-20 मीपुरा में रंगई पुनई शौचालय हेक्वाथिगन सूटिड समरिडल टार्लस शौचालय का कार्य।	2285691	369599	0	0	7392	7392	0	3696	19	0	351100	28-Jul-22	1120
41	श्री चौधरी एसेरो	आपरेसन कायकल्प के अंतर्गत वार्ड-16 प्राथमिक विद्यालय नदी पुनार का सुदृढीकरण का कार्य।	1745547	301687	0	0	6034	6034	0	3017	2002	0	284600	31-Jul-22	1106
42	श्री सीसा कंसरो	ट्रेणग कोजना के अंतर्गत वार्ड-38 अर्धला कम्पोजिट विद्यालय के रंगई पुनई फर्निचर में टार्लस तथा शौचालय में टार्लस हेक्वाथिगन सूटिड बालक्रीडाल का लॉन्डर रूम गेट से स्कूल तथा डिजायनिंग हेतु एक शौचालय का निर्माण का कार्य।	2703792	408789	0	0	8176	8176	0	4088	49	0	388300	31-Jul-22	1121
43	श्री सीसा कंसरो	वार्ड-07 नीकला सुपामपुरी में प्राईमरी विद्यालय भवन बालक्रीडाल एवं शौचालय आदि मरम्मत का कार्य।	3183563	281316	0	0	5627	5627	0	2814	48	0	267200	31-Jul-22	1122
44	श्री शाकुनारी कंसरो	वार्ड-01 लखनगर कालोनी रिडल प्राथमिक विद्यालय भवन बालक्रीडाल एवं शौचालय आदि मरम्मत का कार्य।	2689060	769715	0	0	15395	15395	0	7698	27	0	645864	31-Jul-22	1124
45	श्री शाकुनारी कंसरो	वार्ड-01 लखनगर कालोनी रिडल प्राथमिक विद्यालय भवन बालक्रीडाल एवं शौचालय आदि मरम्मत का कार्य।	2689060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85336	31-Jul-22	1103
46	श्री चौधरी एसेरो	आपरेसन कायकल्प अंतर्गत वार्ड-46 कम्पोजिट विद्यालय डिक्टर का सुदृढीकरण का कार्य।	2037754	453833	0	0	9077	9077	0	4539	2040	0	429100	31-Jul-22	1108
47	श्री सीसा कंसरो	आपरेसन कायकल्प के अंतर्गत वार्ड-46 कम्पोजिट विद्यालय पुनई का सुदृढीकरण का कार्य।	3283612	2097197	0	0	41944	41944	0	20972	37	0	1992300	31-Jul-22	1119
48	श्री दर्शन कंसरो	वार्ड-65 एसीला प्राथमिक विद्यालय में रंगई पुनई सूटिड हेक्वाथिगन सूटिड डिजायनिंग हेतु शौचालय फर्निचर में टार्लस तथा शौचालय मरम्मत का कार्य।	1316415	504995	0	0	10100	10100	0	5050	45	0	479700	31-Jul-22	1110
49	श्री दर्शन कंसरो	वार्ड-34 शहीदनगर रंगई पुनई फर्निचर में टार्लस आदि का कार्य।	1688872	627238	0	0	12545	12545	0	6273	75	0	595800	31-Jul-22	1123
50	श्री मीना कंसरो	वार्ड-92 प्राथमिक विद्यालय इलाहाबाद का मीनिक उन्नयन का कार्य।	1616235	946342	0	0	18927	18927	0	9464	24	0	899000	31-Jul-22	1104

वित्तीय वर्ष 2022-2023 आयकर/व्यापार कर/वीएसडी/रायस्दी/सेवा सेस टेक्स विवरण-

326

क्र.सं.	कर्म का नाम	कर्म का विवरण	देखर राशि	ईए.सी.डी.	आयकर	T.D.S 1%	आयकर	आयकर कर	सेस	अच/आयसी	कटौती	मुताबक राशि	दिनांक	वाउचर सं०	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

51	श्री महिला क्लब	वार्ड-92 प्राथमिक विद्यालय इलाहाबाद का शैक्षिक उत्थान का कार्य।	1969217	797002	0	0	15940	15940	0	7971	51	0	757100	31-Jul-22	1105
52	श्री सीसा क्लब	आपरेशन कयाकर के अन्तर्गत वार्ड-92 कम्पोजिट विद्यालय शाहपुर बरीदा का सुदृढीकरण कार्य।	3982225	1148263	0	0	22966	22966	0	11483	1548	0	1089300	31-Jul-22	1117
53	श्री सीसा क्लब	वार्ड-93 क्रीडाघटा अन्न क्लोनी सॉई उपवन में विद्या/भविष्य से पुल तक आरसीसी0 जाने का निर्माण कार्य।	8285786	1955200	0	0	39104	39104	0	19552	40	0	1857400	31-Jul-22	1112
54	श्री नार्थ इन्डिया इलाहाबाद	वार्ड-04 एवं 14 में एपू के पुनार से डीएमसी0 स्कूल के पास तक आरसीसी0 नया निर्माण कार्य।	8236268	1671728	0	0	33435	33435	0	16718	40	0	1588100	31-Jul-22	1133
55	श्री डीएमसीएस/आरसीसी/विद्या प्राप्ति	विद्यमान जोन के अन्तर्गत वार्ड-02 मोहला खुल विहार में प्राथमरी विद्यालय पवन बाउंड्रीवाल एवं शैवाल और मर्याद का कार्य।	1777743	389085	0	0	7782	7782	0	3891	30	0	369600	31-Jul-22	1071
56	श्री शाकुबरी क्लब	विद्यमान जोन अन्तर्गत विद्यालय का जीर्णोद्धार कार्य।	4703228	1103475	0	0	22070	22070	0	11035	0	0	1048300	31-Jul-22	1125
57	श्री डीएमसीएस/आरसीसी/विद्या प्राप्ति	वार्ड-56 विलीय विहार में 6/13 से 6/148 तक डैस द्वारा सड़क सुधार कार्य।	1140007	1084109	0	0	21683	21683	0	10842	1	0	1029900	31-Jul-22	1067
58	श्री अमलीक एसे	नगरीय के अन्तर्गत सांख्यिक शैवाल/वृत्त निर्माण कार्य।	209633	209633	0	0	4193	4193	0	2097	50	0	199100	31-Jul-22	1069
59	श्री डीएमसीएस/आरसीसी/विद्या प्राप्ति	कविनगर बुलडोजर इन्फ्रस्ट्रक्चर में ई-42 से 53 तक डैस द्वारा सड़क सुधार कार्य।	1850476	1845616	0	0	36913	36913	0	18457	33	0	1753300	31-Jul-22	1068
60	श्री डीएमसीएस/आरसीसी/विद्या प्राप्ति	वार्ड-22 प्राथमिक विद्यालय शैलतपुर का शैक्षिक उत्थान कार्य।	1736317	426928	0	0	8539	8539	0	4270	80	0	405500	31-Jul-22	1129
61	श्री आर्या क्लब	वार्ड-33 प्राथमिक विद्यालय सया नगर वाली का शैक्षिक उत्थान कार्य।	196707	129930	0	0	2479	2479	0	1240	32	0	117700	31-Jul-22	1128
62	श्री कृष्ण क्लब	वार्ड-30 कृष्ण कुंज में डाउन्टन चौकरी के अपार्टमेंट से नर्सरी-5 तक आरसीसी0 वाली एवं इन्फ्रस्ट्रक्चर सड़क सुधार कार्य।	3259359	226000	0	0	4520	4520	0	2260	0	0	214700	31-Jul-22	1131
63	श्री सीसा क्लब	आपरेशन कयाकर के अन्तर्गत वार्ड-46 प्राथमिक विद्यालय नैपापुर का सुदृढीकरण कार्य।	2125702	273101	0	0	5463	5463	0	2732	43	0	259400	31-Jul-22	1118
64	श्री वरी क्लब	गावियाबाद नगर निगम के अन्तर्गत सिद्धात्री विद्यालय की मर्याद एवं सौन्दर्यकरण कार्य।	9091046	607529	0	0	12151	12151	0	6076	51	0	577100	31-Jul-22	1126
65	श्री चापरी एसे	आपरेशन कयाकर के अन्तर्गत वार्ड-46 प्राथमिक विद्यालय गुलवर का सुदृढीकरण कार्य।	1371478	526408	0	0	10529	10529	0	5265	1585	0	498500	31-Jul-22	1107
66	श्री बालानी इन्फ्रस्ट्रक्चरी	आपरेशन कयाकर के अन्तर्गत वार्ड-16 प्राथमिक विद्यालय रिक्रोड का सुदृढीकरण कार्य।	1614727	535289	0	0	10706	10706	0	5353	1024	0	507500	31-Jul-22	1132
67	श्री कृष्णा एसे	वार्ड-10 डीएमसीएस0 एपू क्लोनी में प्राथमिक विद्यालय में रंगई पुनई विपुलीकरण तथा मुख्य रोड से कमी तक छोटे रोड का निर्माण कार्य।	2826823	772162	0	0	15443	15443	0	7722	54	0	733500	31-Jul-22	1113
68	श्री सविन विलेज	वार्ड-06 कम्पोजिट विद्यालय नन्द्याम का शैक्षिक उत्थान का कार्य।	2019795	550216	0	0	11005	11005	0	5503	3	0	522700	31-Jul-22	1115
69	श्री कृष्णा एसे	वार्ड-72 शालीमार वार्डन एसे-2 डबल टकी पार्क में प्राथमरी विद्यालय की मर्याद विद्यालय हेतु शैवाल विधान एवं सड़क सुधार कार्य।	1431312	654541	0	0	13091	13091	0	6546	13	0	621800	31-Jul-22	1114
70	श्री सविन विलेज	वार्ड-11 कम्पोजिट विद्यालय आन्न योजना नन्द्याम का शैक्षिक उत्थान कार्य।	908987	172296	0	0	3446	3446	0	1723	81	0	163600	31-Jul-22	1116
71	श्री आरसीसी/आरसीसी/विद्या प्राप्ति	वार्ड-92 नगर निगम बालिका कॉलेज के पास पट्टा गावियाबाद का पुन निर्माण एवं मर्याद का कार्य।	4208787	1531039	0	0	30621	30621	0	15311	86	0	1454400	31-Jul-22	1070

गजियाबाद नगर निगम

वित्तीय वर्ष 2022-2023 आयकर/व्यापार कर/वी0एसडी0/रायल्टी/सेवर सेस टैक्स विवरण-

क्र.सं.	उप. का नाम	कार्य का विवरण	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---------	------------	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

72	श्री आर0जी0रिजल्टिक इन्फो	वार्ड-14 रेलवे कालोनी आरम्भक में आर-27 से 13 आर स्टाक में मुखा सहक सुधार का कार्य।	2367244	56500	0	0	1130	0	0	1130	1130	0	565	2175	0	51500	31-Jul-22	1130
73	श्री ए0पी0कन्सो कम्पनी	वार्ड-95 उत्तरीपुर ड्रेजिंग/वार्ड गेट से शी0पी0सी0 सौक से माकल मसिद तक आर0पी0सी0 गला व सहक पर डैम का कार्य।	4594700	861408	0	0	17229	0	0	17229	17229	0	8615	35	0	818300	31-Jul-22	1072
74	श्री आराध्या कन्सो कम्पनी	वार्ड-69 कम्पोजिट विहालय हाल क्वार्टर का नौतिक उन्मन का कार्य।	1988793	144900	0	0	2899	0	0	2899	2899	0	1450	52	0	137600	31-Jul-22	1127
		Total-	97677858	0	13881	1675980	1953588	0	838007	56702	0	93139700						
1	श्री ए0पी0कन्सो कम्पनी	वार्ड-19 परचमर जी-वाक शिवा चौक के स्थान पर जे-105 के सामने पार्क पर 15 एच0पी0 नलकूप अधिचान का कार्य।	3447500	2003714	0	0	40075	0	0	40075	40075	0	20038	26	0	1903500	5-Jul-22	15
2	श्री रॉयल कन्सो	रोड कन्स्ट्रिशन से औद्योगिक बेल पुलिस चौकी तक ग्रास पेशर का कार्य।	3084380	2585421	0	0	51709	0	0	51709	51709	0	25855	48	0	2456100	5-Jul-22	13
3	श्री इन्डस इन्फ्रास्ट्रक्चर	वार्ड-39 एन्रीम जे पार्क नेबलमर में 15 एच0पी0 नलकूप अधिचान का कार्य।	3409000	1478784	0	0	29576	0	0	29576	29576	0	14788	44	0	1404800	18-Jul-22	14
4	श्री आर0पी0कन्सो इन्फो	वार्ड-51 शी0पी0सी0 से शी0पी0सी0 कीरहे तक नाले का अक्सेस काग पर आर0पी0सी0 निर्माण का कार्य।	14823044	9461843	0	0	189237	0	0	189237	189237	0	94619	7250	0	7467605	18-Jul-22	106
5	श्री बालानी इन्फ्रास्ट्रक्चर	वार्ड-74 कैमली से-15 टर्न 1 एवं डरेसस की आन्तरिक सहको का सुधार नली एवं सार्ड एटरी पर टक्लर लगाने का कार्य।	16317110	6941374	0	0	138828	0	0	138828	138828	0	69414	4	0	5483680	18-Jul-22	105
6	श्री वेणु इन्फ्रास्ट्रक्चर	वार्ड-54 वसुपरा से-1 रिजल्ट पार्क में 15 एच0पी0 नलकूप अधिचान का कार्य।	3430000	393665	0	0	7874	0	0	7874	7874	0	3937	80	0	373900	18-Jul-22	756
7	श्री अमित इन्फ्रास्ट्रक्चर	वार्ड-59 पुरानी सिटी एतरे राम रोड समी मंडी बंदर पेरल पार्क लाईन डालने का कार्य।	3654504	2376657	0	0	47534	0	0	47534	47534	0	23767	22	0	2257800	18-Jul-22	773
8	श्री आकांक्षा कन्सो	वार्ड-65 परचमर से-8 पार्क में 15 एच0पी0 नलकूप अधिचान एवं आवश्यक पिलाज का कार्य।	3465000	1525902	0	0	30519	0	0	30519	30519	0	15260	4	0	1449600	18-Jul-22	772
9	श्री आकांक्षा कन्सो	वार्ड-14 विजयनगर के पास 15 एच0पी0 नलकूप अधिचान एवं आवश्यक पिलाज का कार्य।	3465000	1497453	0	0	29950	0	0	29950	29950	0	14975	78	0	1422500	18-Jul-22	771
10	श्री आकांक्षा कन्सो	वार्ड-71 के संभयनगर जैन मन्दिर पार्क में 15 एच0पी0 नलकूप अधिचान एवं आवश्यक पिलाज का कार्य।	3465000	1454694	0	0	29094	0	0	29094	29094	0	14547	59	0	1381900	18-Jul-22	770
11	श्री डी0पी0 क्वार्टर ट्रांसफार्मर एच इन्फ्रास्ट्रक्चर	वार्ड-04 माता कालोनी में 15 एच0पी0 नलकूप अधिचान एवं आवश्यक पिलाज का कार्य।	3430000	90816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90816	18-Jul-22	775
12	श्री डी0पी0 क्वार्टर ट्रांसफार्मर एच इन्फ्रास्ट्रक्चर	वार्ड-04 माता कालोनी में 15 एच0पी0 नलकूप अधिचान एवं आवश्यक पिलाज का कार्य।	3430000	44264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44264	18-Jul-22	774
13	श्री डी0पी0 क्वार्टर ट्रांसफार्मर एच इन्फ्रास्ट्रक्चर	वार्ड-36 प्रहलादजी गैंग वसुपरा से-14 446 के सामने पार्क में 15 एच0पी0 नलकूप अधिचान एवं आवश्यक पिलाज का कार्य।	3430000	95828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95828	18-Jul-22	776
14	श्री डी0पी0 क्वार्टर ट्रांसफार्मर एच इन्फ्रास्ट्रक्चर	वार्ड-36 प्रहलादजी गैंग वसुपरा से-14 446 के सामने पार्क में 15 एच0पी0 नलकूप अधिचान एवं आवश्यक पिलाज का कार्य।	3430000	48334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48334	18-Jul-22	777
15	श्री डी0पी0 क्वार्टर ट्रांसफार्मर एच इन्फ्रास्ट्रक्चर	वार्ड-36 प्रहलादजी गैंग वसुपरा से-14 446 के सामने पार्क में 15 एच0पी0 नलकूप अधिचान एवं आवश्यक पिलाज का कार्य।	3430000	2509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2509	18-Jul-22	778

15 वॉ वित्त आयोग-सुलाई 2022

-273- (32)

322

गाजियाबाद नगर निगम
वित्तीय वर्ष 2022-2023 आयकर/व्यापार कर/सीएसटी/रायस्ती/सेवर सेस टेक्स विवरण-

क्र.सं.	वर्ग का नाम	वर्ग का विवरण	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	श्री मेधा कंसो	वार्ड-48 प्रतापनगर सी-12 विभिन्न ब्लॉक में कुल 5 प्लॉटों में सीवरकरण के तहत घास व सजावटी पीछे की अपूर्णता।	4732235	377867	0	0	7558	0	0	366500	14-Jul-22	30	0	0	366500	14-Jul-22	760	
17	श्री सीएसटी/कॉन्स्ट्रक्टर	वार्ड-31 के विभिन्न ब्लॉक में स्थित कुल 3 प्लॉटों में घास व पीछे अपूर्णता का कार्य।	7459973	534560	0	0	10692	0	0	518500	14-Jul-22	22	0	0	518500	14-Jul-22	761	
18	श्री सीएसटी/कॉन्स्ट्रक्टर	वार्ड-37 विभिन्न क्षेत्रों में कुल 6 प्लॉटों में घास व पीछे अपूर्णता का कार्य।	13566678	363180	0	0	7264	0	0	3522200	14-Jul-22	84	0	0	3522200	14-Jul-22	762	
19	श्री मलिक कंसो	वार्ड-83 नवीन प्लॉट में 2070-187 व 62 के सामने पार्क सीवर मस्पल व छुटपाय बनाकर सीवरकरण का कार्य।	10600044	848035	672	0	16961	16961	0	804900	14-Jul-22	60	0	0	804900	14-Jul-22	769	
20	श्री सीएसटी/कॉन्स्ट्रक्टर	वार्ड-97 रामप्रसाद विभिन्न ब्लॉक में 5 प्लॉटों कार्य।	634987	570160	0	0	11404	0	0	553000	14-Jul-22	54	0	0	553000	14-Jul-22	757	
21	श्री सीएसटी/कॉन्स्ट्रक्टर	वार्ड-94 सूर्यनगर कुल 22 प्लॉटों में घास व पेड़ अपूर्णता।	435456	254455	0	0	5090	0	0	246800	14-Jul-22	20	0	0	246800	14-Jul-22	758	
22	श्री मेधा कंसो	वार्ड-70,80,90 प्लॉटों में सीवरकरण करता है व पीछे अपूर्णता व लगाने का कार्य।	275767	257840	0	0	5157	0	0	250100	14-Jul-22	4	0	0	250100	14-Jul-22	759	
23	श्री सहज कंसो कम्पनी	विभिन्न प्लॉटों पर ग्राम सेवर लगाने का कार्य।	3825107	1446041	0	0	28921	28921	0	1373700	14-Jul-22	38	0	0	1373700	14-Jul-22	763	
24	श्री एसकेसी/इंजीनियर कम्पनी	वार्ड-46 सुखर दिव्य कब्रों के ठेके 110 एसएम ब्लाक की 4694 की एवं 160 एसएम ब्लाक की 1372 की पार्क सड़क बनाने का कार्य।	8557177	3710162	0	0	74203	74203	0	3524600	14-Jul-22	54	0	0	3524600	14-Jul-22	1036	
25	श्री शर्मा कंसो कम्पनी	वार्ड एसकेड में 300 एसएम ब्लाक की 1150 की आरएसीसी सीवर सड़क बनाने का कार्य।	3033611	1261778	0	0	25236	25236	0	1197100	14-Jul-22	1588	0	0	1197100	14-Jul-22	1046	
26	श्री गोपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स	वार्ड-94 सूर्यनगर ए-ब्लाक रामपुरी में 200 एसएम, 160 एसएम ब्लाक की पार्क सड़क बनाने का कार्य।	9759380	3643560	0	0	72872	72872	0	3459800	14-Jul-22	1580	0	0	3459800	14-Jul-22	1048	
27	श्री एसकेसी/इंजीनियर कम्पनी	वार्ड-08 श्रीरामपुर पार्क में 15 एसएम सिटी नलकूप अधिष्ठापन एवं आवसक मिलाप का कार्य।	3447500	1474816	0	0	29497	29497	0	1399500	14-Jul-22	1573	0	0	1399500	14-Jul-22	1037	
28	श्री सुभाष इन्फ्रास्ट्रक्चर्स	वार्ड-94 सूर्यनगर स्थित रामपुरी में 160 एसएम ब्लाक की पार्क सड़क बनाने का कार्य।	4897230	1932808	0	0	38657	38657	0	1835100	28-Jul-22	1065	0	0	1835100	28-Jul-22	1049	
29	श्री सुभाष इन्फ्रास्ट्रक्चर्स	वार्ड-62 सी-ब्लाक 'वैदिक' में कब्रों के ठेके 110 एसएम ब्लाक की 1926 एवं 160 एसएम ब्लाक की पार्क सड़क बनाने का कार्य।	3484632	1556924	0	0	31139	31139	0	1479000	28-Jul-22	76	0	0	1479000	28-Jul-22	1050	
30	श्री सुभाष इन्फ्रास्ट्रक्चर्स	वार्ड-28 स्थित श्रीरामपुरी कालोनी में 15 एसएम नलकूप अधिष्ठापन एवं आवसक मिलाप का कार्य।	3236450	1448113	0	0	28963	28963	0	1375700	28-Jul-22	5	0	0	1375700	28-Jul-22	1051	
31	श्री राकेश एमएस एच मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	वार्ड-69 सोनियानगर सी-ब्लाक पार्क में 15 एसएम नलकूप अधिष्ठापन एवं आवसक मिलाप का कार्य।	3465000	2224005	0	0	44481	44481	0	2110800	28-Jul-22	2002	0	0	2110800	28-Jul-22	1028	
32	श्री केएस इन्फ्रास्ट्रक्चर्स	वार्ड-61 रामपुरी सी-4 में 15 एसएम नलकूप अधिष्ठापन एवं आवसक मिलाप का कार्य।	3430000	1544692	0	0	30894	30894	0	1467400	28-Jul-22	57	0	0	1467400	28-Jul-22	949	
33	श्री महेश्वर कंसो	वार्ड-796 नरसिंगपुर गगन एनडोवमेंट में स्थित कुल 9 प्लॉटों के सीवरकरण के तहत घास व सजावटी पीछे की अपूर्णता व लगाने का कार्य।	783783	595637	0	0	11913	0	0	57700	28-Jul-22	67	0	0	57700	28-Jul-22	1033	
34	श्री शर्मा कंसो	वार्ड-11 बोधे कालोनी में स्थित सेक्टर ट्रीकलमर तक 300 एसएम ब्लाक की 1900 की आरएसीसी सीवर सड़क बनाने का कार्य।	4370654	1377053	0	0	27542	27542	0	1305100	28-Jul-22	13771	0	0	1305100	28-Jul-22	966	
35	श्री सार्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर्स	वार्ड-20 श्रीपुरा में सेक्टर अपूर्ण है कुल 300 की 1100 एसएम ब्लाक की एसएम पार्क सड़क बनाने का कार्य।	2406474	1500899	0	0	30018	30018	0	1425800	28-Jul-22	54	0	0	1425800	28-Jul-22	1047	

गाजियाबाद नगर निगम

दिल्लीय वर्ष 2022-2023 आयकर/व्यापार कर/जीएसटी/राजस्वी/वेबर सेस टैक्स विवरण

323

क्र.सं.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
क.सं.	क.सं.	फर्म का नाम	कार्य का विवरण	देखर राशि	टर्न ओवर	राजस्वी	T.D.S 1%	आयकर	जी.एस.टी.	व्यापार कर	सेस	अन्य/वेबरी	कच्ची	मुफ्तान राशि	दिनांक	मास/सं.
36	36	श्री आकाश कन्सट्र	नॉन एमप्लॉय डी-ब्लॉक एवं जे ब्लॉक में करवैज बनाने हेतु 110 एमएचपी0 ब्यास की 4670 मी0 पार्सल लॉन्ग शॉलने का कार्य।	8301568	3973619	0	0	79473	79473	0	39737	36	0	3774900	28-Jul-22	1045
37	37	श्री महेश्वर कन्सट्र	वार्ड-74 एवं 89 शैपाली क्षेत्र के विभिन्न सेक्टर रिहायश 3 फ्लॉरी में सीनर्यकरण घास व सजावटी पीछो की आर्गुमेंट एवं लागू करने का कार्य।	525067	525067	0	0	10502	0	0	5251	5514	0	503800	28-Jul-22	1032
38	38	श्री एसकेबीपीएल कम्पनी	वार्ड-65 जी-ब्लॉक में 15 एमपी0 नलकू आधिष्ठापन एवं आरक्षण मिलान का कार्य।	3447500	1212745	0	0	24255	24255	0	12128	7	0	1152100	28-Jul-22	1052
39	39	श्री सुखीन विल्टेडक	वार्ड-34 प्रोमप्टी, गैमिंग विहार एवं वार्ड 3 एवं 4 वाली गली में 300 एमएचपी0 की 1400 मी0 आरपीसी0 सीटर लॉन्ग शॉलने का कार्य।	4911367	1422470	0	0	28450	28450	0	14225	45	0	1351300	28-Jul-22	1043
40	40	श्री राम इन्फ्रास्ट्रक्चर	वार्ड-100,79 आरि के विभिन्न रिहायश कुल 19 प्लॉट के सीनर्यकरण तहत घास व सजावटी पीछो की आर्गुमेंट एवं लागू करने का कार्य।	551653	125021	0	0	2501	0	0	1251	2569	0	118700	28-Jul-22	1035
41	41	श्री कर्ण कन्सट्र	वार्ड-03 सुरमा विहार/रैडिओ हेतु ड्रिपिंग जे-ब्लॉक नाला एवं डी-ब्लॉक निर्माण का कार्य।	1621702	1290459	560	0	25810	25810	0	12905	74	0	1225300	28-Jul-22	836
42	42	श्री राजेश एनएस एडवोकेट्स प्रोपर्टी	वार्ड-77 शैपाली सै-3 एमपी0 ब्लाक में 15 एमपी0 नलकू आधिष्ठापन एवं आरक्षण मिलान का कार्य।	3461500	1895610	0	0	37913	37913	0	18957	27	0	1800800	28-Jul-22	1029
43	43	श्री शान्तनु कन्सट्र	वार्ड-62 नोडियलुर में दुर्गा ज्वैलर्स से सिगनेचर टावर तक रोड का ड्रैस शार सड़क सुधार कार्य।	7508450	276855	0	0	5538	5538	0	2769	2510	0	260500	28-Jul-22	1094
44	44	श्री शान्तनु कन्सट्र	वार्ड-24 शंकर विहार/कृष्ण विहार की आंतरिक सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	18658129	2130174	0	0	42604	42604	0	21302	5064	0	2018600	28-Jul-22	1096
45	45	श्री शान्तनु कन्सट्र	वार्ड-58 चाणक्य चौक से जलेशी चौक तक सड़क सुधार कार्य।	2045790	290214	0	0	5805	5805	0	2903	1	0	275700	28-Jul-22	1093
46	46	श्री महेश्वर कांस्ट्रक्चर	वार्ड-49 नन्दग्राम में विनोद डूबे के मकान से वृत्तिवर्ति के सामने व दिव्यांग बच्चों के स्कूल तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण का कार्य।	11891380	7371977	0	0	147440	147440	0	73720	77	0	7003300	28-Jul-22	947
47	47	श्री महेश्वर कांस्ट्रक्चर	वार्ड-49 नन्दग्राम में विनोद डूबे के मकान से वृत्तिवर्ति के सामने व दिव्यांग बच्चों के स्कूल तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण का कार्य।	11891380	2516170	0	0	50324	50324	0	25162	60	0	2390300	28-Jul-22	1155
48	48	श्री कृष्ण एसी0	सबविहार रेलवे पुल से चन्द्रनगर पानी की टंकी होते हुये चन्द्रनगर बट तक सड़क के दो साइड ग्रस पैर का कार्य।	3616986	1802802	0	0	36057	36057	0	18029	59	0	1712600	28-Jul-22	1144
49	49	श्री कृष्ण एसी0	विभिन्न जगहों पर ग्रस पैर लगाने का कार्य।	3336341	372124	0	0	7443	7443	0	3722	16	0	353500	28-Jul-22	1143
50	50	श्री प्रेम कन्सट्र	वार्ड-40 साहिबाबाद में सौर उर्जा पार्क पर रेलवे पुलिस चौकी से साहिबाबाद डिपो तक आरपीसी0 नाला निर्माण का कार्य।	15741481	2338877	0	0	46778	46778	0	23389	2032	0	2219900	28-Jul-22	1087
51	51	श्री प्रेम कन्सट्र	सौर उर्जा पार्क पर औद्योगिक क्षेत्र साईट-4 कन्सट्र 16 ए बन रोड तक सड़क के दोनों साईट ग्रस पैर ब्लाक का कार्य।	8267312	2942857	0	0	58858	58858	0	29429	12	0	2795700	30-Jul-22	1073
52	52	श्री एसकेबीपीएल कम्पनी	वार्ड-76 शैपाली में 140 एमएचपी0 ब्यास की 1451 मी0 रेपलस पार्सल लॉन्ग शॉलने का कार्य।	3327525	3050780	0	0	61016	61016	0	30508	2540	0	2895700	30-Jul-22	1082
53	53	श्री आकाश इन्फ्रास्ट्रक्चर	वार्ड-72 औद्योगिक क्षेत्र में बने सिगनेचर ब्लाक से मकान आस्तात तक आरपीसी0 नाला निर्माण कार्य।	12467317	2601485	0	0	52030	52030	0	26015	10	0	2471400	30-Jul-22	1139
54	54	श्री आकाश इन्फ्रास्ट्रक्चर	संगमनगर वार्ड 05 ओवर से आरपीसी0 लॉन्ग ओवर तक साईट पट्टी की मरम्मत का कार्य।	6837008	3690518	0	0	73811	73811	0	36906	2190	0	3503800	30-Jul-22	1138

वित्तीय वर्ष 2022-2023 आयकर/ब्यापार कर/जीएसटी/रायस्ती/वेबर सेस टैक्स विवरण-

क्र.सं.	वर्ग का नाम	कार्य का विवरण	टैक्स पोस्टि	ऑवर	रॉयस्ती	T.D.S 1%	आयकर	जी.एस.टी.	ब्यापार कर	सेस	अन/वेबस्ती	कुटीनी	सुपान राशि	दिनांक	वाक्य सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
55	शुभ एसी	लिकरोड पर सौर उर्जा मार्ग तक केवल टाक्स लगाने का कार्य।	3567333	727282	0	0	14546	14546	0	7273	1217	0	689700	30-Jul-22	1142
56	जेआरआरविल्लेटक	वार्ड-17 लिफ्टन विहार चंभरी मंडिवल स्टोर से डबबाल के मकान तक सड़क रोड का सुधार का कार्य।	1094750	67200	0	0	1344	1344	0	672	40	0	63800	30-Jul-22	1156
57	आकाश इन्फाटिक	वार्ड-80 रामेन्द्रनगर से-2 के कण रोड चौकी से 150 फुट रोड तक सड़क रोड का सुधार कार्य।	18019690	526742	0	0	10535	10535	0	5268	4	0	500400	30-Jul-22	1140
58	जीएसएमएस	वार्ड-10 डीएलएफको कालोनी में सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	3928509	308944	0	0	6179	6179	0	3090	96	0	293400	30-Jul-22	1151
59	आकाश इन्फाटिक	वार्ड-29 डिफेंस कालोनी में बजौराबाद रोड से मुख्यमार्ग तक आरओपीएमला निर्माण कार्य।	10999156	955796	0	0	19116	19116	0	9558	6	0	908000	30-Jul-22	1137
60	मदन कस्तू	वार्ड-33 गोल हट्टी से रेलवे स्टेशन तक नाला रिपेयर का कार्य।	3530512	1054809	0	0	21097	21097	0	10549	66	0	1002000	30-Jul-22	1027
61	आकाश इन्फाटिक	संजयनगर प्लॉड ऑवर से एएलएचडी रोड से मुख्यमार्ग तक सड़क पट्टी की मरम्मत का कार्य।	5362359	3056652	0	0	61134	61134	0	30567	17	0	2903800	30-Jul-22	1136
62	शान्तनु कस्तू	वार्ड-62 गिरिधरपुर में रोड नो-3 का ड्रेज करार सड़क सुधार कार्य।	7043975	276855	0	0	5538	5538	0	2769	2510	0	260500	30-Jul-22	1095
63	रत्ना कान्हेकर एच इन्फो	वार्ड-88 में जमीनार में पार्क के आसपास से रोड सिरे के साथ आल्फाक सड़क एवं मॉडर्न का निर्माण कार्य।	5580599	1900458	0	0	38010	38010	0	19005	1239	0	1804200	30-Jul-22	1092
64	रविश कस्तू	वार्ड-32 शृंग नगर की आल्फाक सड़क एवं मॉडर्न का निर्माण कार्य।	9407749	6268514	0	0	125371	125371	0	62686	86	0	5955000	30-Jul-22	1086
65	जेम कस्तू	सौर उर्जा मार्ग से ब्रानिहट पुल के पास कन्स्ट्रक्शन तक टाक्स लगाने का कार्य।	11900929	339668	0	0	6794	6794	0	3397	83	0	322600	30-Jul-22	1088
66	एसकेओपीटीएम कंपनी	वार्ड-11 संजय विहार में वेगनल आपूर्ति हेतु 4000 मी 110 एमएचआर यास की पार्स लॉन्ग ड्राइंग का कार्य।	4872992	2570254	0	0	51406	51406	0	25703	39	0	2441700	30-Jul-22	1080
67	प्रीटिक रिट प्रोडिओ	Waste water Treatment Tech. Companies For Decentralized Sensor work	259245000	14945470	0	0	253314	253314	0	126657	85	0	14312100	30-Jul-22	1099
68	एसकेओपीटीएम कंपनी	वार्ड-76 से-2 व 28 बैंगली में 1511 की वेगनल पार्स लॉन्ग ड्राइंग का कार्य।	3461500	3221075	0	0	64422	64422	0	32211	2520	0	3057500	30-Jul-22	1081
69	डैनी पारर ट्रांसफॉर्म एच इन्फोनेट	वार्ड-04 नाला कालोनी में 15 एमएचआर नलकूप अधिष्ठापन एवं आसपास मिलाप का कार्य।	3430000	1185919	0	0	23719	23719	0	11860	21	0	1126600	30-Jul-22	1074
70	एसकेओपीटीएम कंपनी	वार्ड-91 कविनगर के-ब्लॉक पार्क में 15 एमएचआर नलकूप अधिष्ठापन एवं आसपास का कार्य।	3319750	1156563	0	0	23132	23132	0	11566	33	0	1098700	30-Jul-22	1079
71	अमित इन्फोमैशन	वार्ड-59 पुरानी सिटी, रसोयन, सब्जी मंडी घंटाघर रामपुरन दयाल मॉडर्न में 80 एमएचआर यास की जीओआई लॉन्ग ड्राइंग का कार्य।	3654504	1230983	0	0	24620	24620	0	12310	1533	0	1167900	30-Jul-22	1157
72	रिक्तकैनी इन्फोमैशन प्रोडिओ	लिफ्टन सिविल एयरपोर्ट रॉड पर एक 30 फिटोवैट डबबाल का मिनी एलायटोपीड का निर्माण कार्य।	5778408	702229	0	0	14045	14045	0	7023	16	0	667100	30-Jul-22	1075
73	एनएसआर एचर सवाई कंपनी	नगर निगम गाजियाबाद सीमानामार्ग 100 वर्ग के इन्वोस्टिंग का कार्य।	28500000	10000000	0	0	200000	200000	0	100000	5000	0	9495000	30-Jul-22	1084
74	स्टील एच पार्स	वार्ड-47 महेन्द्रा एनक्लेव पार्क में 15 एमएचआर नलकूप अधिष्ठापन एवं आसपास मिलाप का कार्य।	3397100	1704206	0	0	34085	34085	0	17043	2093	0	1616900	30-Jul-22	1134
75	एसकेओपीटीएम कंपनी	वार्ड-97 रामपुरन बी-ब्लॉक एवं डी-ब्लॉक में 160/110 एमएचआर यास की पार्स लॉन्ग ड्राइंग का कार्य।	8405150	3342191	0	0	66844	66844	0	33422	81	0	3175000	30-Jul-22	1078
76	एसकेओपीटीएम कंपनी	वार्ड-60 पार्स मॉडर्न में 110 एमएचआर की 300 मी पार्स लॉन्ग ड्राइंग का कार्य।	4522272	1886599	0	0	37732	37732	0	18866	69	0	1792200	30-Jul-22	1083

2781

गण्डियाबाद नगर निगम

वित्तीय वर्ष 2022-2023 आयकर/व्यापार कर/सीएसटी/रायस्ती/वेयर सेस टेक्स विवरण-

025

क्र.सं.	धर्म का नाम	कार्य का विवरण	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
77	श्री महावीर कस्तुर	वार्ड-20 रावत नगर में पंचकल आपूर्ति हेतु 110 एचएचओ व्यास की 1872 मी0 पाइप लाइन डालने का कार्य।	2961532	1063592	0	21272	21272	0	10636	12	0	1010400	30-Jul-22	973				
78	श्री महावीर कस्तुर	वार्ड-24 संकर विहार कालोनी लाल कुंआ में अरबिया बनाने हेतु 110 एचएचओ व्यास की डालने का कार्य।	2745802	1091173	0	21824	21824	0	10912	13	0	1036600	30-Jul-22	974				
79	श्री दर्शन कस्तुर	वार्ड-29 सुदी न्यू डिफेंस कालोनी रिहायश कपुरी ठगुरा पार्क के निर्माण का विवरण करने का कार्य।	1293938	1204328	1008	24087	24087	0	12044	2	0	1143100	30-Jul-22	1150				
80	श्री श्रीबालनी इन्कवाउण्डरिड	वार्ड-41 महाराजपुर औद्योगिक क्षेत्र पुलिस चौकी कास्ट्रोन रोडल तक सड़क सुदृढीकरण का कार्य।	7703039	838988	0	16780	16780	0	8390	38	0	797000	30-Jul-22	1153				
81	श्री जुरैर कस्तुर कम्पनी	वार्ड-15 राहुल विहार में सीएसटी पत्ती व गाली निर्माण कार्य।	9471334	5857943	0	117159	117159	0	58560	6245	0	5558800	30-Jul-22	951				
82	श्री जुरैर कस्तुर कम्पनी	वार्ड-15 राहुल विहार में सीएसटी पत्ती व गाली निर्माण कार्य।	9471334	2590808	0	51817	51817	0	25909	65	0	2461200	30-Jul-22	1088				
83	श्री दर्शन कस्तुर	आर्मीकार रोसायटी तक सड़क सॉर्ट एररी पर ग्रास ड्रेनर लगाने का कार्य।	4305692	1481805	0	29637	29637	0	14819	12	0	1407700	30-Jul-22	1152				
84	श्री सीएसटी/कॉन्क्रीट प्रोजेक्ट प्राइवेट	वार्ड-29 हार्म कम्पाउंड की मुख्य रोड का शक्ति प्रिकेज एचएचओ से विवरण के अधिनतक आरएसीएसटी द्वारा गाली निर्माण कार्य।	13477250	5394161	0	107884	107884	0	53942	51	0	5124400	30-Jul-22	1141				
85	श्री नरेश कुमार कांस्ट्रक्टर	कुल गिलाकर 17 पार्कों की आरक्षण एवं मरम्मत का कार्य।	4440020	1828879	2800	36578	36578	0	18289	34	0	1734600	30-Jul-22	1145				
86	श्री नरेश कुमार कांस्ट्रक्टर	वार्ड-59 रातोराय रोड कम्पनी बाग रिहायश पार्क की सड़कल कास्ट्रुक्चरल मरम्मत का कार्य।	1858915	1858915	1148	37179	37179	0	18590	19	0	1764800	30-Jul-22	831				
88	श्री रमेश प्रसाद एचड मोटर्स प्राइवेट	जलकल स्टोर में 30 एचएचओ के 50 नम समरसिवाल एचड सेट की आपूर्ति।	219008	0	0	4381	4381	0	0	7	0	214400	31-Jul-22	1027				
89	श्री रमेश प्रसाद एचड मोटर्स प्राइवेट	जलकल स्टोर में 30 एचएचओ के 50 नम समरसिवाल एचड सेट की आपूर्ति।	1204544	0	0	24091	24091	0	0	48	0	1179200	31-Jul-22	1026				
90	श्री रमेश प्रसाद एचड मोटर्स प्राइवेट	जलकल स्टोर में 30 एचएचओ के 50 नम समरसिवाल एचड सेट की आपूर्ति।	1095040	0	0	21901	21901	0	0	43	0	1072000	31-Jul-22	1025				
91	श्री रमेश प्रसाद एचड मोटर्स प्राइवेट	जलकल स्टोर में 30 एचएचओ के 50 नम समरसिवाल एचड सेट की आपूर्ति।	1095040	0	0	21901	21901	0	0	43	0	1072000	31-Jul-22	1023				
92	श्री रमेश प्रसाद एचड मोटर्स प्राइवेट	जलकल स्टोर में 30 एचएचओ के 50 नम समरसिवाल एचड सेट की आपूर्ति।	1095040	0	0	21901	21901	0	0	43	0	1072000	31-Jul-22	1024				
93	श्री रमेश प्रसाद एचड मोटर्स प्राइवेट	जलकल स्टोर में 30 एचएचओ के 50 नम समरसिवाल एचड सेट की आपूर्ति।	766528	0	0	15331	15331	0	0	3030	0	747400	31-Jul-22	1022				
94	श्री सीएसटी/कस्तुर	वार्ड-75 लालपुरा रोड में 2 नम पार्कों में सीवरकरण हेतु पास फेड-थ्री की आपूर्ति एवं लगाने का कार्य।	562792	375806	0	7517	7517	0	3759	30	0	301000	31-Jul-22	1160				
95	श्री सीएसटी/कस्तुर	वार्ड-75 लालपुरा रोड में 2 नम पार्कों में सीवरकरण हेतु पास फेड-थ्री की आपूर्ति एवं लगाने का कार्य।	562792	0	0	0	0	0	0	0	0	63500	31-Jul-22	1135				
96	श्री सीएसटी/कस्तुर	वार्ड-37 गालीवार गार्डन में विद्युत एचड रोड एवं अस्सी पुटा रोड में बड़े गाँव की पुलिस से दिवली की सीमा तक सड़कल सड़क का ड्रैज द्वारा सुधार कार्य।	5469872	806092	0	16122	16122	0	8061	87	0	765700	31-Jul-22	1076				
97	श्री सीएसटी/कस्तुर	वार्ड-68 किच विहार विभिन्न बाग में रिहायश कुल 5 पार्कों में सीवरकरण का कार्य।	422473	382223	0	7645	7645	0	3823	55	0	370700	31-Jul-22	1148				
98	श्री महावीर सिंह	वार्ड-19 पटेलनगर विभिन्न पार्कों में सीवरकरण हेतु पास की आपूर्ति एवं लगाने का कार्य।	333079	234435	0	4689	4689	0	2345	1	0	227400	31-Jul-22	1085				

गाजियाबाद नगर निगम

- 203-

326

वित्तीय वर्ष 2022-2023 आयकर/ब्यापार कर/जीएसटी/रायस्ती/वेबर सेस टेक्स विवरण

क्र.सं.	वर्ग का नाम	वर्ग का विवरण	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
99	श्री जीएसटी/रिजलेशन प्रावधान	वार्ड-60 श्यामपार्क में श्री जीएसटी से सविध्यावाह स्टेशन शिव मंदिर होने हेतु सार्वजनिक शौचालय जीएसटी/वेबर सेस द्वारा सड़क सुधार का कार्य।	2782528	290497	0	0	5810	5810	0	2905	72	0	275900	0	0	275900	31-Jul-22	1091
100	श्री जीएसटी/रिजलेशन प्रावधान	वार्ड-65/91 विवेकानंद नगर क्षेत्र के विभिन्न ब्लॉकों में कुल 5 प्लॉटों का सौकर्यकरण का कार्य।	1832986	1118299	0	0	22366	0	0	11183	50	0	1084700	0	0	1084700	31-Jul-22	1158
101	श्री जीएसटी/रिजलेशन प्रावधान	वार्ड-69 श्यामपार्क से-5 कानना अपार्टमेंट स्थित पार्क को विकसित करने का कार्य।	819374	819374	1036	0	16388	16388	0	8194	68	0	777300	0	0	777300	31-Jul-22	1159
102	श्री जीएसटी/रिजलेशन प्रावधान	वार्ड-12 कालका नदी चौक भगवान भीमसुंदर पार्क के सौकर्यकरण का कार्य।	915461	847500	504	0	16950	16950	0	8475	21	0	804600	0	0	804600	31-Jul-22	1147
103	श्री जीएसटी/रिजलेशन प्रावधान	वार्ड-37 शालीमार गार्डन विक्रम एक्जेल सिता देवी पार्क को सौकर्यकरण का कार्य।	1717920	937105	560	0	18743	18743	0	9372	87	0	889600	0	0	889600	31-Jul-22	1149
104	श्री जीएसटी/रिजलेशन प्रावधान	सूर्यनगर पुलिस चौकी से अग्रवाल स्पोर्ट्स हेतु नूतने दिल्ली गार्डन सड़क का सुदृढीकरण का कार्य।	13158922	1309922	0	0	26199	26199	0	13100	24	0	1244400	0	0	1244400	31-Jul-22	1097
105	श्री जीएसटी/रिजलेशन प्रावधान	वार्ड-45 लिफ्टन एयरफोर्स से जेम्सगंज ड्रा. होने हेतु जीएसटी रोड तक एवं कालिका पुल की पूर्ण विकास हेतु सड़क का सुदृढीकरण का कार्य।	22963555	2012402	0	0	40249	40249	0	20125	79	0	1911700	0	0	1911700	31-Jul-22	1090
106	श्री जीएसटी/रिजलेशन प्रावधान	वार्ड-88 मनीषनगर स्थित कैम्पन स्मॉल अवरोध पार्क की सौकर्यकरण का सुदृढीकरण का कार्य।	1866363	1691514	1008	0	33831	33831	0	16916	28	0	1605900	0	0	1605900	31-Jul-22	1146
107	श्री जीएसटी/रिजलेशन प्रावधान	वार्ड-20 राजीव कालोनी के गगन शिकर सीएसटी/वेबर सेस हेतु जीएसटी रोड का सुदृढीकरण का कार्य।	2980572	320676	0	0	6414	6414	0	3207	41	0	304600	0	0	304600	31-Jul-22	975
108	श्री जीएसटी/रिजलेशन प्रावधान	वार्ड-80 राजेंद्रनगर विनय स्मृति पार्क को पूर्ण विकसित करने का कार्य।	939512	80886	1898	0	1618	1618	0	809	43	0	74900	0	0	74900	31-Jul-22	839
109	श्री जीएसटी/रिजलेशन प्रावधान	वार्ड-70 जगतपुरी ग्राम एक्जेल में मुख्य नाला एवं प्राथमिकी स्लॉक के बरकरार वाली सड़क पर जल निकासी हेतु आरसीसी/वेबर सेस नाला निर्माण तथा स्लॉक के बरकरार वाली मुख्य सड़क का सीसीसी/वेबर सेस द्वारा सुधार का कार्य।	8573175	1532190	0	0	30644	30644	0	15322	80	0	1455500	0	0	1455500	31-Jul-22	1089
110	श्री जीएसटी/रिजलेशन प्रावधान	आरसीसी/वेबर सेस और से विवेकानंद नगर तक रोड का सुदृढीकरण का कार्य।	18534790	2854011	0	0	57081	57081	0	28541	5008	0	2706300	0	0	2706300	31-Jul-22	835
111	श्री जीएसटी/रिजलेशन प्रावधान	वार्ड-04 गगन कालोनी से-12 जीएसटी/वेबर सेस आरसीसी/वेबर सेस एवं सड़क निर्माण एवं सड़क निर्माण का कार्य।	4371300	2693873	0	0	53878	53878	0	26939	2078	0	2557100	0	0	2557100	31-Jul-22	952
112	श्री जीएसटी/रिजलेशन प्रावधान	वार्ड-66 पतौडा एयरफोर्स की बाउन्ड्रीवाल के सामने राजेंद्रनगर सड़क रोड पर नाला निर्माण का कार्य।	3403959	1403656	0	0	28074	28074	0	14037	71	0	1333400	0	0	1333400	31-Jul-22	1044
113	श्री जीएसटी/रिजलेशन प्रावधान	वार्ड-51 सीएसटी/वेबर सेस से जीएसटी/वेबर सेस रोड तक नाले का अस्थायी ब्यापार आरसीसी/वेबर सेस निर्माण का कार्य।	14823044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1513895	0	0	1513895	31-Jul-22	977
114	श्री जीएसटी/रिजलेशन प्रावधान	वार्ड-97 रामदास में रोड रोड टर्की से लेकर टी-पार्क तक नाले का आरसीसी/वेबर सेस निर्माण का कार्य।	18670560	2546592	0	0	50932	50932	0	25466	2212	0	2417050	0	0	2417050	31-Jul-22	964
115	श्री जीएसटी/रिजलेशन प्रावधान	वार्ड-07 श्यामपार्क में जलिन चौक से श्यामपार्क पार्क की टर्की और सीसीसी/वेबर सेस नाला निर्माण का कार्य।	11616000	3474150	0	0	69483	69483	0	34742	2042	0	3298400	0	0	3298400	31-Jul-22	945
116	श्री जीएसटी/रिजलेशन प्रावधान	वार्ड-96 से होली चर्च रोड से नरसिंहराज रोड तक नाले का आरसीसी/वेबर सेस निर्माण का कार्य।	13959154	3710450	0	0	74209	74209	0	37105	27	0	3524900	0	0	3524900	31-Jul-22	965
117	श्री जीएसटी/रिजलेशन प्रावधान	वार्ड-23 में गजाना पार्क से ईश्वर के मकान तक नाले का सुदृढीकरण का निर्माण का कार्य।	3332888	224922	0	0	4499	4499	0	2250	74	0	213600	0	0	213600	31-Jul-22	1011
118	श्री जीएसटी/रिजलेशन प्रावधान	वार्ड-38 अर्चना मेट्रो स्टेशन से संजय कालोनी का मुख्य मार्ग पर नाला निर्माण का कार्य।	4301492	1543409	0	0	30869	30869	0	15435	36	0	1466200	0	0	1466200	31-Jul-22	1030

327

क्र.सं.	वर्ग	विवरण	कार्य का विवरण	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
119	को आरबीएसटी कम्पनी	वार्ड-11 आरबी रोड पर गली-9 की पुलिस से मित्रा सौदास होते हुये देवी मां मंदिर तक आरबीएसटी नाला निर्माण कार्य।	कार्य का विवरण	5126976	1483156	0	0	0	29664	29664	0	14832	1196	0	1407800	31-Jul-22	1031
120	को बालाजी इन्फोटेक इन्जीनियरिंग	वार्ड-74 श्यामी टाईम-1 एवं डूबेक की आन्तरिक सड़को का सुधार वाली एवं साईट पट्टी पर टारस लगाने का कार्य।	वार्ड-74 श्यामी टाईम-1 एवं डूबेक की आन्तरिक सड़को का सुधार वाली एवं साईट पट्टी पर टारस लगाने का कार्य।	16317110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1110620	31-Jul-22	976
121	को बालाजी इन्फोटेक इन्जीनियरिंग	वार्ड-55 में सम्राट चौक से गील्डन पब्लिक स्कूल तक ड्रैग साईट पट्टी पर टारस लगाने का कार्य।	वार्ड-55 में सम्राट चौक से गील्डन पब्लिक स्कूल तक ड्रैग साईट पट्टी पर टारस लगाने का कार्य।	11328000	7083952	0	0	0	141680	141680	0	70840	6152	0	6723600	31-Jul-22	946
122	को मलिक कन्सो	वार्ड-43 बडबड मंडल में गौरी केशरी के सामने से प्लार्म ओवर तक आरबीएसटी नाला निर्माण कार्य।	वार्ड-43 बडबड मंडल में गौरी केशरी के सामने से प्लार्म ओवर तक आरबीएसटी नाला निर्माण कार्य।	1047044	5442837	0	0	0	108857	108857	0	54429	94	0	5170600	31-Jul-22	1042
123	को मलिक कन्सो	वार्ड-90 एचएसके मंदिर से मेला चौक होते हुये बगवाल चौक तक सड़क निर्माण कार्य।	वार्ड-90 एचएसके मंदिर से मेला चौक होते हुये बगवाल चौक तक सड़क निर्माण कार्य।	9758140	521050	0	0	0	10421	10421	0	5211	97	0	494900	31-Jul-22	1041
124	को विकास कन्सो कम्पनी	वार्ड-92 दिल्ली गेट से काला चौक तक गुज्जर कालोनी में आरबीएसटी नाला निर्माण कार्य।	वार्ड-92 दिल्ली गेट से काला चौक तक गुज्जर कालोनी में आरबीएसटी नाला निर्माण कार्य।	4900500	2240157	0	0	0	44803	44803	0	22402	49	0	2128100	31-Jul-22	967
125	को आकाश इन्फोटेक	वार्ड-37 सिद्ध एक्जोव का नाला निर्माण एवं 80 फुट रोड का पक्का निर्माण कार्य।	वार्ड-37 सिद्ध एक्जोव का नाला निर्माण एवं 80 फुट रोड का पक्का निर्माण कार्य।	29461810	2890731	0	0	0	57815	57815	0	28903	93	0	2746100	31-Jul-22	1012
126	को मनेव सुभार सिविल	वार्ड-46 विषकर्म चौक से परामर्श कालोनी तक सड़क के रोनी तरफ साईट पट्टी का सौन्दर्यकरण कार्य।	वार्ड-46 विषकर्म चौक से परामर्श कालोनी तक सड़क के रोनी तरफ साईट पट्टी का सौन्दर्यकरण कार्य।	3026186	782784	0	0	0	15656	15656	0	7828	544	0	743100	31-Jul-22	1017
127	को डीकेएसएचएचएचएचएचएच डीकेएस प्रोपर्टी	वार्ड-83 सक्कराई एरस में लकीरबाद रोड तक कच्ची साईट पट्टी पर पेंच लगाने का कार्य।	वार्ड-83 सक्कराई एरस में लकीरबाद रोड तक कच्ची साईट पट्टी पर पेंच लगाने का कार्य।	4739584	2085543	0	0	0	41711	41711	0	20856	65	0	1981200	31-Jul-22	1016
128	को डीकेएसएचएचएचएचएच डीकेएस प्रोपर्टी	बाइपास से गौपाल पुलिस चौकी तक सड़क रोडो तरफ साईट पट्टी का सौन्दर्यकरण का कार्य।	बाइपास से गौपाल पुलिस चौकी तक सड़क रोडो तरफ साईट पट्टी का सौन्दर्यकरण का कार्य।	4395810	2252739	0	0	0	45055	45055	0	22526	3	0	2140100	31-Jul-22	1015
129	को डीकेएसएचएचएचएचएच डीकेएस प्रोपर्टी	वार्ड-89 शाहिबस माल से रामपथ ग्रीन पार्क हॉस्टिंग गैल तक मुख्य सड़क का निर्माण कार्य।	वार्ड-89 शाहिबस माल से रामपथ ग्रीन पार्क हॉस्टिंग गैल तक मुख्य सड़क का निर्माण कार्य।	12384900	2208846	0	0	0	44177	44177	0	22089	3	0	2098400	28-Jul-22	1014
130	को विकास कन्सो कम्पनी	वार्ड-66 भीममविहार शिव मंदिर एयरक्रेस की बाउन्ड्रीवाल तक आरबीएसटी नाला निर्माण कार्य।	वार्ड-66 भीममविहार शिव मंदिर एयरक्रेस की बाउन्ड्रीवाल तक आरबीएसटी नाला निर्माण कार्य।	10773868	3070336	0	0	0	61407	61407	0	30704	18	0	2916800	28-Jul-22	968
131	को प्रयाग कान्स्ट्रक्चर	आवास विकास गेट हाउस से अटल चौक होते हुये नगर सर्विस रोड तक सड़क साईट पट्टी पर ग्रास पेंच लगाना।	आवास विकास गेट हाउस से अटल चौक होते हुये नगर सर्विस रोड तक सड़क साईट पट्टी पर ग्रास पेंच लगाना।	4819541	1034259	0	0	0	20686	20686	0	10343	44	0	982500	28-Jul-22	909
132	को दर्शन कन्सो	विभुटा टवर से बुद्ध चौक होते हुये वीरचन्द्र गट वाली चौक तक सड़क सुधार साईट पट्टी पर ग्रास पेंच कार्य।	विभुटा टवर से बुद्ध चौक होते हुये वीरचन्द्र गट वाली चौक तक सड़क सुधार साईट पट्टी पर ग्रास पेंच कार्य।	10448007	2618555	0	0	0	52372	52372	0	26186	25	0	2487600	28-Jul-22	837
133	को दर्शन कन्सो	गुरंगर चौक से मेवाड कालेज होते हुये सट तक सड़क सुधार एवं साईट पट्टी पर ग्रास पेंच लगाने का कार्य।	गुरंगर चौक से मेवाड कालेज होते हुये सट तक सड़क सुधार एवं साईट पट्टी पर ग्रास पेंच लगाने का कार्य।	7429694	4613765	0	0	0	92276	92276	0	46138	75	0	4383000	28-Jul-22	838
134	को नयं इन्डिया डेवलपर्स	वार्ड-73,78,86 के मध्य कालस कम्प्लेक्स से शिव चौक होते हुये बबीरबाद रोड तक कच्ची साईट पट्टी पर ग्रास पेंच लगाने का कार्य।	वार्ड-73,78,86 के मध्य कालस कम्प्लेक्स से शिव चौक होते हुये बबीरबाद रोड तक कच्ची साईट पट्टी पर ग्रास पेंच लगाने का कार्य।	8230897	3193451	0	0	0	63870	63870	0	31935	76	0	3033700	28-Jul-22	1034
135	को यदन कन्सो	वार्ड-59 पुष्पा शहर सिविली गेट पुलिस चौकी से कुंआर मिनी माफिट बालीक पार्क,पार हाउस होते हुये शारदा होटल के सामने पुलिस तक आरबीएसटी नाला निर्माण कार्य।	वार्ड-59 पुष्पा शहर सिविली गेट पुलिस चौकी से कुंआर मिनी माफिट बालीक पार्क,पार हाउस होते हुये शारदा होटल के सामने पुलिस तक आरबीएसटी नाला निर्माण कार्य।	12125000	4732835	0	0	0	94657	94657	0	47329	2192	0	4494000	28-Jul-22	830
136	को श्रीगोपीइन्फोटेकप्रोपर्टी	आरबीएसटी प्लार्म ओवर से संयम नगर प्लार्म ओवर तक रोड का डैम ड्राग सड़क सुधार कार्य।	आरबीएसटी प्लार्म ओवर से संयम नगर प्लार्म ओवर तक रोड का डैम ड्राग सड़क सुधार कार्य।	21941379	2959914	0	0	0	59999	59999	0	29599	5017	0	2844900	28-Jul-22	834
137	को बालाजी इन्फोटेकप्रोपर्टी	वार्ड-16 मोटा में ट्रांसफार्म से मेठ रोड तक नाला निर्माण एवं टारस कार्य।	वार्ड-16 मोटा में ट्रांसफार्म से मेठ रोड तक नाला निर्माण एवं टारस कार्य।	28922100	5062983	0	0	0	101260	101260	0	50630	33	0	4809800	28-Jul-22	1013
138	को शांतनु कन्सो	पाला सिंक रोड से भीरुबासो मरवापुर तौर उर्जा पार्क टी-साईट तक सड़क सुधार कार्य।	पाला सिंक रोड से भीरुबासो मरवापुर तौर उर्जा पार्क टी-साईट तक सड़क सुधार कार्य।	4336992	375771	0	0	0	7516	7516	0	3758	81	0	356900	28-Jul-22	1019

गजियाबाद नगर निगम

328

वित्त वर्ष 2022-2023 आयकर/व्यापार कर/जीएसटी/रायस्ती/वेबर सेस टेक्स विवरण

क्र.सं.	उप. का नाम	उप. का विवरण	दर और	रायस्ती	T.D.S 1%	आयकर	जी.एस.टी.	व्यापार कर	सेस	अन्य/वेबस्ती	कुल	दिनांक	व्यवस्थापक सं.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
139	शानपुर कस्तो	वार्ड-40 साहिबाबाद में सौर उर्जा मार्ग पर शिव मंदिर से साईं मंदिर तक एवं गोल्लन मौरख पाट्टे हाल तक आरामशीर्षी नामा निर्माण का कार्य।	13651884	10999155	0	219984	219984	0	109992	2595	0	28-Jul-22	971		
140	शानपुर कस्तो	वार्ड-54 से-9 मलवीर चौक से चहर सर्विस रोड तक मुख्य सड़क का ईस द्वारा तक बुधार का कार्य।	2573083	747396	0	14948	14948	0	7474	2526	0	28-Jul-22	1021		
141	शानपुर कस्तो	वार्ड-21 भेवापुर कोबायकी में सिविल क्लब हाल के सामने से शेल्ड रोड सेस चू सड़क/नाली निर्माण कार्य।	1141341	149503	0	2991	2991	0	1496	25	0	28-Jul-22	1020		
142	शानपुर कस्तो	वार्ड-41 नगरपुर में रोड सिविल वर्क को विकसित करने का कार्य।	3290005	2636518	1120	52731	52731	0	26366	70	0	31-Jul-22	832		
143	शानपुर कस्तो	वार्ड-40 साहिबाबाद रेलवे लाइन से सौर उर्जा तक नाला निर्माण कार्य।	7211493	6193172	0	123864	123864	0	61932	12	0	31-Jul-22	972		
144	श्रीरामकान्हेर	वार्ड-39,88 सिविल कूल 6 प्लॉटों में सौन्दर्यकरण के पत्रालय एवं सजावटी रोड पीओ की अनुपूर्ति।	881650	165840	0	3317	0	0	1659	64	0	31-Jul-22	1040		
145	शानपुर कस्तो	वार्ड-68 प्रिय विहार डी-ब्लॉक डी-115 के सामने वाले पार्क को विकसित करने के कार्य।	1888683	1752459	566	35050	35050	0	17525	68	0	31-Jul-22	833		
146	संविन बुधर कान्हेर	वार्ड-49 एच-ब्लॉक से एच-30 होते हुये अन्वेषण रोड तक नाला विनिष्पन्न बहिष्के में आरामशीर्षी नाली एवं यार्डस सजावटी का कार्य।	26424720	2052113	0	41043	41043	0	20522	5	0	31-Jul-22	950		
147	श्रीरामकान्हेर	वार्ड-71 संपन्नार डी-23 ई-ब्लॉक सिविल वर्क के सौन्दर्यकरण का कार्य।	507413	417460	0	8350	0	0	4175	35	0	31-Jul-22	1038		
148	वार्डन इन्जीनरिंग	वार्ड-47 राव शैल एकेसी से क्विन्सर थागा रोड तक नाला निर्माण कार्य।	10683600	4479206	0	89585	89585	0	44793	43	0	31-Jul-22	970		
149	श्रीरामकान्हेर	वार्ड-50/11 मूलभूत सड़करी मर से संगम विहार होते हुये नन्देयार महरदेव मंदिर के सामने से होते हुये आरामशीर्षी नाला निर्माण कार्य।	57910860	5284474	0	105690	105690	0	52845	49	0	31-Jul-22	948		
150	अतिथारी अधिवक्ता निर्माण क्वार्टर-2	लोक निर्माण विभाग जेठान नगर चौक से एमपीएनएड तक 300 एम/आरामशीर्षी नाला निर्माण कार्य।	53819733	27655550	0	0	0	0	0	0	0	31-Jul-22	953		
151	श्री कस्तो	वार्ड-3,14 एवं 58 संपन्नार में सड़क चौक से तक आरामशीर्षी नाला निर्माण एवं क्वॉरि का कार्य।	35961029	10892350	0	217847	217847	0	108924	5032	0	31-Jul-22	1018		
152	श्रीरामकान्हेर	वार्ड-86 गणेशपुर सिविल 2 पार्क के सौन्दर्यकरण हेतु पास एवं फ्ल पीओ की अनुपूर्ति।	852083	145541	0	2911	0	0	1456	74	0	31-Jul-22	1039		
153	श्रीरामकान्हेर	मुख्य मार्ग पर गडवा मुक्त लिने जाने हेतु मोबाईल रो का कार्य।	8173440	8173440	0	8174	0	163469	0	97	0	31-Jul-22	1154		
Total-			350515693	12880	13654	6133069	6277168	0	3066561	107408	0	334904951			
1	श्री कस्तो	वार्ड-50 में मुजली के मकान से नई बाली होते हुये स्वीक नगर की सीमा तक आरामशीर्षी नाली निर्माण का कार्य।	2770508	633417	0	12669	12669	0	6335	44	0	16-Sep-22	1235		
2	श्री इन्द्रप्रदीप	वार्ड-70 राजवाड़ा बस्ती में 200/110 एमपीएन ब्लाक की एमपीएन पाइप लाइन डालने का कार्य।	4574759	4438478	0	79259	79259	0	39630	1030	0	16-Sep-22	1230		
3	श्री इन्द्रप्रदीप	वार्ड-20 शीपुर में केवल अनुपूर्ति हेतु 110 एमपीएन ब्लाक की एमपीएन लाइन डालने का कार्य।	2406338	881059	0	15734	15734	0	7867	24	0	16-Sep-22	1229		
4	श्री इन्द्रप्रदीप	वार्ड-62 डी-ब्लॉक गौरीपुर में क्वॉरि लाइने हेतु 110 एमपीएन ब्लाक की 1926 एवं 160 एमपीएन ब्लाक की पाइप लाइन डालने का कार्य।	3483975	1656386	0	29579	29579	0	14790	38	0	16-Sep-22	1231		
5	श्री इन्द्रप्रदीप	वार्ड-70 जलपुरी में 200/110 एमपीएन ब्लाक की एमपीएन लाइन डालने का कार्य।	4610838	3385964	0	60464	60464	0	30232	4	0	16-Sep-22	1417		

15 वीं वित्त आयोजन-सितम्बर 2022

गजियाबाद नगर निगम

वित्तीय वर्ष 2022-2023 आयकर/व्यापार कर/जीएसटी/रायल्टी/सेवा सेस टैक्स विवरण-

329

क्र.सं.	वर्ग का नाम	वर्ग का विवरण	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	शुभल इन्टरवार्डिंग	वृत्तपर द्वितीय पीलेखर मन्दिर वाली गली में मकान-40 के पीछे 15 एचपीओ तकसू अविद्यमान व मिलाप का कार्य।	5687500	1145752	0	0	20460	20460	0	10230	2	0	1094600	16-Sep-22	1233			
7	शुभल इन्टरवार्डिंग	वार्ड-46 जापुरी विहार प्राईमरी स्कूल के अन्दर 15 एचपीओ तकसू अविद्यमान व आवश्यक मिलाप का कार्य।	5687500	898156	0	0	16039	16039	0	8020	1058	0	857000	16-Sep-22	1232			
8	शुभल इन्टरवार्डिंग	वार्ड-70 श्रीरामनगर में 200/110 एचपीओ व्यास की 3000 मी0 एचपीओ/वीडीपीवार्डिंग डालने का कार्य।	4580976	4493369	0	0	80239	80239	0	40120	2071	0	4290700	16-Sep-22	1234			
9	श्रीन आर्टीफिशियल	वार्ड-97 व 94 रामप्रसाद रामपुरी क्षेत्र के विभिन्न ब्लाक में स्थित कुल 3 पार्कों में घास व सजावटी पेड़ आपूर्ति का कार्य।	968962	860207	0	0	17205	0	0	8603	99	0	834300	16-Sep-22	1223			
10	श्रीन आर्टीफिशियल	वार्ड-51 प्रतापविहार से-11 स्थित विभिन्न ब्लाक में 5 पार्कों में घास व पेड़ की आपूर्ति व लगाने का कार्य।	536948	478133	0	0	9563	0	0	4782	88	0	463700	16-Sep-22	1225			
11	श्रीन आर्टीफिशियल	वार्ड-14 विभिन्न ब्लाक में 5 पार्कों में सौन्दर्यकरण के तहत घास व सजावटी पेड़ आपूर्ति व लगाने का कार्य।	538105	486792	0	0	9736	0	0	4868	88	0	472100	16-Sep-22	1227			
12	श्रीन आर्टीफिशियल	वार्ड-77 वैशाली में विभिन्न 4 पार्कों में सौन्दर्यकरण हेतु घास व पेड़ की आपूर्ति व लगाने का कार्य।	774534	682620	0	0	13653	0	0	6827	40	0	662100	16-Sep-22	1226			
13	श्रीन आर्टीफिशियल	वार्ड-68 व 43 प्रतापविहार में विभिन्न ब्लाक स्थित 15 पार्कों में घास व सजावटी पेड़ की आपूर्ति का कार्य।	1589141	1398851	0	0	27978	0	0	13989	84	0	1356800	16-Sep-22	1224			
14	श्रीन आर्टीफिशियल	वार्ड-15 राहुल विहार द्वितीय में गली नं0-1 गली-7,14 तक समस्त गलियों में सीपसीपसी में नली निर्माण का कार्य।	9471334	1014606	0	0	20292	20292	0	10147	75	0	963800	16-Sep-22	1228			
अवधारणा विवरण निम्न-अक्टूबर 2022			Total-	22453790	0	0	412870	334735	0	206440	4745	0	21495000					
1	श्री सुरेश कुमार वर्मा	वार्ड-64 रीमा गार्डन में गजियाबाद स्कूल के सामने से जुड़िका तक इन्टरवार्डिंग चकसू लगाने का कार्य।	1395166	1160522	0	0	20724	20724	0	10362	12	0	100000	22-Oct-22	1553			
2	श्री आकांक्षा करसो	वार्ड-71 एचपीओ/पीओ/ओवर ब्रिज से बी-ब्लाक स्कूलस कक्ष पर गेट तक 600 एचपीओ व्यास की 850 मी0सीवर लाईन डालने का कार्य।	7007933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	22-Oct-22	1551			
3	श्री आशीष करसो	वार्ड-10 सी0एस0एस0 कालोनी की एचपी कालोनी में पेड़ों पर से प्राईमरी स्कूल डेते डेते पुल सिंघ के मकान तक इतिहास सड़क का सुधार कार्य।	3701064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	22-Oct-22	1552			
4	श्री आरजीवीलिटेटेड इन्जीनियर	राजीव कालोनी मुख्य मार्ग पर सिडबल वेयर मिल के बगल से शेष मार्ग पर जल निकासी हेतु आरजीवीनो द्वारा नाला निर्माण कार्य।	8176390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	22-Oct-22	1558			
5	श्री राजेश करसो	वार्ड-50 सखीक नगर में मेट रोड पर पेसी से सीपपी ग्राम के मकान तक सीपपीवहल सड़क व नली निर्माण कार्य।	3207682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	22-Oct-22	1559			
6	श्री सुनील गर्ग एच0कम्पनी	नेहरूनगर स्थित आर्किटेक्चरल स्टिडिओ में लिफ्ट 4 नं0 एचपीओ/पीओ स्थित काया अडॉर्न आदि कार्य कराते जाने का कार्य।	48623390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	22-Oct-22	1562			
7	श्री सिद्ध करसो/कम्पनी	वार्ड-89 से-5 वैशाली के कानना रोडवार्ड एवं कानना रोडवार्ड के इतिहास सड़क का सुधार का कार्य।	4334688	1418467	0	0	28370	28370	0	14185	5042	0	100000	22-Oct-22	1561			
8	श्री श्रीजीवीलिटेटेड प्रोजेक्ट प्राजिंटो	वार्ड-72 कौशांभी में नया टावर से सप्लाइ डेते डेते गंगा टावर तक डैम द्वारा सड़क सुधार का कार्य।	10350517	2376679	0	0	47534	47534	0	23767	10044	0	200000	22-Oct-22	1560			
9	श्री प्रेम करसो	वार्ड-47 महेंद्र एचपीओ में आर्य अस्पताल से चौक तक आरजीवीनो नाला व डैम द्वारा सड़क सुधार कार्य।	4448888	373688	0	0	7474	7474	0	3737	2003	0	300000	22-Oct-22	1557			

गाजियाबाद नगर निगम

वित्तीय वर्ष 2022-2023 आयकर/ब्यापार कर/जीएसटी/रायस्ती/लेबर सेस टेक्स विवरण

291-330

क्र.सं.	वर्ग का नाम	वर्ग का विवरण	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	श्री.स.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर	संयोजित में विक्रीकर भौतिक तब सहक सुधार कार्य।	38890500	4540977	0	0	90820	90820	0	45410	27	0	400000	22-Oct-22	1556
11	श्री.स.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर	वार्ड-59 में बस्ती पुनर्गठन अभियान मोहल्ले में 2800 मीटर सीवर लाइन सुधार का कार्य।	19320000	8722688	0	0	174454	174454	0	87227	20053	0	800000	22-Oct-22	1555
12	श्री.स.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर	वार्ड-20 भीपुर राजीव खालोनी में उत्तरी निकेतन पुलिस चौकी के सामक वाली मुख्य सहक पर जल निकासी हेतु नाला व सहक निर्माण का कार्य।	7138784	1933731	0	0	38675	38675	0	19338	2143	0	400000	22-Oct-22	1553
Total-			20526752	408051	0	0	408051	408051	0	204026	39324	0	3700000		

14 वॉ विल आयोजन-अक्टूबर 2022

1	श्री.स.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर	भेट रोड नन्दग्राम मुख्य मार्ग से काला मार्ग तक हिवडकर निर्माण व ईस सहक सुधार का कार्य तथा अचैकर सन से -23024260	3144618	53299	0	0	53299	53299	0	26650	70	0	3011300	22-Oct-22	1665
2	श्री.स.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर	ट्यू चौकडे होते हुये भीस सहक सुधार का कार्य।	9696580	3266727	0	0	55369	55369	0	27685	4	0	3128300	22-Oct-22	1663
3	श्री.स.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर	वार्ड-25 शीला अचरल प्राईमरी प्रप्यताला द्वितीय का भीतिक उन्नयन का कार्य।	2042435	1560806	0	0	26455	26455	0	13228	68	0	1494600	22-Oct-22	1662
4	श्री.स.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर	वार्ड-17 शिखर शिखर सिल नगर निगम भूमि पर बर्बेन केन्द्री का कार्य।	93800575	7841283	0	0	131787	131787	0	65894	15	0	7511800	22-Oct-22	1664
5	श्री.स.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर	आर्यशान अचरल अचरल वार्ड-24 कम्पोजिट मरौली व का सुदरीकरण का कार्य।	3040373	1051309	0	0	17670	17670	0	8835	1034	0	1006100	22-Oct-22	1660
6	श्री.स.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर	वार्ड-24 महरौली नगर निगम बालिका इन्टरकॉलेज के नवीकरण का कार्य।	7776492	2664875	0	0	45168	45168	0	22584	55	0	2551900	22-Oct-22	1661
7	श्री.स.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर	वार्ड-50 कम्पोजिट विद्यालय नूरनगर सिलानी का भीतिक उन्नयन का कार्य।	1327242	501185	0	0	8495	8495	0	4248	47	0	479900	22-Oct-22	1659
8	श्री.स.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर	गाण्पाद अचरल शिखरी विद्यालय मरमत व सौन्दर्यकरण का कार्य।	9091046	1180272	0	0	20005	20005	0	10003	59	0	1130200	22-Oct-22	1658
9	श्री.स.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर	आर्यशान अचरल अचरल वार्ड-16 प्राथमिक सिकरोड सुदरीकरण का कार्य।	1614727	142456	0	0	2415	2415	0	1208	518	0	135900	22-Oct-22	1657
Total-			21953531	360663	0	0	360663	360663	0	180335	1870	0	20450000		

15 वॉ विल आयोजन-अक्टूबर 2022

1	श्री.स.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर	वार्ड-49 एच-ब्लॉक से एच-30 होते हुये अचैकर रोड तक नाला विभिन्न भवितो में आरसीसी नाली एवं टारस 26424720	751323	12735	0	0	12735	12735	0	6368	85	0	719400	22-Oct-22	1701
2	श्री.स.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर	वार्ड-32 कृष्ण नगर की आन्तरिक सहको एवं नालियो का निर्माण का कार्य।	12100000	3111755	0	0	52742	52742	0	26371	100	0	2979800	22-Oct-22	1738
3	श्री.स.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर	वार्ड-57 में देवेन्द्र स्वामी के मकान से राजीव स्वामी के मकान तक सहक गलियो में नाली व टारस लगाने का कार्य।	6957657	2191044	0	0	37137	37137	0	18569	1	0	2098200	22-Oct-22	1693
4	श्री.स.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर	वार्ड-72 - कौशाबी - नेत्र सीनेया से यशोदा अस्पताल तथा ऐलर्जी से वाना तथा अचर केन्द्री होते हुये यशोदा अस्पताल तक नाला निर्माण का कार्य।	12467317	2279254	0	0	38632	38632	0	19316	74	0	2182600	22-Oct-22	1692
5	श्री.स.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर	वार्ड-52 भीमरी मोड पुल्ल घर से भीम नगर जीपीरोड होते हुये आरसीसी नाले का निर्माण का कार्य।	10347990	4797113	0	0	81307	81307	0	40654	2245	0	4591600	22-Oct-22	1691
6	श्री.स.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर	सिटीजोन में विभिन्न जगहों पर ग्रास पैवर लगाने का कार्य।	3336733	1248224	0	0	21157	21157	0	10579	31	0	1195300	22-Oct-22	1690

33

क्र.सं.	वर्ग का नाम	कार्य का विवरण	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	को दर्शन कर, एएसटी/आई	कार्य का विवरण	3												
		विद्युत टरर से बुरक चोक रोडो हुडो वीरन्द्र सिंह गढाली चोक तक साईट पटरी पर ग्रास वेयर लगाने का कार्य।	10448007	7057920	0	0	119626	119626	0	59613	55	0	6758800	22-Oct-22	1689
8	को दर्शन कर, एएसटी/आई	मदन मोहन मालवीय मार्ग सिंक रोड से अंसल लाया व क्लाउड 9 होते से-2 सी आर्मीबाद सोसायटी तक सड़क साईट पटरी पर ग्रास वेयर लगाने का कार्य।	4305692	2079405	0	0	35245	35245	0	17623	92	0	1991200	22-Oct-22	1687
9	को दर्शन कर, एएसटी/आई	गुरर चौक से मेवाड कालेज होते हुये से-1 बट तक सड़क साईट पटरी पर ग्रास वेयर व कोरत टर्करस लगाने का कार्य।	7429694	1526660	0	0	25876	25876	0	12938	70	0	1461900	22-Oct-22	1688
10	को महती कर, एएसटी/आई	वार्ड-76 मेवाली राष्ट्रीय ए में 1660 मीटर रेकाल एवडीपीएच परियोजना शुरू करने का कार्य।	3116366	1369504	0	0	24456	24456	0	12228	64	0	1308300	22-Oct-22	1737
11	को महती कर, एएसटी/आई	वार्ड-66 डबल कालोनी जली मिम गार्डन तथा मौसम बिहार में पंपहाउस आयुर्ति हेतु 3000 मीटर 110 एएसटी व्यास की एवडीपीएच परियोजना शुरू करने का कार्य।	2351860	2341340	0	0	41810	41810	0	20905	2515	0	2234300	22-Oct-22	1736
12	को डेरी पर ट्रेडिंग एंड इन्फोर्मेशन एक्सचेंज एएसटी/आई	वार्ड-04 माता कालोनी में 15 एएसटी नलरू अविद्यमान एवं आवश्यक मिलाव का कार्य।	3430000	337528	0	0	6028	6028	0	3014	3058	0	319400	22-Oct-22	1735
13	को आकांक्षा कर, एएसटी/आई	वार्ड-46 सुखलाल एनकेय व प्रीत बिहार में कंडेनर बकाने हेतु 110 एएसटी व्यास की 4023 मीटर एवं 160 एएसटी व्यास की 914 मीटर रेकाल एवडीपीएच परियोजना शुरू करने का कार्य।	8002982	4623595	0	0	78367	78367	0	39184	77	0	4427600	22-Oct-22	1734
14	को आकांक्षा कर, एएसटी/आई	वार्ड-71 से-23 संकलन ए-ब्लॉक जैन मंदिर पार्क में 15 एएसटी नलरू अविद्यमान व मिलाव का कार्य।	3465000	1552388	0	0	26312	26312	0	13156	2008	0	1484600	22-Oct-22	1733
15	को आकांक्षा कर, एएसटी/आई	वार्ड-14 विजलीवर के पास 15 एएसटी नलरू अविद्यमान एवं आवश्यक मिलाव का कार्य।	3465000	1825170	0	0	30936	30936	0	15468	2030	0	1745800	22-Oct-22	1732
16	को आकांक्षा कर, एएसटी/आई	वार्ड-67 राजनगर से-8 पार्क में 15 एएसटी नलरू अविद्यमान एवं आवश्यक मिलाव का कार्य।	3465000	1566960	0	0	26559	26559	0	13280	2062	0	1498500	22-Oct-22	1731
17	को एएसटी/आई	वार्ड-65 जी-ब्लॉक में 15 एएसटी नलरू अविद्यमान एवं आवश्यक मिलाव का कार्य।	3447500	316968	0	0	5661	5661	0	2831	1515	0	301300	22-Oct-22	1730
18	को एएसटी/आई	वार्ड-91 कविनगर से-ब्लॉक पार्क में 15 एएसटी नलरू अविद्यमान एवं आवश्यक मिलाव का कार्य।	3319750	303950	0	0	5428	5428	0	2714	1580	0	288800	22-Oct-22	1729
19	को एएसटी/आई	वार्ड-6 नन्दग्राम स्थित कुल 3 पार्कों का सौंदर्यकरण हेतु घास व पेड़ पौधों की आयुर्ति का कार्य।	605351	428520	0	0	8571	0	0	4286	63	0	415600	22-Oct-22	1728
20	को एएसटी/आई	वार्ड-04 प्रतापबिहार से-12 ए.पी. ब्लॉक स्थित कुल 3 पार्कों के सौंदर्यकरण हेतु घास व पेड़ पौधों की आयुर्ति का कार्य।	299781	229847	0	0	4597	0	0	2299	51	0	222900	22-Oct-22	1727
21	को एएसटी/आई	वार्ड-64 राजनगर स्थित कुल 2 पार्कों में सौंदर्यकरण हेतु घास व पेड़ पौधों की आयुर्ति।	216382	201152	0	0	4024	0	0	2012	16	0	195100	22-Oct-22	1726
22	को एएसटी/आई	वार्ड-04 माता कालोनी व 7 सुवर्णपुरी के विभिन्न ब्लॉक में स्थित कुल 3 पार्कों में सौंदर्यकरण हेतु घास व पेड़ पौधों की आयुर्ति का कार्य।	242582	158675	0	0	3174	0	0	1587	14	0	153900	22-Oct-22	1725
23	को एएसटी/आई	वार्ड-51 प्रताप बिहार से-11 काशीपुर योजना स्थित बहा पार्क में सौंदर्यकरण हेतु घास व पेड़ पौधों की आयुर्ति।	479009	313493	0	0	6270	0	0	3135	88	0	304000	22-Oct-22	1724
24	को एएसटी/आई	वार्ड-55 में कुल 06 पार्कों के सौंदर्यकरण हेतु घास व पेड़ पौधों की आयुर्ति का कार्य।	536245	408515	0	0	8171	0	0	4086	58	0	396200	22-Oct-22	1723
25	को एएसटी/आई	वार्ड-58 पार्कों के सौंदर्यकरण हेतु घास व पेड़ पौधों लगाने का कार्य।	197116	174136	0	0	3483	0	0	1742	11	0	168900	22-Oct-22	1722

795-
332

गण्डियाबाद नगर निगम

वित्तीय वर्ष 2022-2023 आयकर/व्यापार कर/जी0एस0टी0/एस0एल0/लेबर सेस डेक्स विवरण-

क्र.सं.	फर्म का नाम	कार्य का विवरण	दर जोहर	ई0एस0टी0	आयकर	जी0एस0टी0	व्यापार कर	सेस	अल्प/मि0पेटी	अल्प/मि0पेटी	मुताबत तिथि	दिनांक	बाउण्डरी नं0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	श्री0के0ए0के0ए0ए0ए0ए0ए0ए0ए0ए0ए0ए0	वार्ड-56 अतिरिक्त कालोनी के सुल 03 पार्क में पास आपूर्ति का कार्य।	484004	299661	0	0	5994	0	0	2997	70	0	290600	22-Oct-22	1721
27	श्री0के0ए0के0ए0ए0ए0ए0ए0ए0ए0ए0ए0ए0	वार्ड-77 वैशाली क्षेत्र के विभिन्न के सुल 09 पार्क में सौन्दर्यकरण हेतु पास धीरे आपूर्ति का कार्य।	664575	458551	0	0	9172	0	0	4586	93	0	444700	22-Oct-22	1720
28	श्री0के0ए0के0ए0ए0ए0ए0ए0ए0ए0ए0ए0ए0	वार्ड-72 वैशाली व वैशाली क्षेत्र के विभिन्न ब्लाक स्थित सुल 04 पार्क का सौन्दर्यकरण हेतु पास/रेड आपूर्ति लगाने का कार्य।	854642	804642	0	0	16093	0	0	8047	2	0	780500	22-Oct-22	1718
29	श्री0के0ए0के0ए0ए0ए0ए0ए0ए0ए0ए0ए0ए0	वार्ड-41 व 59 महाराजपुर विभिन्न ब्लाक में सुल 06 पार्क में सौन्दर्यकरण हेतु पास आपूर्ति व लगाने का कार्य।	1299772	800998	0	0	16020	0	0	8010	68	0	776900	22-Oct-22	1719
30	श्री0के0ए0के0ए0ए0ए0ए0ए0ए0ए0ए0ए0ए0	वार्ड-56 सै-9,16 स्थित सुल 06 पार्क के सौन्दर्यकरण हेतु पास व रेड धीरे की आपूर्ति का कार्य।	544447	328121	0	0	6563	0	0	3282	76	0	318200	22-Oct-22	1672
31	श्री0के0ए0के0ए0ए0ए0ए0ए0ए0ए0ए0ए0ए0	वार्ड-68 बुधबिहार विभिन्न ब्लाक में स्थित सुल 05 पार्क सौन्दर्यकरण के लक्ष्य सजावटी धीरे आपूर्ति का कार्य।	422473	40250	0	0	805	0	0	403	42	0	39000	22-Oct-22	1674
32	श्री0मार्दन इन्जी0ए0ए0सी0,ए0ए0ए0ए0	राजमगर ब्ला-6/186 के सामने पार्क की चार दीवारी निर्माण का सौन्दर्यकरण सुदृश्य मरम्मत का कार्य।	986370	812015	459	0	16241	16241	0	8121	53	0	770900	22-Oct-22	1670
33	श्री0मनसि सिन्धर एड कान्ट्रेक्टर,ए0ए0ए0ए0	वार्ड-22 अमृत कृपाज्योत्सव जी0ए0ए0ए0ए0ए0ए0ए0ए0ए0ए0ए0ए0ए0 सामने पार्क की मरम्मत कार्य विकसित करना का कार्य।	1978331	1106283	1126	0	19756	19756	0	9878	67	0	1055700	22-Oct-22	1670
34	श्री0शुभा एसे0,ए0ए0ए0ए0	वार्ड-78 शाहीमगर गार्डन एक्स-1 रणव्यूहाण पार्क मरम्मत कर विकसित करना।	1929762	249032	1196	0	4447	4447	0	2224	18	0	236700	22-Oct-22	1669
35	श्री0शुभा एसे0,ए0ए0ए0ए0	वार्ड-74 खुशबूदा सै-15 पार्क में 15 एकर010 नल्लूरा अभियान एवं आयकरक मिलान कार्य।	4987578	1461542	1568	0	26099	26099	0	13050	26	0	1394700	22-Oct-22	1668
36	श्री0सुरेश कन्स्ट्रक्टर,ए0ए0ए0ए0	वार्ड-66 मौसम विकार शिव मन्दिर से एयरवेस की बाउण्ड्री के सजावट अभियान तक आर0ए0ए0सी0 द्वारा नाला निर्माण का कार्य।	3461500	1718006	0	0	29119	29119	0	14560	8	0	1645200	22-Oct-22	1667
37	श्री0विकास कन्स्ट्रक्टर,ए0ए0ए0ए0	वार्ड-66 मौसम विकार शिव मन्दिर से एयरवेस की बाउण्ड्री के सजावट अभियान तक आर0ए0ए0सी0 द्वारा नाला निर्माण का कार्य।	10773868	3276278	0	0	55531	55531	0	27766	50	0	3137400	22-Oct-22	1695
38	श्री0प्रधान कान्ट्रेक्टर,ए0ए0ए0ए0	वार्ड-73 शाहीमगर गार्डन एक्स-2 शिव चौक से शहीदनगर मुख्य गल्ले से गणेशपुरी गल्ले का आर0ए0ए0सी0 द्वारा निर्माण कार्य।	9310000	187676	0	0	3181	3181	0	1591	23	0	179700	22-Oct-22	1697
39	श्री0प्रधान कान्ट्रेक्टर,ए0ए0ए0ए0	अवास विकास गेट क्लस्टर से अटल चौक होते हुये नगर सुडिस रोड तक सड़क वाइड पट्टी पर ग्रास पैवर लायन।	4819541	1495047	0	0	25340	25340	0	12670	97	0	1431600	22-Oct-22	1698
40	श्री0गार्दन इन्जी0ए0सी0,ए0ए0ए0ए0	वार्ड-47 में राज गैस एग्जिन्सी से कबिनगर घाना रोड तक नाला निर्माण कार्य।	11139371	1742051	0	0	29279	29279	0	14640	53	0	1668800	22-Oct-22	1699
41	श्री0मदन कन्स्ट्रक्टर,ए0ए0ए0ए0	वार्ड-59 पुणुन शहर स्थानी गेट पुलिस चौकी से कुंआघर मिनी मार्केट बालीकि पार्क/पवर क्लस्टर होते हुये ग्रास गेट तक के सामने पुलिस तक आर0ए0ए0सी0 वाले का निर्माण कार्य।	12125000	3281721	0	0	55623	55623	0	27812	63	0	3142600	22-Oct-22	1700
42	श्री0मदन कन्स्ट्रक्टर,ए0ए0ए0ए0	वार्ड-33 गाल वी हट्टी से रेलवे स्टेशन तक नाला निर्माण का कार्य।	3530512	997620	0	0	16909	16909	0	8455	47	0	955300	22-Oct-22	1681
43	श्री0महेशकर कान्ट्रेक्टर,ए0ए0ए0ए0	वार्ड-50/11 पूरुणा सरकारी नल से संगम विकार होते हुये मन्दीपार पार्क/वेड मन्दिर के सामने से होते हुये आर0ए0ए0सी0 नाला निर्माण कार्य।	57910860	2160390	0	0	36617	36617	0	18309	5247	0	2063600	22-Oct-22	1679
44	श्री0दर्शन कन्स्ट्रक्टर,ए0ए0ए0ए0	हेमला कन्स्ट्रिक्ट से औद्योगिक क्षेत्र पुलिस चौकी तक ग्रास पैवर ब्लाक का कार्य।	3084280	498878	0	0	9978	9978	0	4989	1033	0	472900	22-Oct-22	1686

333
297
गजियाबाद नगर निगम

वित्तीय वर्ष 2022-2023 आयकर/व्यापार कर/सीएसटी/राजस्वी/वेयर सेस टैक्स विवरण-

क्र.सं.	वर्ग का नाम	कार्य का विवरण	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
45	श्रीगाली इन्फॉर्मेटिक्स इजीएमएल	वार्ड-75 लाजपतनगर में जी-61 की अवशेष की अवशेष क्षतिग्रस्त गलियों में नाली व टाइल्स व सड़क सुधार कार्य।	14630355	2120544	0	0	35942	35942	0	17971	89	0	2030600	22-Oct-22	1685			
46	श्रीगाली इन्फॉर्मेटिक्स इजीएमएल	वार्ड-16 मोरटा में ट्रांसफॉर्मर से मेरठ रोड तक नाला निर्माण एवं टाइल्स कार्य।	28922100	5466172	0	0	92647	92647	0	46324	54	0	5234500	22-Oct-22	1684			
47	श्रीगाली इन्फॉर्मेटिक्स इजीएमएल	वार्ड-28 हर्षा कन्फाउंड की मुख्य रोड का क्षतिग्रस्त सड़क सुधार व शक्ति निवेशन स्कूल से शिवरगण चौक तक नाला निर्माण कार्य।	134777250	4124147	0	0	73646	73646	0	36823	32	0	3940000	22-Oct-22	1683			
48	श्रीगाली इन्फॉर्मेटिक्स इजीएमएल	वार्ड-60 रघुनाथपूर में नाला निर्माण कार्य।	25897450	4924543	0	0	87939	87939	0	43970	5195	0	4699500	22-Oct-22	1682			
49	श्रीगाली इन्फॉर्मेटिक्स इजीएमएल	वार्ड-49 विमान दुर्गे के सफाई से अस्वास्थ्य व वाइफ्ट युनिवर्सिटी के सामने विमान दुर्गे के स्कूल तक सड़क व सीएसटी रोड व नाली निर्माण व सड़क पट्टी का कार्य।	11895300	858899	0	0	14558	14558	0	7279	2204	0	820300	22-Oct-22	1678			
50	श्रीगाली इन्फॉर्मेटिक्स इजीएमएल	वार्ड-15 रघुनाथपूर कालोनी में गड्ढा असेंबलर तक सड़क के दोनो तरफ सड़क पट्टी पर ग्रास पेर टाइल्स का निर्माण व सीवरकरण का कार्य।	1713485	1663485	0	0	28195	28195	0	14098	1097	0	1591900	22-Oct-22	1677			
51	श्रीगाली इन्फॉर्मेटिक्स इजीएमएल	वार्ड-11 आश्रम रोड पर गली नं-9 की पुलिया से विमान रोड होते हुये गली के मन्दिर तक आरसीसी नाला निर्माण कार्य।	5126976	1533393	0	0	25990	25990	0	12995	5018	0	1463400	22-Oct-22	1676			
52	श्रीगाली इन्फॉर्मेटिक्स इजीएमएल	वार्ड-67 एस टैन्ड से रसगुल कट तक व रसगुल कट तक तार क्षतिग्रस्त कर नाला निर्माण कार्य।	910660	22400	0	0	448	448	0	224	80	0	21200	22-Oct-22	1675			
53	श्रीगाली इन्फॉर्मेटिक्स इजीएमएल	वार्ड-94 रामपुरी अमर पार्क में मर्याद कर सीवरकरण का कार्य।	854985	120120	1120	0	2403	2403	0	1202	92	0	112900	22-Oct-22	1674			
54	श्रीगाली इन्फॉर्मेटिक्स इजीएमएल	वार्ड-97 रघुनाथ विमान पार्क में सीवरकरण के तहत 5 पार्क में ग्रास पेर सजावटी रोड आधुनिक व सामने का कार्य।	634987	51605	0	0	1033	1033	0	517	55	0	50000	22-Oct-22	1673			
55	श्रीगाली इन्फॉर्मेटिक्स इजीएमएल	विमान पार्क पर ग्रास पेर लगाने का कार्य।	2947755	1451713	0	0	24606	24606	0	12303	98	0	1390100	22-Oct-22	1702			
56	श्रीगाली इन्फॉर्मेटिक्स इजीएमएल	रघुनाथपूर में सीएसटी ऑफिस से गी-ब्लाक चौक तक ग्रास पेर लगाने का कार्य।	557542	548780	0	0	10976	10976	0	5488	1040	0	520300	22-Oct-22	1703			
57	श्रीगाली इन्फॉर्मेटिक्स इजीएमएल	वार्ड-17 रघुनाथपूर में शेवटरोम के सामने डिजिटल विचार केंद्री के सामने से पहले तक आरसीसी नाला निर्माण कार्य।	17667220	3846847	0	0	65201	65201	0	32601	44	0	3683800	22-Oct-22	1704			
58	श्रीगाली इन्फॉर्मेटिक्स इजीएमएल	वार्ड-97 रघुनाथ के गैंग रोड टर्ली से टी-पार्क तक दोनो तरफ आरसीसी नाला निर्माण का कार्य।	18670560	2977182	0	0	50461	50461	0	25231	29	0	2851000	22-Oct-22	1705			
59	श्रीगाली इन्फॉर्मेटिक्स इजीएमएल	वार्ड-85 लाजपतनगर में एलएड-237 से रत्नेश क्लब से एल-ब्लाक से शक्ति विचार से सीएसटी तक जी-40 तक व ए-ब्लाक तक आरसीसी नाला निर्माण कार्य।	9559941	1688947	0	0	28627	28627	0	14314	79	0	1617300	22-Oct-22	1706			
60	श्रीगाली इन्फॉर्मेटिक्स इजीएमएल	वार्ड-3,14,58 विमानपूर में सजावटी चौक से आरसीसी नाला निर्माण व कवरिंग कार्य।	35961029	21771948	0	0	369017	369017	0	184509	5	0	20849400	22-Oct-22	1708			
61	श्रीगाली इन्फॉर्मेटिक्स इजीएमएल	वार्ड-21 शोभापुर में गुग्गु कालोनी की विमान सड़क/गलियों का सुधार कार्य।	5967280	194186	0	0	3468	3468	0	1734	16	0	185500	22-Oct-22	1709			
62	श्रीगाली इन्फॉर्मेटिक्स इजीएमएल	शुभम सुंगी से रघुनाथ एएस चौक तक रोड का ड्रैफ्ट जारा सड़क सुधार कार्य।	19881422	1957369	0	0	34954	34954	0	17477	84	0	1869900	22-Oct-22	1707			

गाजियाबाद नगर निगम

299

334

वित्तीय वर्ष 2022-2023 आयकर/ब्यापार कर/जीएसटी/रायस्ती/वेबर सेस टेक्स विवरण-

क्र.सं.	वर्ग का नाम	कार्य का विवरण	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	दे-उर राशि	टर्न ओवर	रॉकवेटी	T.D.S 1%	आयकर	जी.एस.टी.	ब्यापार कर	सेस	अन्य/नगरी	कटौती	मुआवजा राशि	दिनांक	राजस्व सं.
63	शान्तपुर कन्सो	वार्ड-40 साहिबाबाद साईं उर्जा मार्ग पर शिव मन्दिर से साईं मन्दिर तक मैरिज पार्क हाल से सयुक्ता रोड लाइट तक आरसीसीग नाला निर्माण कार्य।	13651884	2646162	0	0	44851	44851	0	22426	5034	0	2529000	22-Oct-22	1710
64	शान्तपुर कन्सो	वार्ड-40 साहिबाबाद गौड रोड से साईं उर्जा मार्ग तक नाला निर्माण कार्य।	7211463	1010410	0	0	17126	17126	0	8563	10095	0	957500	22-Oct-22	1711
65	शान्तपुर कन्सो	वार्ड-24 शंकर विहार कालोनी लाल कुआ में करीब बाबने रोड 110 एमएम व्यास की डालने का कार्य।	18658129	2448297	0	0	41497	41497	0	20748	55	0	2344500	22-Oct-22	1712
66	शान्तपुर कन्सो	राजेंद्रनगर मेट्रोस्टेशन से कलपेट गौड चक्कर तक का शौचालय सड़क सुधार का कार्य।	8671246	688274	0	0	11666	11666	0	5833	9	0	659100	22-Oct-22	1713
67	शान्तपुर कन्सो	वार्ड-72 कौशाम्बी ए-ब्लॉक में विजया स्मारिक होम एजिंग नाला के सामने एक सड़क सुधार कार्य।	2831239	258762	0	0	4621	4621	0	2311	9	0	247200	22-Oct-22	1714
68	शान्तपुर कन्सो	वार्ड-51 सीएसएचएचएचएच से डीपीएच-बी रोड तक नाला का अद्ययावत रूप पर आरसीसीग निर्माण का कार्य।	14823044	5047921	0	0	84839	84839	0	42420	4323	0	4831500	22-Oct-22	1715
69	शान्तपुर कन्सो	नेट रिहायश तक का सड़क सुधार कार्य।	63126814	1185188	0	0	20088	20088	0	10044	68	0	1134900	22-Oct-22	1716
70	शान्तपुर कन्सो	वार्ड-04 माला कालोनी से-12 डीएचएच में आरसीसीग नाला एवं सड़क निर्माण एवं सड़क निर्माण कार्य।	4371300	1615694	0	0	27385	27385	0	13693	31	0	1547200	22-Oct-22	1717
71	शान्तपुर कन्सो	समस्त जैन अन्तर्गत शिवमंडल रोड स्टीपिंग का कार्य।	22726620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12272000	22-Oct-22	1696
72	शान्तपुर कन्सो	Handling Processing and Disposal of Municipal Solid Waste.	21602452	21602452	0	0	432049	0	0	0	1380003	0	19790400	22-Oct-22	1739
73	शान्तपुर कन्सो	सुपुर्वा चौक के प्रतिदिन उत्सवित बूढ़े के निराकरण का कार्य।	14017795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7037400	22-Oct-22	1694
Total-			154738641	5469	0	2725304	2199285	0	1146646	1440037	0	1665531300			
1	आकाश कन्सो/कम्पनी	वार्ड-39 कन्सो/कम्पनी के सामने मुख्य नाला तथा शौचालय का सुधार कार्य।	1363866	434264	0	0	7361	7361	0	3681	61	0	415800	23-Nov-22	428
2	सीसा कन्सो	आरसीसीग नाला का सुधार कार्य।	3283612	1077416	0	0	18108	18108	0	9054	1046	0	1031100	23-Nov-22	425
3	आकाश कन्सो/कम्पनी	वार्ड-19 प्राथमिक विद्यालय शिवपुरा में दिव्यांग शौचालय व टायलीकरण का कार्य।	50115	35738	0	0	639	639	0	319	41	0	34100	23-Nov-22	426
Total-			1547418	0	0	26108	26108	0	13054	1148	0	1481000			
1	शान्तपुर कन्सो	वार्ड-70 शान्तपुरी के सामने मुख्य नाला तथा शौचालय का सुधार कार्य।	8773175	214516	0	0	3636	3636	0	1818	14226	0	193200	23-Nov-22	437
2	शान्तपुर कन्सो	वार्ड-70 शान्तपुरी में 200 एमएम व्यास की एमएम नाला साईं उर्जा रोड से साईं उर्जा मार्ग तक नाला निर्माण का कार्य।	4610838	1214883	0	0	21695	21695	0	10848	1545	0	1159100	23-Nov-22	441
3	शान्तपुर कन्सो	वार्ड-77 शान्तपुरी से-4 मजरा-355 व 356 के सामने पार्क में शौचालय का सुधार कार्य।	998954	691130	0	0	13823	0	0	6912	95	0	670300	23-Nov-22	440
4	शान्तपुर कन्सो	वार्ड-76 से-10 से-19 तक शान्तपुरी क्षेत्र में शिवमंडल विद्यालय से 5 पाइप का शौचालय का कार्य।	856170	295808	0	0	5917	0	0	2959	32	0	286900	23-Nov-22	439
5	शान्तपुर कन्सो	वार्ड-49 के शिवमंडल ब्लॉक में स्थित कुल 11 पाइपों में शौचालय का सुधार कार्य।	1306899	721407	0	0	14429	0	0	7215	63	0	699800	23-Nov-22	438
6	शान्तपुर कन्सो	वार्ड-74 से-15 पाइपों में 15 एमएम नाला साईं उर्जा रोड से साईं उर्जा मार्ग तक नाला निर्माण का कार्य।	52345	52345	0	0	0	0	0	0	0	0	52345	23-Nov-22	433

14 वीं वित्त आयोग-नवम्बर 2022

15 वीं वित्त आयोग-नवम्बर 2022

335

गण्डियाबाद नगर निगम

वित्तीय वर्ष 2022-2023 आयकर/व्यापार कर/जीएसटी/रायल्टी/सेवा सेस देकर विवरण-

क्र.सं.	फर्म का नाम	कार्य का विवरण	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	श्री इंद्रप्रस्थ/एडवोकेट/डीडी द्वितीय	वार्ड-74 से-15 पार्क में 15 एचपीओ तकसू अधिचालन का कार्य।	44450	44450	0	0	0	0	0	0	0	0	44450	23-Nov-22	434
8	श्री इंद्रप्रस्थ/एडवोकेट/डीडी द्वितीय	वार्ड-54 वासुधारा लिफ्टन पार्क में 15 एचपीओ तकसू अधिचालन का कार्य।	12596	12596	0	0	0	0	0	0	0	0	12596	23-Nov-22	435
9	श्री इंद्रप्रस्थ/एडवोकेट/डीडी द्वितीय	वार्ड-54 वासुधारा लिफ्टन पार्क में 15 एचपीओ तकसू अधिचालन का कार्य।	31195	31195	0	0	0	0	0	0	0	0	31195	23-Nov-22	436
10	श्री एलको/जीएडवोकेट/डीडी द्वितीय	वार्ड-19 परदेतगर जी-ब्लॉक शिपपार्क के स्थान पर जे-105 के समाने पार्क में 15 एचपीओ तकसू समाप्ति का कार्य।	3447500	981626	0	0	19633	19633	0	9817	43	0	932500	23-Nov-22	432
11	श्री इंद्रप्रस्थ/एडवोकेट/डीडी द्वितीय	विपुल संयोजन का कार्य।	105311	105311	0	0	0	0	0	0	0	0	105311	23-Nov-22	430
12	श्री इंद्रप्रस्थ/एडवोकेट/डीडी द्वितीय	विपुल संयोजन का कार्य।	83284	63284	0	0	0	0	0	0	0	0	63284	23-Nov-22	431
13	श्री आकाशा कन्सल्टन्सी	महानगर एनक्लेव डी-ब्लॉक जे-ब्लॉक में करीब बचाने हेतु 110 एचपीओ ब्यास की 4670 मीटर पार्क सार्जन बिलाने का कार्य।	8301568	3385087	0	0	57375	57375	0	28668	8049	0	3233600	23-Nov-22	442
		Total	7813638	7813638	0	0	136508	102339	0	68257	24053	0	7484581		
1	श्री नरेश इंद्रिया इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एडवोकेट/एडवोकेट/डीडी द्वितीय	वार्ड-4 व 14 में पबू की दुकान से जीएसटीडी स्कूल के पास आरपीडीडी नाला निर्माण कार्य।	8236268	636885	0	0	10704	10704	0	5352	101225	0	508900	22-Dec-22	528
2	श्री नरेश इंद्रिया इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एडवोकेट/एडवोकेट/डीडी द्वितीय	शिवानी विद्यालय की मरम्मत कार्य।	9091046	2522253	0	0	42751	42751	0	21376	75	0	2415300	22-Dec-22	529
3	श्री एनको/एडवोकेट/एडवोकेट/डीडी द्वितीय	वार्ड-24 नगर निगम बालिका इन्टरमिडियट नवनीकरण कार्य।	7776492	1134408	0	0	19228	19228	0	9614	38	0	1086300	22-Dec-22	527
4	श्री प्रेम कंसल्ट	वार्ड-60 श्यामपार्क मैन में नगर निगम बालिका विद्यालय में प्रशासनिक कार्य एवं सार्जन का निर्माण शीघ्रता से करवाया जाय।	7409699	1180963	0	0	20017	20017	0	10009	2220	0	1128700	22-Dec-22	526
5	श्री चन्द्रमोहन सिंह एडवोकेट/डीडी द्वितीय	वार्ड-4 का निर्माण मरम्मत रंगई पुनर्निर्माण कार्य।	1783357	420673	0	0	7131	7131	0	3566	1045	0	401800	22-Dec-22	524
6	श्री चन्द्रमोहन सिंह एडवोकेट/डीडी द्वितीय	एलको/एडवोकेट/एडवोकेट/डीडी द्वितीय अन्तर्गत सार्वजनिक शौचालय/यूटिलिटी निर्माण कार्य।	1783357	409991	0	0	6949	6949	0	3475	18	0	392600	22-Dec-22	525
7	श्री आरपीडीडी/एडवोकेट/डीडी द्वितीय	एलको/एडवोकेट/एडवोकेट/डीडी द्वितीय अन्तर्गत सार्वजनिक शौचालय/यूटिलिटी निर्माण कार्य।	43204986	1374814	0	0	23107	23107	0	11554	1246	0	1315800	22-Dec-22	530
8	श्री दर्शन कंसल्ट	वार्ड-83 श्यामपार्क पार्क एक्स की शिफ्ट कालोनी स्थित प्राथमिक विद्यालय रंगई पुनर्निर्माण कार्य।	1047132	446396	0	0	7567	7567	0	3784	78	0	427400	22-Dec-22	536
9	श्री दर्शन कंसल्ट	वार्ड-60 श्यामपार्क मैन में प्राईमरी अडवाला रंगई पुनर्निर्माण शौचालय विद्यालय निर्माण कार्य।	1139251	472844	0	0	8015	8015	0	4008	6	0	452800	22-Dec-22	535
10	श्री दर्शन कंसल्ट	वार्ड-70 जगदपुरी में प्राईमरी स्कूल में रंगई पुनर्निर्माण शौचालय निर्माण कार्य।	1519312	353105	0	0	5985	5985	0	2893	42	0	338100	22-Dec-22	534
11	श्री दर्शन कंसल्ट	वार्ड-63 परीडा में प्राईमरी अडवाला-2 की रंगई पुनर्निर्माण कार्य।	1553839	249495	0	0	4456	4456	0	2228	55	0	238300	22-Dec-22	533
12	श्री आरपीडीडी/एडवोकेट/डीडी द्वितीय	विद्यालय जैन के अन्तर्गत कम्प्यूटिड विद्यालय प्रायाग बिकर का जीर्णोद्धार का कार्य।	4703228	199715	0	0	3385	3385	0	1693	52	0	191200	22-Dec-22	531
13	श्री आरपीडीडी/एडवोकेट/डीडी द्वितीय	वार्ड-001 सदनार कालोनी स्थित प्राथमिक विद्यालय बचन राजपूरी बाल का कार्य।	2689060	253976	0	0	4305	4305	0	2153	13	0	243200	22-Dec-22	532

गण्डियाबाद नगर निगम

805

337

वित्तीय वर्ष 2022-2023 आयकर/व्यापार कर/वीएसटी/रायस्ती/लेबर सेस टैक्स विवरण

क्र.सं.	वर्ष का नाम	कार्य का विवरण	दोहरा प्रशि	वर्ष आंवार	रायस्ती	I.D.S 1%	आयकर	जी.एस.टी.	व्यापार कर	सेस	अव/वे/वैली	कटौती	पुनर्वात योशि	रिगिक	क्र.सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31	श्री दशम कम्पनी	वार्ड-63 पसीडा में एक्स प्राथमिक विद्यालय में रंगई पुताई कार्य व टाईक्स विद्यालय शीघ्रता विद्यन हेतु वार्डिंग यूनिट समारोहिल बाउन्ड्रीवाल मुख्य रोड से मुख्य कडो में एपोज तथा शीघ्रताय मरम्मत का कार्य।	1881990	269641	0	0	4571	4571	0	2286	5013	0	253200	22-Dec-22	
32	श्री दशम कम्पनी	वार्ड-20 भौपुर प्राथमिक विद्यालय में रंगई पुताई विद्यन विद्यालय हेतु शीघ्रताय हेतु वार्डिंग यूनिट समारोहिल फर्श में टाईक्स शीघ्रताय मरम्मत एवं विद्युतीकरण का कार्य।	2285691	234963	0	0	3983	3983	0	1992	5005	0	220000	22-Dec-22	
33	श्री प्रेम कम्पनी	नगर निगम एग्रीकल्चरल स्कूल कम्प्लेटी गण्डियाबाद की मरम्मत एवं पुनः निर्माण का कार्य।	9696580	2880735	0	0	48827	48827	0	24414	67	0	2758600	22-Dec-22	
		Total-	17667220	34678478	0	0	9776	617248	0	210877	142345	0	33274500		
1	श्री मलिक कम्पनी	वार्ड-63 नवीन पार्क मोन-87 62 के सामने पार्क शीघ्रता मरम्मत व सुव्यवह बनकर सौन्दर्यकरण का कार्य।	1060044	182747	672	0	3098	3098	0	1549	30	0	174300	22-Dec-22	554
2	श्री सुनील रॉ एण्ड कम्पनी	वार्ड-17 तेलमडी में शोर्टलैण्ड के सामने शिफ्टन विकर गार्डन के कार्य के सामने से पुनः एक आरसीसी गल्ला निर्माण कार्य।	17667220	3672291	0	0	62243	62243	0	31122	83	0	3516600	22-Dec-22	558
3	श्री श्रीपीठकॉन्क्रेट प्रोजेक्ट प्रायिवीट	वार्ड-28 हर्ब कम्पाउण्ड की मुख्य रोड का सविस्तार सड़क पुनार व शक्ति निवेशन स्कूल से शिवचरण चौक तक के स्कूल तक आरसीसी गल्ला निर्माण कार्य।	13477250	1891673	0	0	32063	32063	0	16032	3215	0	1808300	22-Dec-22	551
4	श्री बालानी इन्फ्रस्ट्रक्चर इन्जीनी	वार्ड-86 बुला फेटी मार्ग पर अट्टा बने गले को पूर्ण करने का कार्य एवं आन्तरिक सड़क निर्माण।	9988092	4678354	0	0	78628	78628	0	39314	84	0	4481700	22-Dec-22	557
5	श्री मलिक कम्पनी	वार्ड-43 कडकड माडल में नवीर फेन्डी के सामने से प्लाई आंवर तक आरसीसी गल्ला निर्माण कार्य।	10147044	3763291	0	0	63785	63785	0	31893	3228	0	3600600	22-Dec-22	556
6	श्री मलिक कम्पनी	वार्ड-80 शालीमार गार्डन आर-एन-स्कॉक स्थित पुराण पार्क को नया बनाम एवं विकसित करना।	1469690	121184	504	0	2054	2054	0	1027	45	0	115500	22-Dec-22	555
7	श्री मधेशचन्द्र कान्ठुकर	रासुकरा जैन विद्यालय पार्क की मरम्मत का कार्य।	3496198	629243	1568	0	10666	10666	0	5333	10	0	601000	22-Dec-22	542
8	श्री शकुन्ती कम्पनी	वार्ड-15 प्रजापतिवार एल एण्ड एन स्काक अन्वैककर पार्क सामने स्थित ग्रीन बेल्ट को पार्क के रूप में विकसित करने का कार्य।	4753514	1287564	1725	0	21824	21824	0	10912	79	0	1231200	22-Dec-22	544
9	श्री शकुन्ती कम्पनी	वार्ड-77 वैगली सी-1 एन-स्कॉक शिव मन्दिर के सामने पार्क निर्माण कार्य।	1635045	1387755	1120	0	23522	23522	0	11761	30	0	1327800	22-Dec-22	545
10	श्री राजा कान्ठुकर एण्ड इन्जीनी	वार्ड-88 गंधीनगर पार्क आवास शेरिफिक फ्लैस तक गल्ला निर्माण कार्य।	5580599	972989	0	0	16492	16492	0	8246	59	0	931700	22-Dec-22	541
11	श्री अरुण कम्पनी कम्पनी	वार्ड-97 मेनरोड टर्ली से टी-पाइल तक दोनों तरफ आरसीसी गल्ला निर्माण कार्य।	18670560	2978567	0	0	50485	50485	0	25243	2154	0	2850200	22-Dec-22	549
12	श्री निखल कम्पनी कम्पनी	वार्ड-66 मीसम विहार शिव मन्दिर से एयरपोर्ट की बाउन्ड्री के साथ-साथ कन्निरातल एक आरसीसी द्वारा गल्ला निर्माण का कार्य।	10773868	3768156	0	0	63868	63868	0	31934	2186	0	3606300	22-Dec-22	553
13	श्री शैलेश कुमार सिंह	26 पार्क की मरम्मत पूर्ण कर सौन्दर्यकरण का कार्य।	4479323	858328	2016	0	14548	14548	0	7274	42	0	819900	22-Dec-22	552
14	श्री अरुण कम्पनी कम्पनी	वार्ड-96 होली बाइल चौराहे से गण्डिया फाटक रोड पर पूर्ण मेर आवास शोकर आलोक मार्बल तक आरसीसी गल्ला का निर्माण कार्य।	13959154	2265178	0	0	38393	38393	0	19197	95	0	2169100	22-Dec-22	548
15	श्री डीकेएसएफएचएचएचके इन्जीनियरिंग	वार्ड-83 श्यामपार्क एक्स में बनीरवाकर मोर्ब रोड तक कच्ची सड़क पटरी पर पत्थर लगाने का कार्य।	4739584	2328563	0	0	39468	39468	0	19734	1193	0	2228700	22-Dec-22	547
16	श्री आकाश इन्फ्रस्ट्रक्चर	वार्ड-7 बैरली नगर में शनि चौक से बैरली नगर पानी की टर्ली तक आरसीसी गल्ला निर्माण कार्य।	11616000	3300000	0	0	55933	55933	0	27967	2167	0	3158000	22-Dec-22	543

338

807

गजियाबाद नगर निगम

वित्तीय वर्ष 2022-2023 आयकर/व्यापार कर/वीओएसटी/रायल्टी/वेयर सेस टैक्स विवरण-

क्र.सं.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
क.सं.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	श्री 00वीडकॉन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट प्रा.लि	वार्ड-60 इयानपार्क मैन के राजेन्द्रनगर इन्डस्ट्रियल में गली नं-06 व विभिन्न इमारत सड़कों का सुधार आरम्भ/पूरा करना।	वार्ड-63 व 91, विवेकानन्द नगर क्षेत्र के विभिन्न ब्लॉक के कुल 5 प्लॉट सौकरकरण हेतु शासक आरम्भ/पूरा करना।	4945115	83816	83816	0	83816	83816	0	41908	5175	0	4730400	22-Dec-22	546
18	श्री सीता कन्सो		वार्ड-63 व 91, विवेकानन्द नगर क्षेत्र के विभिन्न ब्लॉक के कुल 5 प्लॉट सौकरकरण हेतु शासक आरम्भ/पूरा करना।	1832986	7935	7935	0	7935	7935	0	3968	22	0	384800	22-Dec-22	5598
19	श्री जेएलएड/न्यायरी सर्विसेज		प्रतिदिन उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट के प्रोसेसिंग एवं निस्तारण के सम्बन्ध में।	10012742	10012742	10012742	0	200255	200255	0	0	87	0	9812400	22-Dec-22	537
20	श्री नेवार ग्रीन टूरस एण्ड स्पीनस प्रा.लि		डोर-टू-डोर बूझ कलेक्शन हेतु 75 नग टैप्स आरम्भ/पूरा करना।	10012742	2717874	10012742	0	54358	54358	0	0	16	0	2663500	22-Dec-22	538
21	श्री नेवार ग्रीन टूरस एण्ड स्पीनस प्रा.लि		डोर-टू-डोर बूझ कलेक्शन हेतु 75 नग टैप्स आरम्भ/पूरा करना।	10012742	2433246	10012742	0	48665	48665	0	0	81	0	2384500	22-Dec-22	0
22	श्री नेवार ग्रीन टूरस एण्ड स्पीनस प्रा.लि		डोर-टू-डोर बूझ कलेक्शन हेतु 75 नग टैप्स आरम्भ/पूरा करना।	10012742	2264880	10012742	0	45298	45298	0	0	82	0	2219500	22-Dec-22	539
23	श्री नेवार ग्रीन टूरस एण्ड स्पीनस प्रा.लि		डोर-टू-डोर बूझ कलेक्शन हेतु 75 नग टैप्स आरम्भ/पूरा करना।	10012742	2621999	10012742	0	52440	52440	0	0	59	0	2569500	22-Dec-22	540
24	श्री मेट्रो वेस्ट इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रा.लि.		Operation and Maintaining Secondary Vechiles and collection and Transformation of municipal solid waste upto the processing sites	4798861	4798861	4798861	0	95978	95978	0	0	83	0	4702800	22-Dec-22	
25	श्री मेट्रो वेस्ट इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रा.लि.		Operation and Maintaining Secondary Vechiles and collection and Transformation of municipal solid waste upto the processing sites	4737442	4737442	4737442	0	94749	94749	0	0	93	0	4642600	22-Dec-22	
26	श्री मेट्रो वेस्ट इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रा.लि.		Operation and Maintaining Secondary Vechiles and collection and Transformation of municipal solid waste upto the processing sites	6340771	6340771	6340771	0	126816	126816	0	0	55	0	6213900	22-Dec-22	
27	श्री मेट्रो वेस्ट इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रा.लि.		Operation and Maintaining Secondary Vechiles and collection and Transformation of municipal solid waste upto the processing sites	7230865	7230865	7230865	0	144618	144618	0	0	47	0	7086200	22-Dec-22	
28	श्री नेवार ग्रीन टूरस एण्ड स्पीनस प्रा.लि		Operation and Maintaining Secondary Vechiles and collection and Transformation of municipal solid waste upto the processing sites	2521960	2521960	2521960	0	50440	50440	0	0	20	0	2471500	22-Dec-22	
29	श्री नेवार ग्रीन टूरस एण्ड स्पीनस प्रा.लि		Operation and Maintaining Secondary Vechiles and collection and Transformation of municipal solid waste upto the processing sites	5834511	5834511	5834511	0	116691	116691	0	0	20	0	5717800	22-Dec-22	
30	श्री नेवार ग्रीन टूरस एण्ड स्पीनस प्रा.लि		Operation and Maintaining Secondary Vechiles and collection and Transformation of municipal solid waste upto the processing sites	7945123	7945123	7945123	0	158903	158903	0	0	20	0	7786200	22-Dec-22	
31	श्री नेवार ग्रीन टूरस एण्ड स्पीनस प्रा.लि		Operation and Maintaining Secondary Vechiles and collection and Transformation of municipal solid waste upto the processing sites	7536832	7536832	7536832	0	150737	150737	0	0	95	0	7386000	22-Dec-22	
32	श्री मेट्रोवेस्ट		वार्ड-73 शालीमार गार्डन में स्थित कुल 5 नग प्लॉट का सौकरकरण का कार्य।	521226	101025	521226	0	2021	2021	0	1011	93	0	97900	22-Dec-22	
33	श्री आर्टिस्ट/कॉन्सो/कम्पनी		वार्ड-38 जयलक्ष्मी मेट्रो स्टेशन से संलग्न कालोनी का मुख्य मार्ग पर चाला निर्माण कार्य।	4301492	1032378	4301492	0	17498	17498	0	8749	2233	0	986400	22-Dec-22	
34	श्री प्रेम कन्सो		वार्ड-3,14,28 विजयनगर में स्माट चौक से आरम्भ/पूरा करना।	35961029	3264728	35961029	0	55335	55335	0	27668	5190	0	3121200	22-Dec-22	
35	श्री गॉर्गन इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रा.लि		वार्ड-24 पांडव नगर फ्लोयड एव से न्यू एरा स्कूल व स्थित प्रेस्टीज एवं आरम्भ/पूरा चौक से न्यू एरा प्रस्ताव पूर्ण।	15665943	5117515	15665943	0	86738	86738	0	43369	3570	0	4897100	22-Dec-22	
36	श्री रावत/न्यायरी एण्ड मोटर्स प्रा.लि		वार्ड-77 कैथारी सी-3 समतलीला मैदान में 15 एकर/प्लॉट नए सड़क/सिंचन एवं आयकक निर्माण का कार्य।	3461500	1160260	3461500	0	19666	19666	0	9833	5095	0	1106000	22-Dec-22	

339

गाजियाबाद नगर निगम

वित्तीय वर्ष 2022-2023 आयकर/ब्यापार कर/जीएसटी/रायल्टी/वेबर सेस हेअरस वितरण

क्र.सं.	वर्ग का नाम	कार्य का विवरण	देखर पीसि	टर्न ओवर	रकमटी	I.D.S 1%	आयकर	जी एस टी	ब्यापार कर	वेबर	सेस	अन्य/अन्यटी	कटौती	मुआमला सीसि	रिनांक	बातबर नं०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
37	शुद्ध कृषक एरिड	मोकनगर जेन के अंतर्गत विभिन्न पार्कों की मरम्मत का कार्य	49987578	998336	2240	0	16921	16921	0	8461	93	0	953700	22-Dec-22		
38	शुद्ध कृषक एरिड	वार्ड-77 रेगुलरी से-04 मकान नं०-355 व 536 के सामने पार्क के सौन्दर्यकरण के तहत घास व सजावटी पीसो की आपूर्ति एवं लगाने का कार्य।	998954	213769	0	0	4276	0	0	2138	5055	0	202300	22-Dec-22		
39	शुद्ध कृषक एरिड	नगर निगम गाजियाबाद सैमावर्तन 100 वर्गों के शोपिंग का कार्य।	28500000	6536795	0	0	130736	130736	0	65368	55	0	6209900	22-Dec-22		
40	शुद्ध कृषक एरिड	विद्युत रिजिलिएन्स एरिड टर्मिनल पर एक 30 किलोवाट क्षमता का मिनी एनर्जी स्टोरेज का निर्माण कार्य।	5778408	508683	0	0	8622	8622	0	4311	28	0	487100	22-Dec-22		
41	शुद्ध कृषक एरिड	वार्ड-72,78,86 के मध्य काला कालोवर्स से शिव चौक सेते हुये बजीराव रोड तक काला साइट परी पर ग्रास वेयर लगाने का कार्य।	8230897	2229104	0	0	37782	37782	0	18891	4549	0	2130100	22-Dec-22		
42	शुद्ध कृषक एरिड	शुद्ध कुली से रालनगर एनर्जेन्स चौक तक रोड का डैस ड्राय सडक सुधार कार्य।	19881422	807396	0	0	13570	13570	0	6785	4171	0	769300	22-Dec-22		
43	शुद्ध कृषक एरिड	वार्ड-74 रेगुलरी से-15 टर्न 1 एवं डब्लेस की आन्तरिक सडको का सुधार वाली एवं साईट परी पर टवलस लगाने का कार्य।	16317110	4997803	0	0	84709	84709	0	42355	3230	0	4782800	22-Dec-22		
44	शुद्ध कृषक एरिड	वार्ड-83 इन्फान्ट एरिस में जेबरीक्रेडमै मॉड-9/212 एक मन्दिर वाली बिल्डिंग सडको का सुधार एवं जल पिचाली ड्राय नाला निर्माण कार्य।	10169587	1071601	0	0	18163	18163	0	9082	93	0	1026100	22-Dec-22		
45	शुद्ध कृषक एरिड	गोविन्दपुरा में एच एवं आई -ब्लॉक वाली रोड का डैस ड्राय सडक सुधार कार्य।	4485174	113000	0	0	2260	2260	0	1130	50	0	107300	22-Dec-22		
46	शुद्ध कृषक एरिड	गोविन्दपुरा के जी एवं एन-ब्लॉक की मध्य वाली रोड का डैस ड्राय सडक सुधार का कार्य।	4036657	113000	0	0	2260	2260	0	1130	50	0	107300	22-Dec-22		
47	शुद्ध कृषक एरिड	वार्ड-48 प्राम विहार ब्लॉक में रिजल कुल 4 पार्कों में सौन्दर्यकरण के तहत घास व सजावटी पीसो की आपूर्ति एवं लगाने का कार्य।	966744	656918	0	0	13139	0	0	6570	9	0	637200	22-Dec-22		
48	शुद्ध कृषक एरिड	वार्ड-47 शाली नगर एवं मोला रिजल विभिन्न कुल पार्कों के सौन्दर्यकरण के तहत घास सजावटी पीसो की आपूर्ति एवं लगाने का कार्य।	685259	426479	0	0	8530	0	0	4265	84	0	413600	22-Dec-22		
49	शुद्ध कृषक एरिड	वार्ड-62 गोविन्दपुरा के विभिन्न ब्लॉको में रिजल कुल 9 पार्कों के सौन्दर्यकरण के तहत घास एवं सजावटी पीसो की आपूर्ति का कार्य।	784157	50000	0	0	1000	0	0	500	0	0	48500	22-Dec-22		
50	शुद्ध कृषक एरिड	वार्ड-48 प्रतापविहार से-12 विभिन्न ब्लॉको में कुल 5 पार्कों में सौन्दर्यकरण के तहत घास व सजावटी पीसो की आपूर्ति।	507701	49236	0	0	985	0	0	493	58	0	47700	22-Dec-22		
51	शुद्ध कृषक एरिड	वार्ड-56 विरजीव विहार एवं अमलिका कालोनी के कुल 3 पार्कों में सौन्दर्यकरण कार्य।	445430	50000	0	0	1000	0	0	500	0	0	48500	22-Dec-22		
52	शुद्ध कृषक एरिड	वार्ड-07 सुकानपुर रिजल विभिन्न ब्लॉको के 4 पार्कों में सौन्दर्यकरण का कार्य।	847584	50000	0	0	1000	0	0	500	0	0	48500	22-Dec-22		
53	शुद्ध कृषक एरिड	विभिन्न से-एफ ब्लॉक 4 पार्कों में सौन्दर्यकरण हेतु घास की आपूर्ति व लगाने एवं रोड पीसो की आपूर्ति का कार्य।	679024	571740	0	0	11435	0	0	5718	87	0	554500	22-Dec-22		
54	शुद्ध कृषक एरिड	वार्ड-11 आत्रम रोड पर गली नं०-9 की प्रुडिया से मित्रा स्टीस सेते हुये भां के मन्दिर तक आरसीसी नाला निर्माण कार्य।	5126976	876171	0	0	14851	14851	0	7426	1243	0	837800	22-Dec-22		

गालियाबाद नगर निगम

8M

340

वित्तीय वर्ष 2022-2023 आयक/ब्यापार कर/जीएसटी/रायस्वी/सेवर सेस टेक्स विवरण-

क्र.सं.	वर्ग का नाम	कार्य का विवरण	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

55	शहरीक कर	वार्ड-90 शहीदनगर चिप्टा पार्क की दीवार पर पत्थर लगाने एवं शोधप्रणाली सुदृढीकरण का कार्य।	629991	523240	224	0	8869	8869	0	4435	43	0	500800	22-Dec-22				
56	मेगा कर	वार्ड-85 में तानपतनगर में विभिन्न सेक्टर एक-क्वार्टर कुल 8 प्लॉटों में सैन्यकरण हेतु घास की आपूर्ति व लगाने वाले का कार्य।	169720	159611	0	0	3193	0	0	1597	21	0	154800	22-Dec-22				
57	नेबर ग्रीन टूल्स एण्ड मशीन प्राप्ति	Operation and Maintaining Secondary Vechiles and collection and Transformation of municipal solid waste upto the processing sites	5033510	5033510	0	0	100671	0	0	0	39	0	4932800	22-Dec-22				
58	नेबर ग्रीन टूल्स एण्ड मशीन प्राप्ति	Operation and Maintaining Secondary Vechiles and collection and Transformation of municipal solid waste upto the processing sites	5842196	5842196	0	0	116844	0	0	0	52	0	5725300	22-Dec-22				
59	नेबर ग्रीन टूल्स एण्ड मशीन प्राप्ति	Operation and Maintaining Secondary Vechiles and collection and Transformation of municipal solid waste upto the processing sites	4949087	4949087	0	0	98982	0	0	0	5	0	4850100	22-Dec-22				
60	नेबर ग्रीन टूल्स एण्ड मशीन प्राप्ति	Operation and Maintaining Secondary Vechiles and collection and Transformation of municipal solid waste upto the processing sites	6293794	6293794	0	0	125876	0	0	0	18	0	6167900	22-Dec-22				
61	नेबर ग्रीन टूल्स एण्ड मशीन प्राप्ति	Operation and Maintaining Secondary Vechiles and collection and Transformation of municipal solid waste upto the processing sites	6194456	6194456	0	0	123890	0	0	0	66	0	6070500	22-Dec-22				
62	नेबर ग्रीन टूल्स एण्ड मशीन प्राप्ति	Operation and Maintaining Secondary Vechiles and collection and Transformation of municipal solid waste upto the processing sites	6662430	6662430	0	0	133249	0	0	0	81	0	6529100	22-Dec-22				
63	नेबर ग्रीन टूल्स एण्ड मशीन प्राप्ति	Operation and Maintaining Secondary Vechiles and collection and Transformation of municipal solid waste upto the processing sites	6699514	6699514	0	0	133991	0	0	0	23	0	6565500	22-Dec-22				
64	नेबर ग्रीन टूल्स एण्ड मशीन प्राप्ति	Operation and Maintaining Secondary Vechiles and collection and Transformation of municipal solid waste upto the processing sites	6592105	6592105	0	0	131843	0	0	0	62	0	6460200	22-Dec-22				
65	नेबर ग्रीन टूल्स एण्ड मशीन प्राप्ति	Handling Processing and Disposal of Municipal Solid Waste.	13524010	13524010	0	0	270481	0	0	0	920029	0	12333500	22-Dec-22				
66	नेबर ग्रीन टूल्स एण्ड मशीन प्राप्ति	Handling Processing and Disposal of Municipal Solid Waste.	13039000	13039000	0	0	260780	0	0	0	20	0	12778200	22-Dec-22				
67	नेबर ग्रीन टूल्स एण्ड मशीन प्राप्ति	Handling Processing and Disposal of Municipal Solid Waste.	12812220	12812220	0	0	256245	0	0	0	75	0	12555900	22-Dec-22				
68	नेबर ग्रीन टूल्स एण्ड मशीन प्राप्ति	मौजानगर जैन में विभिन्न वार्डों में कराये गये सैन्यकारीन सुधारों का कार्य।	3305364	3305364	0	0	66108	0	0	0	56	0	3239200	22-Dec-22				
Total-			229051303	10069	0	4392288	1178866	0	616699	976281	0	221877100						

14 वीं वित्त आयोग-कार्य 2023

1	एनएचडीकेड	आयोजना कार्यालय के अन्तर्गत वार्ड-24 कम्पोजिट विद्यालय सहायता में प्राईमरी स्कूल का सुदृढीकरण का कार्य।	3040373	375623	0	0	6313	6313	0	3157	540	0	359300	21-Feb-23	167
2	एनएचडीकेड	आयोजना कार्यालय के अन्तर्गत वार्ड-24 कम्पोजिट विद्यालय कार्यालय का सैन्यकरण का कार्य।	1440750	677879	0	0	11393	11393	0	5697	596	0	648800	21-Feb-23	168
3	एनएचडीकेड	एनएचडीकेड नगरीय अन्तर्गत सैन्यकारीन सौकराज/धुनिया का कार्य।	1594599	410342	0	0	6955	6955	0	3478	54	0	392900	21-Feb-23	169
4	महिला कर	वार्ड-13 प्राथमिक विद्यालय पूरणा का नैतिक उत्थान का कार्य।	631914	538289	0	0	9124	9124	0	4562	79	0	515400	21-Feb-23	435
5	महिला कर	वार्ड-92 कम्पोजिट विद्यालय कैला भट्टा स्टाक का नैतिक उत्थान का कार्य।	1776588	666893	0	0	11304	11304	0	5652	33	0	638600	21-Feb-23	434

क्र.सं.	वर्ग का नाम	क्र.सं.	विवरण	टैक्स राशि	एन.ओ.ए.	रायस्ती	T.D.S 1%	आयकर	जी.एस.टी.	ब्यापार कर	सेस	अन्य/आयसी	कुल	बुकाया राशि	दिनांक	कटौत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
6	श्री भूमिका कस्तुरी		वार्ड-92 प्राथमिक विद्यालय इलाका पर का भौतिक उत्पन्न का कार्य।	1969217	1129884	0	0	19151	19151	0	9576	6	0	1082000	21-Feb-23	436
7	श्री ईशिता कस्तुरी		वार्ड-31 प्राथमिक विद्यालय विस्तार का भौतिक उत्पन्न का कार्य।	332937	293441	0	0	5869	5869	0	2935	68	0	278700	21-Feb-23	440
8	श्री प्रमोद कस्तुरी		विद्यालय जेन वार्ड रोड पर स्थित वार्ड-04 में प्राथमिक विद्यालय निर्माण कार्य।	1830727	59000	0	0	1000	1000	0	500	0	0	56500	21-Feb-23	437
9	श्री प्रमोद कस्तुरी		विद्यालय जेन वार्ड रोड पर स्थित वार्ड-04 में प्राथमिक विद्यालय निर्माण कार्य।	3687792	118000	0	0	2000	2000	0	1000	0	0	113000	21-Feb-23	439
10	श्री प्रमोद कस्तुरी		वार्ड-61 लोडिंग/अनलोडिंग कारोबार से ज्ञानी हलवाई वाले तक नाल निर्माण कार्य।	4249799	100000	0	0	2000	2000	0	1000	0	0	95000	21-Feb-23	438
			Total-	4369351	0	0	0	75109	75109	0	37557	1376	0	4180200		
1	श्री आरकष इकाई		वार्ड-59 में चौकरी रोड बुरुवा से जेन वार्ड तक जी.एस.टी. रोड का निर्माण कार्य।	10347990	841428	0	0	14262	14262	0	7131	73	0	805700	20-Feb-23	264
2	श्री अरुण कस्तुरी		वार्ड-96 रोड रोड से नर्सिंग स्कूल तक पूर्ण वेबर आयकर सेस का निर्माण कार्य।	13959154	876658	0	0	14859	14859	0	7430	10	0	839500	20-Feb-23	172
3	श्री नवनील सिंह		वार्ड-19 पटेलवार विभिन्न पार्क में सौन्दर्यकरण हेतु कार्य।	333079	60040	0	0	1201	0	0	601	38	0	58200	20-Feb-23	170
4	श्री नवनील सिंह		वार्ड-09 पटेलवार व वार्ड-59 कस्तुरी कुल 3 पार्क में सौन्दर्यकरण के तहत कार्य व सफाई कार्य।	285990	148078	0	0	2962	0	0	1481	35	0	143600	20-Feb-23	173
5	श्री नवनील सिंह		वार्ड-76 से-10 तक वैशाली क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर सौन्दर्यकरण का कार्य।	856170	259279	0	0	5186	0	0	2593	0	0	251500	20-Feb-23	171
6	श्री प्रमोद कस्तुरी		वार्ड-59 के अन्तर्गत प्रमाण शहर कस्तुरी स्थित सभागार पर सौन्दर्यकरण का कार्य।	594511	581875	56	0	9863	9863	0	4932	2561	0	554600	20-Feb-23	262
7	श्री प्रमोद कस्तुरी		वार्ड-59 प्रमाण वार्ड रोड से लेकर टी-वार्ड तक जेन वार्ड का सौन्दर्यकरण का कार्य।	3060540	1906818	0	0	32319	32319	0	16160	20	0	1826000	20-Feb-23	261
8	श्री अरुण कस्तुरी		वार्ड-97 प्रमाण वार्ड रोड से लेकर टी-वार्ड तक जेन वार्ड का सौन्दर्यकरण का कार्य।	18670560	4050872	0	0	68659	68659	0	34330	24	0	3879200	20-Feb-23	263
9	श्री श्रीवास्तवी इकाई		वार्ड-86 पूजा मंडी मार्ग पर अंगूर बने वाले को पूर्ण करने का कार्य।	9988092	952031	0	0	16137	16137	0	8069	88	0	911600	20-Feb-23	265
10	श्री सीता कस्तुरी		वार्ड-19 पटेलवार वार्ड रोड से लेकर टी-वार्ड तक जेन वार्ड का सौन्दर्यकरण का कार्य।	3094483	1309980	0	0	22204	22204	0	11102	5070	0	1249400	20-Feb-23	433
11	श्री प्रमोद कस्तुरी		वार्ड-19 पटेलवार वार्ड रोड से लेकर टी-वार्ड तक जेन वार्ड का सौन्दर्यकरण का कार्य।	3616986	1292335	0	0	21904	21904	0	10952	1175	0	1236400	20-Feb-23	269
12	श्री नवनील सिंह		वार्ड-86 पूजा मंडी मार्ग पर अंगूर बने वाले को पूर्ण करने का कार्य।	141550	0	0	0	2831	0	0	0	19	0	138700	20-Feb-23	409
13	श्री नवनील सिंह		वार्ड-86 पूजा मंडी मार्ग पर अंगूर बने वाले को पूर्ण करने का कार्य।	141550	0	0	0	2831	0	0	0	19	0	138700	20-Feb-23	410
14	श्री नवनील सिंह		वार्ड-86 पूजा मंडी मार्ग पर अंगूर बने वाले को पूर्ण करने का कार्य।	141550	0	0	0	2831	0	0	0	19	0	138700	20-Feb-23	411
15	श्री नवनील सिंह		वार्ड-86 पूजा मंडी मार्ग पर अंगूर बने वाले को पूर्ण करने का कार्य।	141550	0	0	0	2831	0	0	0	19	0	138700	20-Feb-23	412

15 में विवरण अंतर्गत-फरवरी 2023

825

347

गाजियाबाद नगर निगम

वित्तीय वर्ष 2022-2023 आयकर/व्यापार कर/जीएसटी/रायल्टी/लेबर सेस टैक्स विवरण

क्र.सं.	वर्ष	विवरण	कॉड	टर्न ओवर	रायल्टी	T.D.S 1%	आयकर	जी.एस.टी.	व्यापार कर	सेस	अन्य/अन्य	कटौती	कुल	दिनांक	क्र.सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
148	क्र. 04	मोहननगर जौन विपिन 63 स्थानों पर रात्रिकालीन सफाई का कार्य।	186250	186250	0	0	3725	0	0	0	25	0	182500	21-Feb-23	329
149	क्र. 04	मोहननगर जौन विपिन 63 स्थानों पर रात्रिकालीन सफाई का कार्य।	186250	186250	0	0	3725	0	0	0	25	0	182500	21-Feb-23	330
150	क्र. 04	मोहननगर जौन विपिन 63 स्थानों पर रात्रिकालीन सफाई का कार्य।	186250	186250	0	0	3725	0	0	0	25	0	182500	21-Feb-23	331
151	क्र. 04	मोहननगर जौन विपिन 63 स्थानों पर रात्रिकालीन सफाई का कार्य।	186250	186250	0	0	3725	0	0	0	25	0	182500	21-Feb-23	332
152	क्र. 04	मोहननगर जौन विपिन 63 स्थानों पर रात्रिकालीन सफाई का कार्य।	186250	186250	0	0	3725	0	0	0	25	0	182500	21-Feb-23	333
153	क्र. 04	मोहननगर जौन विपिन 63 स्थानों पर रात्रिकालीन सफाई का कार्य।	167625	167625	0	0	3353	0	0	0	72	0	164200	21-Feb-23	334
154	क्र. 04	मोहननगर जौन विपिन 63 स्थानों पर रात्रिकालीन सफाई का कार्य।	167625	167625	0	0	3353	0	0	0	72	0	164200	21-Feb-23	335
155	क्र. 04	मोहननगर जौन विपिन 63 स्थानों पर रात्रिकालीन सफाई का कार्य।	167625	167625	0	0	3353	0	0	0	72	0	164200	21-Feb-23	336
156	क्र. 04	मोहननगर जौन विपिन 63 स्थानों पर रात्रिकालीन सफाई का कार्य।	167625	167625	0	0	3353	0	0	0	72	0	164200	21-Feb-23	337
157	क्र. 04	मोहननगर जौन विपिन 63 स्थानों पर रात्रिकालीन सफाई का कार्य।	167625	167625	0	0	3353	0	0	0	72	0	164200	21-Feb-23	338
158	क्र. 04	मोहननगर जौन विपिन 63 स्थानों पर रात्रिकालीन सफाई का कार्य।	167625	167625	0	0	3353	0	0	0	72	0	164200	21-Feb-23	339
159	क्र. 04	Operation and Maintaining Secondary Vechiles and collection and Transformation of municipal solid waste upto the processing sites	1514606	1514606	0	0	30293	0	0	0	13	0	1484300	21-Feb-23	266
160	क्र. 04	Operation and Maintaining Secondary Vechiles and collection and Transformation of municipal solid waste upto the processing sites	4537417	4537417	0	0	90749	0	0	0	68	0	4446600	21-Feb-23	267
161	क्र. 04	Operation and Maintaining Secondary Vechiles and collection and Transformation of municipal solid waste upto the processing sites	5159622	5159622	0	0	103193	0	0	0	29	0	5056400	21-Feb-23	268
162	क्र. 04	खरिनगर जौन 04 स्थानों पर रात्रिकालीन सफाई कार्य माह सितम्बर से सितम्बर 22 तक	149000	149000	0	0	2980	0	0	0	20	0	146000	21-Feb-23	340
163	क्र. 04	खरिनगर जौन 04 स्थानों पर रात्रिकालीन सफाई कार्य माह सितम्बर से सितम्बर 22 तक	144000	144000	0	0	2880	0	0	0	20	0	141100	21-Feb-23	341
164	क्र. 04	खरिनगर जौन 04 स्थानों पर रात्रिकालीन सफाई कार्य माह सितम्बर से सितम्बर 22 तक	149000	149000	0	0	2980	0	0	0	20	0	146000	21-Feb-23	342
165	क्र. 04	खरिनगर जौन 04 स्थानों पर रात्रिकालीन सफाई कार्य माह सितम्बर से सितम्बर 22 तक	149000	149000	0	0	2980	0	0	0	20	0	146000	21-Feb-23	343
166	क्र. 04	खरिनगर जौन 04 स्थानों पर रात्रिकालीन सफाई कार्य माह सितम्बर से सितम्बर 22 तक	111750	111750	0	0	2235	0	0	0	15	0	109500	21-Feb-23	344
167	क्र. 04	खरिनगर जौन 04 स्थानों पर रात्रिकालीन सफाई कार्य माह सितम्बर से सितम्बर 22 तक	111750	111750	0	0	2235	0	0	0	15	0	109500	21-Feb-23	345
168	क्र. 04	खरिनगर जौन 04 स्थानों पर रात्रिकालीन सफाई कार्य माह सितम्बर से सितम्बर 22 तक	111750	111750	0	0	2235	0	0	0	15	0	109500	21-Feb-23	346
169	क्र. 04	खरिनगर जौन 04 स्थानों पर रात्रिकालीन सफाई कार्य माह सितम्बर से सितम्बर 22 तक	111750	111750	0	0	2235	0	0	0	15	0	109500	21-Feb-23	347

348

82A

गालियाबाद नगर निगम

वित्तीय वर्ष 2022-2023 आयकर/व्यापार कर/वीएएसडी/रायस्दी/लेबर सेस टेक्स विवरण

क्र.सं.	वर्ग का नाम	वर्ग का विवरण	दिवस	राशि	ए.एस.टी.	आयकर	वी.एस.टी.	व्यापार कर	सेस	अन्य/गैर-व्यापार	कुल राशि	दिनांक	वाउचर सं.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
170	नगर इंधन खर्च	कठिनगार जेन 04 स्थानों पर रात्रिकालीन सफाई कार्य माह सितम्बर से दिसम्बर 22 तक	126650	126650	0	0	2533	0	0	0	17	0	124100	21-Feb-23	348
171	नगर इंधन खर्च	कठिनगार जेन 04 स्थानों पर रात्रिकालीन सफाई कार्य माह सितम्बर से दिसम्बर 22 तक	126650	126650	0	0	2533	0	0	0	17	0	124100	21-Feb-23	349
172	नगर इंधन खर्च	कठिनगार जेन 04 स्थानों पर रात्रिकालीन सफाई कार्य माह सितम्बर से दिसम्बर 22 तक	126650	126650	0	0	2533	0	0	0	17	0	124100	21-Feb-23	350
173	नगर इंधन खर्च	कठिनगार जेन 04 स्थानों पर रात्रिकालीन सफाई कार्य माह सितम्बर से दिसम्बर 22 तक	126650	126650	0	0	2533	0	0	0	17	0	124100	21-Feb-23	351
174	नगर इंधन खर्च	कठिनगार जेन 04 स्थानों पर रात्रिकालीन सफाई कार्य माह सितम्बर से दिसम्बर 22 तक	149000	149000	0	0	2980	0	0	0	20	0	146000	21-Feb-23	352
175	नगर इंधन खर्च	कठिनगार जेन 04 स्थानों पर रात्रिकालीन सफाई कार्य माह सितम्बर से दिसम्बर 22 तक	149000	149000	0	0	2980	0	0	0	20	0	146000	21-Feb-23	353
176	नगर इंधन खर्च	कठिनगार जेन 04 स्थानों पर रात्रिकालीन सफाई कार्य माह सितम्बर से दिसम्बर 22 तक	149000	149000	0	0	2980	0	0	0	20	0	146000	21-Feb-23	354
177	नगर इंधन खर्च	कठिनगार जेन 04 स्थानों पर रात्रिकालीन सफाई कार्य माह सितम्बर से दिसम्बर 22 तक	149000	149000	0	0	2980	0	0	0	20	0	146000	21-Feb-23	355
		Total-	46045959	46045959	56	0	943566	200207	0	104781	14399	0	47725500		

अवस्यमान विकास विधि-मार्च 2023

1	नगर कंस	वार्ड-50 सड़क नगर में मेरठ रोड पर पेसी से सीपवीगार्म के मकान तक सीपवीगार्म सड़क व नली निर्माण कार्य।	3207686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	31-Mar-23	189
2	नगर कंस	वार्ड-59 नई बस्ती पुस्तकी गन्व नाला अपव्यग्नान में 2800 मी0 लम्बी 250 एमएम व्यास की सीवर लाईन सुधार कार्य।	19080272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	31-Mar-23	1266
3	नगर कंस	वार्ड-59 नई बस्ती पुस्तकी गन्व नाला अपव्यग्नान में 2800 मी0 लम्बी 250 एमएम व्यास की सीवर लाईन सुधार कार्य।	19080272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	31-Mar-23	2047
4	सुनील गं एच कम्पनी	नेहरूनगर स्थित आडिटोरियम रिडीजन में लिफ्ट 4 नम एकावीएच सिस्टम काया अलार्म आदि कार्य कराये जाने का कार्य।	41615827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000	31-Mar-23	1265
5	सिद्ध कंसल्टन्सी	वार्ड-89 सै-5 बैंगली के कानन रोतापटी एवं करन रोतापटी के बरिग्रास सड़क का सुधार कार्य।	4407500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	31-Mar-23	1271
6	श्रीजीएचएमजेएच प्राइवेट	वार्ड-72 चौथानी में नन्दा टावर से सप्लाइंग ट्रे गैर टकर तक डैम द्वारा सड़क सुधार कार्य।	10350517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	31-Mar-23	1262
7	डीजेएलएलएलएलएल इन्डिया प्राइवेट	वार्ड-20 नौपुरा रानी कालोनी में हुलसी निवृत्त पुलिस चौकी के बारन शोरी मुख्य सड़क पर जल निकासी हेतु नाला व सड़क निर्माण कार्य।	7138784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1372500	31-Mar-23	1256
8	रमेश कंस	वार्ड-50 सड़क नगर में मेरठ रोड पर पेसी से सीपवीगार्म के मकान तक सीपवीगार्म सड़क व नली निर्माण कार्य।	3207682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462653	31-Mar-23	189
10	आशीष कंस	वार्ड-10 सीपवीगार्म कालोनी की एच कालोनी में रोड एच से प्राइवरी स्टूल होते हुये फूल सिंक के मकान तक बरिग्रास सड़क का सुधार कार्य।	3701064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767800	31-Mar-23	1261
11	डीजेएलएलएलएलएल इन्डिया प्राइवेट	वार्ड-29 बुजगा विहार कुटी की जाने वाला मुख्य मार्ग रोड से निजिवा हटकरातेम तक सड़क निर्माण कार्य।	12556206	1840652	0	0	36814	36814	0	18407	109117	0	1639500	31-Mar-23	1260

गाजियाबाद नगर निगम

824

349

वित्तीय वर्ष 2022-2023 आयकर/ब्यापार कर/जीएसटी/रायस्ती/सेब सेस टैक्स विवरण

क्र.सं.	फर्म का नाम	कार्य का विवरण	देकर राशि	एन.ओ.ए.	रायस्ती	T.D.S.1%	आयकर	जी.एस.टी.	ब्यापार कर	सेस	अन्व./भण्डारी	कटौती	कुलान राशि	दिनांक	राउटर सं०	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
12	श्री एएएस0कन्सो	वार्ड-20 राजीव कलानी चौक रोड पर मझाना बिल्डर्स शिव मंदिर बंगलावाड से ग्राम मॉडिटे तक जल निकासी हेतु आरपीसीडी0 नाला निर्माण कार्य।	5370377	194404	0	0	3889	3889	0	1945	2081	0	182600	31-Mar-23	1257	
13	श्री आरपीसीडीक इंजीनियरिंग	जी0पी0रोड वाला बालक नाथ मन्दिर के सामने बाली सडक पर इंटरलाकिंग चढ़ाव लागाने का कार्य।	2588120	113000	0	0	2260	2260	0	1130	22650	0	84700	31-Mar-23	1259	
14	श्री आरपीसीडीक इंजीनियरिंग	वार्ड-58 व 14 के नया चर्च रोड तक विद्युतपत्र गीलावा रोड पर सडक सुधार का कार्य।	6471724	861613	0	0	17233	17233	0	8617	56930	0	761600	31-Mar-23	1270	
15	श्री प्रेम कन्सो	वार्ड-42 बरैटा में पुलिस/एचई गैलरी के सामने से विद्युतपत्र नेतानी के मकान से छोटे हुये रातू चौक तक नाली व सडक सुधार का कार्य।	4754819	457754	0	0	9156	9156	0	4578	46864	0	388000	31-Mar-23	278	
16	श्री प्रेम कन्सो	वार्ड-85 लालपुरा में क्षेत्रीय पार्क विनोद शर्मा के मकान तक नैटो रेडियन से श्रीवास्तवी आरुंधत तक नाले का निर्माण का कार्य।	4525489	1070184	0	0	21404	21404	0	10702	38574	0	978100	31-Mar-23	279	
17	श्री शाकुन्तली कन्सो	वार्ड-38 अर्पला में फाल रोड से अर्पला में तक मुख्य मार्ग का सुधार व फल निकासी हेतु नाला निर्माण का कार्य।	3709619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	31-Mar-23	280	
18	श्री चर्च इंजीनियरिंग डवलपर्स	संजयपुर में विजयश्री मंगलपुर तक सडक सुधार कार्य।	38890500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	31-Mar-23	281	
19	श्री सुरेश कुमार शर्मा	वार्ड-64 गरिम गार्डन में गाजियाबाद इंजिनियरिंग स्कूल के सामने से पुलिस तक इंटरलाकिंग चढ़ाव लागाने का कार्य।	1395166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	31-Mar-23	282	
20	श्री आनंद कन्सो	वार्ड-71 एएलपीरोड ओवर ब्रिज से बी-ब्लाक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन तक 600 एएएम0 ब्यास की 850 मी0पीयर लाईन डालने का कार्य।	5723782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	31-Mar-23	283	
21	श्री प्रेम कन्सो	वार्ड-70 अणकपुरी मॉडरेट के मुख्य मार्ग एवं दुर्ग मंदिर के सामने वाली सडक का सुधार कार्य।	6354296	529132	0	0	10583	10583	0	5292	56674	0	133900	31-Mar-23	284	
22	श्री शान्तनु कन्सो	ग्राम सिखानी के नगर निगम इंटर कालेज में 4 कमरी का निर्माण कार्य।	7461000	1702707	0	0	34055	34055	0	17028	36569	0	500000	31-Mar-23	285	
				योग-	6769446	0	0	135394	135394	0	67699	369459	0	14471353		
1	श्री सचिन बिल्डर्स	वार्ड-11 नन्दग्राम बोधे कालोनी में मुस्ता के नीचे प्राइवि0 में घर मरम्मत कार्य पर चढ़ाव व किचन का रीवेब कार्य।	643804	612202	0	0	10377	10377	0	5189	59	0	586200	31-Mar-23	505	
2	श्री बालाजी इंजीनियरिंग	वार्ड-16 कपौडिगट विद्यालय मोरटा व प्राइवि0 मोरटा का सुपरिकरण का कार्य।	3329055	2298358	0	0	38956	38956	0	19478	2568	0	2198400	31-Mar-23	506	
3	श्री एएएस0कन्सो	वार्ड-92 नगर निगम बालिका इंटर कालेज कैला चट्टा गाजियाबाद में श्रीवास्तवी का निर्माण व अक्वीफ मरम्मत कार्य।	2688320	1973544	0	0	33450	33450	0	16725	19	0	1889900	31-Mar-23	614	
4	श्री सीसा कन्सो	वार्ड-42 कपौडिगट विद्यालय शाहपुर बरैटा का सुपरिकरण कार्य।	3783628	168383	0	0	2854	2854	0	1427	2548	0	158700	31-Mar-23	2253	
5	श्री गरिम कन्सो	वार्ड-13 घुक्रुमा में चौधरी चौक सिड स्कूल का शैक्षिक उन्नयन कार्य।	707000	578426	0	0	9804	9804	0	4902	16	0	553900	31-Mar-23	2255	
6	श्री सचिन बिल्डर्स	वार्ड-50 कपौडिगट विद्यालय गुरुनगर सिखानी का शैक्षिक उन्नयन कार्य।	1327242	308461	0	0	5229	5229	0	2615	3088	0	292300	31-Mar-23	2254	
7	श्री गरिम कन्सो	वार्ड-92 प्राथमिक विद्यालय इलाहाबाद का शैक्षिक उन्नयन का कार्य।	2255244	1786707	0	0	30284	30284	0	15142	97	0	1710900	31-Mar-23	2258	
8	श्री अरुण कन्सो/कम्पनी	उत्तरपार्क मकान का निर्माण कार्य।	25143389	6229761	0	0	105590	105590	0	52795	86	0	5965700	31-Mar-23	2244	

14 वीं वित्त आयोग-मार्च 2023

गाजियाबाद नगर निगम

831

350

वित्तीय वर्ष 2022-2023 आयकर/ब्यापार कर/वीओएसटी/रायसी/सेबर सेस टेक्स विवरण

क्र.सं.	वर्ग का नाम	कार्य का विवरण	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	वापस सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9	श्री मणिम कस्तो	वार्ड-31 प्राथमिक विद्यालय सिहानी का भौतिक उत्पन्न काय	356000	311942	0	0	5288	5288	0	2644	22	0	298700	31-Mar-23	2256			
10	श्री मणिम कस्तो	वार्ड-31 प्राथमिक विद्यालय सिहानी का भौतिक उत्पन्न काय	373800	334240	0	0	5666	5666	0	2833	75	0	320000	31-Mar-23	2257			
11	श्री मणिम कस्तो/कस्तो	वार्ड-33 गैलरी से हट्टी से रोलिंग स्टेशन तक गल्ला निर्माण का कार्य।	222910	221913	0	0	3762	3762	0	1881	2008	0	210500	31-Mar-23	2247			
12	श्री आरव्य कस्तो	वार्ड-33 सराय नगरपाली प्राथमिक विद्यालय का भौतिक उत्पन्न का कार्य।	416717	406952	0	0	6898	6898	0	3449	7	0	389700	31-Mar-23	2248			
13	श्री वहीदा कस्तो	सिहानी विद्यालय की मरम्मत व सौंदर्यकरण कार्य।	9091046	630042	0	0	10679	10679	0	5340	44	0	603300	31-Mar-23	2249			
14	श्री वीओएसटी/इन्फ्रस्ट्रक्चर प्राजिक्ट	पूर्वावत वन का निर्माण कार्य।	26150880	3451076	0	0	58493	58493	0	29247	43	0	3304800	31-Mar-23	2245			
15	श्री दर्शन कस्तो	वार्ड-63 पर्यटन प्राजिक्ट-1 में रोड निर्माण व सुनिश्चितता के लिए कार्य।	1316415	102692	0	0	1741	1741	0	871	2039	0	96300	31-Mar-23	2250			
16	श्री दर्शन कस्तो	वार्ड-29 पंचशील बुटी के समीप स्थित नगर निगम बसिंका विद्यालय मरम्मत का कार्य।	7311150	3177836	0	0	53862	53862	0	26931	81	0	3043100	31-Mar-23	2251			
17	श्री लीसा कस्तो	वार्ड-46 कन्वेंट शिशुवर्ग का सुंदरीकरण का कार्य।	3283612	58832	0	0	998	998	0	449	587	0	55800	31-Mar-23	2252			
18	श्री बालानी इन्फ्रस्ट्रक्चर प्राजिक्ट	वार्ड-16 प्राथमिक विद्यालय सिहानी का सुंदरीकरण का कार्य।	2227792	1591880	0	0	26982	26982	0	13491	25	0	1524400	31-Mar-23	2239			
19	श्री डीओएसटी/इन्फ्रस्ट्रक्चर प्राजिक्ट	वार्ड-2 मोहल्ला रजुलबिकर में प्राथमिक विद्यालय वन बाउन्ड्रीवाल एवं शौचालय और मरम्मत का कार्य।	1777743	113898	0	0	1931	1931	0	966	3570	0	105500	31-Mar-23	2236			
20	श्री सविन शिल्डर्स	वार्ड-06 कन्वेंट विद्यालय नवग्राम का भौतिक उत्पन्न का कार्य।	3428716	1484982	0	0	25170	25170	0	12585	57	0	1422000	31-Mar-23	2233			
21	श्री जयवीर सिंह कान्ठेर	वार्ड-02 गोलियपुरम सी-ब्लॉक सी-104 से 176 तक आउटरीचो गल्ला व डैस द्वारा सड़क सुधार का कार्य।	4519783	79077	0	0	1341	1341	0	671	2724	0	73000	31-Mar-23	2246			
22	श्री डीओएसटी/इन्फ्रस्ट्रक्चर प्राजिक्ट	वार्ड-51 माधुसूदन स्कूल में आउटरीचो लैंड ड्राइंग का कार्य।	1172320	59000	0	0	1000	1000	0	500	1000	0	55500	31-Mar-23	2237			
23	श्री नर्सस इन्फ्रस्ट्रक्चर प्राजिक्ट	वार्ड-04 व 48 भीम चौक पार्क से मोहल्ला रिगो तक आउटरीचो गल्ला निर्माण का कार्य।	11156699	200454	0	0	3580	3580	0	1790	1404	0	190100	31-Mar-23	2242			
24	श्री डीओएसटी/इन्फ्रस्ट्रक्चर प्राजिक्ट	वार्ड-02 मोहल्ला राहुल सिंघर में प्रांमरी विद्यालय वन बाउन्ड्रीवाल एवं शौचालय और मरम्मत का कार्य।	912529	823109	0	0	13951	13951	0	6976	31	0	788200	31-Mar-23	2238			
25	श्री राज इन्फ्रस्ट्रक्चर	वार्ड-52 औटरीचो पर जंग क्षेत्र के समाने आउटरीचो गल्ला निर्माण का कार्य।	3847480	118999	0	0	2017	2017	0	1009	56	0	113900	31-Mar-23	2243			
26	श्री दर्शन कस्तो	वार्ड-42 प्राथमिक विद्यालय बसिंका का सुंदरीकरण आउटरीचो काय करण का कार्य।	2382598	1034326	0	0	17531	17531	0	8766	1098	0	989400	31-Mar-23	2230			
27	श्री दर्शन कस्तो	वार्ड-42 प्राथमिक विद्यालय तात हुंजा का सुंदरीकरण का कार्य।	2291477	901522	0	0	15281	15281	0	7641	1019	0	862300	31-Mar-23	2231			
28	श्री सविन शिल्डर्स	वार्ड-50 कन्वेंट विद्यालय उत्तम सिहानी का भौतिक उत्पन्न का कार्य।	947832	452016	0	0	7662	7662	0	3831	61	0	432800	31-Mar-23	2234			
29	श्री चक्रवीर सिंह रुबानी	वार्ड-88 कन्वेंट विद्यालय गंधीनगर के क्लबहाउस के उत्तम शौचालय की मरम्मत का कार्य व भीम एंजिंजियर पर इन्फ्रस्ट्रक्चर काय करण का कार्य।	1365935	307825	0	0	5218	5218	0	2609	80	0	294700	31-Mar-23	2235			
30	श्री प्रेम कस्तो	नगर निगम एनपीओ/एनएस स्कूल गणवत व पुनः निर्माण कार्य।	9696580	1213849	0	0	20574	20574	0	10287	2214	0	1160200	31-Mar-23	2232			
31	श्री एनपी ओ/इन्फ्रस्ट्रक्चर प्राजिक्ट	सिंहाना वार्ड में स्थापित स्थित पोली पर लाईट लगाने हेतु 190 वाट की एनपीओ लाईट लगाने का कार्य।	8492992	8492992	0	0	169860	169860	0	0	39	0	8314600	31-Mar-23	2241			
32	श्री एनपी ओ/इन्फ्रस्ट्रक्चर प्राजिक्ट	सिंहाना वार्ड में स्थापित स्थित पोली पर लाईट लगाने हेतु 190 वाट की एनपीओ लाईट लगाने का कार्य।	8769571	8769571	0	0	175392	175392	0	0	9	0	8585400	31-Mar-23	2240			

गण्डियाबाद नगर निगम
वित्तीय वर्ष 2022-2023 आयकर/व्यापार कर/जीएसटी/रायल्टी/लेबर सेस टैक्स विवरण

833
 351

क्र.सं.	धर्म का नाम	कार्य का विवरण	टैकर पंक्ति	टैक जोबर	रॉयल्टी	T.D.S 1%	आयकर	जी.एस.टी.	व्यापार कर	सेस	अव/रायल्टी	कटौती	मुआवज पंक्ति	दिनांक	हाउसर नं०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<p align="center">15 वीं वित्त आयोग-वर्ष 2023</p>															
1	श्री विरेन इन्जी प्रोपर्टी-एसएसड्यूएसओ	Handling Processing and Disposal of Municipal Solid Waste.	12478637	12478637	0	0	249573	0	0	0	64	0	12229000	31-Mar-23	403
2	श्री कृष्ण एसओ-एसएसड्यूएसओ	वर्क-37 शालीमार गार्डन में जस्सी फुड रोड पर बनीयाबाद रोड से वित्ती शाहरा तक कच्ची सड़क पट्टी पर ग्रास डेकर लगाने का कार्य।	40822769	331026	0	0	5611	5611	0	2806	1198	0	315800	31-Mar-23	401
3	श्री आकाश इन्फ्रस्ट्रक्चर-एसएसड्यूएसओ	वर्क-29 न्यू डिपेंस फालोनी बनीयाबाद रोड से मुख्य मार्ग के रोडो और बसिमास वाले का आउटरीथीओ द्वारा निर्माण एवं एक्स्पैट टर्मिनस को जाने वाले कच्चे रास्ते का निर्माण कार्य।	10999156	294176	0	0	4987	4987	0	2494	8	0	281700	31-Mar-23	400
4	श्री आकाश इन्फ्रस्ट्रक्चर-एसएसड्यूएसओ	वर्क-72 कैथानी वेव सीमेन से स्योव अस्फाल तथा एक्स्पैट से बाना बना गारर केप्री होते हुये स्योव अस्फाल तक नाला निर्माण का कार्य।	12467317	2223197	0	0	37682	37682	0	18841	25092	0	2103900	31-Mar-23	398
5	श्री आकाश इन्फ्रस्ट्रक्चर-एसएसड्यूएसओ	वर्क-37 डिपेंस एक्स्पैट का नाला निर्माण एवं 80 फुट रोड का नाला निर्माण कार्य।	29461890	4633791	0	0	78539	78539	0	39270	43	0	4437400	31-Mar-23	399
6	श्री मंडिक कन्सल्टिंग-एसएसड्यूएसओ	वर्क-43 कडकड गारल में नवीर केप्री के सामने से प्लाई जीकर तक आउटरीथीओ नाला निर्माण कार्य।	10147044	897603	0	0	15214	15214	0	7607	68	0	859500	31-Mar-23	402
7	श्री नेवर ग्रीन टूस एण्ड मशीनस प्रापर्टी	डोर टू डोर फुड स्लेक्शन हेतु 125 नग टैप्पू आर्पूटि का कार्य।	2628974	2628474	0	0	52570	0	0	0	4	0	2575900	31-Mar-23	408
8	श्री नेवर ग्रीन टूस एण्ड मशीनस प्रापर्टी	डोर टू डोर फुड स्लेक्शन हेतु 125 नग टैप्पू आर्पूटि का कार्य।	2661698	2661698	0	0	53234	0	0	0	64	0	2608400	31-Mar-23	413
9	श्री नेवर ग्रीन टूस एण्ड मशीनस प्रापर्टी	डोर टू डोर फुड स्लेक्शन हेतु 125 नग टैप्पू आर्पूटि का कार्य।	2477036	2477036	0	0	49541	0	0	0	95	0	2427400	31-Mar-23	409
10	श्री नेवर ग्रीन टूस एण्ड मशीनस प्रापर्टी	डोर टू डोर फुड स्लेक्शन हेतु 125 नग टैप्पू आर्पूटि का कार्य।	2467949	2467949	0	0	49359	0	0	0	90	0	2418500	31-Mar-23	410
11	श्री नेवर ग्रीन टूस एण्ड मशीनस प्रापर्टी	डोर टू डोर फुड स्लेक्शन हेतु 125 नग टैप्पू आर्पूटि का कार्य।	2482648	2482648	0	0	49653	0	0	0	95	0	2432900	31-Mar-23	411
12	श्री नेवर ग्रीन टूस एण्ड मशीनस प्रापर्टी	डोर टू डोर फुड स्लेक्शन हेतु 125 नग टैप्पू आर्पूटि का कार्य।	2314109	2314109	0	0	46283	0	0	0	26	0	2267800	31-Mar-23	412
13	श्री ओएसएसड्यूएसओ	Operation and Maintaining Secondary Vechiles and collection and Transformation of municipal solid waste upto the processing sites	6896758	6896758	0	0	137936	0	0	0	22	0	6758800	31-Mar-23	452
14	श्री ओएसएसड्यूएसओ	Operation and Maintaining Secondary Vechiles and collection and Transformation of municipal solid waste upto the processing sites	7503848	7503848	0	0	150077	0	0	0	71	0	7353700	31-Mar-23	453
15	श्री नेवर ग्रीन टूस एण्ड मशीनस प्रापर्टी	डोर टू डोर फुड स्लेक्शन हेतु 125 नग टैप्पू आर्पूटि का कार्य।	3017470	3017470	0	0	60350	0	0	0	20	0	2957100	31-Mar-23	405
16	श्री नेवर ग्रीन टूस एण्ड मशीनस प्रापर्टी	डोर टू डोर फुड स्लेक्शन हेतु 125 नग टैप्पू आर्पूटि का कार्य।	3057211	3057211	0	0	61145	0	0	0	66	0	2996000	31-Mar-23	406
17	श्री नेवर ग्रीन टूस एण्ड मशीनस प्रापर्टी	डोर टू डोर फुड स्लेक्शन हेतु 125 नग टैप्पू आर्पूटि का कार्य।	2831884	2831884	0	0	56638	0	0	0	46	0	2775200	31-Mar-23	407
18	श्री नेवर ग्रीन टूस एण्ड मशीनस प्रापर्टी	डोर टू डोर फुड स्लेक्शन हेतु 125 नग टैप्पू आर्पूटि का कार्य।	7904079	7904079	0	0	158082	0	0	0	97	0	7745900	31-Mar-23	454
19	श्री नेवर ग्रीन टूस एण्ड मशीनस प्रापर्टी	डोर टू डोर फुड स्लेक्शन हेतु 125 नग टैप्पू आर्पूटि का कार्य।	9057893	9057893	0	0	181158	0	0	0	35	0	8876700	31-Mar-23	455
20	श्री नेवर ग्रीन टूस एण्ड मशीनस प्रापर्टी	डोर टू डोर फुड स्लेक्शन हेतु 125 नग टैप्पू आर्पूटि का कार्य।	6011090	6011090	0	0	120222	0	0	0	68	0	5890800	31-Mar-23	456
Total-			48294867	0	17263	871421	526169	0	263040	26774	0	46590200			

गाजियाबाद नगर निगम 835
 वित्तीय वर्ष 2022-2023 आयकर/ब्यापार कर/वीओएसटी/रायवटी/लेबर सेस टेक्स विवरण

क्र.सं.	वर्ग का नाम	वर्ग का विवरण	देवर राशि	लॉ और	रेंटवटी	T.D.S 1%	आयकर	जी.एस.टी.	ब्यापार कर	सेस	अन्य/पोल्सी	कटौती	मुद्दान राशि	दिनांक	वार्ड सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	को नगर जैन हूड एचड प्रासिडि	को नगर जैन हूड एचड प्रासिडि का 125 नग पैपू आर्गुटि का कार्य।	6307105	6307105	0	0	126143	0	0	0	62	0	6180900	31-Mar-23	457
22	को बालानी इन्फान्ट प्रासिडि-एसडब्ल्यूएसड	वार्ड-09 नवद्वार मस्जिद नगर में ए-ब्लॉक की विभिन्न मस्जिदों में वी-23 वाली गली में सड़क पर डेस व साइड पैदी पर टाइल्स व नाला निर्माण कार्य।	9319680	2508209	0	0	42513	42513	0	21257	26	0	2401900	31-Mar-23	516
23	को बालानी इन्फान्ट प्रासिडि-एसडब्ल्यूएसड	वार्ड-16 मोरटा में ट्रांसफार्मर से मेल्ट ग्रेड तक नाला निर्माण एवं टाइल्स कार्य।	3952000	3952000	0	0	66984	66984	0	33492	40	0	3784500	31-Mar-23	515
24	को वीओएसटीकन्ट्र	वार्ड-56 अवलिक कालोनी के कुल 03 प्लॉट में घास आर्गुटि का कार्य।	484004	134134	0	0	2683	0	0	1342	9	0	130100	31-Mar-23	511
25	को शिव कन्सट्रक्शन्सआर्गु	वार्ड-33 सराय नगर अली स्थित पार्क मरम्मत कर पार्क विकसित करने का कार्य।	567364	567364	242	0	10132	10132	0	5065	93	0	541700	31-Mar-23	512
26	को मेगा कन्सट्रक्शन्सआर्गु	वार्ड-01 हिंसवान नगर बागू मापपार्क वीपीटी रोपटी तहल घास व सजावटी पीरो की आर्गुटि का कार्य।	491212	467710	0	0	9355	0	0	4678	77	0	453600	31-Mar-23	514
27	को वीओएसटीकन्ट्र	वार्ड-77 गेहाली रोड के विभिन्न कुड-9 प्लॉट के सौन्दर्यकरण हेतु घास व सजावटी पीके की आर्गुटि एवं लगाने का कार्य।	664575	143890	0	0	2878	0	0	1439	73	0	139500	31-Mar-23	510
28	को अर्धवृत्तकन्सट्रक्शन्सआर्गु	वार्ड-11 आश्रय रोड पर गली-9 की पुलिका से मित्रा स्टीट्स क्षेत्रे हुये क्षेत्री अ के मन्दिर तक आरपीडीओ नाला निर्माण का कार्य।	5126976	1124491	0	0	19060	19060	0	9530	41	0	1076800	31-Mar-23	509
29	को हनुमन्ट इन्फान्ट प्रासिडि-एसडब्ल्यूएसड	वार्ड-39 कनला क्वार्टर उदकेश मार्ग नलकूप के रिसेर आचरक मिलात एवं पम्प स्म निर्माण का कार्य।	2816347	1555877	0	0	26371	26371	0	13186	49	0	1489900	31-Mar-23	507
30	को मेहरा कन्सट्रक्शन्सआर्गु	वार्ड-10,29,29 विभिन्न क्षेत्रों में 4 प्लॉट के सौन्दर्यकरण हेतु घास एवं सजावटी पीरो आर्गुटि का कार्य।	635208	531409	0	0	10629	0	0	5315	65	0	515400	31-Mar-23	513
31	को वीओएसटीकन्ट्र	वार्ड-42 में मानसरोवर पार्क से रमा कृष्ण पब्लिक स्कूल क्षेत्रे हुये बेदीकाल्यार्ण के मकान तक निर्माण का कार्य।	2911289	2897696	0	0	49114	49114	0	24557	5211	0	2769700	31-Mar-23	517
32	को हनुमन्ट इन्फान्ट प्रासिडि-एसडब्ल्यूएसड	वार्ड-10 कन्सट्रक्शन्सआर्गु परिसर में नलकूप 10 एचपीओ का कार्य।	2637247	1478995	0	0	25068	25068	0	12534	25	0	1416300	31-Mar-23	508
33	को सुर्गाई अकमन्ड-एचएचएआर्गु	वार्ड-60 नॉर्प मार्केट स्थित पार्क में मियावकी पवर्ति में बनाने का रहे सपन बन की सिंवाई हेतु 3 नग 3 एचपीओ पम्प व एचएचएचडट लगाने का कार्य।	378918	311844	0	0	5286	5286	0	2643	29	0	298600	31-Mar-23	615
34	को सुर्गाई अकमन्ड-एचएचएआर्गु	वार्ड-70 सुवदन गार्डन आडिटोरियम वाला पार्क में मिलात की पवर्ति में बनाने का रहे सपन बन में सिंवाई हेतु 5 नग 3 एचपीओ नलकूप सामाना व एचएचएचडट लगाने का कार्य।	808018	783630	0	0	13282	13282	0	6641	25	0	750400	31-Mar-23	616
35	को सुर्गाई अकमन्ड-एचएचएआर्गु	वार्ड-60 राजेन्द्रनगर जीओडब्ल्यू स्थित पार्क में मियावकी पवर्ति से बनाने का रहे सपन बन की सिंवाई व्यवस्था हेतु 3 नग 3 एचपीओ समरसिन्धत पम्प लगाना व एचएचएचडट लगाने का कार्य।	485947	469655	0	0	7961	7961	0	3981	52	0	449700	31-Mar-23	617
36	को सुर्गाई अकमन्ड-एचएचएआर्गु	वार्ड-24 लोक मण्डी स्थित पुलिस चौकी वाला पार्क में मियावकी पवर्ति में बनाने का रहे सपन बन की सिंवाई का कार्य।	165392	159545	0	0	3191	0	0	1596	58	0	154700	31-Mar-23	618
37	को सुर्गाई अकमन्ड-एचएचएआर्गु	वार्ड-24 में स्थित काल जैन के सामने पार्क में मियावकी पवर्ति से बनाने का रहे सपन बन की सिंवाई व्यवस्था हेतु 2 नग 3 एचपीओ पम्प लगाने का कार्य।	331164	319020	0	0	5408	5408	0	2704	0	0	305500	31-Mar-23	619
38	को सुर्गाई अकमन्ड-एचएचएआर्गु	वार्ड-42 चंद्रपुर स्थित मूनि में मियावकी पवर्ति से बनाने का रहे सपन बन की सिंवाई व्यवस्था हेतु एक नग 3 एचपीओ के समरसिन्धत अधिस्थापन का कार्य।	163687	157440	0	0	2669	0	0	1335	36	0	153400	31-Mar-23	620

गालियाबाद नगर निगम

837

853

वित्तीय वर्ष 2022-2023 आयकर/ब्यापार कर/जीओएसटी/रायसी/लेबर सेस टैक्स विवरण

क्र.सं.	वर्ग का नाम	कार्य का विवरण	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	श्री मन्वीर सिंह-एमएसओआर	वार्ड-91 परिसर अर्थात् नगर स्थित कुल 2 प्लॉट में सीनरकरण के तहत घास व सजावटी कार्य अर्थात्।	941876	325993	0	0	6120	0	0	0	0	0	3260	13	0	316600	31-Mar-23	2323-
40	श्री राजेश कुमार-एमएसओआर	वार्ड-03 पुराना विधानसभा हेतु सुदृढ जे-ब्लॉक जला पार्क की स्थापना निर्माण का कार्य।	1621702	331243	1126	0	5615	0	0	0	5615	0	2808	79	0	316000	31-Mar-23	2319
41	श्री सीता कस्तूर-एमएसओआर	वार्ड-19 परिसर स्थित संगणकित पार्क सीनरकरण।	3094483	1165393	0	0	19753	0	0	19753	19753	0	9877	10	0	1116000	31-Mar-23	2318
42	श्री लक्ष्मी कस्तूर-एमएसओआर	वार्ड-60 पार्क मार्किट स्थित पार्क में गिआवकी पंक्ति में बनाने का रहे सन वन की सिंचाई हेतु 3 नग 3 एचओपीओ व एमएसओआर सपाने का कार्य।	276898	262894	0	0	4456	0	0	4456	4456	0	2228	54	0	251700	31-Mar-23	2315
43	श्री सीताकस्तूर-एमएसओआर	वार्ड-52 विभिन्न सै-ए-ब्लॉक में कुल 4 प्लॉट में सीनरकरण हेतु घास आर्पित व सपाने हेतु पेट-पीओ की अर्पित का कार्य।	679024	103670	0	0	2074	0	0	2074	0	0	1037	1059	0	99500	31-Mar-23	2314
44	श्री सुधा एसी-एमएसओआर	वार्ड-28 पार्क बालोनी हॉल क्वाटर जोड़ने स्थित पार्क में बनाने जाने वाली गिआवकी की सुरक्षा हेतु नगर क्षेत्र का कार्य।	1271494	1271494	0	0	21551	0	0	21551	21551	0	10776	16	0	1217600	31-Mar-23	2327
45	श्री सीता कस्तूर-एमएसओआर	वार्ड-15 प्रान्शिक सतौर्य मेडिकल के पास स्वर डेरी के सामने स्थित ग्रीन बेंच की पार्क के रूप में विकसित करने का कार्य।	4313474	2158145	0	0	36579	0	0	36579	36579	0	18290	97	0	2066600	31-Mar-23	2317
46	श्री शकुन्ती कस्तूर-एमएसओआर	वार्ड-25 औद्योगिक एरिया ई-13 के सामने स्थित पार्क में ग्रीन पार्क गिआवकी बनाने हेतु सुरक्षा कार्य।	1664366	1584886	0	0	26863	0	0	26863	26863	0	13432	28	0	1517700	31-Mar-23	2329
47	श्री श्री प्रमोदनी कस्तूर-एमएसओआर	वार्ड-24 में ग्रीन चौक ग्रीन पार्क में गिआवकी बनाने हेतु सुरक्षा कार्य।	2054750	2011781	0	0	34098	0	0	34098	34098	0	17049	36	0	1926500	31-Mar-23	2328
48	श्री श्री श्री प्रमोदनी कस्तूर-एमएसओआर	वार्ड-42/53 रूफटॉप स्थित ग्रीन पार्क में गिआवकी बनाने हेतु सुरक्षा कार्य।	1870925	1619263	0	0	27446	0	0	27446	27446	0	13723	48	0	1550600	31-Mar-23	2325
49	श्री श्री श्री प्रमोदनी कस्तूर-एमएसओआर	5 स्थानों पर रजिस्ट्रेशन सफाई का कार्य।	1842600	1842600	0	0	36852	0	0	36852	0	0	0	48	0	1805700	31-Mar-23	2291
50	श्री श्री श्री प्रमोदनी कस्तूर-एमएसओआर	3 स्थानों पर रजिस्ट्रेशन सफाई का कार्य।	1080250	1080250	0	0	21605	0	0	21605	0	0	0	45	0	1058600	31-Mar-23	2292
51	श्री श्री श्री प्रमोदनी कस्तूर-एमएसओआर	5 स्थानों पर रजिस्ट्रेशन सफाई का कार्य।	1663800	1663800	0	0	33276	0	0	33276	0	0	0	24	0	1630500	31-Mar-23	2289
52	श्री श्री श्री प्रमोदनी कस्तूर-एमएसओआर	6 स्थानों पर रजिस्ट्रेशन सफाई का कार्य।	1854500	1854500	0	0	37090	0	0	37090	0	0	0	10	0	1817400	31-Mar-23	2290
53	श्री श्री श्री प्रमोदनी कस्तूर-एमएसओआर	मशीनरी डोर डोर कूलिंग सपाने हेतु 75 नग टैपू आर्पित का कार्य।	2995136	2995136	0	0	59903	0	0	59903	0	0	0	33	0	2935200	31-Mar-23	2284
54	श्री श्री श्री प्रमोदनी कस्तूर-एमएसओआर	मशीनरी डोर डोर कूलिंग सपाने हेतु 125 नग टैपू आर्पित का कार्य।	2470526	2470526	0	0	49411	0	0	49411	0	0	0	15	0	2421100	31-Mar-23	2283
55	श्री श्री श्री प्रमोदनी कस्तूर-एमएसओआर	मशीनरी डोर डोर कूलिंग सपाने हेतु 125 नग टैपू आर्पित का कार्य।	2665802	2665802	0	0	53317	0	0	53317	0	0	0	85	0	2612400	31-Mar-23	2282
56	श्री श्री श्री प्रमोदनी कस्तूर-एमएसओआर	मशीनरी Operation and Maintaining Secondary Vechiles and collection and Transformation of municipal solid waste upto the processing sites	2564903	2564903	0	0	51299	0	0	51299	0	0	0	4	0	2513600	31-Mar-23	2288
57	श्री श्री श्री प्रमोदनी कस्तूर-एमएसओआर	and collection and Transformation of municipal solid waste upto the processing sites	5143620	5143620	0	0	102873	0	0	102873	0	0	0	47	0	5040700	31-Mar-23	2287
58	श्री श्री श्री प्रमोदनी कस्तूर-एमएसओआर	and collection and Transformation of municipal solid waste upto the processing sites	4489789	4489789	0	0	89796	0	0	89796	0	0	0	93	0	4399900	31-Mar-23	2286
59	श्री श्री श्री प्रमोदनी कस्तूर-एमएसओआर	and collection and Transformation of municipal solid waste upto the processing sites	8110488	8110488	0	0	162210	0	0	162210	0	0	0	78	0	7948200	31-Mar-23	2285
60	श्री श्री श्री प्रमोदनी कस्तूर-एमएसओआर	and collection and Transformation of municipal solid waste upto the processing sites	16270092	16270092	0	0	325402	0	0	325402	0	0	0	90	0	15944600	31-Mar-23	2271

वित्तीय वर्ष 2022-2023 आयकर/व्यापार कर/वीएएसडी/रायल्टी/सेवर सेस टेक्स विवरण-
 गाजियाबाद नगर निगम (354) 839

क्र.सं.	पं. का नाम	कार्य का विवरण	देवर रॉशि	टर्न ओवर	रॉफ्टी	T.D.S 1%	ऑपेकर	जी.एस.टी.	व्यापार कर	सेस	अन्य/रायल्टी	कटौती	मुताबक रॉशि	दिनांक	वाउचर नं०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
61	को विरोध इन्जीनियरिंग-एसओडब्ल्यूएसओ	Operation and Maintaining Secondary Vechiles and collection and Transformation of municipal solid waste upto the processing sites	17702925	17702925	0	0	354059	0	0	0	66	0	17348800	31-Mar-23	2272
62	को विरोध इन्जीनियरिंग-एसओडब्ल्यूएसओ	Operation and Maintaining Secondary Vechiles and collection and Transformation of municipal solid waste upto the processing sites	11055506	11055506	0	0	221111	0	0	0	95	0	10834300	31-Mar-23	2273
63	को नार्थ इन्डिया डबलरस-एसओडब्ल्यूएसओ	5 स्थानों पर रजिस्ट्रेशन सर्फेस का कार्य। Operation and Maintaining Secondary Vechiles and collection and Transformation of municipal solid waste upto the processing sites	1450750	1450750	0	0	29015	0	0	0	35	0	1421700	31-Mar-23	2293
64	को जेएएसडब्ल्यूएसओ सेविस प्राइवेट	Operation and Maintaining Secondary Vechiles and collection and Transformation of municipal solid waste upto the processing sites	2905392	2905392	0	0	58108	0	0	0	84	0	2847200	31-Mar-23	2276
65	को जेएएसडब्ल्यूएसओ सेविस प्राइवेट	Operation and Maintaining Secondary Vechiles and collection and Transformation of municipal solid waste upto the processing sites	3783848	3783848	0	0	75677	0	0	0	71	0	3708100	31-Mar-23	2275
66	को जेएएसडब्ल्यूएसओ सेविस प्राइवेट	Operation and Maintaining Secondary Vechiles and collection and Transformation of municipal solid waste upto the processing sites	6947029	6947029	0	0	138941	0	0	0	88	0	6808000	31-Mar-23	2274
67	को मैट्रो वेस्ट इन्डियन प्राइवेट	Operation and Maintaining Secondary Vechiles and collection and Transformation of municipal solid waste upto the processing sites	2801185	2801185	0	0	56024	0	0	0	61	0	2745100	31-Mar-23	2281
68	को मैट्रो वेस्ट इन्डियन प्राइवेट	Operation and Maintaining Secondary Vechiles and collection and Transformation of municipal solid waste upto the processing sites	4370724	4370724	0	0	87415	0	0	0	9	0	4283300	31-Mar-23	2280
69	को मैट्रो वेस्ट इन्डियन प्राइवेट	Operation and Maintaining Secondary Vechiles and collection and Transformation of municipal solid waste upto the processing sites	7831816	7831816	0	0	156637	0	0	0	79	0	7675100	31-Mar-23	2279
70	को मैट्रो वेस्ट इन्डियन प्राइवेट	Operation and Maintaining Secondary Vechiles and collection and Transformation of municipal solid waste upto the processing sites	7631362	7631362	0	0	152628	0	0	0	34	0	7478700	31-Mar-23	2278
71	को मैट्रो वेस्ट इन्डियन प्राइवेट	Operation and Maintaining Secondary Vechiles and collection and Transformation of municipal solid waste upto the processing sites	8903796	8903796	0	0	178076	0	0	0	20	0	8725700	31-Mar-23	2277
72	को ओम सक्का कार्पोरेशन-एसओडब्ल्यूएसओ	Operation and Maintaining Secondary Vechiles and collection and Transformation of municipal solid waste upto the processing sites	1168319	1168319	0	0	23367	0	0	0	52	0	1144900	31-Mar-23	2264
73	को ओम सक्का कार्पोरेशन-एसओडब्ल्यूएसओ	Operation and Maintaining Secondary Vechiles and collection and Transformation of municipal solid waste upto the processing sites	2365757	2365757	0	0	47316	0	0	0	41	0	2318400	31-Mar-23	2263
74	को ओम सक्का कार्पोरेशन-एसओडब्ल्यूएसओ	Operation and Maintaining Secondary Vechiles and collection and Transformation of municipal solid waste upto the processing sites	4215130	4215130	0	0	84303	0	0	0	27	0	4130800	31-Mar-23	2262
75	को ओम सक्का कार्पोरेशन-एसओडब्ल्यूएसओ	Operation and Maintaining Secondary Vechiles and collection and Transformation of municipal solid waste upto the processing sites	5720329	5720329	0	0	114407	0	0	0	22	0	5605900	31-Mar-23	2261
76	को ओम सक्का कार्पोरेशन-एसओडब्ल्यूएसओ	Operation and Maintaining Secondary Vechiles and collection and Transformation of municipal solid waste upto the processing sites	5740332	5740332	0	0	114807	0	0	0	25	0	5625500	31-Mar-23	2260
77	को ओम सक्का कार्पोरेशन-एसओडब्ल्यूएसओ	Operation and Maintaining Secondary Vechiles and collection and Transformation of municipal solid waste upto the processing sites	5480082	5480082	0	0	109602	0	0	0	80	0	5370400	31-Mar-23	2259
78	को ओम सक्का कार्पोरेशन-एसओडब्ल्यूएसओ	समस्त जौनो में मैकेनाइज्ड रैड स्वीपिंग का कार्य।	7739403	7739403	0	0	154789	0	0	0	14	0	7584600	31-Mar-23	2268
79	को ओम सक्का कार्पोरेशन-एसओडब्ल्यूएसओ	समस्त जौनो में मैकेनाइज्ड रैड स्वीपिंग का कार्य।	7739403	7739403	0	0	154789	0	0	0	14	0	7584600	31-Mar-23	2267
80	को ओम सक्का कार्पोरेशन-एसओडब्ल्यूएसओ	समस्त जौनो में मैकेनाइज्ड रैड स्वीपिंग का कार्य।	7739403	7739403	0	0	154789	0	0	0	14	0	7584600	31-Mar-23	2266

841-355

गण्डियाबाद नगर निगम
2022-2023 आयक/बापार क/वीओएसडी/रायसी/सेबर सेस टेक्स विवरण-

क्र.सं.	क्रम का नाम	कार्य का विवरण	एकर राशि	दंड और	रकबाटी	T.D.S 1%	आयकर	जी.एस.टी.	बापार कर	सेस	अन्य/पल्की	कटौती	मुफ्तान राशि	दिनांक	शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
81	क्र.ओम स्वच्छता कारपोरेशन-एसओएसओएसओ	समतत जोगी में फेकनाइट रोड सौभाग्य का कार्य।	7739403	7739403	0	0	154789	0	0	0	14	0	7584600	31-Mar-23	2265
82	क्र.ओम स्वच्छता कारपोरेशन-एसओएसओएसओ	समतत जोगी में फेकनाइट रोड सौभाग्य का कार्य।	7657936	7657936	0	0	153159	0	0	0	77	0	7504700	31-Mar-23	2269
83	क्र.सुशी हाटिक्कर-एसओएसओ	वार्ड-37 विद्युत एक्सेल में एनपीसीआर में कुल 02 पार्कों का सौकरकरण का कार्य।	190085	50000	0	0	1000	0	0	500	0	0	48500	31-Mar-23	2316
84	क्र.सर्जन कस्तुर-एसओएसओ	वार्ड-37 शालीमार गार्डन विद्युत एक्सेल सिखा देवी पार्क की मरम्मत व सौकरकरण का कार्य।	1717920	780815	1008	0	13235	13235	0	66.18	19	0	746700	31-Mar-23	2320
85	क्र.सर्जन कस्तुर-एसओएसओ	वार्ड-78 शालीमार गार्डन एसस-1 स्थल पार्क की मरम्मत व विकसित करने का कार्य।	1887149	638145	1187	0	10817	10817	0	54.09	15	0	609900	31-Mar-23	2321
86	क्र.मोहन चौधरी-एसओएसओ	वार्ड-70 बनकपुरी में पार्क की सुव्याय चौकीकरण जोपन सिम तथा शैवरी पर रवाई पुवाई का कार्य।	1367087	137253	1162	0	2327	2327	0	1164	73	0	130200	31-Mar-23	2324
87	क्र.श्रीन आदरेश कापट प्राविन-एसओएसओ	विद्युतगार जोन संरक्षण एरिया स्टाक-ई के सामने विद्युतपत्ती पडवति से सभन बन केम विकसित करने का कार्य।	2120580	795217	0	0	15905	0	0	79.53	59	0	771300	31-Mar-23	2322
88	क्र.शैलेश कुमार सिंह-एसओएसओ	वार्ड-71,67 व 53 संव्ययनर सै-23 विपिन स्टाक में कुल 12 पार्कों में सौकरकरण के तहत घास व सजावटी पीपी की आपूर्ति व सभाने का कार्य।	656161	512832	0	0	10257	0	0	51.29	46	0	497400	31-Mar-23	2309
89	क्र.शैलेश कुमार सिंह-एसओएसओ	वार्ड-56 अलिनकर कालोनी में कुल 4 पार्कों में सौकरकरण के तहत सजावटी पीपी की आपूर्ति व सभाने का कार्य।	589677	263511	0	0	5271	0	0	26.36	4	0	255600	31-Mar-23	2308
90	क्र.शैलेश कुमार सिंह-एसओएसओ	वार्ड-56 विरलीव विहार व अलिनकर में कुल 4 पार्कों में सौकरकरण के तहत घास व सजावटी पीपी की आपूर्ति का कार्य।	164497	106492	0	0	2130	0	0	10.65	97	0	103200	31-Mar-23	2307
91	क्र.मास्ति बिबलस एड कादेसर	वार्ड-22 अमृत कण्ठ जीओएसडीके सामने पार्क की मरम्मत कार्य विकसित करना का कार्य।	1978331	872048	44421	0	14781	14781	0	73.91	74	0	790600	31-Mar-23	2326
92	क्र.शैलेश कुमार सिंह-एसओएसओ	वार्ड-11 नन्दगाम ई-स्टाक स्थित कुल-5 पार्कों में सौकरकरण के तहत घास व सजावटी पीपी की आपूर्ति का कार्य।	5069586	302805	0	0	6057	0	0	30.29	19	0	293700	31-Mar-23	2310
93	क्र.अरुण कस्तुरी	वार्ड-17 रायपुर के भीरोड टंकी से लेकर टी-पार्क तक पीपी तरफ आरपीसीओ नाला निर्माण का कार्य।	18670560	1672469	0	0	28347	28347	0	141.74	1	0	1601600	31-Mar-23	2301
94	क्र.सुगत इन्द्रजाडेन-एसओएसओ	वार्ड-39 वेल्डगार स्थित अंकर भित्त व नलकूरा स्थित आभरसक पितान एवं एच स्म निर्माण का कार्य।	2759931	1525991	0	0	25865	25865	0	129.33	28	0	1461300	31-Mar-23	2296
95	क्र.सुगत इन्द्रजाडेन-एसओएसओ	विदीव विहार एच-2 22 तरे एवं से अविष्कारित नालकूरा विहार/आभरसक पितान व एच स्म निर्माण का कार्य।	2640232	1460942	0	0	24762	24762	0	123.81	37	0	1399000	31-Mar-23	2295
96	क्र.श्रीन कस्तुर-एसओएसओ	वार्ड-31,4,58 विद्युतगार में सपाट चौक से आरपीसीओ नाला निर्माण व कवरिंग कार्य।	35961029	1170974	0	0	19848	19848	0	99.24	50.54	0	1116300	31-Mar-23	2302
97	क्र.आकाश इन्द्रज-एसओएसओ	वार्ड-37 विद्युत एक्सेल का नाला निर्माण एवं 80 सुट रोड का नाला निर्माण कार्य।	29461810	7129878	0	0	120846	120846	0	60.423	63	0	6827700	31-Mar-23	2303
98	क्र.आकाश इन्द्रज-एसओएसओ	वार्ड-72 केशवाची के स्थिति में सौकर अस्वाक एक तथा एच स्म से डामर बना डेटे डूने स्याद अस्वाक एक आरपीसीओ नाला निर्माण का कार्य।	12467317	3396659	0	0	57571	57571	0	28.786	31	0	3252700	31-Mar-23	2305
99	क्र.आकाश इन्द्रज-एसओएसओ	वार्ड-7 डैरली नगर में डिन चौक से डैरली नगर पार्क की टंकी तक आरपीसीओ नाला निर्माण कार्य।	11616000	1699030	0	0	28798	28798	0	14.399	72.35	0	1619800	31-Mar-23	2309
100	क्र.परमेश्वर पार चौधुरान परिचालन-एसओएसओ	एसओएसओ श्रीन क्षेत्र एवं सलकी से अविष्कारित डेटे हेतु रिक्वरी वाहन बन करने का कार्य।	4310000	4310000	0	0	4310	86200	0	0	90	0	4219400	31-Mar-23	2270
101	क्र.श्रीन कस्तुर-एसओएसओ	वार्ड-86 परीस एयरपोर्ट की बाइपास के सामने सपेडनगर सर्विस रोड एक नाला निर्माण कार्य।	3403959	236563	0	0	4010	4010	0	20.05	38	0	226500	31-Mar-23	2306

845

माजियाबाद नगर निगम

वित्तीय वर्ष 2022-2023 आयक/व्यापार कर/वीएसटी/वेब सेस टैक्स विवरण-357

क्र.सं.	वर्ष का नाम	वर्ष का विवरण	देहरा राशि	टर्न ओवर	वीएसटी	T.D.S 1%	आयकर	वीएसटी	आयकर कर	सेस	अन्य/वैक्य	कटौती	मुदान राशि	दिनांक	रायट सं०	शेष राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	सब माल निगम-अप्रैल 2022	अप्रादी का अग्रुम महोत्सव व सब माल निगम-2022 के अन्तर्गत समान समारोह।	90860	90860	0	0	1817	0	0	0	0	0	89043	22-Apr-22	1220	0	S.B.M.
2	श्री वरिपर सोल्युशन	निगम सीमांतगत शोवालय/सुर स्टोकर/मैट्रो मुख्य शोपिंग पर सेस सन्वैड का कार्य।	301785	301785	0	0	6036	6036	0	0	0	0	289713	22-Apr-22	1219	0	S.B.M.
3	श्री वरिपर सोल्युशन	गान्धारी में सर्वर सफाई कार्य को अपने-2 वार्ड में उच्च कार्य हेतु संपन्न कार्य की जागीर।	42197	42197	0	0	844	0	0	0	0	0	41353	22-Apr-22	1218	0	S.B.M.
4	श्री वरिपर सोल्युशन	गान्धारी अप्रादी का अग्रुम महोत्सव के 75 वर्ष पूर्ण हेतु पर श्रेष्ठ लगाने का कार्य।	72889	72889	0	0	1458	0	0	0	0	0	71431	22-Apr-22	1217	0	S.B.M.
5	श्री ईल इन्फ्रस्ट्रक्चर	2 अक्टूबर गंधी जयन्ती के उपलक्ष्य में अप्रादी के अग्रुम महोत्सव विशेष सफाई अभियान पर टोपी व टी0 शर्ट आगुति।	87938	87938	0	0	1759	0	0	0	0	0	86179	22-Apr-22	1221	0	S.B.M.
		Total-	595669	595669	0	0	11914	6036	0	0	0	0	577719				
1	सब माल निगम-अप्रैल 2022	समाप्ति 2021 के अन्तर्गत प्रथम व सेडिगल सिकरी क्वैरिटी सीटर निर्माण के संबंध में।	3173397	206307	0	0	4126	4126	0	2063	0	0	195992	22-May-22	911	0	S.B.M.
		Total-	206307	206307	0	0	4126	4126	0	2063	0	0	195992				
1	श्री Mac Enviro(India)Pvt.Ltd.	मोबाइल एप्लिकेशन/एप्लिकेशन आसफाईन विवरण गंधी की आगुति का अग्रिम मुदान।	14942340	14942340	0	12663	0	253260	0	0	0	0	14676417	4-MAY-23	487	0	S.B.M.
		Total-	14942340	14942340	0	12663	0	253260	0	0	0	0	14676417				

847

गाजियाबाद नगर निगम

वित्तीय वर्ष 2022-2023

आयकर/ब्यापार कर/जीएसटी/रोल्लेडी/लेबर सेस टैक्स वितरण-358

क्र.सं.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	फर्म का नाम	कार्य का विवरण	रेचर राशि	रन ओवर	रोल्लेडी	T.D.S 1%	आयकर	जी.एस.टी.	ब्यापार कर	सेस	अन्य/पार्लेडी	कटौती	भुगतान राशि	दिनांक	साक्षर सं०	

स्मार्ट सिटी-सितंबर 2022

परियोजना प्रवर्धक कन्सो एण्ड डिजाईन सर्विसेज

गाजियाबाद की पार्किंग परियोजना का निर्माण कार्य।

1	श्री 0080 जल निगम यूनिट-28	कार्य का विवरण	155335000	155335000	0	0	3106700	0	0	0	0	0	152228300	2-Sep-22	1
---	----------------------------	----------------	-----------	-----------	---	---	---------	---	---	---	---	---	-----------	----------	---

स्मार्ट सिटी-मार्च 2023

श्रीरामपुरम शक्ति खण्ड-4 में हरित शवदा गृह का निर्माण कार्य।

1	श्री 0080 जल निगम कम्पनी	कार्य का विवरण	4205000	3490794	0	0	59166	59166	0	29583	79	0	1954506	31-Mar-23	2334
---	--------------------------	----------------	---------	---------	---	---	-------	-------	---	-------	----	---	---------	-----------	------

Total-	155335000	0	0	3106700	0	0	0	0	0	0	0	0	152228300		
Total-	3490794	0	0	59166	59166	0	29583	79	0	1954506					

849-

गजियाबाद नगर निगम

द्वितीय वर्ष 2022-2023 आयकर/व्यापार कर/जीएसटी/रायव्ही/लेबर सेस टैक्स विवरण-359

क्र.सं.	फर्म का नाम	कार्य का विवरण	शेडर राशि	टर्न ओवर	संपत्ती	T.D.S 1%	आयकर	जी.एस.टी.	व्यापार कर	सेस	अन्य/विपत्ती	कटौती	मुताबल राशि	दिनांक	राउटर सं०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

आवास विकास-अक्टूबर 2022

1 श्री निरोन इन्वीस्टमेंट्स

प्रताप विहार लिगेसी साईट से लिक्वैसी सॉल्विड वेस्ट
बायोरेडिफिशन पद्धति से निस्तारण का कार्य।

2 श्री निरोन इन्वीस्टमेंट्स

प्रताप विहार लिगेसी साईट से लिक्वैसी सॉल्विड वेस्ट
बायोरेडिफिशन पद्धति से निस्तारण का कार्य।

Total- 146300000 0 0 292600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14337400

आवास विकास-मार्च 2023

1 श्री निरोन इन्वीस्टमेंट्स

प्रताप विहार लिगेसी साईट से लिक्वैसी सॉल्विड वेस्ट
बायोरेडिफिशन पद्धति से निस्तारण का कार्य।

Total- 60000000 0 0 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5880000 1-Mar-23 274

851

360

गजियाबाद नगर निगम
आयकर/ब्यापार कर/सीएसडी/रायसी/सेवर सेव टैक्स विवरण-

क्र.सं.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
क.सं.	कर्म का नाम	कर्म का विवरण	टैक्स राशि	दफ्त. और.	पेयबंदी	T.D.S 1%	आयकर	जी.एस.टी.	ब्यापार कर	सेव	अव. राशि	कटौती	शुद्ध राशि	दिनांक	कटौती	कटौती राशि

1 श्री 40 गजियाबाद नगर निगम में निर्माणधीन 40 एमएसडीओ इमारत के दृतीय
संवर्धन योजना खाते के अधिदायन का कार्य माईल स्टोन-1 के
अनुसार कर्मचारी संख्या को 18.72 करोड़ का सुलभ।

श्रीगजियाबाद नगर निगम में निर्माणधीन 40 एमएसडीओ इमारत के दृतीय
संवर्धन योजना खाते के अधिदायन का कार्य माईल स्टोन-1 के
अनुसार कर्मचारी संख्या को 18.75 करोड़ का सुलभ।

श्रीगजियाबाद नगर निगम में निर्माणधीन 56 एमएसडीओ इमारतों
के अधिदायन का कार्य माईल स्टोन-1 के
अनुसार कर्मचारी संख्या को 18.72 करोड़ का सुलभ।

श्रीगजियाबाद नगर निगम में निर्माणधीन 40 एमएसडीओ इमारत के दृतीय
संवर्धन योजना खाते के अधिदायन का कार्य माईल स्टोन-1 के
अनुसार कर्मचारी संख्या को 18.72 करोड़ का सुलभ।

Total- 187500000 0 0 3177967 3177967 0 1588984 82 0 179555000 15-Sep-22 1212

Total- 187500000 0 0 3177967 3177967 0 1588984 82 0 179555000

Total- 187500000 0 0 3177967 3177967 0 1588984 82 0 179555000 31-Dec-22 681

Total- 186687000 0 0 373740 373740 0 0 0 0 18313200 20-Feb-23 492

Total- 186687000 0 0 373740 373740 0 0 0 0 18313200

Total- 187500000 0 0 3177966 3177966 0 3561879 89 0 177582100 14-Feb-23 497

Total- 187500000 0 0 3177966 3177966 0 3561879 89 0 177582100

653 गाजियाबाद नगर निगम 361
 वित्तीय वर्ष 2022-2023 आयकर/व्यापार कर/जीएसटी/रायल्टी/सेस टैक्स विवरण-

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	डेप्युटि राशि	टर्न ओवर	रोयल्टी	T.D.S 1%	आयकर	जी.एस.टी.	व्यापार कर	सेस	अन्य/रायल्टी	करीबी	मुद्रागत राशि	दिनांक	वाउचर सं०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

G.D.A.-Dec 2022

1 श्री विरोध इन्वीस्टमेंट्स
 इन्दिरापुरम के इन्वीग ग्राउन्ड में सिनेमा हॉल का निस्तारण 14343868 14343868 0 0 286877 0 0 286877 0 0 91 0 7028450 12-Dec-22 257

Total- 14343868 0 0 286877 0 0 91 0 7028450

कार्य।

गांधियाबाद नगर निगम

855

362

क/जीएएसटी/आयकर क/जीएएसटी/आयकर सेस टेक्स विवरण-

क्र.सं.	फर्म का नाम	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	दिनांक
1	सर्वे भारत निर्माण-आवले 2022	90860	90860	0	0	1817	0	0	0	0	0	89043	22-Apr-22
2	1. श्री श्रीआरंभरप्रार्थन	301785	301785	0	0	6036	6036	0	0	0	0	289713	22-Apr-22
3	2. श्री आरंभर प्रार्थना	42197	42197	0	0	844	0	0	0	0	0	41353	22-Apr-22
4	3. श्री आरंभर प्रार्थना	72889	72889	0	0	1458	0	0	0	0	0	71431	22-Apr-22
5	4. श्री आरंभर प्रार्थना	87938	87938	0	0	1759	0	0	0	0	0	86179	22-Apr-22
Total-		595669	595669	0	0	11914	6036	0	0	0	0	577719	
5. श्री आरंभर प्रार्थना		3173397	206307	0	0	4126	4126	0	2063	0	0	195992	22-May-22
Total-		206307	206307	0	0	4126	4126	0	2063	0	0	195992	
6. श्री आरंभर प्रार्थना		14942340	14942340	0	12663	0	253260	0	0	0	0	14676417	4-Mar-23
Total-		14942340	14942340	0	12663	0	253260	0	0	0	0	14676417	

1. श्री श्रीआरंभरप्रार्थन 2022 के
 2. श्री आरंभर प्रार्थना 2022 के
 3. श्री आरंभर प्रार्थना 2022 के
 4. श्री आरंभर प्रार्थना 2022 के
 5. श्री आरंभर प्रार्थना 2022 के
 6. श्री आरंभर प्रार्थना 2022 के

2. श्री आरंभर प्रार्थना 2022 के
 3. श्री आरंभर प्रार्थना 2022 के
 4. श्री आरंभर प्रार्थना 2022 के
 5. श्री आरंभर प्रार्थना 2022 के
 6. श्री आरंभर प्रार्थना 2022 के

सर्वे भारत निर्माण-आवले 2022

श्री आरंभर प्रार्थना

श्री आरंभर प्रार्थना

परिशिष्ट क्र 7

852

363

वित्तीय वर्ष 2022-23 में निगम द्वारा प्राप्त एवं उपलब्ध तथा उपलब्ध अर्थों का विवरण

क्रमांक	आदेश संख्या विनोद जिससे अर्थ स्वीकृत किया	अर्थ की मौलिक धरणा	1-4-2020 को देय	वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राप्त	वर्ष 2022-23 में किमागणना	उपलब्ध अर्थों का	उत्पत्ति
1-	एन सी० आ० योजना-तर्गत प्राप्त अर्थ						
(क)	आ० सं० आ०/79-9-आ०-1-98-2	7,99,50,000					
(ख)	सी० आ०-98 दिनांक 27-8-99	3,37,50,000	9,15,89,600		अर्थ	9,15,89,600	
(ग)	आ० सं०-57/9-आ०-1-2-एन सी० आ० 98 दिनांक विनोद 01-03-2001	4,18,16,000					
2.	अवस्थापना सुविधाओं हेतु सिवारकिना फंड 06-5 से व्याज सहित अर्थ	5,40,22,000	5,40,22,000		अर्थ	5,40,22,000	
3.	अवस्थापना सुविधाओं हेतु वधि 2004-05 के सिवारकिना फंड 06-5 से व्याज सहित अर्थ	3,00,000	3,00,000		अर्थ	3,00,000	

ग्रामपालिका परिषद्/जिला पंचायत/नगर पंचायत/क्षेत्र पंचायत/अन्तर विभाग, सावित्रीबाई शिंदे एच रावत कोट का विवरण (परिसर) - B
 (एक पृष्ठ पर एक से)

क्र.सं.	आय का स्रोत	1 वर्ष की वसूली की संख्या	दोस्त	कुल मास (3+4)	वर्ष 2000 का अनुमान	वर्ष 2001 का अनुमान	वर्ष 2002 का अनुमान	वर्ष 2003 का अनुमान	वर्ष 2004 का अनुमान
1	गृहकर	3	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0
2	जलकर	3	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0
3	वस्तु का विक्रय	3	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0
4	सफाई कर / सीवर कर	3	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0
5	विमान एवं वायुसेवा कर	3	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0
6	आयकर, जीविका तथा भवपत्र पर कर प्रेशुकर	3	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0
7	संबन्धी गृहियों पर कर अथवा अन्य शुल्क	3	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0
8	यात्री कर	3	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0
9	व्यय कर (रेट उल्लेख करें)	3	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0
10	भूमि एवं मकान का कर	3	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0
11	विद्युत की प्राप्ति	3	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0
12	प्रतीप मास (उल्लेख करें)	3	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0
	योग								

क्र.सं.	आय का स्रोत	कुल प्राप्ति	वर्ष 2000 का अनुमान	वर्ष 2001 का अनुमान	वर्ष 2002 का अनुमान	वर्ष 2003 का अनुमान	वर्ष 2004 का अनुमान
1	गृह कर	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0
2	जल कर	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0
3	सिमांत कर	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0
	योग						

वर्ष 2000 का अनुमान 2000-01 का अनुमान 10 से अधिक है।
 वरिष्ठ सदस्य का सम्पर्क नंबर 2000-01-10-2001-1,00,000 प्रतिमा (चास)।
 दिनांक 10/10/2004

संख्या 861 (366) के परमर 1 के संयोजन परमिटेड 9

नगर निगम माहितीयावली

निम्नलिखित कार्य के सिट्टी के (डोमेरिकम) अन्त सामग्री पर न कार्य जारी / काम कार्य जारी होयती की चयनोम

क्र. सं.	व्यय प्रमाणिका संख्या/दिनांक	कार्य / टेंकवर / कार्य का नाम	कार्य की सामग्री	प्रति मीटर की दर	कुल मूल्य	क्र. सं.	व्यय प्रमाणिका संख्या/दिनांक
1.	1093/30-7-22 रु० 275700	वाड-58 चालाकत चौक से अलक चौक तक सड़क सुधार कार्य मं. 21.11.19 कर	कार्टी सामग्री चक	1044/7616	5.	6.	कार्टी कार्टी कार्टी चयनोम
2.	1041/28-7-22 रु० 494900	वाड-90 सच. ब्लाक मास्टर से नौवा चौक इलाके इमपल चौक 1100 रु० निर्माण का कार्य मं. 20 मासिक कार्य	कार्टी सामग्री चक	17351/57504	5.	6.	कार्टी कार्टी कार्टी चयनोम
3.	1685/22-10-22 रु० 2030600	वाड नं.-75 लाजापत नगर से चौक ब्लाक का आवरण व सच. ब्लाक सच. चौक ब्लाक का आवरण निर्माण मासिक कार्य मं. 20 मासिक कार्य	कार्टी सामग्री चक	41985/27290 531/93582	5.	6.	कार्टी कार्टी कार्टी चयनोम

367
962

1.	2.	3	4	5	6	7
4.	10/1 01-6-22 350 1822560	विजयनगर जॉय सं. विधान सभा शास. भवन जयपुर का भाग को 20 लाख का मूल्य है	का. सं. 45 43.18 का. सं. 45 13.70 ए. 27.40 ऑफिस का 47941	2807 1370 3014 47941	—	55132
5.	1095/ 30-7-22 350 260560	जॉय-62 विजयनगर सं. जॉय सं.-3 का भाग का भाग का मूल्य है	का. सं. 45 34.11 ए. 560.84	34416 61692	—	96108
6.	1690/ 22-10-22 350 1195360	जॉय सं. 45 विधान सभा का भाग का भाग का मूल्य है	का. सं. 45 5.97 ए. 11.94	597 1313 39042	—	40952
7.	1016/ 28-7-22 350 743150	जॉय सं. 45, 15- विधान सभा का भाग का भाग का मूल्य है	का. सं. 45 8.45 ए. 16.90	845 1859 38304	—	41008
8.	1688/ 22-7-22 350 1481950	जयपुर जॉय सं. विधान सभा का भाग का भाग का मूल्य है	का. सं. 45 33.57 ए. 67.14	3357 7385 101622	—	112364

संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी - 1

नगर विद्यालय, वाराणसी

संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

क्र. सं.	व्यक्ति का नाम	पता	वर्ष	प्रमाण	दिनांक	संख्या
1.
9.
10.

369

1.	2.	3	4	5	6	7
11.	1713/ 22-10-22 50 659150	<p>11/11/22 1713/ 22-10-22 50 659150</p> <p>11/11/22 1713/ 22-10-22 50 659150</p> <p>11/11/22 1713/ 22-10-22 50 659150</p>	<p>11/11/22 1713/ 22-10-22 50 659150</p> <p>11/11/22 1713/ 22-10-22 50 659150</p> <p>11/11/22 1713/ 22-10-22 50 659150</p>	44681 82560		127281
12.	1097/ 30-7-22 250 1244400	<p>10/9/22 1097/ 30-7-22 250 1244400</p> <p>10/9/22 1097/ 30-7-22 250 1244400</p> <p>10/9/22 1097/ 30-7-22 250 1244400</p>	<p>10/9/22 1097/ 30-7-22 250 1244400</p> <p>10/9/22 1097/ 30-7-22 250 1244400</p> <p>10/9/22 1097/ 30-7-22 250 1244400</p>	12863 309078		321941
13.	1156/ 31-7-22 250 63800	<p>11/5/22 1156/ 31-7-22 250 63800</p> <p>11/5/22 1156/ 31-7-22 250 63800</p> <p>11/5/22 1156/ 31-7-22 250 63800</p>	<p>11/5/22 1156/ 31-7-22 250 63800</p> <p>11/5/22 1156/ 31-7-22 250 63800</p> <p>11/5/22 1156/ 31-7-22 250 63800</p>	3895 3074 16460		23429
14.	1151/ 31-7-22 250 393400	<p>11/5/22 1151/ 31-7-22 250 393400</p> <p>11/5/22 1151/ 31-7-22 250 393400</p> <p>11/5/22 1151/ 31-7-22 250 393400</p>	<p>11/5/22 1151/ 31-7-22 250 393400</p> <p>11/5/22 1151/ 31-7-22 250 393400</p> <p>11/5/22 1151/ 31-7-22 250 393400</p>	10161 26209		36370

066
371

1.	2.	3	4	5	6	7
17.	S 32/ 22-12-22 ₹ 243250	₹ 15 का 1 मास का बचत का अंतर का 19% का ₹ 243250 का अंतर का	₹ 46 ₹ 43 12	2996 12000 4950	—	12480
18.	168/ 2-2-23 ₹ 648800	₹ 15 - 24 का अंतर का अंतर का अंतर का ₹ 20 का अंतर का अंतर का	₹ 15.61 ₹ 9.03 ₹ 37.05	9015 903 4075	—	9678
19.	225-2/ 31-3-23 ₹ 55800	₹ 15 - 46 का अंतर का 19% का अंतर का अंतर का ₹ 55800 का अंतर का	₹ 33.91 ₹ 22.62 ₹ 85.69	2204 2262 7225	—	11691
20.	S 31/ 22-12-22 ₹ 191200	₹ 15 का 1 मास का अंतर का अंतर का अंतर का ₹ 191200 का अंतर का अंतर का	₹ 81.68 ₹ 13.85 ₹ 166.01	5309 1585 18261	—	40665

372

868

संस्कृतियाँ पोरबंदर

संस्कृतियाँ आरव्या मारा - क के परर 1 से

नगर विनाम माडियावाड

काशी / कस काशी

मिमाण काशी से सिट्टी के (ओरिक्म अन्य सामियाँ पर न काशी गाँव / कस काशी गाँव डामरडी की चनराओ

क्र. सं.	व्यय प्रमाणिका संख्या / दिनांक	कर्म / एकपर / काय का नाम	काय का माता काय चन माता	पति का माता काय चन माता	पति का माता काय चन माता	काय का माता काय चन माता	काय का माता काय चन माता
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
21	1106 / 31-7-22 रु 284600	वाड 16 यां विर गाँव गजपत का सुडगाँव का गाँव रु 0 नौपरी सुसा का	काय का माता काय चन माता	पति का माता काय चन माता	काय का माता काय चन माता	काय का माता काय चन माता	17143
22	632/31-12-22 रु 22-0000	वाड - 20 नौपरी के प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त पत्रिका, किक कस, डिजाग, टी गी. चालन, रु 00 वाडगाँव गाँव, सुकराकिक हवाडी वाडगाँव, रु 00 नौपरी सुसा का	काय का माता काय चन माता	पति का माता काय चन माता	काय का माता काय चन माता	काय का माता काय चन माता	8805

868 (371)

सुन्दरगढ पोस्टमिस्ट्र

सम्पत्तिका (आस्था) सारा-क के प्रसार I से

सुन्दरगढ पोस्टमिस्ट्र

गार्डी कार्ड / काम कार्ड

सिमांत काम से मिस्ट्री के (ओरिजिन) प्र न कार्ड गार्डी / काम कार्ड
गार्डी डोमस्ट्री की चमराओ

क्र. सं.	व्यक्त प्रमाणिका / सुन्दरगढ पोस्टमिस्ट्र	काम / टैकवर / कार्य का नाम	कार्य का माता / चमराओ	प्रति चमराओ / मिस्ट्री / चमराओ	काम कार्ड / काम कार्ड	क्र. सं.
1.		3.	4.	5.	6.	7.
27	1715/2210-22 सं 483/500	वाड-51 मिस्ट्री सुन्दरगढ पोस्टमिस्ट्र 1715 नाली का (सुन्दरगढ पोस्टमिस्ट्र) नाला मिश्रण-काम से (आर) मिस्ट्री मिस्ट्री मिस्ट्री	कार्य का माता चमराओ	प्रति चमराओ मिस्ट्री चमराओ	काम कार्ड काम कार्ड	158966
28	1448/317-22 सं 505/500	वाड 80 से कार्य गार्डी से 150 काम मिस्ट्री मिस्ट्री मिस्ट्री मिस्ट्री	कार्य का माता चमराओ	प्रति चमराओ मिस्ट्री चमराओ	काम कार्ड काम कार्ड	119962

870
375

1.	2.	3	4	5	6	7
29	280/27-11-22 50 4,50,000	चर-82 सागर एक अर्ध/सागर में 25-05/17 अ-सागर में से अर्ध/सागर में 25-05/17 अर्ध/सागर में से अर्ध/सागर में 25-05/17 अर्ध/सागर में से अर्ध/सागर में 25-05/17	अर्ध/सागर में 45.75 अर्ध/सागर में 5.72 अर्ध/सागर में 86.01 अर्ध/सागर में 39.06	2974 572 9560	—	13106
30.	207 20/ 31-3-23 50 8085 00	चर-76 अर्ध/सागर में 3 र में अर्ध/सागर में अर्ध/सागर में अर्ध/सागर में अर्ध/सागर में अर्ध/सागर में अर्ध/सागर में अर्ध/सागर में	अर्ध/सागर में अर्ध/सागर में अर्ध/सागर में 103.40	3906 11374	—	15280
31.	1217/ 31-3-23 50 143400	चर-97 अर्ध/सागर में 75 अर्ध/सागर में 25 अर्ध/सागर में 25 अर्ध/सागर में अर्ध/सागर में अर्ध/सागर में अर्ध/सागर में अर्ध/सागर में अर्ध/सागर में अर्ध/सागर में अर्ध/सागर में	अर्ध/सागर में 69.06 अर्ध/सागर में 129.20	4489 14212	—	18701
32.	34/01-3-23 50 47600	अर्ध/सागर में अर्ध/सागर में अर्ध/सागर में अर्ध/सागर में अर्ध/सागर में अर्ध/सागर में अर्ध/सागर में अर्ध/सागर में अर्ध/सागर में	अर्ध/सागर में 48.55 अर्ध/सागर में 123.24	4855 12324	—	17179

376

- 871

घोरसिद्ध

सम्पत्तिका (आरम्भ) भाग - क के प्रसार I से सम्बन्धित

नगर निगम माडिगोवा

पर ल कार्डी गार्डी / कस कार्डी

सिमाव काय से सिद्धी के डोमेरिकस डुम्य सामग्री पर ल कार्डी गार्डी

गार्डी डोमल्टी की चनरोम

कस सं.	व्यय प्रमाणिका संख्या/दिनांक	कस / चेकर / काम का नाम	कार्य की सामा यत्त सिफे	प्राप्त कर सिफे की जेम्स कार्डी गार्डी चनरोम	6.	7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
33.	1118/31-3-23 रु 1055 रु 00	वार्ड-78 आल/आर/गोडन रूकस - 1 के साईं बाइका धाके के पास लोस्ट चं - 407 वाली स्थल जेम्स डोमेरिकस के लिये वार्डी पर नाली व परकारिडिड ड्रु-इर खोकिं डोमल्टी का कार्डी गार्डी से प्राप्त कर रोपटो	कार्य की सामा यत्त सिफे	प्राप्त कर सिफे की जेम्स कार्डी गार्डी चनरोम	—	15675
34.	47 / 01-3-23	वार्ड-35 अकवर पर बडवाम पर से खोच कलसिक से घुटे बाका व बन्हे से जमा करण मापन तक नाली व प्रसार लोका डोमल्टी का काम से खोचकी सिद्धी	कार्य की सामा यत्त सिफे	प्राप्त कर सिफे की जेम्स कार्डी गार्डी चनरोम	—	8505

1.	2.	3	4	5	6	7
35.	2219/ 31-3-23 ₹ 1445083	<p>915-25 (अनुमानित) गरीब जनता के प्रति अनायास 444 के अर्थ में चाली लाख रुपए प्रदान करने के लिए वृत्त चाली लाख रुपए का आवंटन वृत्त प्रदान करने का कार्य</p>	<p>4187 रु 35.49 36.07 36.73</p>	2306 3607 39680		45593
36.	1731/ 31-3-23 ₹ 1250500	<p>915-76 वृत्त के अर्थ में 3 लाख रुपए का आवंटन वृत्त 3 लाख 148 हजार रुपए का वृत्त वृत्त का कार्य वृत्त के अर्थ में वृत्त के अर्थ में वृत्त का कार्य वृत्त के अर्थ में वृत्त के अर्थ में वृत्त का कार्य वृत्त के अर्थ में वृत्त के अर्थ में वृत्त का कार्य</p>	<p>4187 रु 26.32 67.89 141.10</p>	1711 6789 15521		24021
37.	1766/ 31-3-23 ₹ 1188600	<p>915-72 वृत्त के अर्थ में 18 लाख रुपए का कार्य वृत्त के अर्थ में वृत्त के अर्थ में वृत्त का कार्य वृत्त के अर्थ में वृत्त के अर्थ में वृत्त का कार्य वृत्त के अर्थ में वृत्त के अर्थ में वृत्त का कार्य</p>	<p>4187 रु 48.68 17.50 97.30</p>	3162 1750 10703		15615
38.	1017/ 31-3-23 ₹ 283700	<p>915-81 वृत्त के अर्थ में 4 लाख रुपए का कार्य वृत्त के अर्थ में वृत्त के अर्थ में वृत्त का कार्य वृत्त के अर्थ में वृत्त के अर्थ में वृत्त का कार्य वृत्त के अर्थ में वृत्त के अर्थ में वृत्त का कार्य</p>	<p>4187 रु 48.68 17.50 29.68</p>	3162 1750 6823		9723

संख्या/दिनांक (आरक्षण) सारा - क के प्रसार I में सूचना पोस्टिंग

378

873

नगर विभाग माहिजावाड

सिमावा काया से सिटी के (ओरिजन) पर न कारी राजी / काय कारी
 राजी शैमल की चणरीम

क्र. सं.	व्यस प्रमाणक संख्या/दिनांक	कार्य / टिप्पण / कार्य का नाम	कार्य का माता का मा	प्राप्त का सं. की प्र. से कार्य को चणरीम	कार्य का माता का मा	प्राप्त का सं. की प्र. से कार्य को चणरीम	कार्य का माता का मा
1.	2.						
39	2094/ 31-3-23 रु. 22/500	वाड-37 आलवार वाडस से प्रसार याका के सामने कारी राजी से सि. सं. रु. का सिमावा काय को माहिजा चणरीम	हा. सं. काय रु. 82.50 रु. 2/से काय रु. 165	8250 18150	काय रु. काय रु. 93.24 काय रु. 6.32	8250 18150 6061 632	काय रु. काय रु. काय रु. काय रु. 15546
40.	2093/ 31-3-23 रु. 203/200	वाड-66 सायल सिडर से कायला पट्टी से सिमावा से लक्ष्मी (अधुन) माहिजा सायल से सायल सायल वायल राजी से रु. 203/200 वाडस काय काय को माहिजा चणरीम	हा. सं. काय रु. 93.24 काय रु. 6.32	8250 18150 6061 632	काय रु. काय रु. काय रु. काय रु. 15546	8250 18150 6061 632	काय रु. काय रु. काय रु. काय रु. 15546

- 676
381

1.	2.	3	4	5	6	7
47.	918/ 31-3-23 रू० 38700	शु. 20 अक्टूबर 2157 रु. पू. 21100 रु. शु. 20 अक्टूबर 2157 रु. शु. 20 अक्टूबर 2157 रु. शु. 20 अक्टूबर 2157 रु. शु. 20 अक्टूबर 2157 रु.	41187 रु. 29.93 शु. 20 अक्टूबर 2157 रु. 1.03	1945 103		
48.	2079/ 31-3-23 रू० 291500	शु. 62 अक्टूबर 2157 रु. शु. 20 अक्टूबर 2157 रु. शु. 20 अक्टूबर 2157 रु. शु. 20 अक्टूबर 2157 रु.	शु. 62 अक्टूबर 2157 रु. 49.47 शु. 20 अक्टूबर 2157 रु. 80.63 शु. 20 अक्टूबर 2157 रु. 24.52	4947 2869 13523		27339
49.	893/ 31-3-23 रू० 28400 1132/ 31-3-23 रू० 284600	शु. 71 अक्टूबर 2157 रु. शु. 20 अक्टूबर 2157 रु. शु. 20 अक्टूबर 2157 रु. शु. 20 अक्टूबर 2157 रु. शु. 20 अक्टूबर 2157 रु. शु. 20 अक्टूबर 2157 रु.	शु. 71 अक्टूबर 2157 रु. 28.04 शु. 20 अक्टूबर 2157 रु. 49.26 शु. 20 अक्टूबर 2157 रु. 17.13	4426 3201 1713		4426
50.						16656

- 899 - 382 -
 संपर्क (आर.आ. आरा - क) के प्रसार I से संपर्कित परिसर

नगर निगम माहितीयावग

सिमांत कार्य से सिटटी के (डोमेरिकम) इन्फ सामग्री पर न कार्य गाड़ी / काम कार्य

गाड़ी शमली की चमरीम

क्र. सं.	वस प्रमाणिका संख्या/दिनांक	कार्य / टिप्पण / काम का नाम	कार्य की माता पर न	कार्य का प्रारंभ / कार्य की प्रारंभ	कार्य का अंत / कार्य की अंत	क्र. सं.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
51.	906/ 31-3-23 रु 33700	वाड-08 साली वाड पीक के पास आर्क और लाय पीक का चोर डोर तरक शिन्स जय संक संचार का काम मी (अकल काम) का.	कार्य की माता पर न	प्रारंभ की प्रारंभ	कार्य की अंत / कार्य की अंत	क्र. सं.
52.	2194/ 31-3-23 रु 117000	वाड-92 कला सटल से चमन कालोनी में मीमा संचार वाली गली व लाज मीडसक (अर्क) डलर व मीडसक संचार वाली गली में मीमो रीड व लाली सिमांत का काम मीमो मीमो काम	कार्य की माता पर न	प्रारंभ की प्रारंभ	कार्य की अंत / कार्य की अंत	क्र. सं.
			4101	4243	4567	17535
			13434	22313		31123
			122.13	292.85		

383

1.	2.	3	4	5	6	7	
53	925/ 31-3-23 81000	915-32 22984 4112 407 407 407 2000 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 215/25 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407	40187 45 27.46 45 2.47 407/207 407/22 75.61	1785 247			
54.	191/01-3-23	915-24 407	407/207 407/22 193.14	15889 8317			46791
55	2184/ 31-3-23 1496200	915-47, 415-5 407	407/207 407/22 44.67 45 407/207 407/22	2903 2892 22812			28587
56.	2181/ 31-3-23 1222200	915-58 407	407/207 407/22 207.38 4157 45 116.91 89.70 407/207	449 8970 33780			

1.9

- 828 - (384)

संख्या/का (आख्या) मारा - क के प्रसार I से सन्दासा पोरीगिहट

नगर निवाह माहिमावाड

निर्माण काज से सिटटी के (ओपेरिकम) अन्य सामान्यो पर न कारी गार्डी / काज कारी
गार्डी शमलटी की चमराओ

क्र. सं.	वर्ग प्रमाणिका संख्या/दिनांक	कार्य का नाम	कार्य का माता का प्र माता	कार्य का प्र माता का प्र माता	प्रमाणिका संख्या/दिनांक	कार्य का प्रमाणिका संख्या/दिनांक
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
57	2183/ 31-3-23 20/87/400	वाड-91 काबिनार के जो-1 से मुक्ति दाखिल को कर जाका/नगर पोरा Hड प्रमाणिका संख्या/दिनांक का काज को (ओपेरिकम) सिटटी के	काज का माता का प्र माता	प्रमाणिका संख्या/दिनांक का प्र माता का प्र माता	कार्य का प्रमाणिका संख्या/दिनांक	कार्य का प्रमाणिका संख्या/दिनांक
58	10/2/ 31-3-23 20/13/600	वाड-73 आब/मिर मडन से 95.002 से क्याक से प्रमाणिका-18 से प्रमाणिका-13 का जुल सिवास/दिनांक काज काज काज का प्रमाणिका/दिनांक काज काज	काज का माता का प्र माता	प्रमाणिका संख्या/दिनांक का प्र माता का प्र माता	कार्य का प्रमाणिका संख्या/दिनांक	कार्य का प्रमाणिका संख्या/दिनांक
			6517 18142 11219 1345 5421 16670.50	6517 18142 11219 1345 5421 16670.50		35878 23436

385

1.	2.	3	4	5	6	7
59.	1010/ 31-3-23 250/435500	श्री-67 राजगिर श्री-07/157 श्री-07/65 का शिव शिवा श्री-23 का श्री- श्री-23 का श्री- श्री-23 का श्री-	4187 28.40 412/का 21.41 412/का 83.37 4157 का 85.06 21.33 412/का 412/का 198.98	1846 2141 9170		13157
60.	930/ 31-3-23 250/279207	श्री-67 राजगिर श्री-07/157 श्री-07/65 का शिव शिवा श्री-23 का श्री- श्री-23 का श्री- श्री-23 का श्री-	4187 28.40 412/का 21.41 412/का 83.37 4157 का 85.06 21.33 412/का 412/का 198.98	1846 2141 9170		13157
61.	2096/ 31-3-23 250/2064900	श्री-64 राजगिर श्री-07/157 श्री-07/65 का शिव शिवा श्री-23 का श्री- श्री-23 का श्री- श्री-23 का श्री-	4187 28.40 412/का 21.41 412/का 83.37 4157 का 85.06 21.33 412/का 412/का 198.98	1846 2141 9170		13157

संख्या 883 (388) के प्रसार I में सन्दर्भ पोरबिट

नगर निगम माहितीवादा

सिमांत कार्या संसिद्धी के (ओरिक्स अन्ध सामग्री) पर न कार्डी राभी / काम कार्डी
 राभी शैमली की चनराज

क्र. सं.	व्यय प्रमाणक संख्या/दिनांक	काम / टिकवक / कार्य का नाम	कार्य का माता का चनराज	प्रति का सं. की चनराज	कार्डी राभी / काम कार्डी	क्र. सं.
68.	1024/ 26-5-22 रु 14733000	शौचालय का काम / पब्लिस चोकी के पास कार्य करे रु 10 के कार्य से सदनवाक मासि पाए कामवाक. डालि डर 30 फुटि मागे 1100 रु 500 रु 500 रु 500 रु 500 रु 500 रु 500 रु 500 रु 500 रु 500 रु 500 रु 500 रु 500	कार्डी राभी / काम कार्डी	प्रति का सं. की चनराज	कार्डी राभी / काम कार्डी	7.
69.	553/ 22-12-22 रु 3606800	वाडि-66, मासिम बिदर भिग मासिम रु रु 500 रु 500 रु 500 रु 500 रु 500 रु 500 रु 500 रु 500 रु 500 रु 500 रु 500 रु 500	कार्डी राभी / काम कार्डी	प्रति का सं. की चनराज	कार्डी राभी / काम कार्डी	11,56,291
			कार्डी राभी / काम कार्डी	प्रति का सं. की चनराज	कार्डी राभी / काम कार्डी	121960

889

389

1.	2.	3	4	5	6	7
70.	265/ 20-3-23 ₹ 911600	₹ 86 ₹ 40 ₹ 25000 ₹ 10000	₹ 120.88 ₹ 252.36 ₹ 882.29	8507 25236 97129		
71.	1072/ 30-7-22 ₹ 818350	₹ 95 ₹ 40 ₹ 10000 ₹ 45000 ₹ 10000	₹ 5.84 ₹ 154.36 ₹ 40.036 ₹ 363.96	380 15436 40,036 40,036		55852
72.	1068/ 30-7-22 ₹ 818350	₹ 42 ₹ 50000 ₹ 10000	₹ 106.37 ₹ 393.54	10637 43289		53926
73.	162/07-5-22 ₹ 437000	₹ 83 ₹ 40000 ₹ 10000	₹ 87.53 ₹ 506.67 ₹ 1184.76	5689 50667 130324		221372 5153.69

391

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3	15 वी दिनांक 10/01-6-22 रु 1822500	विद्युत् चार्जिंग सोलर से प्रोविडिंग सोलर से रु 1145 चार्जिंग सोलर का चार्जिंग को रु 1822500 कस्य.	17-1-22	12-4-22	85	ग्रन्थ	392510
4.	15 वी दिनांक 1690/ 23-10--22 रु 1195300	विद्युत् सोलर से प्रोविडिंग सोलर से रु 1145 चार्जिंग सोलर का चार्जिंग को रु 1195300 कस्य.	12-1-22	18-6-22	157	ग्रन्थ	292511
5.	15 वी दिनांक 1095/ 30-7-22 रु 260500	विद्युत् सोलर से प्रोविडिंग सोलर से रु 1145 चार्जिंग सोलर का चार्जिंग को रु 260500 कस्य.	31-12-21	11-7-22	192	ग्रन्थ	780077
6.	1690/ 22-10--22 रु 1195300	विद्युत् सोलर से प्रोविडिंग सोलर से रु 1145 चार्जिंग सोलर का चार्जिंग को रु 1195300 कस्य.	19-1-22	18-8-22	211	ग्रन्थ	392510
7.	1016/ 28-7-22 रु 743100	विद्युत् सोलर से प्रोविडिंग सोलर से रु 1145 चार्जिंग सोलर का चार्जिंग को रु 743100 कस्य.	12-1-22	15-9-22	184	ग्रन्थ	274780

-8889. 392

समय/दिना (आरंभ) मान-क के यसार, ० में स-वधि आरंभित.

नगर निगम नाजिमाबाद

सिमा (अवसा) के काजा में विद्यमान (अव) का अर्थक न वसूलन के काय (अर्थक) काजा का विवरण

क्रमांक	पिच/समाप्त/सं/दिनांक	काल	अवस्य भा के काजा में अर्थक काजा का विवरण	माय मुसोका के अर्थक काजा का विवरण	विलय का अर्थक	कारा भा अर्थक	काय का अर्थक	
1.	2.			4.	5.	6.	7.	8.
8.	15 वीं कि (अ) 1688/ 22-7-22 50/461900	काल	3. काल का अर्थक काजा का विवरण	12-01-22	01-9-22	232	—	10,04,82
9.	15 वीं कि (अ) 1699/ 22-10-22	काल	काल का अर्थक काजा का विवरण	17-1-22	01-9-22	227	—	490638

समरसिमा (अरुन्धा) साना - क के परार . में सनपानि धारिगए .

नगर निगम गाजियाबाद

सिमो (अरुसा) के कामी में विद्यमान अतोच इहा अरुपक न वसुलन के कारन अरुपक पानि का निवरण

क्रमांक	दिनांक/व्यय/सं/विभाग	कारन/स्व ठेकेदार का नाम	अनुवन्ध नाम/कार्यक्रम के अर्थ/अनुवन्ध नाम/कार्यक्रम के अर्थ/अनुवन्ध नाम/कार्यक्रम के अर्थ	माप/परिमित/कार/अनुवन्ध/कार/अनुवन्ध/कार/अनुवन्ध	विलम्ब/की/अनुवन्ध	कारण/गण/अनुवन्ध	कारण/गण/अनुवन्ध
1.				4.	6.	7.	8.
14.	2. 15 वीं विभाग/व्यय/सं/विभाग	3. कारन स्व ठेकेदार का नाम	अनुवन्ध नाम/कार्यक्रम के अर्थ/अनुवन्ध नाम/कार्यक्रम के अर्थ/अनुवन्ध नाम/कार्यक्रम के अर्थ	5.	6.	7.	8.
	1091/30-7-22/रु. 275900	वाड - 60 अनाक पाक मैन में ऑफिस/रु. 275900	18-1-22	10-6-22	143	-	309204
15.	14 वीं विभाग/ऑफिस/7-86/14-6-22/रु. 23700	क्र. 40 ऑफिस रिमलमान प्रा. लि. वाड - 12, धारामन विद्यालय पराम/दिनांक/कार/अनुवन्ध/कार/अनुवन्ध/कार/अनुवन्ध	29-1-22	09-5-22	100	-	39250

890
395

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
16.	533/ 22-12-22 250238350	3 9/5-63 4/6 21/10/1 20-02 ... 4/112 ... 2/22 405 1/12/11 2/112 ... 2/11 2/11 1/13-5 ... 2/3 2/3 2/3 2/3 2/9 ... 2/11 2/11 2/11 40 2/11 2/11	16-3-22	29-9-22	197	—	191548
17.	2250/ 31-3-23 25096350	3 9/5-63 4/6 21/10/1 20-02 ... 4/112 ... 2/22 405 1/12/11 2/112 ... 2/11 2/11 1/13-5 ... 2/3 2/3 2/3 2/3 2/9 ... 2/11 2/11 2/11 40 2/11 2/11	17-3-22	20-2-23	340	2500	149430
18.	853/ 18-6-22 250440700	3 9/5-63 4/6 21/10/1 20-02 ... 4/112 ... 2/22 405 1/12/11 2/112 ... 2/11 2/11 1/13-5 ... 2/3 2/3 2/3 2/3 2/9 ... 2/11 2/11 2/11 40 2/11 2/11	31-12-21	14-7-22	195	—	64750
19.	527/ 22-12-22 2501086350	3 9/5-63 4/6 21/10/1 20-02 ... 4/112 ... 2/22 405 1/12/11 2/112 ... 2/11 2/11 1/13-5 ... 2/3 2/3 2/3 2/3 2/9 ... 2/11 2/11 2/11 40 2/11 2/11	20-10-22	30-11-22	41	—	736561

संयोजक/का (अ/र/का) नाम - क के पुस्तक में सन्वयित्तिय विवरण

नाम निवास गाजियाबाद

सिमा (अ/र/का) के कामों में विद्यमान अन्वयित्तिय विवरण का विवरण

क्रमांक	दिनांक/व्यय/समाप्त/सं/दिनांक	कार्य स्वरूप के प्रकार का नाम	अनुवन्ध नाम/कार्यक्रम के अन्वयित्तिय/समाप्त/दिनांक	नाम/पुस्तिका के अन्वयित्तिय/कार्य/विवरण	विलम्ब का/अन्वयित्तिय	कार्य नाम/अन्वयित्तिय	कार्य/का/अन्वयित्तिय
1.	2. 14/1/19	3. यथार्थ विद्यमान विवरण/विवरण का	4. 16-1-22	5. 25-4-22	6. 99	7. 40489	8. 31920
20.	14/1/19 44/1/22 278700	यथार्थ विद्यमान विवरण/विवरण का विवरण का विवरण का	16-1-22	25-4-22	99	40489	31920
21.	14/1/19 124/1/22 2043/200	विवरण का/विवरण का विवरण का विवरण का	22-1-22	06-8-22	196	31920	31920

397

397

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
22.	537/ 22-12-22 रू 358100	पिस-70 टिकट का प्रमाणित प्रतिपत्र 418311/1 ए. डी. डी. के माध्यम से जारी किया गया है। पुनः जारी किया गया है। रू 358100 का प्रमाणित प्रतिपत्र जारी किया गया है। ए. डी. डी. के माध्यम से जारी किया गया है।	21-1-22	14-10-22	266	-	188033
23	536/ 22-12-22 रू 427400	पिस-83 टिकट का प्रमाणित प्रतिपत्र 418311/1 ए. डी. डी. के माध्यम से जारी किया गया है। पुनः जारी किया गया है। रू 427400 का प्रमाणित प्रतिपत्र जारी किया गया है। ए. डी. डी. के माध्यम से जारी किया गया है।	18-2-22	14-10-22	240	-	127481
24.	1129/ 31-7-22 रू 405500	पिस-22 टिकट का प्रमाणित प्रतिपत्र 418311/1 ए. डी. डी. के माध्यम से जारी किया गया है। पुनः जारी किया गया है। रू 405500 का प्रमाणित प्रतिपत्र जारी किया गया है। ए. डी. डी. के माध्यम से जारी किया गया है।	25-1-22	11-7-22	167	-	183854
25	622/ 31-12-22 रू 330700	पिस-70 टिकट का प्रमाणित प्रतिपत्र 418311/1 ए. डी. डी. के माध्यम से जारी किया गया है। पुनः जारी किया गया है। रू 330700 का प्रमाणित प्रतिपत्र जारी किया गया है। ए. डी. डी. के माध्यम से जारी किया गया है।	17-3-22	28-12-22	286	2600	247675

-893-

398

समर्थना (असहाय) मीमांसा - का के परमर . में सवर्णि धारिणिए .

चरि निवाम राजसिमावाड

सिमाओ (असहाय) के कामी में विवाक्य अवाच है। अर्पक न वस्येन के
कासो (अर्पक) मीमांसा का सिक्का

क्रमांक	दिनांक/सं. सिमाओ	कार्य स्व ठकेवर का नाम	अपवचय मीमांसा का सिक्का	साधु धारिणिका के अर्पक	विवाक्य का अर्पक	कार्य मीमांसा का अर्पक	कास का सं. / मीमांसा
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
26.	436/ 21-2-23 ₹ 1082.000	वस - 92 प्राथमिक विवाक्य अर्पक मीमांसा का प्राथमिक अर्पक का नाम का सिक्का का अर्पक	18-2-22	19-12-22	304	-	208351
27.	167/ 2-2-23 ₹ 3593.00	वस - 24 प्राथमिक विवाक्य अर्पक मीमांसा का प्राथमिक अर्पक का नाम का सिक्का का अर्पक	16-3-22	02-1-23	292	500	325604

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
28	1104/ 31-7-22 30899000	915-92- 2411111111 3111111111 30899000	18-02-22	19-12-22	304	-	170669
29.	181/ 2-2-23 50848800	915-24- 2411111111 3111111111 50848800	16-3-22	30-12-22	289	1500	151991
30.	2252/ 31-3-23 3055800	915-46- 2411111111 3111111111 3055800	16-3-22	26-12-22	205	1000	378871
31.	531/ 22-12-22 30191200	915-01- 2411111111 3111111111 30191200	2-01-22	03-8-22	470795	-	470795
32.	1070/ 30-7-22 301454400	915-92- 2411111111 3111111111 301454400	25-1-22	07-7-22	163	-	46287

- 895. (400)

समरसिनी (आरव्य) मीना - क के परभर . में सन्वर्षी धोरिभिट .

नविक निवास राजिमाबाद

सिमिठी (अणुसाग) के कामी में विद्यालय (अबोच) डी (अर्पक) न वसुधन के
 कारी (आपक) फोले का विवरण

कमांक	दिने/व्यय/प्रमाणक सं/दिनांक	कार्य एवं टिकेपर का नाम	अपवर्णन का प्रकार/कारण	साथ प्रतिक का प्रकार/कारण	विद्यमान का प्रकार/कारण	कार्य गत्या का प्रकार/कारण	काम का प्रकार/कारण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
33	632/ 21-12-22 रु 220000	वाड - 20 को परभर में पाथामिक विद्यालय के रंगारु - परभर, किचन विंगों डी (अ) विद्यालय डिप्टी (अ) विद्यालय, समरसिनी में 21/12/22, (अ) विद्यालय मरभर 22/12/22 का कार्य रु 220000	अपवर्णन का प्रकार/कारण अपवर्णन का प्रकार/कारण अपवर्णन का प्रकार/कारण अपवर्णन का प्रकार/कारण	साथ प्रतिक का प्रकार/कारण साथ प्रतिक का प्रकार/कारण साथ प्रतिक का प्रकार/कारण साथ प्रतिक का प्रकार/कारण	विद्यमान का प्रकार/कारण विद्यमान का प्रकार/कारण विद्यमान का प्रकार/कारण विद्यमान का प्रकार/कारण	कार्य गत्या का प्रकार/कारण कार्य गत्या का प्रकार/कारण कार्य गत्या का प्रकार/कारण कार्य गत्या का प्रकार/कारण	काम का प्रकार/कारण काम का प्रकार/कारण काम का प्रकार/कारण काम का प्रकार/कारण
34	618/ 21-12-22 रु 985500	वाड - 57 मरभर का विद्यालय में का कार्य रु 985500	अपवर्णन का प्रकार/कारण अपवर्णन का प्रकार/कारण अपवर्णन का प्रकार/कारण अपवर्णन का प्रकार/कारण	साथ प्रतिक का प्रकार/कारण साथ प्रतिक का प्रकार/कारण साथ प्रतिक का प्रकार/कारण साथ प्रतिक का प्रकार/कारण	विद्यमान का प्रकार/कारण विद्यमान का प्रकार/कारण विद्यमान का प्रकार/कारण विद्यमान का प्रकार/कारण	कार्य गत्या का प्रकार/कारण कार्य गत्या का प्रकार/कारण कार्य गत्या का प्रकार/कारण कार्य गत्या का प्रकार/कारण	काम का प्रकार/कारण काम का प्रकार/कारण काम का प्रकार/कारण काम का प्रकार/कारण

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
35	535/ 22-2-22 ₹ 452850	₹ 60 प्रमाण ५१०० व प्रत्यक्ष ५१८३१० व ₹ १५१५ प्रमाण १९-०५ व ₹ ५१०० प्रमाण २०-०५ व ₹ ५१०० प्रमाण २०-०५ व ₹ ५१०० प्रमाण २०-०५ व ₹ ५१०० प्रमाण २०-०५ व ₹ ५१०० प्रमाण २०-०५ व	18-03-22	36-8-22	167१३९६	₹ ५१००	131447
36	437/ 21-2-23 ₹ 56500	₹ ५०० प्रमाण २०-०५ व ₹ ५०० प्रमाण २०-०५ व ₹ ५०० प्रमाण २०-०५ व ₹ ५०० प्रमाण २०-०५ व ₹ ५०० प्रमाण २०-०५ व ₹ ५०० प्रमाण २०-०५ व ₹ ५०० प्रमाण २०-०५ व	24-3-22	08-7-22	10.6	₹ ५००	190820
37.	881/ 28-2-22 ₹ 1318400	₹ 42 प्रमाण १९-०५ व ₹ ५०० प्रमाण २०-०५ व ₹ ५०० प्रमाण २०-०५ व ₹ ५०० प्रमाण २०-०५ व ₹ ५०० प्रमाण २०-०५ व ₹ ५०० प्रमाण २०-०५ व ₹ ५०० प्रमाण २०-०५ व	21-1-22	26-12-22	339	₹ ५००	287821
38.	439/ 21-2-23 ₹ 113000	₹ ५०० प्रमाण २०-०५ व ₹ ५०० प्रमाण २०-०५ व ₹ ५०० प्रमाण २०-०५ व ₹ ५०० प्रमाण २०-०५ व ₹ ५०० प्रमाण २०-०५ व ₹ ५०० प्रमाण २०-०५ व ₹ ५०० प्रमाण २०-०५ व	30-3-22	12-12-22	257	₹ ५००	368512

समय रक्षा (असुर्या मारा-का) के प्रसार, में संपर्क-धारिता

नगर निगम राजेशभावाड

निर्माता (अप्रमाण) के कार्रवाई में विद्यमान अर्थात् न वसूलन के कारण (अधिक) जोन का विवरण

क्रमांक	प्लान/वर्क/प्रमाण/सं/दिनांक	कार्रवाई के प्रकार का नाम	अप्रमाण/कार्रवाई के/अप्रमाण/समाप्ति तिथि	साथ प्रतिकर के/कार्रवाई के/कार्रवाई के/कार्रवाई के	विद्यमान की/अर्थात्	कार्रवाई का/अर्थात्	कार्रवाई का/अर्थात्
1			4.	5.	6	7.	8
39.	14 वीं फ्लोर (आ) 923/1-2-22 253260	वाट-63 उ. सा. वि. से गार्ड-पार्किंग क्षेत्र में 24 वीं फ्लोर जोन 17 दिनांक 25.12.2016 को 17.6.17, 20 वीं फ्लोर जोन 25.12.2016 को कार्रवाई के प्रकार का नाम के लिए 17-3-22	17-3-22	10-12-22	268	5000	224119
40.	14 वीं फ्लोर (आ) 630/3M-22 46960	वाट-34 गार्डपार्किंग से गार्डपार्किंग क्षेत्र में 2 वीं फ्लोर जोन 21/12/2016 को कार्रवाई के प्रकार का नाम के लिए 06-3-22	06-3-22	30-10-22	238	5000	206638

1.	2.	3	4.	5	6	7	8
41	15 वी दिनांक 1035/24-6-22 रु 13387400	वॉर्ड - 80 निवासी वार्ड रु 02 चे कार्य ठेक वॉर्ड रु 150 वाटा वॉर्ड रु 1700 प्रतिष्ठे वॉर्ड रु 1000 रु 1000 रु 0 (उत्तमिती) रु 1000	23-4-22	11-7-22	797894	—	1857745
42	दिनांक 280/23-1-22 रु 4000000	वॉर्ड - 82 गणेश वार्ड रु 1000/वार्ड रु 1000 वॉर्ड रु 1000 वॉर्ड रु 1000 रु - 25 गणेश वॉर्ड रु 1000/वार्ड रु 1000 वॉर्ड रु रु 1000 वॉर्ड रु 1000 रु 0 निवासी वॉर्ड रु 1000	06-2-22	20-3-22	427894	—	134780
43	दिनांक 2078/21-3-22 रु 608500	वॉर्ड - 76 वार्ड रु 1000 - 3 रु 1000 वॉर्ड रु 1000 रु 1000 वॉर्ड रु 1000 वॉर्ड रु 1000 रु 1000 वॉर्ड रु 1000 वॉर्ड रु 1000 रु 1000 वॉर्ड रु 1000 वॉर्ड रु 1000 रु 1000 वॉर्ड रु 1000 वॉर्ड रु 1000	26-5-20	29-7-21	432 7994	—	139590
44	दिनांक 917/3-3-22 रु 434405	वॉर्ड - 76 वार्ड रु 1000 - 3 रु 1000 वॉर्ड रु 1000 रु 1000 वॉर्ड रु 1000 वॉर्ड रु 1000 रु 1000 वॉर्ड रु 1000 वॉर्ड रु 1000 रु 1000 वॉर्ड रु 1000 वॉर्ड रु 1000 रु 1000 वॉर्ड रु 1000 वॉर्ड रु 1000	14-2-19	08-9-2021	936	—	49600

समथर/शा (आरव्या) शाग-क के प्रसार . में संपर्कित - डोरियस्ट .

नगर निगम राजजमावाड

सिमा (अप्रसा) के कामों में विलोकित अथवा है अपेक्ष न वसूलन के

कारण (अधिक) फौज का विवरण

क्रमांक	दिनांक/व्यय प्रमाणिका सं./दिनांक	कारण एवं ठेकेदार का नाम	अप्रसा/शा का नाम/दिनांक	अप्रसा/शा के कामों के विवरण	माप प्रमाणिका के अथवा का/प्रमाणिका का विवरण	विलोकन की अथवा अथवा	कारण शा/अप्रसा	क्रमांक	
1.	2.	3.			4.	5.	6.	7.	8.
45	सिमा/सिमा 1142 31-3-23 रु 936855	वर्ड-35 संपर्कित प्रकरण में प्रथम से प्रमाणिका का दर 11 का साक्षी व प्र-22 साक्षी अथवा का प्रमाणिका का रु 2197 का रु.	अप्रसा/शा का नाम/दिनांक	अप्रसा/शा के कामों के विवरण	माप प्रमाणिका के अथवा का/प्रमाणिका का विवरण	विलोकन की अथवा अथवा	कारण शा/अप्रसा	1000	128872
46	1233/ 31-3-23 रु 56250	वर्ड-29 प्रमाणिका विवरण का रु में मि. प्रमाणिका का साक्षी व प्रमाणिका का रु 2188 का रु. का रु. प्रमाणिका का रु. प्रमाणिका का रु.	अप्रसा/शा का नाम/दिनांक	अप्रसा/शा के कामों के विवरण	माप प्रमाणिका के अथवा का/प्रमाणिका का विवरण	विलोकन की अथवा अथवा	कारण शा/अप्रसा	1000	42140

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
47	34/ 01-3-23 ₹ 47650	ॐ श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः	23-2-18	30-3-18	35794	—	55633
48	919/ 31-3-23 ₹ 96350	श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः	09-7-19	24-10-19	107194	—	49750
49	47/ 01-3-23	श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः	19-4-21	08-11-21	203194	500	127080
50	914/ 31-3-22 ₹ 88000	श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः	14-10-19	20-2-21	494 1994	2500	178300

901 (406)

समर्थना (आरम्भ) मना - क के प्रसार में संपर्क करिगए

नगर निगम बाजिमवाड

निर्माण (अप्रमानी) के कामों में विद्यार्थ (अन्य) द्वारा अपेक्षा न वसूलन के कारण (आर्थिक) फाट का निवृत्त

क्रमांक	दिनांक/व्यय/प्रमाण सं./दिनांक	कार्य एवं ठेकेदार का नाम	अप्रमानीय भाग कापटिंग के अपेक्षा समाप्त होने के कारण	साथ प्रतिक्रिया के लिए अपेक्षा कापटिंग के कारण	विलम्ब का अनुमान	कार्य का अनुमान	काम का अनुमान
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
51	22/19/31-3-23	वर्क-25 (सुपेडकर) नगर प्रहरी क्षेत्र का में प्रहरीय यंत्र के वपक वार्ड 76 के प्रमुख कार्यालय व नाली निर्माण का काम को प्रारंभ करने का काम	29-9-20	23-11-21	420	15000	238/50
52	17/31/31-3-23 रु 1200000	वर्क-76 (नाली) को 3 रु से मकान नगर-3 रु/148 से मकान नं-3 रु/48/1 रु का निर्माण करके का प्रमुख व नाली प्रहरी का प्रहरी का प्रमुख व नाली प्रहरी का प्रमुख का काम को प्रारंभ करने का काम	26-5-20	05-8-21	436	20000	218870

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
53	2087/ 31-3-23 ₹ 169600	गई-85 कोस/447 गार्ड से गई कटवाणे व गई 160 कोस कोस/417 कोस कोस/417 कोस ₹ 169600 कोस/417 कोस/417 कोस ₹ 169600 कोस/417 कोस/417 कोस	25-3-20	25-10-21	579	1000	19765
54	1766/ 31-3-23 ₹ 1188600	गई-72 कोस/417 कोस/417 कोस/417 कोस ₹ 1188600 कोस/417 कोस/417 कोस ₹ 1188600 कोस/417 कोस/417 कोस	26-9-19	24-9-21	728	5000	158000
55	2095/ 31-3-23 ₹ 1102300	गई-64 कोस/417 कोस/417 कोस/417 कोस ₹ 1102300 कोस/417 कोस/417 कोस ₹ 1102300 कोस/417 कोस/417 कोस	18-3-22	29-4-22	42	-	151820
56	2094/ 31-3-23 ₹ 1221500	गई-37 कोस/417 कोस/417 कोस/417 कोस ₹ 1221500 कोस/417 कोस/417 कोस ₹ 1221500 कोस/417 कोस/417 कोस	20-1-22	15-2-22	26	-	135981
57	2093/ 31-3-23 ₹ 2031200	गई-66 कोस/417 कोस/417 कोस/417 कोस ₹ 2031200 कोस/417 कोस/417 कोस ₹ 2031200 कोस/417 कोस/417 कोस	16-01-22	21-4-22	95	1000	251523

समय रोजी (आरंभ) मना - का के प्रसार . ० नें संपादन करीये.

नाम विनाम नालिमावात

निमाणी (अनुमान) के कामा में विद्यमान अथवा ही अर्थक न प्रयत्न के
कायदा (आर्थिक) पानि का निवृत्ती

क्रमांक	दिनांक	कारण	अप्रत्याभवा का कारण	आपत्तिका कारण	विद्यमान का कारण	कारण	कारण	कारण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
58	1024/ 31-3-23 रु 28200	कारण - 34 टाइमिंग प्रथम से 4900 कारण - 34 टाइमिंग प्रथम से 4900 कारण - 34 टाइमिंग प्रथम से 4900 कारण - 34 टाइमिंग प्रथम से 4900	16-1-22	30-1-22	14 994	-	76720	
59	2168/ 31-3-23 रु 211700	कारण - 38 अर्थक के अर्थक अर्थक कारण - 38 अर्थक के अर्थक अर्थक कारण - 38 अर्थक के अर्थक अर्थक कारण - 38 अर्थक के अर्थक अर्थक	20-7-22	20-1-23	184 994	-	296693	

404

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
60	2169/ 31-3-23 ₹ 2063000	3 बि. 28 राजीव गांधी कानून ₹ 33/16 के अंतर्गत ₹ 33 ₹ 209 ₹ 209 ₹ 209 ₹ 209	20-7-22	30-1-23	194 7994	—	299310
61	2053/ 31-3-23 ₹ 1398300	बि. 63 के अंतर्गत ₹ 1398300 ₹ 1398300 ₹ 1398300	11-12-22	31-12-23	20 7994	—	149584
62	641/ 31-12-22 ₹ 4782800	बि. 74 के अंतर्गत ₹ 4782800 ₹ 4782800 ₹ 4782800	20-4-22	16-12-22	240 7994	—	1811000
63	528/ 22-12-22 ₹ 508900	बि. 04 के अंतर्गत ₹ 508900 ₹ 508900 ₹ 508900	29-3-22	30-10-22	215 7994	1,00,000	979600

709 412
 के कामों में विलम्ब अथवा अथवा न वसूल के

विभाग (अथवा) के कामों में विलम्ब अथवा अथवा न वसूल के
 कारण (अथवा) कामों का विवरण

क्रमांक	दिनांक	कारण	विवरण	4	5	6	7	8
72	902/1 31-3-23 2019800	कारण	3 कोई-53, रसियरम में सोबान सिंह से वकील सिंह कामरम में (इंटरलॉकिंग) इन्टरलॉकिंग न नाली सिमाना को (अथवा) रसिया	06-9-21	18-01-22	134	1000	39739
73	2184/1 31-3-23 202966200	कारण	3 कोई-47, मीटर रसियरम में को-06 से सीमा को (अथवा) रसिया को (अथवा) रसिया	14-12-22	30-12-22	16	-	216963
74	2184/1 31-3-23 204168100	कारण	3 कोई-91, कोल नाली को. को-01 से सीमा को (अथवा) रसिया को (अथवा) रसिया	05-1-22	04-04-22	89	2000	208851

908
413

1	2	3	4	5	6	7	8
75	1010/6 31-3-23 ₹143560	9/15-67 2/15/4/17 31/3-23 ₹143560	28-8-21	29-11-21	93 1994	2560	74749
76	888/ 31-3-23 ₹583900	9/15-43 2/15/4/17 31/3-23 ₹583900	26-9-21	21-12-21	86 1994	2650	61408
77	2096/ 31-3-23 ₹2064900	9/15-64 2/15/4/17 31/3-23 ₹2064900	31-10-21	29-6-22	241 1994	—	263280
78	1246/ 31-3-23 ₹1,00,000	9/15-78 2/15/4/17 31/3-23 ₹1,00,000	10-9-21	30-8-22	354 1994	—	292203
79	1042/ 27-6-22 ₹1968500	9/15-85 2/15/4/17 27/6-22 ₹1968500	12-1-22	11-7-22	180	—	2479158

909 (41A) अनुसूचित जातों के विद्यार्थियों के अर्थहान प्रशिक्षण के
निर्माण के कामों में विलम्ब अथवा अयोग्यता के
कारणों के कारणों का विवरण
आयुक्त कार्यालय का विवरण

क्र.सं.	दिनांक	कार्य	कार्य का नाम	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य समाप्त की तिथि	दिनांक	कार्य का नाम	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य समाप्त की तिथि
1	2	3	कार्य प्रारंभ के लिए कार्य का नाम	4	5	6	7	8	
80	626/ 31-12-22 रु 891800	3 वॉल-93 के लिए बजट अनुमति प्राप्त करने के लिए 17 अंकों में 11 अंकों के लिए मकान/अंतरा मकानों के लिए का निर्माण कार्य एन एलएल कार्यालय गिरडी में अफिस के परिसर में मकानों का निर्माण कार्य डिप्टी व डायरियम वॉल डीप्टी व डायरियम का निर्माण कार्य एन एलएल 1100 अंतरा मकानों के निर्माण कार्य कार्य प्रारंभ के लिए कार्य का नाम कार्य प्रारंभ के लिए कार्य का नाम	कार्य प्रारंभ के लिए कार्य का नाम	08-01-22	09-12-22	12.3	—	947381	
81	620/ 31-12-22 रु 624100	3 कार्य प्रारंभ के लिए कार्य का नाम	कार्य प्रारंभ के लिए कार्य का नाम	10-02-22	27-10-22	259	2600	750602	
82	1024/ 26-5-22 रु 14733000	3 कार्य प्रारंभ के लिए कार्य का नाम	कार्य प्रारंभ के लिए कार्य का नाम	19-12-21	06-3-23	442	5000	7037935	

910 (415)

1	2	3	4	5	6	7	8
815	553/ 22-12-22 20 360850	S-66 20-3-23 20 911650	22-12-21	01-12-22	344	—	919550
814	265/ 20-3-23 20 911650	S-86 20-3-23 20 911650	16-4-22	21-3-23	339	7050	1091850
813	162/ 07-5-22 20 437500	S-83 07-5-22 20 437500	18-11-20	30-12-21	407	10500	1490500

2100 = 408,10855

911 (416) से सफाई के प्रसार '3' से सफाई के प्रसार - '11'

नगर निगम वाइटीआर

निर्माण विभाग के विभाग में 1% शोपिंग लोकर से डाई जॉब के कारवा
 (उनिमेसिम) मुगलान का विवरण

क्रमांक	मिति / व्यय प्रमाणक सं.	कार्य / टिकेदार / कार्य का नाम	किलमी	किलमी
1	2. 15 वॉ बिंडिंग 1095/307-22 रु 260500	3. वाड - 6.2 वाइटीआर में डाई नं. - 3 का ड्रॉइंग सफाई कार्य मुगलान	4. 5198 B06	5. 57988
2.	15 वॉ बिंडिंग 792/305-22 रु 1779400	वाड - 42, लास क्लॉ कनेक्शन में सी राम लुक्कलेश में संजय चौधरी के नाम से रु 1779400 मुगलान का कार्य श्री अरुण जी विंडरक	5123803	51238
3.	1097/ 307-22 रु 1244600	मुगलान का कार्य से मुगलान से मुगलान के शोपिंग लोकर वाड - 11 का कार्य श्री अरुण जी विंडरक का कार्य मुगलान का कार्य	11647203	116472

913- (418)

संयुक्त प्रशासन विभाग, दिल्ली, भारत के प्रधान मंत्री कार्यालय

संयुक्त प्रशासन विभाग, दिल्ली

निर्माण विभाग के विभाग में 1% आगारिका लोकर से जोड़ जोड़ के कारवा
 (अनिश्चित) सुगान का विवरण

क्रमांक	दिनांक / व्यय प्रमाणक सं.	कार्य का नाम	किलोमीटर	विवरण
1	2.		4.	
10	1017/ 31-3-23 रु० 283700	वार्ड-61 का 4 नंबर का क्षेत्र में सुगान का 1% जोड़ के कारवा आगारिका लोकर से जोड़ जोड़ के कारवा (अनिश्चित) सुगान का विवरण	487894	विवरण 1017/31-3-23 रु० 283700
11.	528/ 22-12-22 रु० 508950	वार्ड-04 का 14 नंबर का क्षेत्र में सुगान का 1% जोड़ के कारवा आगारिका लोकर से जोड़ जोड़ के कारवा (अनिश्चित) सुगान का विवरण	5516357	विवरण 528/22-12-22 रु० 508950
12.	2082/ 31-3-23 रु० 822160	वार्ड-95 का 2 नंबर का क्षेत्र में सुगान का 1% जोड़ के कारवा आगारिका लोकर से जोड़ जोड़ के कारवा (अनिश्चित) सुगान का विवरण	733962	विवरण 2082/31-3-23 रु० 822160

- 917 (422)

समय/दिना (आस्था) मांग का के प्रकार, में संपूर्ण पारमिटर

नगर निगम वाडिमावाड

निर्माण विभाग के विभाग में 1% आगारिका लोवर सेकंड जॉन के कारका

अग्निमिति सुगाणन का विवरण

क्रमांक	सिद्धि / व्यय प्रमाणक सं.	कार्य / टिकेदार / कार्य का नाम	विलु की	विलु की
1	25	3.	4-	5-
26	1912/22-10-22 ₹ 23,44,500	वार्ड-24 शेकर विहार / वृद्धा विहार की आर्चिसि संसु व नाली निर्माण। क्र० आर्चिसि कंसं०	14309011	143090
28	1698/22-10-22 ₹ 1,79,700	वार्ड-73 शालिमार गडिन एम्स-2 शिव पीठ में शक्ति मठर मुख्य नाली लठ अनेकपुत्री नाली का आर-डी.सी. ड्राइ निर्माण। क्र० प्रधान कार्ड-01	82.33087	82.371
30	1025/26.5.22 ₹ 37,61,900	वार्ड-18 रानपुर में रजप्रेस रेजसी चक से रजपुर पर्यन्त ओवरकड नाला निर्माण। क्र० आर.पी. बिचरकड इन्जी. सिंग	1.01.88 847	101.886 101.886
			200-	1041,613/-


1

2

3

4

5



0.18

- 919- (423) 400 में सरकारी धारिता - 12

सुपरग्राउण्ड साग क के प्रकार - ' 4 ' में

नगर विभाग साहित्यिका

विभिन्न विभाग में विभिन्न कामों में इंटरलॉकिंग टाइम्स का एव से बिना पर्यटकों कायदे सुधारण का विवरण

क्रमांक	व्यय प्रमाणिक सं. दिनांक	कार्य / टिकट का नाम	इंटर लॉकिंग का कार्यालय	इंटर लॉकिंग का कार्यालय
1.	2.	3	4	5
1.	631/ 31-12-22 रु० 253260	वाइ - 63 30 सां कि से रंगारू - युवा संघ के टाइम्स प्रकाशन इसमें दिव्यांगिता और शौचालय, किचन, सुपरमार्केट, वाइ 63/31-12-22 युवा संघ से बाकी से रंगारू 1171 शौचालयों का पर्यटकों का कार्यालय	291.977	216894
2.	630/ 31-12-22 रु० 46900	वाइ - 34 वाइ 63/31-12-22 से अर्द्धवर्ष धारिता सं. 2 में इसमें दिव्यांगिता और शौचालय, टाइम्स, टिकट, सुपरमार्केट, रंगारू - युवा संघ के टाइम्स, टिकट, सुपरमार्केट का कार्यालय वाइ 63/31-12-22 से अर्द्धवर्ष धारिता सं. 2 में	121.81	87703

दिनांक 10/11/22
कर्मचारी का नाम
रंगारू

426

922

1	2	3	4	5
9.	2168/ 31-3-23 30 21190	31-38 419 21825 31-3-28 33/16 33/16 30 206350	31-38 31-3-23 30 21190	437.36 3,80,503
10.	2169/ 31-3-23 30 206350	31-25 31-3-23 30 206350	164.15	118188
11.	1231/ 31-3-23 30 75150	31-50 31-3-23 30 75150	181.71	130111.20

- 929 - (427)

सुपरग्राइडिंग मशीन का के प्रसार - के से सुपरग्राइडिंग यंत्रविभाग

नगर विभाग सांख्यिकी विभाग

विभाग विभाग से विभिन्न कार्यों में इंटरलॉकिंग टाइटल का लेव से किता परकी

कार्य सुधार का विवरण

क्रमांक	व्यय विवरण सं. दिनांक	कर्मचारी का नाम	4	5
1.	2.	3	4	5
13.	902/ 31-3-23 रु 19800	वाड-53 सुपरग्राइडिंग मशीन का प्रसार इंटरलॉकिंग टाइटल व नाली निर्माण का कार्य का सुधार	192.00	151680
14.	2181/ 31-3-23 रु 1222200	वाड-56 सुपरग्राइडिंग मशीन का प्रसार रु 72 रु से रु 79 तक सुधार का कार्य	127.97	124538
15.	2183/ 31-3-23 रु 1871400	वाड-71 सुपरग्राइडिंग मशीन का प्रसार रु 100 रु से रु 105 तक सुधार का कार्य	384.06	299566

916
430

1	2	3	4	5	6	7
8.	5-31/ 22-12-22 ₹ 191250	विद्युत् चार्ज प्रिण्ट का प्रोवाइजर का SS/एस का प्रोवाइजर का को प्रोवाइजर का	98.19	9.82	2048	20111
4.	280/ 23-11-22 ₹ 4,50,000	पिस-82 प्रोवाइडर का प्रोवाइजर का प्रोवाइजर का प्रोवाइजर का प्रोवाइजर का प्रोवाइजर का प्रोवाइजर का प्रोवाइजर का प्रोवाइजर का प्रोवाइजर का	62.21	6.22	2189	13615
5.	1217/ 8-3-23 ₹ 143450	पिस-97 का प्रोवाइडर का प्रोवाइजर का प्रोवाइजर का प्रोवाइजर का प्रोवाइजर का प्रोवाइजर का प्रोवाइजर का प्रोवाइजर का प्रोवाइजर का प्रोवाइजर का	129.20	12.92	2048	26462
6.	34/ 01-3-23 ₹ 47650	विद्युत् चार्ज प्रिण्ट का प्रोवाइजर का प्रोवाइजर का प्रोवाइजर का प्रोवाइजर का प्रोवाइजर का प्रोवाइजर का प्रोवाइजर का प्रोवाइजर का प्रोवाइजर का	68.52	6.85	2042.10	13988

409: (431)

सुमधर/ग/11 डारका जग-क के पुस्तक - , में संशोधन विवरण

चार सिगम गाडिभाकाड

सिमांत विभाग में विहित काज में 10% बीअस न कार्ट जाते के कारका डे डे आधिक

घोष का विवरण

क्रमांक	व्यय पुस्तक सं.	काम विवरण का नाम	विवरण के अनुसार की मात्रा	10% बीअस की मात्रा	र	10% बीअस की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
7.	1118/ 31-3-23 50/1055300	वाड-78 आल/भार गानन सुबस-1 के संके वाटिका घाब के पास डोट नं. - 407 वाली सुबं डिन सुपारवाय केस वाली सुबं पर वाली का पुरवासी डेड जेड. वांमिन डीअस का मं प्रीफेक सुबं वाड-72 काली लानर नं. - 180 से गो डर सो वाट नं. 8 के डीर सं सं सं डारका सुबं सिमांत का मं डारका सिमांत	76.07	7.60	20.89	15876
8	1766/ 31-3-23 50/1188600		97.30	9.73	20.24	19693

-929- (433)

समयपूर्वक उपस्थितियों का केंद्र पर्यटन - 1 से संबंधित विवरण

चार सिद्धांत वाणिज्यिक

सिद्धांत विभाग में विभिन्न कार्यों में 10% वास्तविक नकार को ध्यान में रखकर (आपूर्ति) योग्यता का विवरण

क्र.सं.	व्य.सं.	व्य.सं.	व्य.सं.	व्य.सं.	व्य.सं.	व्य.सं.
1	2	3	4	5	6	7
13.	2184/31-3-23 रु/196.200	व्य.सं. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	127.96	12.80	2189	28,019
14.	2181/31-3-23 रु/122.200	व्य.सं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	215.89	21.58	2048	44196

931-435

सुपरीम कोर्ट ऑफ इंडिया का न्यायाधीश 14

नगर निगम राजस्थान

विशेष विभाग से विभिन्न कामों के सिद्धि के कार्य पर 12.5% सुविधाएं
 वाइस चार्टर जोब के कारण हुई आर्थिक क्षति का निपटारा

क्रमांक	वर्ग	वर्ग संख्या	कार्य / कार्य / टैकेयर का नाम	सिद्धि के कारण	12.5% सुविधाएं	12.5% सुविधाएं
1	2	3	कार्य / कार्य / टैकेयर का नाम	सिद्धि के कारण <td>12.5% सुविधाएं</td> <td>12.5% सुविधाएं</td>	12.5% सुविधाएं	12.5% सुविधाएं
1.	1041/ 28-7-22 50 49900	3	वाइ 90 लक्ष. कलान्ध. मालिक से सुविधाएं कोई टैकेयर जोब का सड़क निर्माण का कार्य श. मालिक कलान्ध	सिद्धि के कारण	12.5% सुविधाएं	12.5% सुविधाएं
2.	1685/ 22-10-22 50 2030600		वाइ-75 लक्षगत नगर से कार्य कलान्ध. कार्य सुविधाएं वर्ग कलान्ध टैकेयर से कलान्ध कार्य सुविधाएं मालिक से नाली व टैकेयर का कार्य सुविधाएं वाइ 100 लक्ष का सुविधाएं कार्य श. मालिक कलान्ध	सिद्धि के कारण	12.5% सुविधाएं	12.5% सुविधाएं
3	531/22-12-22 50 191200		श. मालिक कलान्ध विशेष नगर जोब से सुविधाएं कार्य सुविधाएं वाइ 100 लक्ष का सुविधाएं कार्य सुविधाएं	सिद्धि के कारण	12.5% सुविधाएं	12.5% सुविधाएं

9925
436

1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	
632/	31-12-22	632/31-12-22 कास-22 50886. को 965550	98.64	12.33	257	3169
5	618/31-12-22 को 965550	618/31-12-22 को 965550	349.34	43.66	307	13404
6	923/31-12-22 को 253200	923/31-12-22 को 253200	197.94	24.74	257	6358
7	799/13-5-22 को 1874200	799/13-5-22 को 1874200	804.93	100.61	307	30887
8	1140/31-7-22 को 500400	1140/31-7-22 को 500400	1851.88	231.48	307	71064

सुधकर/का/ आरंभ नाम = क के प्रकार - से सुधारण धारण

नगर निगम गाडिभावा

निर्माण विभाग से विहित काम से सिट्टी के काम पर 12.5% एडिलमेट
 एडिलमेट न कोट जोड के कारण ई ई अधिक धाम का विवरण

क्रमांक	वर्ग प्रमाण सं	काम / कार्य / टेंकणर का नाम	सिट्टी के कारण/कारण	12.5% एडिलमेट का सामा	12.5% एडिलमेट का सामा	12.5% एडिलमेट का सामा
1	2	3	4	5	6	
9.	280/ 23-11-22 रु 4,00,000	वाड-82 अवाटर पाके अडि/नगर से रु-बलाक का वाकर रणो से अयलम रु-25 अमिठा से अवा माल्टिग मक नाली व अडिलस का काम शुभ भिना कनसु के वाड-66 मीरम बिजर से कसोला पट्टी से अडिलस मोडि से नरम अडिलस मरणा माल्टिग से अडिलस माल्टिग वाली गली में अडिलस का काम शुभ मोडि/वाकर	421.02	52.62	307	16154
10.	2093/ 31-3-23 रु 2031200	वाड-38 अडिलस के अडिलस अडिलस का काम वाड-15 का अडिलस अडिलस का काम रु 21190	560.72	70.09	270.10	18931
11.	2168/ 31-3-23 रु 21190	वाड-38 अडिलस के अडिलस अडिलस का काम वाड-15 का अडिलस अडिलस का काम रु 21190	497.26	62.16	320	19891

438

1	2	3	4	5	6
12	930/ 31-3-23 279207	<p>Handwritten notes in Odia script, including dates and names.</p>	364.35	45.54 270	12296 <u>360451/2</u>

439

-935

सम्पत्तियां आख्या भाग 'क' के प्रसर - 7' में संशुद्धि
12% के ध्यान पर 10% जीएसटी का भुगतान का विवरण

परिवर्द्ध - '15'

क्र० कार्य का विवरण एवं कार्य का भाग	कार्य की समाप्ति तिथि		धुत्तक से भुत्तलन	=
	भुत्तलन तिथि	कार्य के अन्तुसार		
1 विज्ञान-नगर जेन में व्ययोजित विद्यालय स्तलप विधर का सिर्णोदिधर कार्य। अपु डी के एरु ड-प्रकाउ डू डरु लिले	21.2.23	16.03.21	08.7.22	6.7.20 = 0
2 सेरुण योजन-नरुत कर्सि-63 परसोडो में डरुय सवकसिक विद्यालय में डुररु, फरुश टरुल्लस, शोचलन रवकरसेकिल आदि कार्य। अपु डरुनि कन्स डुरुक्कडन।	31.12.22	16.03.21	20.3.22	16,075 = 0
3 सेरुण योजन-नरुत कर्सि-34 अदीड-नरु में डुररुकि 02 में डुररु, टरुल्लस, शोचलन आदि कार्य। अपु डरुनि कन्स डुरुक्कडन।	31.12.22	05.03.22	29.6.22	2,779 = 0
4 सेरुण योजन-नरुत कर्सि-20 अौरु में डुररुकि में डुररु, क्तिपन, शोचलन, ररुल्लस आदि कार्य। अपु डरुनि कन्स डुरुक्कडन।	31.12.22	21.01.22	10.7.22	11,947 = 0
5 आरुडन कषकल में कर्सि-24 व्ययोजित सि अरुली व अपु कि अरुली-2 में सवकसिक। अपु एरुड के डिलरुसी।	31.2.23	16.03.22	30.12.22	18,939 = 0

6. वॉरि-92 धांकि डल्लगनगर का शैतिक उन्नयन कर्नी। शं आदिआकसं०।
 31.2.22 17.3.22 19.12.22 1.01.730 - 67.820 = 33910 = 0

7. विद्यनगर जीन धांकि आंशंशिरा का विधीकरण कर्नी। शं डींके एका डल्लगन।
 31.12.22 17.3.22 17.3.22 52999 - 35.333 = 17.666 = 0

8. वॉरि-92 धांकि डल्लगन, का शैतिक उन्नयन कर्नी। शं शैतिक संसं०।
 31.2.22 17.3.22 19.12.22 1.37.629 - 101393 = 36236 = 0

9. वॉरि-19 धांकि विद्यनगर शं विधीकरण। शं आनन।
 31.11.23 17.2.22 14.7.22 5.202 - 3468 = 1734 = 0

10. विधीकरण शैतिक वॉरि-63 परसं०। शं आनन।
 31.12.22 16.3.22 14.10.22 40097 - 26732 = 13365 = 0

11. वॉरि-01 लल्लगन कर्नी। शं विधीकरण। शं आनन।
 31.12.22 31.1.22 06.8.22 14401 - 14401 = 0
 शं आनन। शं आनन। शं आनन।

-937- (44)

12 प्रेरणा योजनाअन्तर्गत वार्ड-70 (जम्बुडी) एम एम में कुल्दि, टर्लिफ, श्रीपाल्य भरमरवा श्री इशनि कसेवा

22.12.22 21.01.22 14.10.22 274,445 - 201,465 = 72,980 = 0

13 प्रेरणा योजनाअन्तर्गत वार्ड-83 अणसमजार एमएम इन्डोवालोदी जगदि में कुल्दि, टर्लिफ व श्रीपाल्य भरमरवा का श्री इशनि कसेवा

22.12.22 16.02.22 30.9.22 68,094 - 45,396 = 22,698 = 0

14 वार्ड-60 अणसमजार नजार निजाम वारिका विद्यालय में टर्लिफ व कुल्दी का बोखवादी श्री डीके एम डेवरा जगदि

07.6.23 4.3.22 28.3.23 64302 - 42,868 = 21,434 = 0

15 आरिशा अणसमजार के अन्तर्गत वार्ड-46 आरिशा निजाम कुल्दी का सुदुदीकरा का श्री इशनि कसेवा

31.3.23 16.3.22 16.12.22 1,36,165 - 1,17,443 = 58,722 = 0

16 आरिशा अणसमजार के अन्तर्गत वार्ड-60 अणसमजार नजार निजाम वारिका विद्यालय अणसमजार कुल्दी, अणसमजार का श्री इशनि कसेवा

7.6.23 17.4.22 28.3.23 2,72,341 - 1,81,561 = 90,780 = 0

998
442

12 शैरठा दीपनान्तर्गत वरि-69 शुभमन्त्रि में मा० ए० में सुनारि, श्रीपालन विपिन सुनिधि, श्रीपालन विपिन सुनिधि वरिपालन कर्त।
श्री सुनि, कर्से०।

18 आदिशान गणकाल ३ अन्तरि वरि-५२ सुनिधि
गाल सुनि का सुदीकरण। श्री सुनि कर्से०।

19 शैरठा दीपनान्तर्गत वरि-63 पसेका सुनिधि नं-1
में सुनि, विप, श्रीपालन वरिपालन आदि। श्री सुनि कर्से०।

20 विपिनान्तर्गत वरि में शान दीपन सुनिधि श्री सुनि
आदिशान सुनि की वरि-३२ अन्तरि वरिपालन अन्तरि।
श्री सुनि कर्से०।

श्री वरि-57 मन्तरु वरिपालन विपिनान्तर्गत में वरि
वरि वरि वरिपालन। श्री सुनि कर्से०।

22 आदिशान गणकाल ३ अन्तरि वरि-24 सुनिधि
विपिनान्तर्गत का सुदीकरण। श्री सुनि कर्से०।

23 आदिशान गणकाल ३ वरि-५६ सुनिधि सुनिधि
का सुदीकरण। श्री सुनि कर्से०।

28.12.22 16.3.22 14.10.22 72129 - 48086 = 24,043 =

31.02.23 17.01.22 26.12.22 1,39,394 - 92,929 = 46,465 =

31.03.23 16.3.22 20.2.23 16651 - 11,101 = 5,550 =

21.2.23 23.3.22 12.12.22 9000 - 6000 = 3,000 =

31.12.22 16.4.22 01.9.22 154312 - 1,02,875 = 51,437 =

01.2.23 16.3.21 30.12.22 1,02,536 - 68,357 = 34,179 =

2.6.23 16.3.21 16.7.22 4,500 - 3000 = 1,500 =

84	आपरेशन कापाकाय अन्तरि वॉ-16 हासति अदी ठुल्लपर का सुद्वीकरण। अं यो चरी स्तो	7.6.23	31.01.22	16.7.22	4500 - 3000 = 1500 = 0
85	आपरेशन कापाकाय अन्तरि वॉ-46 कापोजि विग लोस्टि विहार का सुद्वीकरण। अं यो चरी स्तो	7.6.23	31.01.22	25.3.22	21960 - 14640 = 7320 = 0
86	वॉ-92 कापर निगम बालिका कालिज ठुला अद्या का पुनः विनि। अं अं अं अं अं अं अं	31.12.22	6.5.22	23.12.22	55115 - 36,743 = 18,372 = 0
87	विपमन्तर जेम कापोजि विद्यालय इंडीया का जीर्णोद्धार। अं शाकुम्बी कर्म	22.12.22	31.01.22	3.6.22	30,465 - 20,310 = 10,155 = 0
88	अन्विह-नार अं अं अं अं अं अं अं अं अं पम्बर तः शरि अन्तर एड अं अं अं अं अं अं अं अं अं अं अं अं अं	22.10.22	19.12.21	7.9.22	1,04,991 - 69,994 = 34,997 = 0
89	आवास विकास अन्तर एड अं अं अं अं योड हीरे एड नर अन्वि अं अं अं अं अं अं अं अं अं अं अं अं अं अं अं अं अं	22.12.22	17.01.22	01.08.22	2,28,050 - 1,52,039 = 76,019 = 0

25 वरि-92 महात्मा जे विषय के आय-आय
 2 रूपसे पहिले की और तबे वरि-नाले के
 अवशेष भाग का क्रिया। अर्थात् 1000

31.12.22 22.12.21 16.12.21 3-2643 - 108 964 = 36,321 = 00

26 वरि-51 बीएच (एस.बी. स्कूल से प्रोफेसर
 पीरटे एव (नाले का अवशेष भाग) आला क्रिया।
 अं 30 अर्थात् 1000

12.06.23 16.4.22 23.3.23 605935 - 908,902 = 302,967 = 10

27 वरि-15 परत सिं. वालिनी अं 310 अर्थात् 300
 25 तक-माड के दोनो तरफ साइडवाडी टर्निसव
 सीनरिजेशन। अं 10 एक कंठे

21.6.23 6.2.22 10.10.22 185043 - 277,565 = 92,522 = 00

38 वरि-66 सीसम विहार विवभक्ति से एरजेस की
 बाउन्डी के साथ कठिनायत अर्-ली-ली-बाल क्रिया।
 अं 10 विषय कस कंठे 1

19.6.23 6.5.22 25.3.23 1155987 - 7,70,650 = 385,329 = 00

39 वरि-24 ए.पी.15 वसुंधरा टरप-1 एव सुपुलिस
 सेसापी की आसक्ति संज्ञा का प्रस एव पुंवार।
 अं 10 अर्थात् 1000

31.12.22 16.4.22 16.12.22 762,377 - 5,08,251 = 254,126 = 00

40 वरि-04 वा.पु अं पपु की दुकान से प्रो ए.पी. एव
 वं प्रो ए.पी. स्कूल एव अर्-ली-ली-बाल।
 अं 10 अर्थात् 1000

22.12.22 24.11.22 24.11.22 98,960 - 65,978 = 32,990 = 00

940
446

41. वॉर्ड 64 अरिया अरिय में उमर अस्मिन् से
श्यामशास खूबल लब, इजर्कड, रियाय रं
रिजवाल वाली अस्मिन् में इस्तरलबिज।
श्री० अजजवल नस्तरुज्जान।

31.03.2023

30.10.2021

29.06.2022

एवम श्री अरिया अरिया 1.11.621=10

42. वॉर्ड 95, श्यामशास में कायस्मिन् वाली
जाली व कायस्मिन् वाली अस्मिन् श्यामने
वाली अस्मिन् में शाली व. श्याम श्यामशास।
श्री० अस्मिन् इज्जान श्यामने

31.03.2023

02.12.2020

16.12.2022

135,113 - 88,075 = 44,038/-

43. वॉर्ड 85 माजवल नगर जी. एन्ड. श्री जी.
160 के श्यामने एवम की अस्मिन् व मुज्जरी।
श्री० श्यामने वरुण इज्जान

31.03.2023

85,03,2020

85,10,2021

89,275 - 18,183 = 90,92/-

44. अरिया वॉर्ड में अस्मिन् नगर, श्यामने श्यामने, कायस्मिन्
अस्मिन् में श्यामने श्यामने लब श्यामने एवम श्यामने
वेवम। श्री० अस्मिन् कन्सेप्टुज्जान।

2.06.2023

12,61,2021

19.07.2022

36,362 - 24,241 = 12,121/-

447

-943-

पु३ वार्ड-४६ युवा अटली मार्ग पर अट्टी बने
 वाले की छठी कतने व आन्वयिक सफ़ाई का
 विमर्ग। क्र० बजाली इच्छा० इच्छा०

12.06.2023 16.04.2022 21.03.2023 9.66, 239 - 6.44, 159 = 3.22, 080/-

पु६ डी.टी.पब्लिक डेप्ट. पुलिसि. चंकी. क. पास
 की छे एर. की. लो. से. महाराजपुर. प्रा. कोटे
 आन्वयिक हेतु बार्दी. प्रकृ. त. उंस. व. सी. सी.
 क्र० श्री. क. ए. क. इच्छा इच्छा।

07.06.2023 19.12.2021 30.5.2022 5.04, 439 - 3.36, 292 = 1.68, 145/-

पु९ मोहन नगर अं वार्ड-७३, ७४, ७० एवं ४६ के
 बादा बादा कायदेसस से शिव चं. हेतु
 इए वल्लभाबाद ट्रेडिंग लार्ज पट्टी पर कट
 स्टोन व ग्रास वेक। क्र० नार्च इच्छा इच्छा।

19.06.2023 07.02.2022 27.4.2023 6.78, 847 - 4.52, 565 = 2.26, 282/-

पु४ मोरया अं जो भी पब्लिक स्कूल से सुनिचा
 लोड व अपगान धाट हेतु इए अन्नेट्ट के
 मकान तक आर. सी. सी. आजा व बाउ. क्वेल।
 क्र० शा. क. क. क.

31.12.2022 10.02.2021 30.11.2022 1.07, 050 - 71, 367 = 35, 683/-

अं. = 3 32, 80, 906/-

-944-

-945- (448)

15/2/2024 को जारी किया गया - के के प्रसार - 8 ' में 11/9/2024 दिवस

परिशिष्ट-16

निम्नलिखित नाम

श्री अ. प्र. न. व. के द्वारा जारी किए गए कारणा (अभिप्रेत) नामों का विवरण

क्र.सं.	नाम के साथ/बिना/के	दिनांक	विवरण	क्र.सं.	क्र.सं.
1.	श्री अ. प्र. न. व. के द्वारा जारी किए गए कारणा (अभिप्रेत) नामों का विवरण	15 वीं 190 (370)	श्री अ. प्र. न. व. के द्वारा जारी किए गए कारणा (अभिप्रेत) नामों का विवरण	5.	6190425
2.	श्री अ. प्र. न. व. के द्वारा जारी किए गए कारणा (अभिप्रेत) नामों का विवरण	14 वीं 190 (370)	श्री अ. प्र. न. व. के द्वारा जारी किए गए कारणा (अभिप्रेत) नामों का विवरण	30-12-24	9706180
3.	श्री अ. प्र. न. व. के द्वारा जारी किए गए कारणा (अभिप्रेत) नामों का विवरण	14 वीं 190 (370)	श्री अ. प्र. न. व. के द्वारा जारी किए गए कारणा (अभिप्रेत) नामों का विवरण	07-01-22	7960740

que.

449

1	2	3	4	5	6
4.	<p>9/15 - 20, 21/4/20 21/10/20 21/12/20 21/1/21 21/2/21 21/3/21 21/4/21 21/5/21 21/6/21 21/7/21 21/8/21 21/9/21 21/10/21 21/11/21 21/12/21</p> <p>21/15 - 23 21/16 - 24 21/17 - 25 21/18 - 26 21/19 - 27 21/20 - 28 21/21 - 29 21/22 - 30 21/23 - 31 21/24 - 1 21/25 - 2 21/26 - 3 21/27 - 4 21/28 - 5 21/29 - 6 21/30 - 7 21/31 - 8</p>	<p>15/21 21/20</p> <p>14/21/20 21/20</p>	<p>20-12-21</p> <p>23-9-21</p>	<p>10199500</p> <p>9473800</p>	<p>82416668</p> <p>8209815</p>
5.				<p>21/21 =</p>	<p>4,01,98,856 =</p>

2


3

4

5

6

7



98

5

सम्पत्तीया आख्या भाग 'क' के अन्तर्-10 में स्थिति

क्र० कार्य का विवरण व फर्म का नाम	आस-जोडिशानुसार देय कर	प्रमाणन कर = अन्तर x	वहासकी आधिक शुल्क भागा (कोसी)
1. विजयनगर जेन के अन्तर् कम्पोजिट विद्यालय प्रताप विहार का निर्माण कार्य श्री 0 डी के एस ए इ-फार्म 1	807.84 - 868.43 -	900 = 92.16 x 1300 = 431.57 x	507.49 = 46,770 = 451.35 = 1,74,789 =
2. हेरणा योजनाअन्तर् वार्ड-63 उद्य आयाजि विद्यालय में पुर्त, फर्निचर, शौचालय एवं मरसेवित कार्य श्री 0 डी के एस 01	807.84 - 868.43 -	900 = 92.16 x 1300 = 431.57 x	824.50 = 20,670 = 852.06 = 1,08,782 =
3. हेरणा योजनाअन्तर् वार्ड-34 शहीदजए प्रो कि-02 में पुर्त, फर्निचर, शौचालय आदि कार्य श्री 0 डी के एस 01	807.84 - 868.43 -	900 = 92.16 x 1300 = 431.57 x	131.65 = 12,133 = 469.75 = 2,02,730 =
4. हेरणा योजनाअन्तर् वार्ड-20 शौपुरा प्रो कि में पुर्त, किपन, दरिप, शौचालय आदि कार्य श्री 0 डी के एस 01	807.84 - 868.43 -	900 = 92.16 x 1300 = 431.57 x	291.99 = 26,910 = 373.40 = 1,61,148 =
5. आयेराम बाणकल्प के अन्तर् वार्ड-24 कम्पोजिट कि असेली व प्रो कि असेली -2 में प्रो मरी कुला एम्प्लिका। श्री एम्प्लिका	807.84 - 868.43 -	900 = 92.16 x 1300 = 431.57 x	424.22 = 39,096 = 563.00 = 2,42,974 =

952
 (454)

6 वर्ग-92 प्रांकि स्तनाप-पार 807.84 - 900 = 92.16 x 474.46 = 43,726 = 0
 का शक्ति, उजापन कर्मी
 शो शक्ति का संवेग 868.43 - 1300 = 431.57 x 263.35 = 1,13,654 = 0

7 विमान-पार लोच - प्रांकि प्रां केशरिप 807.84 - 900 = 92.16 x 335.09 = 30,882 = 0
 का शक्ति का संवेग 868.43 - 1300 = 431.57 x 370.01 = 1,59,685 = 0

8 वर्ग-92 प्रांकि कला बात्स, का शक्ति 807.84 - 900 = 92.16 x 508.74 = 46,085 = 0
 उजापन कर्मी। शो शक्ति का संवेग 868.43 - 1300 = 431.57 x 465.57 = 2,00,926 = 0

9 वर्ग-12 प्रांकि सराप दिवुत्तानी शो कक्षाको 807.84 - 900 = 92.16 x 39.41 = 3,632 = 0
 का शक्ति व उजापन। शो एम की स्तर 868.43 - 1300 = 431.57 x 117.19 = 50,576 = 0

10 वर्ग-19 प्रांकि विद्यमानपुश शो शक्ति का संवेग व 807.84 - 900 = 92.16 x 5.88 = 542 = 0
 शक्ति कर्मी। शो उजापन का संवेग 868.43 - 1300 = 431.57 x 1.83 = 790 = 0

11 शक्ति शक्ति का संवेग व 807.84 - 900 = 92.16 x 53.14 = 4897 = 0
 का शक्ति, शक्ति, शक्ति का संवेग 868.43 - 1300 = 431.57 x 347.71 = 1,50,061 = 0
 शो शक्ति का संवेग 1

453. (455)

- 12 वॉर्ड-01 लड्डुआर कालोनी प्रांतिकी
 आउट-री, अकन व कोचालप अरअर।
 आं हाकुअरसी कसंसे।
 $807.84 - 900 = 92.16 \times 380.80 = 35,367.1 = \omega$
 $868.43 - 1300 = 431.57 \times 308.60 = 1,33,183 = \omega$
- 13 हेरणा योजनान्तर्गत वॉर्ड-70 लड्डुआर
 प्रांतिकी आं पुनरि, दरिस, कोचालप काली
 आं वरति कसंसे।
 $807.84 - 900 = 92.16 \times 97.51 = 8,987 = \omega$
 $868.43 - 1300 = 431.57 \times 287.22 = 1,23,956 = \omega$
- 14 हेरणा योजनान्तर्गत वॉर्ड-83 अणामरि इर्रा
 कालोनी प्रांतिकी पुनरि, कोचालप दरिस काली
 आं वरति कसंसे।
 $807.84 - 900 = 92.16 \times 119.90 = 11,050 = \omega$
 $868.43 - 1300 = 431.57 \times 195.55 = 84,394 = \omega$
- 15 वॉर्ड-60 अणामरि आं अररिअर अणामरि
 कालोनी आं दरिस व पुनरी कालोनी
 आं आं अणामरि अणामरि आं अणामरि।
 $807.84 - 900 = 92.16 \times 313.35 = 28,878 = \omega$
 $868.43 - 1300 = 431.57 \times 512.37 = 2,21,124 = \omega$
- 16 अणामरि अणामरि वॉर्ड-60 अणामरि अणामरि
 पालिका कालोनी आं अणामरि अणामरि व
 अणामरि अणामरि आं अणामरि।
 $807.84 - 900 = 92.16 \times 763.76 = 70,388 = \omega$
 $868.43 - 1300 = 431.57 \times 1444.14 = 6,23,364 = \omega$
- 17 वॉर्ड-12 आं अणामरि अणामरि आं अणामरि
 आं अणामरि अणामरि आं अणामरि।
 $807.84 - 920 = 112.16 \times 76.21 = 8,548 = \omega$
 $868.43 - 1225 = 356.57 \times 119.96 = 42,774 = \omega$

95%
456

18 रॉ. 59 अर्थोक्ति कि संख्या 02 में
 207.84 - 920 = 112.16 x 192.27 = 81,565 = 00
 कावाकल के अन्वयित दीवारो पर दरिस्स
 का संख्या 01 में आकाश कर्मों।

19 कैरवा क्षेत्रान्तर्गत रॉ. 60 अणुपार्क
 807.84 - 900 = 92.16 x 62.09 = 5,722 = 00
 807.84 में पुनर्, क्षीयान्त, दरिस्स आदि
 068.43 - 1300 = 431.57 x 178.00 = 76,854 = 00
 कर्मों में दर्शित कर्मों।

20 अतिरिक्त कावाकल के अन्वयित रॉ. 46
 807.84 - 900 = 92.16 x 349.50 = 32,210 = 00
 अर्थोक्ति कि दुबरी का क्षीय-वर्षकण।
 860.43 - 1300 = 431.57 x 366.53 = 1,58,103 = 00
 में मीसा कर्मों।

21 आरिश्त कावाकल के अन्वयित रॉ. 42
 807.84 - 900 = 92.16 x 154.64 = 14,252 = 00
 सां कि माला पुस्तों का सुदृढीकरण।
 860.43 - 1300 = 431.57 x 350.00 = 1,51,084 = 00
 में दर्शित कर्मों।

22 कैरवा प्रोत्सवार्थित रॉ. 63 सां कि-वा-वर्षक
 807.84 - 900 = 92.16 x 230.26 = 31,221 = 00
 में पुनर्, दरिस्स क्षीयान्त आदि कर्मों।
 860.43 - 1300 = 431.57 x 243.29 = 1,04,997 = 00
 में दर्शित कर्मों।

23 रॉ. 31 सां कि-वर्षकनी क्षेत्रक का अर्थोक्ति
 807.84 - 900 = 92.16 x 223.65 = 20,612 = 00
 उन्मथन कर्मों। में उन्मथन कर्मों।

24 वार्ड-24 अहमदाबाद में नगर निगम बालिका शैक्षणिक कार्य कराने का प्रयत्न करना। प्रो. ए.के. कामराज

25 वार्ड-59 काम्पोजिट विद्यालय के कक्षाओं का दक्षिणपूर्व दिशा में आकाश कक्षाएं

26 विद्यालयों में धान रोड पर स्थित शांति विद्यालय के कक्षाओं, अक्षय विद्यालय आदि का शोध करना।

27 वार्ड-57 अहमदाबाद विद्यालय में पांच कक्षाएं या पाठशाला का शोध करना।

28 आरक्षण कक्षाएं अहमदाबाद वार्ड-24 कम्पोजिट विद्यालयों का सुदृढीकरण। प्रो. ए.के. कामराज
 29 आरक्षण कक्षाएं वार्ड-46 शांति विद्यालय का सुदृढीकरण। प्रो. ए.के. कामराज

30 आरक्षण कक्षाएं अहमदाबाद वार्ड-16 शांति विद्यालय का सुदृढीकरण। प्रो. ए.के. कामराज

807.84 - 900 = 92.16	x	338.34	=	31,181 = w
868.43 - 1300 = 431.57	x	943.23	=	4,07,070 = w
807.84 - 900 = 92.16	x	68.27	=	6,292 = w
868.43 - 1300 = 431.57	x	302.24	=	1,30,438 = w
807.84 - 900 = 92.16	x	237.99	=	81,933 = w
868.43 - 1300 = 431.57	x	299.65	=	1,29,320 = w
868.43 - 1300 = 431.57	x	430.66	=	1,85,860 = w
807.84 - 900 = 92.16	x	186.01	=	17,143 = w
868.43 - 1300 = 431.57	x	201.06	=	86,771 = w
807.84 - 900 = 92.16	x	97.81	=	9,014 = w
868.43 - 1300 = 431.57	x	206.67	=	89,193 = w
807.84 - 900 = 92.16	x	206.82	=	19,061 = w
868.43 - 1300 = 431.57	x	278.18	=	1,20,054 = w

059
458

21 आयोजना अन्तर्गत के अन्तर्गत वधि - 1460 अर्थात्
 कि आयुर्वि विवरण का सुदृष्टीकरण। प्रो-टीपरीरिसेक
 $807.84 - 900 = 92.16 \times 142.06 = 13,092 = 00$
 $868.43 - 1300 = 431.57 \times 454.60 = 1,96,192 = 00$

22 नगर विभागा बालिका डेन्जर प्रस्तावना का पूर्ण
 विवरण। प्रो अरि सुदृष्टीकरण के
 $807.84 - 900 = 92.16 \times 198.83 = 18,324 = 00$
 $868.43 - 1300 = 431.57 \times 148.14 = 63,933 = 00$

23 विद्यालय नगर प्रो के कम्प्लिज्ड विंग इंडस्ट्रिज का
 विवरण। प्रो शिशुयुक्ती कर्मों।
 $807.84 - 900 = 92.16 \times 587.87 = 54,178 = 00$
 $868.43 - 1300 = 431.57 \times 2691.26 = 1,15,351 = 00$

24 आयोजना अन्तर्गत के अन्तर्गत वधि - 16 अर्थात्
 विद्यालय आयुर्वि व शिशुयुक्ती कर्मों।
 $807.84 - 900 = 92.16 \times 133.26 = 12,281 = 00$
 $868.43 - 1300 = 431.57 \times 151.44 = 65,357 = 00$

योग = ₹ 56,41,333/-

459

पं. सं. 431

459

पं. सं. 431

459

पं. सं. 431


पं. सं. 431

बनारस विभाग चालीस-आठ

विभागीय विभाग में विद्यमान कार्यों में 10% वॉगइस च कार्ड जाप के कारण कन्सालिडेशन

स (अधिक) मरणाण का निरक्षण

क्र.सं.	दिनांक	वर्क / कार्ड का नाम	वॉगइस	10% वॉगइस	10% वॉगइस	वॉगइस	वॉगइस
1	1685/22-10-22	अक्सरि लामनी इन्फान्ट्री, वॉ. 75 मातृपुत्रा से बी. सी. एवं डी. लामनी इन्फान्ट्री, इन्फान्ट्री व इन्फान्ट्री	823.76	82.38	82.38	7	15,240.00
2	1157/31.7.22	डी. जी. एम. इन्फान्ट्री, वॉ. 10 इन्फान्ट्री अलोपी ए. एम. इन्फान्ट्री, वॉ. 40 इन्फान्ट्री, वॉ. 10 इन्फान्ट्री	208.12	20.81	20.81	7	3,650.00
3	1140/31.7.22	डी. अक्षरि इन्फान्ट्री, वॉ. 80 इन्फान्ट्री अजर डी. अक्षरि इन्फान्ट्री, वॉ. 150 इन्फान्ट्री, वॉ. 150 इन्फान्ट्री	127.60	12.76	12.76	7	2,361.00
4	1088/30.7.22	डी. अक्षरि एम. इन्फान्ट्री, वॉ. 76 इन्फान्ट्री बी. एम. डी. अक्षरि एम. इन्फान्ट्री, वॉ. 150 इन्फान्ट्री	181.15	18.12	18.12	7	2,262.00



4
900-

कंपोस्टिबल, प्रो. की एम.बी.ए.

(कंपोस्टिबल)

क्र.0 नार्मल का विवरण व फार्म का नाम

विक्रम-मिशन

(कंपोस्टिबल)

क्र.0, विक्रम-मिशन X 42

50% डिबिट बैलान्स X 42

कुल अडिबिट बैलान्स

1. विक्रम-मिशन जेम्स में धारणा के लिए प्रत्येक

2.16

प्रिन्सिपल प्रो. की वाउचर, अथवा व. डी. चालान प्रकृत।

क्र.0 प्रो. व. जेम्स

$$1.08 \times 460 \times 4.70 = 2335/-$$

$$1.08 \times 7.50 = 810/2$$

$$= 3,145 = 0$$

(कंपोस्टिबल प्रो. की जमा)

2. वॉ. न.3, शालीग्राम गार्डन एम्स-2 सी एम्स में सी-18 से एम्स-13 तक वाली मिनिंग। क्र. कुख्या। एम्स।

26.55

सम्पूर्ण कंपोस्टिबल प्रो. के फार्म व 650। की दर से की जमा। एम्स 50% आता है। के रूप में की जाती थी।

$$\text{कुल कंपोस्टिबल} = 13.28 \times 460 = 6108 \text{ रु. } \times 75\%$$

$$= \text{रु. } 30540 - (13.28 \times 850) = 11208 \text{ अडिबिट बैलान्स} - 19,252 = 0$$

3. वॉ. न. 50 नुर-मिशन एवं सदीक-मिशन प्रिन्सिपल प्रो. एवं प्रिन्सिपल प्रो. के फार्म के पास-माली प्रकृत एवं प्रिन्सिपल प्रो. नुर-मिशन

2.14

सम्पूर्ण कंपोस्टिबल प्रो. के फार्म व 750। की दर से 1.50% है। कंपोस्टिबल न. प्रो. के

कंपोस्टिबल प्रिन्सिपल प्रो. = 2.14 x 50% = 1.07

$$1.07 \times 460 = 492 \times 5 = 2460 - 1.07$$

$$\text{कुल कंपोस्टिबल} = 2.14 \times 50\% = 1.07$$

$$\text{कुल कंपोस्टिबल} = 2.14 \times 50\% = 1.07$$

$$= 1657/ =$$

962
463

प्र. 92. 'कला अरुण' पत्रात काढिली आहे
 - मुला रानुरावानी जाली व मला ३०० टाका
 रकम लीर एकरावी व अडिगत रीत वानी
 जाली अं ३००० रीत व प्रारुभात जाली
 ३०० अडिगत जाली।

२.१५ अडिगत जाली ₹ २२०५/- मीर अडिगत कं मरुअं की जाली आहे
 लखी : निरुपुत्रुभात ५०% मरुअं की जाली रीत कं मरु
 अं की जाली आहे।
 $२.१५ \times ५०\% \times ५६० = ६०६६ \times ₹ ५/-$
 $= ₹ ३३३३० - ५०५ अडिगत मुलात ₹ १०३ = ₹ ३३२२७/-$

मुलात = ₹ २६.३३१/-

(क) शही आसिबिा क-ड -

आवडा आता-क' क प्रसू-611' में शहसि

464

पकिश-31

क्र.सं.	वा.सं./दिनांक	शिल कर्/चनराशि	का.सं.	क्र.सं.	श.सं.सं.	श.सं.सं.	श.सं.सं.	श.सं.सं.	श.सं.सं.	श.सं.सं.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	265/01-3-23	2100	01							8
2.	266/01-3-23	34088	03	4431	1108					
3.	281/01-3-23	137669	08							
4.	288/01-3-23	179140	08							
5.	343/02-3-23	564565	40	60384	15096					
6.	344/02-3-23	15360	01							
7.	345/02-3-23	42570	02	4680	1170					
8.	346/02-3-23	127710	06	14040	3510					
9.	347/02-3-23	808354	67	88868	22217					
10.	348/02-3-23	1849460	153	203323	50831					
11.	349/02-3-23	693387	49	76229	19057					

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	350/02-3-23	1735467	147	190791	47698	47698	47698 2023
13.	351/02-3-23	1340689	111	147382	86845	86845	"
14.	352/02-3-23	3107719	260	341652	85413	85413	"
15.	353/02-3-23	142077	01	15619	3905	3905	3905 2022
16.	354/02-3-23	92416	06	10160	2540	2540	2540 2022
17.	355/02-3-23	21285	01	2340	585	585	585 2022
18.	356/02-3-23	328950	03	—	—	—	— 2022
19.	357/02-3-23	396591	15	43600	10900	10900	10900 2022
20.	358/02-3-23	158583	06	17440	4360	4360	4360 2022
21.	359/02-3-23	155979	06	17153	4288	4288	4288 2022
22.	360/02-3-23	475749	18	52320	13080	13080	13080 2022
23.	361/02-3-23	11821	01	1300	325	325	325 2022

क्र.सं.	दि.सं./ प्रा.सं.	विवरण	क्र.सं./ विवरण	क्र.सं./ विवरण	क्र.सं./ विवरण	क्र.सं./ विवरण	क्र.सं./ विवरण	क्र.सं./ विवरण	क्र.सं./ विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	362/02-3-23	21275	01	2340	585	44419	44419	44419	44419
25.	363/02-3-23	161237	12	17726	4431	200/319	200/319	200/319	200/319
26.	364/02-3-23	54331	04	5973	1493	5/509	5/509	5/509	5/509
27.	365/02-3-23	86371	06	9495	2374	4/419	4/419	4/419	4/419
28.	371/02-3-23	798790	50	87816	21954	5/509	5/509	5/509	5/509
29.	372/02-3-23	2199241	170	241777	60444	5/509	5/509	5/509	5/509
30.	373/02-3-23	1594950	100	175343	43836	5/509	5/509	5/509	5/509
31.	374/02-3-23	268729	20	29543	7386	5/509	5/509	5/509	5/509
32.	375/02-3-23	51145	0.2	5623	1405	4/419	4/419	4/419	4/419
33.	376/02-3-23	407814	26	44834	1120	5/509	5/509	5/509	5/509

466
467

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	377/02-3-23	51195	02	5623	1405	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> 2022
35.	378/02-3-23	699862	43	76940	19235	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> 2023
36.	379/02-3-23	246190	19	27065	6766	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> 2023
37.	380/02-2-23	1592501	122	175019	43755	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> 2022
38.	381/02-3-23	71450	01	—	—	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> 2022
39.	382/02-3-23	24706	01	2716	679	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> 2023
40.	383/02-3-23	803152	63	88296	22074	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> 2022
41.	384/02-3-23	329843	13	36262	9065	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> 2023
42.	385/02-3-23	400925	30	44076	11019	—	<i>[Signature]</i> 2022
43.	386/02-3-23	115726	12	12723	3180	—	—
44.	387/02-3-23	3249887	202	357281	89320	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> 2022
45.	388/02-3-23	169907	14	18679	4670	<i>[Signature]</i>	—
46.	389/02-3-23	1966920	150	216236	54059	—	<i>[Signature]</i> 05-1-
47.	433/03-3-23	2418838	165	265919	66479	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> 2022
48.	434/03-3-23	25550	01	—	—	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> 2022

988 (469)

1	2	3	4	5	6	7	8
62.	448/03-3-24	659000	04	49000	1234	<i>[Signature]</i>	2023
63.	449/03-3-24	42823	01	-	-	<i>[Signature]</i>	2023
64.	474/4-3-23	717753	50	78907	19727	<i>[Signature]</i>	2022
65.	475/4-3-23	242722	20	26684	6671	<i>[Signature]</i>	2022
66.	476/4-3-23	359749	30	39549	9887	<i>[Signature]</i>	2022
67.	477/4-3-23	155602	19	17106	4276	<i>[Signature]</i>	"
68.	478/4-3-23	1428165	122	157007	39252	"	"
69.	479/4-3-23	718632	63	79004	19751	"	"
70.	480/4-3-23	230154	19	25302	6326	<i>[Signature]</i>	"
71.	481/4-3-23	1440769	150	158393	39598	<i>[Signature]</i>	"
72.	482/4-3-23	364665	26	45090	15022	<i>[Signature]</i>	"
73.	483/4-3-23	117894	12	12961	3240	<i>[Signature]</i>	"
74.	484/4-3-23	1973856	170	216999	54250	"	"
75.	485/4-3-23	632508	43	69536	17384	"	"
76.	486/4-3-23	2939949	202	323208	80802	<i>[Signature]</i>	"

1	2	3	4	5	6	7	8
77.	537/16-3-23	61260	01	-	-	2004/2004	5/11/2023
78.	582/18-3-23	61176	01	-	-	2004/2004	11/11/2023
79.	601/21-3-23	36395	03	4003	1500	4474/4474	5/11/2023
80.	602/21-3-23	21285	01	2340	585	4474/4474	11/11/2023
81.	603/21-3-23	283109	20	31124	7781	4474/4474	11/11/2023
82.	604/21-3-23	283109	20	31124	7781	---	11/11/2023
83.	605/21-3-23	59105	01	6500	1625	4474/4474	11/11/2023
84.	13/02-2-23	533826	38	57005	14251	4474/4474	11/11/2023
85.	14/02-2-23	21285	01	2340	585	4474/4474	11/11/2023
86.	246/17-2-23	1917943	150	210852	52713	4474/4474	05-11-22
87.	247/17-2-23	551564	39	58955	14739	4474/4474	04-12-22
88.	248/17-2-23	91764	01	-	-	4474/4474	5/11/2022
89.	249/17-2-23	94686	01	10413	2603	4474/4474	5/11/2022
90.	250/17-2-23	158637	03	17440	4360	4474/4474	5/11/2022

486

1.	2	3	4.	5	6	7.	8
91.	251/17-2-23	1975589	150	217189	54297		05-12-22
92.	466/21-2-23	380765	29	43420	10855		04-01-23
93.	461/21-2-23	380610	15	32760	8190		
94.	462/21-2-23	673434	34	74035	18509		
95.	463/21-2-23	88878	09	11760	2925		
96.	464/21-2-23	59125	05	6500	1625		
97.	465/21-2-23	30600	01	—	—		
98.	466/21-2-23	15300	01	—	—		
99.	467/21-2-23	2485197	167	267717	66929		
100.	468/21-2-23	25500	01	—	—		
101.	469/21-2-23	137423	08	12753	3188		
102.	470/21-2-23	11801	01	—	—		
103.	513/23-2-23	193704	147	212949	53237		

Handwritten notes and signatures in the right margin, including '486' circled, and various scribbles and marks.

922 (472)

1	2	3	4	5	6	7	8
116	526/23-2-23	131944	04	9801	2450	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
117	527/23-2-23	47430	01	-	-	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
118	528/23-2-23	2181904	170	239871	59968	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
119	529/23-2-23	807486	63	88772	22193	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
120	530/23-2-23	268729	20	29543	7386	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
121	531/23-2-23	34396	01	-	-	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
122	532/23-2-23	399625	30	43933	10983	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
123	533/23-2-23	396764	26	43819	10905	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
124	534/23-2-23	775636	50	85271	21317	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
125	535/23-2-23	65015	10	7148	1787	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
126	536/23-2-23	130030	20	14295	3574	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
127	537/23-2-23	185943	14	20442	5110	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
128	538/23-2-23	253558	19	27875	6969	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
129	539/23-2-23	3243047	202	356529	89132	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
130	540/23-2-23	138699	12	15248	3812	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
131	541/23-2-23	1589162	105	174707	43677	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
132	542/23-2-23	1587668	122	174548	43686	51118 51118	8/2022
133	543/23-2-23	691769	43	76073	19018	51118 51118	8/2022
134	544/23-2-23	42570	02	4680	1170	51118 51118	8/2023
				योग =	85,61,848	21,40,462	
						प्रतिमा प्र संचिका CS: वा. ल. संचिका	
1	240/2-3-23	2,24,403	13			2202 x 30 = 66060	जारी 2023
2	341/ -	185603	114			1787 x 84 = 150108	जारी 2023
3	342/ -	161106	17			1787 x 17 = 30379	-
4	257/19-2-23	260840	17			1787 x 17 = 30379	-
5	240/ -	186587	17			1787 x 17 = 30379	जारी 2023
6	241/ -	224403	13			2202 x 7 = 15414	जारी 2023
7	241/ -	185603	114			1787 x 6 = 10722	-
				योग =		2202 x 30 = 66060	
						1787 x 84 = 150108	
						1787 x 17 = 30379	
						1787 x 17 = 30379	
						2202 x 7 = 15414	
						1787 x 6 = 10722	
						2202 x 30 = 66060	
						1787 x 84 = 150108	
				योग =	57,57,415		

29) भयार्क (स. सी. एम. प्रोत्साहन आयोग)

जारी 2023
जारी 2023
जारी 2023
जारी 2023
जारी 2023
जारी 2023
जारी 2023

99B-474

475

3025/1

924

1	2	3	4	5	6	7	8
1	529/16.03.2023	35,98,994	315	363,827	90,957	<p>सुप्रभाकर</p> <p>श्रीमती विठ्ठला केसव</p> <p>श्रीमती शंकर</p> <p>श्रीमती स्वा. केसव</p> <p>श्रीमती स्वर्णी केसव</p>	<p>07.09.2022</p> <p>07.09.2022</p>
2	530/—	7,15,750	63	72,765	18191	—	7.9.22
3	531/—	7,06,663	63	72,765	18191	—	7.10.22
4	1894/31.3.2023	7,66,663	63	72,765	18191	—	07.01.23
5	192/68.02.2023	35,78,293	शंकर	363,827	90,957	शंकर	काका केसव शंकर
			शंकर	9,45,949	2,36,487		

999
477

1	2	3	4	5	6
	464	21-2-23	59100	05	Staff 2023 <i>[Signature]</i>
	465	21-2-23	30580	01	_____
	466	21-2-23	15290	01	_____
	467	21-2-23	2434370	167	_____
	468	21-2-23	25490	01	_____
	469	21-2-23	137370	08	_____
	470	21-2-23	11790	01	_____
	513	23-2-23	1936350	147	_____
	514	23-2-23	2448090	260	Staff 2023 <i>[Signature]</i>
	515	23-2-23	896470	67	Staff 2023 <i>[Signature]</i>
	516	23-2-23	127660	06	Staff 2022 <i>(32117)</i>
	517	23-2-23	767400	49	Staff 2023 <i>(32117)</i>
	518	23-2-23	1480970	111	Staff 2023 <i>[Signature]</i>
	519	23-2-23	2042080	153	Staff - 2023 - 924544 <i>[Signature]</i>

988
848

478
478

11/11/2023
11/11/2023

क्र.सं.	दिनांक	विवरण	दर	कुल	विवरण	दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
S20	23-2-23	21800	01	21800	2022	2022
S21	23-2-23	355053	17	6035901	2023	2023
S22	23-2-23	101807	04	407228	2023	2023
S23	23-2-23	21275	01	21275	2023	2023
S24	23-2-23	11821	01	11821	2023	2023
S25	23-2-23	21410	01	21410	2022	2022
S26	23-2-23	1,31,944	04	5277776	2023	2023
S27	23-2-23	47900	01	47900	2022	2022
S28	23-2-23	2,18,160	170	37087200	2022	2022
S29	23-2-23	807200	63	50853600	2022	2022
S30	23-2-23	268630	20	5372600	2022	2022
S31	23-2-23	34380	01	34380	2022	2022

1	2	3	4	5	6
	532	23-2-23	3,99,490	30	पुस्तक 2022
	533	23-2-23	3,96,630	26	पुस्तक 2022
	534	23-2-23	775,370	50	पुस्तक 2022
	535	23-2-23	64,990	10	पुस्तक 21-10-22 $\frac{04-11-22}{24/01/22}$ $\frac{01-11-22}{24/01/22}$
	536	23-2-23	1,29,980	20	पुस्तक 18-10-22 $\frac{01-11-22}{24/01/22}$
	537	23-2-23	1,85,880	14	पुस्तक - 2022 $\frac{21/01/22}{01/11/22}$
	538	23-2-23	2,53,470	19	पुस्तक - 2022 $\frac{41/11}{01/11}$
	539	23-2-23	3,24,950	202	पुस्तक - 2022 $\frac{21/01/22}{01/11/22}$
	540	23-2-23	1,38,650	12	पुस्तक 2022 $\frac{41/11}{01/11}$
	541	23-2-23	1,58,820	150	पुस्तक 2022 $\frac{41/11}{01/11}$
	542	23-2-23	1,58,7130	122	पुस्तक 2022 $\frac{41/11}{01/11}$
	543	23-2-23	6,91,730	43	पुस्तक - 2022 $\frac{41/11}{01/11}$
	544	23-2-23	4,25,550	02	पुस्तक - 2023
	265	01-3-23	4,14,10	01	पुस्तक 2023

संशोधन विभाग, दिल्ली

दिनांक - 15/12/23

480

क्र.सं.	दिनांक	चयनसंख्या	सं.पत्र	सं.पत्र
1.	3.	4.	5.	6.
266	01-3-23	90295	03	ऑक्टो 2023
343	02-3-23	564,370	40	मार्च 2023
344	02-3-23	15290	01	मार्च 2023
345	02-3-23	42,550	02	4-2-92 2023
346	02-3-23	127660	06	मार्च 2023
347	02-3-23	8,08,080	67	मार्च 2023 9 ऑक्टो 2023
348	02-3-23	18,48,830	153	मार्च 2023 2023 चयनसंख्या ऑक्टो
349	02-3-23	6,93,150	49	मार्च 2023 (संशोधन विभाग)
350	02-3-23	1734880	147	मार्च 2023 2023 ऑक्टो
351	02-3-23	340150	111	मार्च 2023 ऑक्टो चयन
352	02-3-23	310660	260	मार्च 2023 9 ऑक्टो चयन
353	02-3-23	142500	01	ऑक्टो चयन 2022
354	02-3-23	92385	06	ऑक्टो 2022

1/9/11 (अनुसूची भाग) के अन्तर्गत -

के अन्तर्गत - 981

482 -

क्र.सं.	दिनांक	रकम	विवरण	सं.	6.
374	02-3-23	2,68,630	20	2023	स्टाफ 2023
375	02-3-23	51120	02	2023	स्टाफ 2023
376	02-3-23	407670	26	2023	स्टाफ 2023 (41-11-10-1)
377	02-3-23	51120	02	2023	स्टाफ 2023
378	02-3-23	699620	43	2023	स्टाफ 2023
379	02-3-23	246160	19	2023	स्टाफ 2023
380	02-3-23	1591460	122	2023	स्टाफ 2023 (41-11-10-1)
381	02-3-23	71370	01	2023	स्टाफ 2023
382	02-3-23	24690	01	2023	स्टाफ 2023
383	02-3-23	802880	63	2023	स्टाफ 2023
384	02-3-23	329730	13	2023	स्टाफ 2023 (41-11-10-1)
385	02-3-23	450780	30	2023	स्टाफ 2023
386	02-3-23	115680	12	2023	स्टाफ 2023

982
483

1	2	3	4	5	6
387	02-3-23	3248780	202	START 2023 (417 START)	
388	02-3-23	169840	14	START 2023	
389	02-3-23	1966, 250	150	05-1-23 ² 04-2-23 HSD (417 START)	
433	03-3-23	2418020	165	START 2023 (3001 START)	
434	03-3-23	25490	01	START 2023	
435	03-3-23	137370	08	START 2023 (3001 START)	
436	03-3-23	11790	01	START 2023	
437	03-3-23	366440	29	START 2023	
438	03-3-23	30580	01	START 2023	
439	03-3-23	91180	09	START 2023	
440	03-3-23	59100	05	START 2023	
441	03-3-23	673200	34	START 2023	
442	03-3-23	380470	15	START 2023	
443	03-3-23	355000	17	START 2023	
444	03-3-23	132548	04	START 2023	
445	03-3-23	42000	01	START 2023	

1911. (अनुसूची भाग) का अनुसूची - 983
 484

क्र.सं.	दिनांक	व्ययवर्णन	क्र.सं.	व्ययवर्णन	क्र.सं.	व्ययवर्णन
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
446	03-3-23	16,20,340	36	प्रस्ताव 2022 से मार्च 2023		
447	03-3-23	13320	01	मार्च 2022		
448	03-3-23	65980	04	मार्च 2023		
449	03-3-23	42,823	01	सिस्टम 2023		
474	04-3-23	717510	50	मार्च 2023		
475	04-3-23	242640	20	मार्च 2023		
476	04-3-23	359620	30	मार्च 2023		
477	04-3-23	155540	14	मार्च 2023		
478	04-3-23	1427680	122	मार्च 2023		
479	04-3-23	718380	63	मार्च 2023		
480	04-3-23	230070	19	मार्च 2023		
481	04-3-23	1440280	100	मार्च 2023		
482	04-3-23	364540	26	मार्च 2023		
483	04-3-23	117850	12	मार्च 2023		

488

क्र.सं.	व्यय प्रसंगिक सं./दिनांक	व्ययसं.	कामपत्रिका सं./क्र.सं.	विवरण
1		3		संशोधन/संशोधन का प्रयत्न
15.	383/ 02-3-23	802 880	63 सामाजिक	संशोधन - सामाजिक कार्य
16.	479/ 04-3-23	718 880	63 सामाजिक	संशोधन - सामाजिक कार्य
17.	528/ 23-2-23	2181160	170 सामाजिक	संशोधन - सामाजिक कार्य
18.	372/ 02-3-23	2198490	170 सामाजिक	_____
19.	484/ 04-3-23	1973180	170 सामाजिक	_____
20.	533/ 23-2-23	396630	26 वाहन चालक	_____
21.	376/ 02-3-23	407670	26 वाहन चालक	_____
22.	484/ 04-3-23	364540	26 वाहन चालक	_____

489

Q.No.

5.

1.	2	3	4	5.
23.	539/ 23-2-23	3241950	202 वाडव का का	का. का. का. का. का. का. का. का.
24.	387/ 02-3-23	3248782	"	"
25.	486/ 04-3-23	2938950	"	"
26.	377/ 02-3-23	51120	का. का. का. का. का. का. का. का.	का. का. का. का. का. का. का. का. का. का.
27.	384/ 02-3-23	329730	का. का. का. का.	का. का. का. का. का. का. का. का. का. का.
28.	383/ 02-3-23	24690	का. का. का. का.	का. का. का. का. का. का. का. का. का. का.
29.	542/ 23-2-23	1587130	का. का. का. का. का. का. का. का.	का. का. का. का. का. का. का. का. का. का.
30.	380/ 02-3-23	1591460	का. का. का. का. का. का. का. का.	का. का. का. का. का. का. का. का. का. का.


क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पता	सं. / दिनांक	व्यय	व्यय का प्रकार	व्यय का सं.
1	सुनील / सुनील का 19 वर्षीय					
31	478 / 04-3-23	1427680	4. 122 समाप्त / 11/11/23	4. 122 का समाप्त / 11/11/23	4. 122 का समाप्त / 11/11/23	490
32.	540 / 23-2-23	138650	126 का समाप्त / 11/11/23	126 का समाप्त / 11/11/23	126 का समाप्त / 11/11/23	
33.	386 / 02-3-23	115680	"	"	"	"
34.	483 / 04-3-23	117850	"	"	"	"
35.	543 / 23-2-23	691730	43 वाहन खरीद / 07/01/23	43 वाहन खरीद / 07/01/23	43 वाहन खरीद / 07/01/23	
36.	378 / 02-3-23	699620	"	"	"	"
37.	485 / 04-3-23	632290	"	"	"	"

क्र.सं.	विवरण	प्रमाण	दिनांक	विवरण	क्र.सं.
45.	388/ 02-3-23	169860	14 सप्टेंबर 2023	14 सप्टेंबर 2023	4.
46.	477/ 04-3-23	155540	11	11	5.
2023 = ₹		4,26,92,420/-			

9910 492

23/11/23 / 23/11/23

23/11/23 / 23/11/23



-993.

493

21/12/23 - 24

11/11/23
11/11/23
11/11/23
11/11/23
11/11/23
11/11/23
11/11/23
11/11/23
11/11/23
11/11/23

क्र.सं.	दिनांक	चक्र/विवरण	अ.सं.	प्रतिफल	विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.
213	10-2-23	23,39,321	187	कागदपत्र (दिनांक 21-12-22 से 20-01-23)	
214	10-2-23	16,67,248	135	"	
215	10-2-23	33,78,697	272	"	
216	10-2-23	30,41,467	244	कागदपत्र (दिनांक 21-12-22 से 20-01-23 तक)	
217	10-2-23	19,50,874	156	"	
218	10-2-23	31,14,209	250	कागदपत्र/प्रमाणपत्र (दिनांक 21-12-22 से 20-01-23)	
219	10-2-23	42,77,042	347	"	
220	10-2-23	33,15,011	270	"	
221	10-2-23	42,44,016	341	कागदपत्र (दिनांक 21-12-22 से 20-01-23)	
222	10-2-23	33,91,018	271	कागदपत्र (21-12-22 से 20-01-23)	

1


2

3

4

5

6



0.45'

999-

498

क्र.सं.	कार्य प्रमाणित दि.	वर्ग / क्षेत्र का नाम	वर्गफल/माप	सं.	समाप्ति
1)	2005/31.3.23	सिटी जोन इलाक़ के अंतर्गत चाई - 93 मलिन काई ग्रेन मशीन से 3" चाई जमान पाईस लॉडिंग करने का काम में दीमाईत काईस	189 मी	570	107730
2)	726/30.3.23	अनुसूचित जोन चाई 72 - दीमाईत सेक्टर पाईस से सार्वजनिक जगह पर 110 एम.एम. चाई से 185 मी. पाईस लॉडिंग का काम में दीमाईत अंतराजाल	180 मी	251	45180
3)	791/30.3.23	सिटी जोन यमन के अंतर्गत चाई - 59 मील्लन सेक 3" से 120 मी चाई. पाईस लॉडिंग का काम में अंतरा जमान एकराजाल	120 मी	570	68400
4)	2017/31.3.23	अनुसूचित जोन के अंतर्गत चाई - 100 से 56 एम.एम. से. से. 110 एम.एम. चाई से 30 मी एम.एम. पाईस लॉडिंग किये का काम में दीमाईत अंतराजाल	30 मी	1700	51000

1	2	3	4	5	6
15	1972 30.3.23	<p>ऑड-393117-18 विला में गरीबों को 393117-18 की जमीन पर बिल्टिंग करवाकर 100 फीट चौड़ाई की गली का निर्माण करा जाय।</p> <p>100 फीट चौड़ाई की गली का निर्माण करा जाय।</p> <p>100 फीट चौड़ाई की गली का निर्माण करा जाय।</p>	142200	570	80940
(17)	676 30.3.23	<p>जोड़-100 फीट चौड़ाई की गली का निर्माण करा जाय।</p> <p>100 फीट चौड़ाई की गली का निर्माण करा जाय।</p> <p>100 फीट चौड़ाई की गली का निर्माण करा जाय।</p>	68000	567	38556
(18)	755 30.3.23	<p>जोड़-100 फीट चौड़ाई की गली का निर्माण करा जाय।</p> <p>100 फीट चौड़ाई की गली का निर्माण करा जाय।</p> <p>100 फीट चौड़ाई की गली का निर्माण करा जाय।</p>	32000	650	20800
(18)	660 30.3.23	<p>जोड़-100 फीट चौड़ाई की गली का निर्माण करा जाय।</p> <p>100 फीट चौड़ाई की गली का निर्माण करा जाय।</p> <p>100 फीट चौड़ाई की गली का निर्माण करा जाय।</p>	12000	228	27360

कुल = 1125652/-

आदेश अण-क के पत्र - 95 में संशोधित - 1001-
 (अध्यापक) के कामों के बिलम (अवधि) में 500
 500

परिशिष्ट - 26

क्रमांक	दिनांक	कारण	कार्य	कार्य का नाम	कार्य का प्रकार	कार्य का स्थान	कार्य का प्रकार	कार्य का स्थान	
1	2								
(1)	20/03/23	3	चुनाव जमाने के अर्थात् इतिहास में भी सऊत में प्रचार पत्रिकाओं का अर्थात् नोट भेजने से	11.7.22	22.8.22	5	6	7	8
(2)	664/31.3.23		भोजन-पत्र जोन अर्थात् वरिष्ठ 34 शरीर-पत्र जो वरिष्ठ नाथ भद्रि के अर्थात् वरिष्ठ जोन में 45 वरिष्ठ सऊत का अर्थात् नोट इतर इतर	12-3-21	24-6-21		104	25	10700
(3)	755/30.3.23		सिटी जोन III वरिष्ठ - 93 वरिष्ठ वरिष्ठ वरिष्ठ जोन में वरिष्ठ वरिष्ठ जोन 80 मी वरिष्ठ वरिष्ठ वरिष्ठ के वरिष्ठ का अर्थात् नोट वरिष्ठ वरिष्ठ	28.3.21	16.10.21		230	25	23000
(4)	786/30.3.23		सिटी जोन वरिष्ठ के अर्थात् वरिष्ठ 10-93 वरिष्ठ वरिष्ठ वरिष्ठ वरिष्ठ वरिष्ठ का अर्थात् नोट वरिष्ठ वरिष्ठ	8.4.2021	14.6.21		67	25	6700
(5)	1309/31.3.23		भोजन-पत्र जोन के अर्थात् सिटी जोन वरिष्ठ वरिष्ठ वरिष्ठ 10-5 के वरिष्ठ वरिष्ठ वरिष्ठ वरिष्ठ वरिष्ठ का अर्थात् नोट वरिष्ठ वरिष्ठ	6.7.22	17.8.22		42	25	4200

1	2	3	4	5	6	7	8
(6)	665/30.3.22	ऑडिटर III के अतिरिक्त एकाधिक 54-101 ई.डी.एच. मरदाना का अर्थ/शे 230000 अर्थ	6.9.2022	26.9.22	20	2000	2000
(7)	709/11-	अतिरिक्त ऑडिटर के अंतर्गत अतिरिक्त वार्षिक के लिए ऑडिटर शी-मालको के ए.ए.पी.पी. पट्टे के लिए मरदाना का अर्थ शी राजपुत्र वारड एल.ए.ए.ए.ए.	21.11.22	13.1.23	53	2000	5300
(8)	2020/31.3.23	ऑडिटर ऑडिटर-1 के वार्षिक-96 दोस्त-पुस्तक सामग्रियों के अतिरिक्त ऑडिटर शी-मालको के ए.ए.ए.पी.पी. पट्टे के लिए एल.ए.ए.ए.ए. का अर्थ/शे मरदाना अर्थ	09.12.21	12.4.22	130	2000	13000
(9)	133/1.3.23	ऑडिटर ऑडिटर II के अतिरिक्त वार्षिक के वार्षिक अर्थ 220 ई.डी.एच. मरदाना का अर्थ/शे ए.के.वार्ड एल.ए.ए.ए.ए.	18.12.22	31.1.23	43	2000	4300
(10)	1310/31.3.23	ऑडिटर ऑडिटर II वार्षिक-9 अतिरिक्त के अतिरिक्त वार्षिक के 10(4.8. ऑडिटर-पुस्तक अतिरिक्त मरदाना अर्थ 200000	21.7.22	1.10.22	70	—	7000
(11)	2012/11-	अतिरिक्त ऑडिटर वार्षिक-74 शे-19 अतिरिक्त वार्षिक के 61 मरदाना 10 H.P. ऑडिटर-पुस्तक अतिरिक्त का अर्थ	12.8.22	1.10.22	48	—	4800

-1002- (502) अथवा 502 का कार्य का विवरण अथवा 502 का कार्य का विवरण

अथवा 502 का कार्य का विवरण अथवा 502 का कार्य का विवरण

क्र.सं.	दिनांक	विवरण	आवक्य	आवक्य	आवक्य	आवक्य	आवक्य	आवक्य
1	2	3	4	5	6	7	8	
(12)	20/11/2023	दिनांक 15 अक्टूबर 2023 का कार्य का विवरण	5.12.22	16.12.22	11	22	1100	
(13)	7/10/2022	दिनांक 10.11.22 का कार्य का विवरण	2.9.22	24.9.22	22	22	2200	
(14)	7/6/2023	दिनांक 21 अक्टूबर 2023 का कार्य का विवरण	7.9.22	29.11.22	22	22	2200	
(15)	13/08/2023	दिनांक 15 अक्टूबर 2023 का कार्य का विवरण	4.7.22	13.9.22	69	69	6900	
(16)	20/11/2023	दिनांक 10.11.22 का कार्य का विवरण	27.10.22	27.12.22	61	61	6100	

अथवा 502 का कार्य का विवरण

1	2	3	4	5	6	7	8
17	2025/31.3.23	ऑफिस भेजा गया है। ऑफिस में प्रवेश अभिलेखित 10.11.23 को किया गया है।	28.11.20	2-8-21	278	3000	24800
(18)	663/30.3.23	मौज-गार जोन ऑफिस 34 अक्षर-गार 25 महीने के प्रवेश अभिलेखित 10.11.23 को किया गया है।	26.11.20	20.2.21	86	—	8600
(19)	808/—	ऑफिस 59 दिन बन्दगी का है। 30.11.23 तक है। ऑफिस पर बन्दगी के 50 फीसदी 120 फीसदी, ऑफिस पर बन्दगी का अर्थ/मौज का बन्दगी प्रवेश	27.7.22	2.9.22	68	—	6800
(20)	714/30.3.23	मौज-गार का बन्दगी बन्दगी प्रवेश अभिलेखित 10.11.23 को किया गया है।	25.5.22	10.8.22	76	—	7600
(21)	565/18.3.23	ऑफिस में प्रवेश अभिलेखित 10.11.23 को किया गया है। ऑफिस पर बन्दगी प्रवेश	11.7.22	19.8.22	38	—	3800
(22)	725/30.3.23	ऑफिस में प्रवेश अभिलेखित 10.11.23 को किया गया है। ऑफिस पर बन्दगी प्रवेश	30.11.22	16.1.23	47	—	4700

1	2	3	4	5	6	7	8
1288	791 20.12.23	विद्यार्थी - 1 के अर्थात् चार्ज-59 मिलेला परन्तु भीडी के लिए अनुदान काही नहीं है अतिमात्र है अपने एडमिशन के लिए 3" मास की मोफो पर चार्ज पर ही लेविस साके न्त अर्ध । भी विमल सुखरायनेन	28.5.22	18.7.22	48	225	4850
129	2018 31.3.23	मोहन-नार जोन में विद्यार्थी पर चार्ज में नल्लय पर की नएर दीगी की भरना व रोजी प्रार्थी न्त अर्ध भी नएरिग सुखरायनेन	7.7.22	17.8.22	40	225	4050
130	1990 31.3.23	अतिमात्र जोन के अर्थात् शिवनार चार-9 किं क्षणमात्र पर चार्ज-02 में 02-नार सुखीने शिवने की अर्ध अर	2.12.22	13-1-23	41	225	4150
131	2016 31.3.23	मोहन नार जोन विद्यार्थी पर चार्ज में नल्लय-01 के पर चार्ज व नएर दीगी की भरना न्त अर्ध भी नएरिग सुखरायनेन	6.7.22	19.8.22	43	225	4350
132	2011 31.3.23	मोहन नार जोन विद्यार्थी पर चार्ज में नल्लय-04 के पर चार्ज व नार दीगी की भरना चार्ज रोजी-प्रार्थी न्त अर्ध । भी नएरिग सुखरायनेन	6.7.22	18.8.22	42	225	4250

अनुशासक के कार्यों के निरूपण (अधीनस्थ) के
 आधिकारिक कार्यों का निरूपण

क्र.सं.	दिनांक	वर्क का विवरण	दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक
1			4	5	6	7	8	
(33)	23/3/23	कार्ड-42 में 6 नए ई-पत्र अधिकाधिक नए कार्य में एक नया कार्य	10/11/22	21/12/22	5/1	22/1	22/1	5100
(34)	723/30.3.23	अधिकाधिक नए कार्य - 46 कार्डों के लिए प्रारंभिक प्रारंभिक के अंतर्गत प्रारंभिक के अंतर्गत प्रारंभिक नए कार्य में ए-पत्र प्रारंभिक	30/11/22	16/1/23	46	—	—	4600
(35)	772/—	अधिकाधिक नए कार्य - 71 कार्डों में 23 ए-पत्र कार्डों के लिए प्रारंभिक के अंतर्गत प्रारंभिक नए कार्य में प्रारंभिक प्रारंभिक	30/11/22	16/1/23	46	—	—	4600
36)	726/30.3.23	अधिकाधिक नए कार्य - 72 कार्डों के अंतर्गत प्रारंभिक में 110 कार्डों, कार्डों में 185 नए कार्य में प्रारंभिक प्रारंभिक प्रारंभिक कार्डों नए कार्य में प्रारंभिक प्रारंभिक	12/10/22	28/12/22	15	—	—	1500

508
 505
 1007
 काम का नाम से विलम्ब अर्थात् अर्थात् न विलम्ब के
 काम का नाम का विवरण



क्र.सं.	दिनांक	कार्य का विवरण	कार्य शुरू होने का तिथि	कार्य समाप्त होने का तिथि	दिनांक	कार्य का नाम	कार्य का नाम
42	1986/31.3.23	कार्य एवं ठेका का नाम	4	5	6	7	8
43	2005/11-	सिटी जोन: प्रथम वार्ड-08 ए.डी.ए. पार्क के अंदर निरालय पर स्थित अस्ति का अर्थ है एडमंड एडमंड सिटी जोन: एडमंड के अंदर वार्ड-93 में स्थित एडमंड प्रथम वार्ड में प्रथम वार्ड पार्क एडमंड का अर्थ है एडमंड एडमंड	29.11.22	16.1.23	47	225	4700
44	572/18.3.23	सिटी जोन: एडमंड के अंदर वार्ड-84 एडमंड एडमंड-10 एडमंड एडमंड के अंदर एडमंड 30 एडमंड एडमंड एडमंड एडमंड एडमंड का अर्थ है एडमंड एडमंड एडमंड	4.9.22	11.11.22	67	225	6700
45	1993/31.3.23	सिटी जोन: एडमंड एडमंड-02 एडमंड एडमंड एडमंड एडमंड-04 एडमंड एडमंड के अंदर एडमंड एडमंड एडमंड की अर्थ है एडमंड एडमंड एडमंड	30.12.21	1.4.22	91	225	9100
			2-12-22	13.1.23	42	-	4200

1011-510

संस्कृतिका अधिका अता - क की प्रविष्टि-मोड संशोधन

परिशिष्ट-27

क्र. सं.	कार्य प्रमाणात दिनांक	कार्य का नाम / कार्य का नाम	माप - प्रविष्टि अधिका अधिकतम नाम	माप	कर	प्रविष्टि	प्रविष्टि की प्रविष्टि प्रविष्टि	माप	कर	प्रविष्टि	अधिकतम अधिकतम
1	2-2-23	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	4/3/2-2-23	उत्तर मोडर पाई के अन्तर का प्रविष्टि एडिमाए के एडिमाए नई एडिमाए का प्रविष्टि एडिमाए नई एडिमाए नई एडिमाए	8 मी. मी. आई पाई एडिमाए 9 मी. मी. आई पाई एडिमाए 120 एडिमाए एडिमाए 150 एडिमाए एडिमाए 10 एडिमाए एडिमाए 30 एडिमाए एडिमाए 50 एडिमाए एडिमाए आई रिज	18290 — — 04 33 —	18290 — — 9144 327 —	18290 — — 36576 10791 —	11749 — — 6013 125 —	1 — — 4 33 —	11749 — — 6013 125 —	10 — — 24052 4125 —	12 6541 — — 12524 6666 —
2)	120/1-3-23	पाई सं-41 मदीराम पर के प्रविष्टि प्रिचालन के प्रविष्टि प्रिचालन के प्रविष्टि प्रिचालन के प्रविष्टि प्रिचालन के प्रविष्टि प्रिचालन के प्रविष्टि प्रिचालन के प्रविष्टि प्रिचालन	8 मी. मी. आई पाई एडिमाए 9 मी. मी. आई पाई एडिमाए 120 एडिमाए एडिमाए 150 एडिमाए एडिमाए 10 एडिमाए एडिमाए 30 एडिमाए एडिमाए 50 एडिमाए एडिमाए आई रिज	01 — — 04 32 —	18290 — — 9144 327 —	18290 — — 36576 10791 —	11749 — — 6013 125 —	1 — — 4 32 —	11749 — — 6013 125 —	11749 — — 24052 4000 1995	25731 6541 — — 12524 6791 505
				2500	2500	1995	01	1995	1995	505	24361




-1019-



10/14

10/14



1919

स्वामीजी का आग्रह आ-क-के प्रस्ताव-115' के अन्तर्गत।

513

परिशिष्ट- 23

क्र.सं.	दिनांक	प्रमाण	पं.सं.	विवरण	दिनांक
1	02-2-23	60/	433150	श्री. विरका नरसरी श्री. विरका नरसरी श्री. विरका नरसरी	15-4-21
2	11-6-21	1183/	78450	श्री. विरका नरसरी	23-6-20
3	31-3-23	1484/	94450	श्री. विरका नरसरी	04-9-20
4	31-3-23	1457/	87450	श्री. विरका नरसरी	15-6-16
5	31-3-23	1539/	241250	श्री. विरका नरसरी	15-4-21
6	31-3-23	1541/	231550	श्री. विरका नरसरी	15-4-21

1	2	3	4
7.	1554/ 31-3-23	159,800	40 फोर्सो ऑफिस
8.	1555/ 31-3-23	6,86,500	40 फोर्सो ऑफिस
9.	56/ 02-2-23	62,400	40 फोर्सो ऑफिस
10.	57/ 02-2-23	67,700	40 फोर्सो ऑफिस
11.	77/ 02-2-23	2,44,300	40 फोर्सो ऑफिस

(514)

15-4-21
 40 फोर्सो ऑफिस 15 फोर्सो 912 को 2/1/21 को
 40 फोर्सो ऑफिस 40 फोर्सो 40 फोर्सो ऑफिस
 40 फोर्सो ऑफिस 45-4/21 को 40 फोर्सो ऑफिस
 40 फोर्सो ऑफिस 40 फोर्सो ऑफिस

15-4-21
 40 फोर्सो ऑफिस 40 फोर्सो ऑफिस 40 फोर्सो ऑफिस
 40 फोर्सो ऑफिस 40 फोर्सो ऑफिस 40 फोर्सो ऑफिस
 40 फोर्सो ऑफिस 40 फोर्सो ऑफिस 40 फोर्सो ऑफिस

15-4-21
 40 फोर्सो ऑफिस 40 फोर्सो ऑफिस 40 फोर्सो ऑफिस
 40 फोर्सो ऑफिस 40 फोर्सो ऑफिस 40 फोर्सो ऑफिस
 40 फोर्सो ऑफिस 40 फोर्सो ऑफिस 40 फोर्सो ऑफिस

15-4-21
 40 फोर्सो ऑफिस 40 फोर्सो ऑफिस 40 फोर्सो ऑफिस
 40 फोर्सो ऑफिस 40 फोर्सो ऑफिस 40 फोर्सो ऑफिस
 40 फोर्सो ऑफिस 40 फोर्सो ऑफिस 40 फोर्सो ऑफिस

15-4-21
 40 फोर्सो ऑफिस 40 फोर्सो ऑफिस 40 फोर्सो ऑफिस
 40 फोर्सो ऑफिस 40 फोर्सो ऑफिस 40 फोर्सो ऑफिस
 40 फोर्सो ऑफिस 40 फोर्सो ऑफिस 40 फोर्सो ऑफिस

15-4-21
 40 फोर्सो ऑफिस 40 फोर्सो ऑफिस 40 फोर्सो ऑफिस
 40 फोर्सो ऑफिस 40 फोर्सो ऑफिस 40 फोर्सो ऑफिस
 40 फोर्सो ऑफिस 40 फोर्सो ऑफिस 40 फोर्सो ऑफिस

515

क्र.सं.	क्र.सं.	प्रमाणिका	राशि	विवरण	दिनांक
1	2.	3		कार्य का विवरण	17/1/19 10/11/19 13/1/19 6.
12	1482/ 31-3-23	85,400	4.	श्री 5 को अग्रिम अर्थोपार्जन पर 12-6-20 का अर्थोपार्जन	12-6-20
13	1450/ 31-3-23	3,36,800	श्री 6 का अर्थोपार्जन	श्री 6 का अर्थोपार्जन श्री 6 का अर्थोपार्जन श्री 6 का अर्थोपार्जन श्री 6 का अर्थोपार्जन श्री 6 का अर्थोपार्जन	15-4-21
14	78/ 02-2-23	1,96,900	श्री 7 का अर्थोपार्जन	श्री 7 का अर्थोपार्जन श्री 7 का अर्थोपार्जन श्री 7 का अर्थोपार्जन श्री 7 का अर्थोपार्जन श्री 7 का अर्थोपार्जन	10-12-12
15	63/ 02-2-23	रु. 518100	श्री 8 का अर्थोपार्जन	श्री 8 का अर्थोपार्जन श्री 8 का अर्थोपार्जन श्री 8 का अर्थोपार्जन श्री 8 का अर्थोपार्जन श्री 8 का अर्थोपार्जन	15-4-21
16	2401/ 31-3-23	1,82,400	श्री 9 का अर्थोपार्जन	श्री 9 का अर्थोपार्जन श्री 9 का अर्थोपार्जन श्री 9 का अर्थोपार्जन श्री 9 का अर्थोपार्जन श्री 9 का अर्थोपार्जन	15-4-21
17	1437/ 31-3-23	154000	श्री 10 का अर्थोपार्जन	श्री 10 का अर्थोपार्जन श्री 10 का अर्थोपार्जन श्री 10 का अर्थोपार्जन श्री 10 का अर्थोपार्जन श्री 10 का अर्थोपार्जन	15-4-21

1	2	3	4	5	6
18.	64/ 02-3-23	82400	40000/रु रिट	40000/रु रिट 24/3/23	12-6-20
19.	68/ 02-2-23	349000	40000/रु रुट	40000/रु रुट 24/3/23	15-4-21
20.	1514/ 31-3-23	23900	40000/रु रुट	40000/रु रुट 24/3/23	15-4-21
21	540/ 18-3-23	907200	40000/रु रुट	40000/रु रुट 24/3/23	12-6-21
22.	1542/ 31-3-23	193700	40000/रु रुट	40000/रु रुट 24/3/23	12-6-21
23.	1543/ 31-3-23	5096200	40000/रु रुट	40000/रु रुट 24/3/23	12-6-21

516

1000

517

क्र.सं.	दिनांक	राशि	विवरण	दिनांक
1	9/3/23 7/5/23	2.	8000 का वसुली	17/9/23 31/12/23 15/1/24
24.	65/ 2-2-23	91300	4. क. मंडार सिद्ध	6. 12-6-20
25.	1513/ 31-3-23	137400	श्री लक्ष्मी देवदास का	15-4-21
26	76/ 2-2-23	78700	श्री गीता देवि का	04-9-20
27.	1496/ 31-3-23	141,000	श्री संजय कुमार	12-6-20
28.	1497/ 31-3-23	146900	श्री संजय का	12-6-20
29.	1494/ 31-3-23	88480	श्री मंडार सिद्ध	12-6-20

1022

518

1	2	3	4	5	6
30	1526/ 31-3-23	86700	11/211 2954 अवकाश	54-11-11 15-55-11 21111 41 अं 21111 41 अं 45-41 अं अवकाश अवकाश अवकाश अवकाश अवकाश अवकाश	15-4-21
31	1462/ 31-3-23	302300	40 अक्षरक अवकाश	अवकाश अवकाश अवकाश अवकाश अवकाश अवकाश अवकाश अवकाश अवकाश	15-4-21
32	82/ 02-2-23	2,83,700	अक्षरक अवकाश	अवकाश अवकाश अवकाश अवकाश अवकाश अवकाश अवकाश अवकाश अवकाश	12-6-20
33	1473/ 31-3-23	90600	अक्षरक अवकाश	अवकाश अवकाश अवकाश अवकाश अवकाश अवकाश अवकाश अवकाश अवकाश	15-4-2
34	1553/ 31-3-23	191100	अक्षरक अवकाश	अवकाश अवकाश अवकाश अवकाश अवकाश अवकाश अवकाश अवकाश अवकाश	12-6-2
35	62/ 02-2-23	180,700	अक्षरक अवकाश	अवकाश अवकाश अवकाश अवकाश अवकाश अवकाश अवकाश अवकाश अवकाश	15-4-2
36	1461/ 31-3-23	309200	अक्षरक अवकाश	अवकाश अवकाश अवकाश अवकाश अवकाश अवकाश अवकाश अवकाश अवकाश	15-4-2

1	9130R 2. / 20/14/21	95300	40 4/13/14 4/4	12-6-20	12-6-20	6. / 12-6-20
37.	1474 / 31-3-23	95300	40 4/13/14 4/4	12-6-20	12-6-20	6. / 12-6-20
38.	66 / 2-2-23	96500	40 4/13/14 4/4	12-6-20	12-6-20	6. / 12-6-20
39.	1544 / 31-3-23	91370	40 4/13/14 4/4	12-6-20	12-6-20	6. / 12-6-20
40.	1488 / 31-3-23	90100	40 4/13/14 4/4	12-6-20	12-6-20	6. / 12-6-20
41.	1489 / 31-3-23	348900	40 4/13/14 4/4	12-6-20	12-6-20	6. / 12-6-20
42.	58 / 02-2-23		40 4/13/14 4/4	12-6-20	12-6-20	6. / 12-6-20

1	2	3	4
43.	1433/ 31-3-23	506856	4 No. 298/2013
44.	1483/ 31-3-23	90968	4 No. 43/9/2013
45.	1506/ 31-3-23	121250	4 No. 214/2013
46.	1525/ 31-3-23	97,360	4 No. 214/2013
47.	1550/ 31-3-23	87960	4 No. 214/2013
48.	1551/ 31-3-23	70,000	4 No. 214/2013

526

Part

5.	6.
<p>15-4-21</p> <p>12-6-20</p> <p>15-4-21</p> <p>12-6-20</p> <p>15-4-21</p> <p>12-6-20</p> <p>15-4-21</p> <p>12-6-20</p>	<p>15-4-21</p> <p>12-6-20</p> <p>15-4-21</p> <p>12-6-20</p> <p>15-4-21</p> <p>12-6-20</p> <p>15-4-21</p> <p>12-6-20</p>

क्र.सं.	दि.सं. / फ.सं.	प.सं.	विवरण	दि.सं.	प.सं.	विवरण	दि.सं.	प.सं.
1	21-3-23	3	...	4
49	1551 / 31-3-23	574,200	...	5	15-4-21
50	1546 / 31-3-23	93,400	...	5	12-6-20
51	1549 / 31-3-23	80,800	...	5	12-6-20
52	1548 / 31-3-23	42,000	...	5	15-4-21
53	1547 / 31-3-23	91,700	...	5	12-6-20
54	1477 / 31-3-23	95,500	...	5	12-6-20

1026

(522)

1	2	3	4	5	6
55.	1478/ 31-3-23	92,900	40 45/100 रु०	41/100 रु० 40 45/100 रु० 12-6-20	12-6-20
56.	1479/ 31-3-23	96,000	40 45/100 रु०	41/100 रु० 40 45/100 रु० 12-6-20	12-6-20
57.	1545/ 31-3-23	93,300	40 45/100 रु०	41/100 रु० 40 45/100 रु० 12-6-20	12-6-20
58.	1472/ 31-3-23	89,400	40 45/100 रु०	41/100 रु० 40 45/100 रु० 12-6-20	12-6-20
59.	1476/ 31-3-23	88,500	40 45/100 रु०	41/100 रु० 40 45/100 रु० 12-6-20	12-6-20
60.	1519/ 31-3-23	23,900	40 45/100 रु०	41/100 रु० 40 45/100 रु० 12-6-20	12-6-20

क्र.सं.	दिनांक	चक्र/पत्र	शुद्धी का नाम	काम का विवरण	दिनांक
61.	15/11/31-3-23	677500	श्री राम चरण	काम का विवरण 5 कोष का नाम श्री राम चरण प्रा.सं. 15/11/31-3-23 शुद्धी का नाम श्री राम चरण क्र.सं. 15/11/31-3-23	15-4-21
62.	24/2/31-3-23	84,200	श्री मदन मोहन मालवीय	काम का विवरण 4 श्री मदन मोहन मालवीय प्रा.सं. 24/2/31-3-23	12-6-20
63.	14/8/31-3-23	90600	श्री मदन मोहन मालवीय	काम का विवरण 4 श्री मदन मोहन मालवीय प्रा.सं. 14/8/31-3-23	12-6-20
64.	14/5/31-3-23	38700	श्री मदन मोहन मालवीय	काम का विवरण 5 श्री मदन मोहन मालवीय प्रा.सं. 14/5/31-3-23	15-4-21
65	14/5/31-3-23	53950	श्री मदन मोहन मालवीय	काम का विवरण 5 श्री मदन मोहन मालवीय प्रा.सं. 14/5/31-3-23	15-4-21

1	2	3	4	5	6
66.	59/ 02-2-23	229500	Handwritten signature	Handwritten notes	15-4-21
67.	55/ 02-2-23	8500	Handwritten signature	Handwritten notes	15-4-21
68	52/ 02-2-23	342,300	Handwritten signature	Handwritten notes	15-4-21
69.	1480/ 31-3-23	93,800	Handwritten signature	Handwritten notes	12-6-20
70.	1495/ 31-3-23	93580	Handwritten signature	Handwritten notes	12-6-20
71	1456/ 31-3-23	91100	Handwritten signature	Handwritten notes	12-6-20

क्र.सं.	दिनांक	राशि	विवरण	दिनांक	विवरण
1	2.	3
72	14 87 / 31-3-23	82,400
73	14 89 / 31-3-23	90,000
74	14 67 / 31-3-23	86,700
75	15 01 / 31-3-23	247,000
76	15 31 / 31-3-23	1,65,600
77	24 10 / 31-3-23	95,200

12-6-20
12-6-20
12-6-20
12-6-20
01-7-21
12-6-20

526

1030


11, 1

1	2	3	4	5	6
78.	1504/ 31-3-23	2,86,400	Handwritten notes	Handwritten notes	15-4-21
79.	1514/ 31-3-23	1,45,000	Handwritten notes	Handwritten notes	15-4-21
80.	1517/ 31-3-23	8,21,000	Handwritten notes	Handwritten notes	15-4-21
81.	1518/ 31-3-23	2,39,000	Handwritten notes	Handwritten notes	15-4-21
		1,28,28,030/5			


वित्तीय वर्ष 2022-23 में गाजियाबाद नगर निगम सीमान्तगत स्थित समस्त मकों के प्रतिष्ठानों एवं वाहनों को निर्गत किये गये ट्रेड लाइसेन्सों की प्रगति विवरण

विवरण

क्र० सं०	मक का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल चिन्हित प्रतिष्ठानों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2021-22 जारी नोटिसों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल जारी लाइसेन्स की संख्या	निर्गत लाइसेन्सों से प्राप्त की गयी कुल धनराशि	वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल चिन्हित प्रतिष्ठानों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल जारी नोटिसों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल जारी लाइसेन्स की संख्या	निर्गत लाइसेन्सों से प्राप्त की गयी कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	होटल लॉजिंग तथा गैस्ट हाउस तथा बारात घर	171	171	85	106950	187	187	77	138050
2	तीन सितारा होटल	6	6	5	44500	6	6	3	19350
3	पाँच सितारा होटल	2	2	2	24000	2	2	2	24500
4	रेस्टोरेंट, जलपान, गृह, इंटिंग हाउस	340	340	189	232700	350	350	159	197400
5	बारात घर	54	54	45	55500	57	57	37	55900
6	यूनानी/आयुर्वेदिक/होम्यो क्लीनिक	9	9	4	12000	9	9	4	13500
7	नर्सिंग होम (20 बेड तक)	76	76	63	197800	69	69	22	59600
8	नर्सिंग होम (20 बेड से ऊपर)	10	10	12	55000	17	17	5	19500
9	प्रसूति गृह (20 बेड तक)	8	8	6	22000	23	23	5	25300
10	प्रसूति गृह (20 बेड से ऊपर)	2	2	0	0	2	2	0	0
11	गैस्ट हाउस होटल (20 बेड से अधिक)	40	40	25	40550	40	40	12	12000
12	गैस्ट हाउस होटल (20 बेड से अधिक)	6	6	6	10900	6	6	10	23150
13	प्राइवेट अस्पताल	50	50	36	199100	61	61	52	293500
14	फैथोलॉजी सेन्टर	81	81	36	40000	85	85	39	121300
15	एक्सरे क्लीनिक	60	60	48	153400	61	61	12	25000
16	डेंटल क्लीनिक	408	408	178	697300	285	285	137	542600
17	प्राइवेट क्लीनिक	161	161	81	300000	281	281	121	356500
18	फाईनेन्स कम्पनी, चिट फंड	28	28	8	55200	31	31	12	190800
19	इन्श्योरेंस कम्पनी (प्रति शाखा)	22	22	8	96000	8	8	2	24000
20	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	8	8	1	5000	8	8	0	0
21	बार/बियर	26	26	16	112200	50	50	42	371200
22	देशी शराब (प्रति दुकान)	118	118	72	464200	104	104	77	653600
23	विदेशी शराब (प्रति दुकान)	84	84	48	538800	75	75	46	775800
24	मॉडल शॉप	9	9	7	84000	6	6	3	36000
25	आईस फैक्ट्री	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ऑटो रिक्शा 2 सीटर	3577	3577	3577	1422110	6978	6978	6902	2577525
27	ऑटो रिक्शा 7 सीटर (टैम्पो)	324	324	341	246240	816	816	1319	835340
28	ऑटो रिक्शा 4 सीटर	3582	3582	3746	1787820	4396	4396	4865	2493645
29	इ रिक्शा			204	79200	832	832	860	406720



10325



10574

1035 529

संपरीक्षा आस्था आग-बू के प्रसार 164 प्रसारण

नगर निगम गांधीवाड 1 दिनांक - 31-03-2023 को असमाप्तोत्पन्न आगों का निवेदन

प्रसारण - 30

क्रमांक	आग का प्रकार	दिनांक	विवरण	मूल्य
01	नगर निगम	515/23-1-2000	आग का प्रसारण	100000 =
02	उचांग प्रसार	116/7-2-2000	आग का प्रसारण	50000 =
03	उचांग प्रसार	913/30-2-2000	आग का प्रसारण	25000 =
04	उचांग प्रसार	1075/29-9-2000	आग का प्रसारण	16000 =
05	नगर निगम (अंतरांग प्रसार)	40/4-4-2000	आग का प्रसारण	22760 =
06	उचांग प्रसार	41/4-4-2000	आग का प्रसारण	23990 =
07	उचांग प्रसार	525/25-11-2000	आग का प्रसारण	40750 =
08	उचांग प्रसार	405/9-7-2001	आग का प्रसारण	50000 =
09	उचांग प्रसार	139/4-8-2001	आग का प्रसारण	20000 =
10	नगर निगम (अंतरांग प्रसार)	270/8-8-2001	आग का प्रसारण	200000 =
11	नगर निगम (अंतरांग प्रसार)	319/10-8-2001	आग का प्रसारण	500000 =
12	उचांग प्रसार	353/13-9-01	आग का प्रसारण	50000 =
13	नगर निगम (अंतरांग प्रसार)	753/1-7-2000	आग का प्रसारण	50000 =
14	उचांग प्रसार	115/7-4-2000	आग का प्रसारण	150000 =
15	उचांग प्रसार	05/8-10-01	आग का प्रसारण	98233 =
16	नगर निगम (अंतरांग प्रसार)	697/23-2-01	आग का प्रसारण	392960 =
17	उचांग प्रसार	426/12-10-01	आग का प्रसारण	500000 =
18	नगर निगम (अंतरांग प्रसार)	193/0-2-1999	आग का प्रसारण	7700 =
19	नगर निगम (अंतरांग प्रसार)	736/27-10-01	आग का प्रसारण	67200 =
20	उचांग प्रसार	395/01-05-02	आग का प्रसारण	3000 =
21	उचांग प्रसार	319/12-11-01	आग का प्रसारण	52000 =

44	नगर आरणा (अलकल)	661/20.5.02	पाइप कार्य करने हेतु	6440861-
45	" "	246/9.10.02	सड़क पथ के स्थान निर्माण हेतु	337600-
46	नगर निगम	289/10.10.02	सड़क कार्य हेतु	200000-
47	नगर आरणा (अलकल)	520/17.10.02	सड़क कार्य हेतु	6500-
48	नगर आरणा (अलकल)	485/11.10.02	काली के पास सड़क निर्माण हेतु	25358-
49	नगर आरणा (मिर्जापुर)	528/18.10.02	काली नदी के पास सड़क निर्माण हेतु	80000-
50	" "	524/50-	पाइप कार्य हेतु	110000-
51	नगर आरणा (अलकल)	485/11.10.02	पाइप कार्य हेतु	1100000-
52	" "	687/03.10.02	" "	80000-
53	नगर आरणा (मिर्जापुर)	790/अक्टूबर 02	इस्लाम नगर के सड़क निर्माण हेतु	80000-
54	श्री चन्द्रधन (सिरीकपुर)	1107/27.11.02	पाइप कार्य हेतु	100000-
55	श्री बुजपाल सिंह मल्लिक (सिवापुर)	411/13.12.02	नरेश राई मेमोरियल चौक पर पाइप कार्य हेतु	6000-
56	नगर आरणा (अलकल)	236/7.12.02	श्री टापर वर्ल्ड से टापर काम करने हेतु	25000-
57	" "	109/4.12.02	सगर सिविल पर काम करने हेतु	37200-
58	" "	110/4.12.02	" "	39633-
59	नगर आरणा (मिर्जापुर)	536/15.12.02	डाइनामिक्ट गेट गाली के काम के सार्वजनिक	38676
60	नगर आरणा (अलकल)	533/15.12.02	डाइनामिक्ट गेट - 2 के काम करने हेतु	500000-
61	श्री चन्द्रधन (अमरपुर)	531/19.12.02	पाइप कार्य हेतु	198200-
62	" नगर निगम	1130/26.11.02	नगर निगम सुविधा हेतु	3250-
63	" नगर निगम	530/19.02.02	" "	20000-
64	नगर आरणा (मिर्जापुर)	916/19.8.02	वज्रपुर के गाली की स्थापना हेतु	25000-
65	" "	720/01.01.03	नरेश चौक पर सड़क निर्माण हेतु	20000-
				125000-

66	नगर निगम (निर्माण)	756/1-12-02	पार्क प्रस्ताव हेतु	100000 -
67	- " -	40/1-3-03	कामगोशाला के कच्चेरों के चारों ओर रोडिंग का काम	200000 -
68	नगर निगम (प्रमजल)	91/1-3-12	पम्प कायदा हेतु	32610 -
69	परिभाषणा विवरण (SS)	165/13-3-03	नगर निगम के सामने एक नया निर्माण हेतु	65577 -
70	- " -	903/13-3-03	पैदावार के गार्डिंग का काम हेतु	69910 -
71	नगर निगम (निर्माण)	915/13-3-03	रंगमंच का निर्माण हेतु	100000 -
72	- " -	1217/19-3-03	नगर निगम के सामने पार्क का निर्माण हेतु	107000 -
73	- " -	1218/19-3-03	नगर निगम के सामने पार्क का निर्माण हेतु	100000 -
74	- " -	1228/21-3-03	कचरा कचरे का निर्माण हेतु	033865 -
75	- " -	1329/21-3-03	नगर निगम के सामने पार्क का निर्माण हेतु	2194188 -
76	- " -	1029/1029/21-3-03	नगर निगम के सामने पार्क का निर्माण हेतु	1317093 -
77	- " -	1307/21-3-03	नगर निगम के सामने पार्क का निर्माण हेतु	100000 -
78	परिभाषणा आर्किटेक्चर (SS)	1316/22-2-03	नगर निगम के सामने पार्क का निर्माण हेतु	200000 -
79	- " -	1456/9-4-03	नगर निगम के सामने पार्क का निर्माण हेतु	500000 -
80	नगर निगम (निर्माण)	168230/9-4-03	नगर निगम के सामने पार्क का निर्माण हेतु	160000 -
81	- " -	8575/21-5-03	नगर निगम के सामने पार्क का निर्माण हेतु	100000 -
82	- " -	82200/20-6-03	नगर निगम के सामने पार्क का निर्माण हेतु	50000 -
83	- " -	555/24-7-03	नगर निगम के सामने पार्क का निर्माण हेतु	50000 -
84	- " -	699/24-11-03	नगर निगम के सामने पार्क का निर्माण हेतु	100000 -
85	- " -	927/1-8-03	नगर निगम के सामने पार्क का निर्माण हेतु	140000 -
86	- " -	37/8-07-03	नगर निगम के सामने पार्क का निर्माण हेतु	70000 -
87	नगर निगम (निर्माण)	604/12-9-03	नगर निगम के सामने पार्क का निर्माण हेतु	254720

16451181

1078

533



533
1039
285-
215-

88-	नगर आवास योजना (बालकला)	1303/30-11-03	जवाहर नगर में पापुप व्यापक योजना के तहत	1645118/-
89	"	605/12-09-03	पापुप व्यापक	200000-
90	"	1303/30-11-02	"	70125-
91	"	603/12-09-03	नारायण गार्डन ब्लाक में पापुप व्यापक योजना के तहत	200000-
92	नगर आवास योजना (निगम)	1505/25-9-03	विधान के तहत आवास	84410-
93	"	1035/25-9-03	विधान के तहत आवास	49500-
94	पापुप व्यापक योजना (निगम)	1624/26-9-03	विधान के तहत आवास	50211-
95	"	1206/26-9-03	विधान के तहत आवास	50000-
96	"	1523/26-9-03	राज्य विधान के तहत आवास	1083-
97	श्री रवींद्र प्रसाद पंचायत	565/19-11-03	पारसपुर में बालकला के तहत आवास	100000-
98	नगर आवास योजना (निगम)	626/1-12-03	रजवार के तहत आवास	10000-
99	नगर आवास योजना (निगम)	409/20-5-03	श्री ब्रजपाल समाधि नगर के तहत आवास	200000-
100	श्री अजीत सिंह (पुष्पचालक)	198/4-3-03	लक्ष्मी के क्लब के तहत आवास	2556-
101	" श्री वृन्दा लाल (पुष्पचालक)	01-2-7-04	पारसपुर के तहत आवास	50000-
102	" श्री राजेश कुमार (पुष्पचालक)	10-8-6-04	श्री जयपाल के तहत आवास	7550-
103	" श्री राजेश कुमार (पुष्पचालक)	61/6-7-04	लक्ष्मी के क्लब के तहत आवास	12022-
104	नगर आवास योजना (निगम)	50-10-21-595	विधान के तहत आवास	10000-
105	नगर आवास योजना (निगम)	44/2-8-2-05	नारायण गार्डन में बालकला के तहत आवास	45000-
106	श्री अजीत सिंह (पुष्पचालक)	50-2-0-11-661	श्री सरमा के तहत आवास	10000-
107	नगर आवास योजना (निगम)	60/10-3-01-669	जवाहर नगर के तहत आवास	15000-
108	नगर आवास योजना (निगम)	50-5-01-669	श्री अजीत सिंह के तहत आवास	9700-
				11000-

नगर निगम गाजियाबाद ।

109-	नगर आभियन्ता (जलकल)	9/12/22-03-05	श्री विवेक प्रकाश के ट्यूबवेल टेंडर	103216-00
110-	उपभोगी (आवक) का	11/2-3-05	श्री अशोक के पंप टेंडर	27756-00
111	नगर आभियन्ता (विद्युत)	9/3/22-3-05	श्री सुबोध के ट्यूबवेल टेंडर	64584-00
112	उपभोगी (आवक) का	255/13-5-05	श्री श्री अशोक सिंह माली के टेंडर टेंडर	20000-00
113	नगर आभियन्ता (जलकल)	577/17-01-05	श्री गणेश प्रसाद के टेंडर टेंडर	43751-00
114	- " -	740/30-5-05	- " -	19677-00
115	- " -	533-6-05	श्री अशोक के टेंडर टेंडर	9700-00
116	श्री नगर स्वास्थ्य आभियन्ता	132/20-7-05	श्री अशोक के टेंडर टेंडर	10000-00
117	नगर आभियन्ता (जलकल)	03/2-7-05	" श्री अशोक के टेंडर टेंडर	10000-00
118	- " -	666/26-10-05	श्री अशोक के टेंडर टेंडर	54972-00
119	- " -	724/28-20-05	श्री अशोक के टेंडर टेंडर	96000-00
120	- " -	22/01-05-06	श्री अशोक के टेंडर टेंडर	10000-00
121	- " -	1089/12-2-04	श्री अशोक के टेंडर टेंडर	196000-00
122	श्री नगर स्वास्थ्य आभियन्ता	312/19-8-03	श्री अशोक के टेंडर टेंडर	100000-00
123	- " -	2598/18-9-05	श्री अशोक के टेंडर टेंडर	9400-
124	- " -	841/28-9-07	श्री अशोक के टेंडर टेंडर	1135000-
125	श्री अशोक के टेंडर टेंडर	325/18-8-07	श्री अशोक के टेंडर टेंडर	34500-
126	श्री अशोक के टेंडर टेंडर	2192/31-3-08	श्री अशोक के टेंडर टेंडर	154710-
127	श्री अशोक के टेंडर टेंडर	780/14-2-08	श्री अशोक के टेंडर टेंडर	8600-
128	श्री अशोक के टेंडर टेंडर	2465/31-3-08	श्री अशोक के टेंडर टेंडर	400000-
129	श्री अशोक के टेंडर टेंडर	865/15-2-08	श्री अशोक के टेंडर टेंडर	2000-
130	श्री अशोक के टेंडर टेंडर (257)	532/12-2-08	श्री अशोक के टेंडर टेंडर	167277-00

131	श्री सुखमलपुत्र गानग	80-2-1-1/206	श्री सुख	4000=00
132	श्री सुखमलपुत्र	80-8-1/341	श्री सुखमलपुत्र गानग	25000=00
133	श्री सुखमलपुत्र	80-01-1/352	श्री सुखमलपुत्र गानग	20000=00
134	श्री सुखमलपुत्र	60-3-1/25	श्री सुखमलपुत्र गानग	690000=00
135	श्री सुखमलपुत्र	00/1-3-09	श्री सुखमलपुत्र गानग	690000=00
136	श्री सुखमलपुत्र	60-3-1/192	श्री सुखमलपुत्र गानग	30000=00
137	श्री सुखमलपुत्र	60-5-1/925	श्री सुखमलपुत्र गानग	495000=00
138	श्री सुखमलपुत्र	60-3-1/92	श्री सुखमलपुत्र गानग	385000=00
139	श्री सुखमलपुत्र	60-5-1/892	श्री सुखमलपुत्र गानग	23100=00
140	श्री सुखमलपुत्र	60-5-1/80	श्री सुखमलपुत्र गानग	358810=00
141	श्री सुखमलपुत्र	60-6-1/68	श्री सुखमलपुत्र गानग	50000=00
142	श्री सुखमलपुत्र	60-1-1/55	श्री सुखमलपुत्र गानग	27060=00
143	श्री सुखमलपुत्र	60-01-1/611	श्री सुखमलपुत्र गानग	24570=00
144	श्री सुखमलपुत्र	60-01-1/01	श्री सुखमलपुत्र गानग	24570=00
145	श्री सुखमलपुत्र	60-2-2/88	श्री सुखमलपुत्र गानग	21500=00
146	श्री सुखमलपुत्र	60-2-2/88	श्री सुखमलपुत्र गानग	24570=00
147	श्री सुखमलपुत्र	60-5-1/11	श्री सुखमलपुत्र गानग	5000=00
148	श्री सुखमलपुत्र	60-1-1/48	श्री सुखमलपुत्र गानग	24570=00
149	श्री सुखमलपुत्र	60-9-1/51	श्री सुखमलपुत्र गानग	32895=00
150	श्री सुखमलपुत्र	60-5-1/55	श्री सुखमलपुत्र गानग	03970=00
151	श्री सुखमलपुत्र	60-01-1/11	श्री सुखमलपुत्र गानग	25860=00
152	श्री सुखमलपुत्र	60-2-1/42	श्री सुखमलपुत्र गानग	21150=00

153	अणिकावाट	220/1709	60/1/1/022	अणिकावाट	23403106-
154	अणिकावाट	192/51/661	192/51/661	अणिकावाट	24180-
155	अणिकावाट	801/5/1/301	801/5/1/301	अणिकावाट	22380-
156	अणिकावाट	110/1/3/05	110/1/3/05	अणिकावाट	37810-
157	अणिकावाट	29/1/1/5	29/1/1/5	अणिकावाट	20000-
158	अणिकावाट	23/1/2/06	23/1/2/06	अणिकावाट	24570-
159	अणिकावाट	18/1/1/10	18/1/1/10	अणिकावाट	24570-
160	अणिकावाट	52/1/1/3/10	52/1/1/3/10	अणिकावाट	50000-
161	अणिकावाट	30/1/3/10	30/1/3/10	अणिकावाट	24570-
162	अणिकावाट	30/1/3/10	30/1/3/10	अणिकावाट	27030-
163	अणिकावाट	31/1/1/10	31/1/1/10	अणिकावाट	24570-
164	अणिकावाट	49/1/1/1/10	49/1/1/1/10	अणिकावाट	20000-
165	अणिकावाट	170/1/1/10	170/1/1/10	अणिकावाट	81970-
166	अणिकावाट	80/1/0/10	80/1/0/10	अणिकावाट	81970-
167	अणिकावाट	29/1/1/10	29/1/1/10	अणिकावाट	24570-
168	अणिकावाट	01/1/1/10	01/1/1/10	अणिकावाट	32310-
169	अणिकावाट	165/1/1/10	165/1/1/10	अणिकावाट	25320-
170	अणिकावाट	01/1/1/10	01/1/1/10	अणिकावाट	30810-
171	अणिकावाट	11/8/2/1	11/8/2/1	अणिकावाट	4635592-
172	अणिकावाट	30/1/7/3/1	30/1/7/3/1	अणिकावाट	25320-
173	अणिकावाट	10/1/1/10	10/1/1/10	अणिकावाट	100000-
174	अणिकावाट	16/1/1/10	16/1/1/10	अणिकावाट	22200-
					18300-

585

1043

288

गाजियाबाद ।

175	श्री सत्य प्रकाश	180/26.3.11	वसुदेव	28743338-
176	श्री गौरी राम लाल	143/18.4.11	-	50000-
177	श्री गौरी प्रकाश	208/24.4.11	-	24180-
178	श्री गौरी प्रकाश	203/24.9.11	-	25320-
179	श्री गौरी प्रकाश	113/16.1.12	-	30000-
180	श्री गौरी प्रकाश	225/18.9.12	-	28500-
181	श्री गौरी प्रकाश	81/20.4.13	पं. गौरी प्रकाश	25920-
182	-	760/20.9.13	-	452948-
183	-	28/3.10.13	-	166360-
184	-	124/24.10.13	-	237690-
185	श्री गौरी प्रकाश	344/30.11.13	-	206790-
186	श्री गौरी प्रकाश	100/7.1.13	श्री गौरी प्रकाश	2718000-
187	श्री गौरी प्रकाश	55/16.9.12	श्री गौरी प्रकाश	120000-
188	श्री गौरी प्रकाश	272/30.4.12	श्री गौरी प्रकाश	338936-
189	श्री गौरी प्रकाश	70/5.5.12	श्री गौरी प्रकाश	100000-
190	श्री गौरी प्रकाश	629/28.9.12	श्री गौरी प्रकाश	422626-
191	श्री गौरी प्रकाश	181/17.10.12	श्री गौरी प्रकाश	202968-
192	श्री गौरी प्रकाश	310/26.11.12	श्री गौरी प्रकाश	163057-
193	श्री गौरी प्रकाश	337/25.5.12	श्री गौरी प्रकाश	3000-
194	श्री गौरी प्रकाश	119/7.7.12	श्री गौरी प्रकाश	206898-
195	श्री गौरी प्रकाश	184/12.7.12	-	704009-
196	श्री गौरी प्रकाश	249/18.7.12	-	206898-

539

242

1045

291

722

प्राजिवादा. 1

219	श्री श्री नारायणसुखमठ	87/16.10.14	वसंतसिंह	105003545-
220	श्री श्री सुखमठ	748/21.10.14	-	28000-
221	श्री श्री सुखमठ	749/21.10.14	-	25140-
222	श्री श्री सुखमठ	636/21.10.14	श्री सुखमठ	25140
223	श्री श्री सुखमठ	757/21.1.14	वसंतसिंह	215222-
224	श्री श्री सुखमठ	102/10.12.14	-	24390-
225	श्री श्री सुखमठ	330/27.12.14	-	25920-
226	श्री श्री सुखमठ	39/9.2.15	-	30930-
227	श्री श्री सुखमठ	562/26.3.15	-	25140-
228	श्री श्री सुखमठ	135/175 अगस्त	75 सुखमठ	28680-
229	श्री श्री सुखमठ	186/29 अगस्त	वसंतसिंह	523404-
230	श्री श्री सुखमठ	389/339 अगस्त	-	25920-
231	श्री श्री सुखमठ	300/926 अगस्त	श्री सुखमठ	27480-
232	श्री श्री सुखमठ	303/926 अगस्त	-	39796-
233	श्री श्री सुखमठ	306/926 अगस्त	-	71308-
234	श्री श्री सुखमठ	307/926 अगस्त	-	19102-
235	श्री श्री सुखमठ	308/926 अगस्त	-	19102-
236	श्री श्री सुखमठ	309/926 अगस्त	-	19102-
237	श्री श्री सुखमठ	310/926 अगस्त	-	8160-
238	श्री श्री सुखमठ	311/ -	-	19102-
239	श्री श्री सुखमठ	312/ -	-	8160-
240	श्री श्री सुखमठ	314/ -	-	8160-
				8160-

106229063-
292-249-
540
1062

241	श्री गणेशाय नमः	315/926 भा. 1/16	ए. ए. ए. ए. ए. ए.	19102-
242	- १ -	317/924 भा. 1/16	- १ -	19102-
243	- १ -	320/926 भा. 1/16	- १ -	91386-
244	- १ -	295/926 भा. 1/16	- १ -	19102-
245	- १ -	297/926 भा. 1/16	- १ -	19102-
246	- १ -	298/926 भा. 1/16	- १ -	28848-
247	- १ -	299/926 भा. 1/16	- १ -	19102-
248	- १ -	294/926 भा. 1/16	- १ -	19102-
249	श्री गणेशाय नमः	514/3553 भा. 20/16	श्री गणेशाय नमः	29070-
250	श्री गणेशाय नमः	81/30663 भा. 1/16	- १ -	33540-
251	श्री गणेशाय नमः	838/2934 भा. 1/16	श्री गणेशाय नमः	328581-
252	श्री गणेशाय नमः	169/545 भा. 1/16	श्री गणेशाय नमः	293362-
253	- १ -	168/545 भा. 1/16	श्री गणेशाय नमः	899901-
254	श्री गणेशाय नमः	080/657 भा. 1/16	श्री गणेशाय नमः	276202-
255	श्री गणेशाय नमः	338/3109 भा. 1/16	श्री गणेशाय नमः	267000-
256	श्री गणेशाय नमः	499/3095 भा. 1/16	श्री गणेशाय नमः	100000-
257	श्री गणेशाय नमः	032/887 भा. 1/16	श्री गणेशाय नमः	35500-
258	श्री गणेशाय नमः	037/98/22 भा. 1/16	श्री गणेशाय नमः	29520-
259	श्री गणेशाय नमः	038/930/51 भा. 1/16	श्री गणेशाय नमः	28110-
260	श्री गणेशाय नमः	039/910/22 भा. 1/16	श्री गणेशाय नमः	25740-
261	श्री गणेशाय नमः	039/910/51 भा. 1/16	श्री गणेशाय नमः	22290-
262	श्री गणेशाय नमः	972/1000/27 भा. 1/16	श्री गणेशाय नमः	49540-

293
224

1040

541

263	श्री गणेश गौरी	978/0555/27.8.16	एनएच 27.8.16	19102 -
264	-	977/27.8.16	-	19102 -
265	-	977/-	-	19102 -
266	-	976/-	-	19102 -
267	श्री गणेश गौरी	603/26.12.16	एनएच 26.12.16	25920 -
268	"	804/-	-	26700 -
269	"	105/7.1.17	-	36270 -
270	"	666/18.2.17	-	26700 -
271	श्री गणेश गौरी	408/3.12.16	एनएच 3.12.16	9746 -
272	-	419/9.12.16	-	19102 -
273	-	406/-	-	9746 -
274	-	407/-	-	9746 -
275	-	409/-	-	9746 -
276	-	424/-	-	37306 -
277	-	410/-	-	38204 -
278	-	411/-	-	49544 -
279	-	422/-	-	38204 -
280	-	429/-	-	57306 -
281	-	428/-	-	38204 -
282	-	427/-	-	37796 -
283	-	418/-	-	38204 -
284	-	423/-	-	2000

100

223

542

244

275

109294423-

285	श्री प्रसाद गोरक्ष	417/9.12.16	टावर ट्रेडिंग अण्ड मॅनेजिंग	57306-
286	- 9 -	413/- 9 -	- 9 -	49542 -
287	- 9 -	432/- 9 -	- 9 -	30204 -
288	- 9 -	416/- 9 -	- 9 -	49134 -
289	- 9 -	430/- 9 -	- 9 -	30204 -
290	- 9 -	421/- 9 -	- 9 -	30204 -
291	- 9 -	414/- 9 -	- 9 -	49342 -
292	श्री. श्री. गणेश प्रसाद गोरक्ष	80/3.10.16	14 गणेश प्र. इन्फोटेक प्रेस अण्ड मॅनेजिंग	440583 -
293	- 9 -	2102/24.3.12	10 गोरक्ष प्र. इन्फोटेक प्रेस अण्ड मॅनेजिंग	227560 -
294	- 9 -	2101/24.3.12	45 गणेश प्र. इन्फोटेक प्रेस अण्ड मॅनेजिंग	665975 -
295	श्री. प्रसाद गोरक्ष - श्री. प्रसाद	344/24.4.12	9 गणेश प्र. इन्फोटेक प्रेस अण्ड मॅनेजिंग	70500 -
296	श्री. प्रसाद गोरक्ष प्र. इन्फोटेक प्रेस अण्ड मॅनेजिंग	01/1.8.12	श्री. प्रसाद गोरक्ष प्रेस अण्ड मॅनेजिंग	14850 -
297	- 9 -	56/8.8.12	- 9 -	3960 -
298	श्री. प्रसाद गोरक्ष प्र. इन्फोटेक प्रेस अण्ड मॅनेजिंग	29/10.9.12	9 गणेश प्र. इन्फोटेक प्रेस अण्ड मॅनेजिंग	73500 -
299	श्री. प्रसाद गोरक्ष - 9 -	426/28.9.12	- 9 -	117600 -
300	श्री. प्रसाद गोरक्ष प्रेस अण्ड मॅनेजिंग	952/16.10.12	गणेश प्रेस अण्ड मॅनेजिंग	706720 -
301	श्री. प्रसाद गोरक्ष प्रेस अण्ड मॅनेजिंग	499/24.11.12	- 9 -	292650 -
302	- 9 -	494/- 9 -	- 9 -	244260 -
303	- 9 -	492/24.11.12	गणेश प्रेस अण्ड मॅनेजिंग	159360 -
304	श्री. प्रसाद गोरक्ष प्रेस अण्ड मॅनेजिंग	828/30.12.12	टावर ट्रेडिंग अण्ड मॅनेजिंग	220000 -
305	श्री. प्रसाद गोरक्ष प्रेस अण्ड मॅनेजिंग	491/29.11.12	श्री. प्रसाद गोरक्ष प्रेस अण्ड मॅनेजिंग	1042100 -
306	श्री. प्रसाद गोरक्ष प्रेस अण्ड मॅनेजिंग	539/6.1.13	श्री. प्रसाद गोरक्ष प्रेस अण्ड मॅनेजिंग	200000 -

543

728

1049

298

307	श्री राजपाल सिंह शर्मा	127/12.03.19	वर्मा	आज के मु. : आर्य समाज विद्यालय	114173993-00
308	श्री राजेश कुमार शर्मा, जलकल	1131/30.8.2019		वीरगंज के इलाके में, जलकल (विद्यालय)	70000-00
309	" मि. रामसुंदर शर्मा	649/30.12.19		" " " " " " " "	114243993-60
310	डा. राजेश शर्मा, जलकल	629/24.7.19		" " " " " " " "	200000=00
311	" " " "	630/24.7.19		" " " " " " " "	94200=00
312	उपस्थान, गा. वि. शा. 0, गा. बा. 5	261/17.1.20		श. ए. ए. ए. अलायंस को यह पत्र और और, जलकल, विद्यालय	722985=00
313	पुस्तकालय, शा. वि. शा. 28, सी. ए. ए. शा.	601/13.2.20		श. ए. ए. ए. अलायंस को यह पत्र और और, जलकल, विद्यालय	909119=00
314	" " " "	972/16.3.20		गा. वि. शा. 0 का शा. वि. शा. 0 में, जलकल, विद्यालय	1,84,28,450=00
315	" " " "	973/16.3.20		जलकल के अलायंस की शा. वि. शा. 0 में, जलकल, विद्यालय	6,43,55,000=00
316	" " " "	974/16.3.20		" " " " " " " "	10000000=00
				" " " " " " " "	10000000=00
				वर्ष 2019-20 में दि. 31.3.20 तक खर्च का योग = 0	119909754=00
				क. ए. ए. का खर्च का योग =	229153777=00

Handwritten signature

545

1051

क्रमांक	अग्रिम प्राप्तकर्ता का नाम	आप प्रमाणक दिनांक	अग्रिम का प्रयोजन	31.3.22 को अग्रिम प्राप्त अग्रिम की राशि
330	श्री आबुलेथ कुमार शर्मा, श्री अश्व-प्र पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	1487/22.6.21	पुत्री के इलाज हेतु अग्रिम बेतन के सापेक्ष	150000
331	अडियन औषला कॉरपोरेशन, जेठ	1474/22.6.21	डीजल आपूर्ति हेतु	13008
332	श्री विनोद कुमार पुत्र ओमप्रकाश शर्मा	3/2.7.21	बेतन के सापेक्ष अग्रिम	144500
333	परिभोजना प्रबन्धक, यूनिट-31, (सी एण्ड डी एस), जलनिगम	624/15.7.21 99/7.9.21	वाई-6, नन्दग्राम आनिमिदा से डी.ब्लॉक मांजरा प्रतिनिधि ट्रेनिंग सेंटर होने वाले तक नाला निर्माण हेतु (14 वें कि.आं.)	100000000 100000000
334	परिभोजना प्रबन्धक, यूनिट-28 (सी एण्ड डी एस), जलनिगम	11/2.9.21	50 नग इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग स्टेशन के निर्माण हेतु	221250
335	श्री गौरव उपाध्याय, कनिष्ठक-2	141/8.10.21	बेतन के सापेक्ष अग्रिम	93300
336	परिभोजना प्रबन्धक, यूनिट-31, (सी एण्ड डी एस), जलनिगम	839/23.2.21	प्रह्लारगढ़ी में लेजर वैशाली केनाल तक RCC गले का निर्माण कार्य हेतु	200000000
337	अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड (वि०/अं), 3050 जल निगम, जाजिबाबाद	690/8.2.22	डीपवेल की रिजोनिंग एवं अधिष्ठापन का कार्य हेतु	5,78,20,000
338	एगेंट्स रिस्क प्रां.लि.	593/15.3.22	साहिबाबाद एवं बृजाविहार ड्रेन की स्वीचिंग कारी का डीटेमेंट एवं बुडिकेशन को हेतु	36942400

546

1059

क्रमानु
अग्रिम प्राप्ति कार्य का नाम

वर्ष प्रभावित वर्ष/दिनांक

अग्रिम का प्रयोजन

31.3.22 को अंतिम प्राप्ति की धर 113

339 श्री नन्दू कुम विभावरा, एम.कर्म

273/20.1.22

शुभ की धारी हेतु वेतन के सापेक्ष अग्रिम

114300

340 श्रीमती सुरेश्वरी परनी श्री अम्बिकाश्री एम.कर्म.

274/20.1.22

स्वयं के इलाज हेतु वेतन के सापेक्ष अग्रिम

96000

341 श्रीमती विमला परनी नकि शशी एम.कर्मजगि

789/18.2.22

प्रकाश प्राप्त हेतु वेतन के सापेक्ष अग्रिम

117600

342 श्री सुनता एम.कर्म.

607/15.8.22

स्वयं के इलाज हेतु वेतन के सापेक्ष अग्रिम

114300

343 पार्ष्णिजना प्रबन्धक, एल-2B

759/25.5.22

शहर की परनी वेतन का पार्ष्णिज पार्ष्णिजना के निम्नलिखित कार्य हेतु अग्रिम

38833800

344

पार्ष्णिजना प्रबन्धक, सुनिट-31, सी एलडी.एम, 3050 जलविभाग

912/31.3.22

एडि-06, नन्दप्रभाष धानि आन्दर से डी. ब्लॉक, आनं जनश्रुतिमिथी रेनिंग सैन्टर कोई रा-कलेव से नाल तक नाला निर्माण कार्य स्वयं के इलाज हेतु वेतन के सापेक्ष अग्रिम

48,39,500

345

श्री अनोज कुमार उम अर्धपाल एम.कर्म.

846/29.3.22

वर्ष 21-22 का योग

102900

जानवर्ष तक का योग

17,96,02,058

अवधिगत -

35,95,23,666

539126524

(1053) (547)

क्रमांक	आदिम प्रकल्प का नाम	चांटे/दिनांक	आदिम का प्रयोजन / विभाग का नाम	अंश/शत
346	श्री बख्खल पुत्र अतिरे	711(D)/8.4.22	प्रयोजन अकार / कारखाना विभाग	99.000/-
347	" सुनील पुत्र रत्नचाल	711(E) -u-	" " " "	89.100/-
348	" मोलू पुत्र बाबूदीन	743/14.7.22	" " " "	87.900/-
349	" अजय पुत्र हेमचंद्र	1054/20.7.22	" " " "	79.200/-
350	" लक्ष्मण पुत्र नारायण	1055 -u-	" " " "	1.05.900/-
351	" नरेश पुत्र रामचंद्र	184/5.8.22	" " " "	1.02.900/-
352	" अश्विनी पुत्र राम	187 -u-	प्रयोजन अकार / कारखाना विभाग	1.84.100/-
353	" रामचंद्र पुत्र नरेश चाल	228/14.2.23	खुद के इस्तेमाल हेतु / अविद्यमान विभाग (₹ 2,00,000/- आदिम के साथ ₹ 1,67,239/- अमानिजिरे)	32.761/-
<p>वर्ष 2022-23 का योग - 7.80.861</p> <p>गत्त वर्ष का योग - 53,91.26,524</p> <p>महायोग - 53,99.07.385</p>				

31.3.2023 ई
अमानिजिरे की टिप्पणी



1054

1055

548

सम्पत्ती आख्या भाग-क के प्रस्न-184 से सम्बन्धित ।

अन्तर्गत विराम व्यतीत विवरण

क्रमांक	व्यय प्रमाण संख्या / दिनांक	आवधिकारी / अवधिकारी का नाम	पद-नाम	ग्रहण करने वाले व्यक्तियों की संख्या	प्रमाण व्यतीत होने पर	प्रमाण व्यतीत होने पर	प्रमाण व्यतीत होने पर	प्रमाण व्यतीत होने पर
(1)	453 / 21-2-23	श्री आरिन्दम कुमार	पद्म शिवा	26000	2600	150	2450	2450
(2)		" प्रदीप कुमार	—	26000	2600	150	2450	2450
(3)		" अमित कुमार	—	26000	2600	150	2450	2450
(4)		" दिनेश कुमार	—	20300	2030	150	1880	1880
(5)		" सोहन कुमार	—	20300	2030	150	1880	1880
(6)		" शिव	—	27900	2790	150	2640	2640
(7)	452 / 21-2-23	" प्रदीप कुमार	सहायक	40400	4040	225	4040	4040
(8)		" शिव	—	29600	2960	150	2810	2810
(9)		" प्रदीप कुमार	—	25200	2520	150	2370	2370
(10)		" अमित कुमार	—	23800	2380	150	2230	2230
(11)		महेश्वर कुमार	—	39800	3980	160	3820	3820
(12)		" देवेंद्र कुमार	—	30500	3050	150	2900	2900

	1	2	3	4	5	6	7	8
(123)	450	21-2-23	954	21-2-23	42800	42800	1014	2186
(140)			" 31555	31555	29300	29300	150	2780
(151)			" 215	215	24900	24900	150	2490
(160)	449	21-2-23	31555	31555	36400	36400	150	3490
(117)			" 215	215	39200	39200	150	3920
(118)			" 31555	31555	36400	36400	150	3640
(119)			" 215	215	20300	20300	150	1880
(120)			" 31555	31555	33000	33000	150	3300
(121)	447	21-2-23	" 215	215	38100	38100	150	3810
(122)			" 31555	31555	41600	41600	150	4160
(123)			" 215	215	33300	33300	150	3180
(124)			" 31555	31555	39200	39200	150	3920
(125)			" 215	215	39200	39200	150	3920
(126)			" 31555	31555	33300	33300	150	3330
(127)			" 215	215	26000	26000	150	2100

549

6

2186

1057-558

ਮਰਾਮਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਖਰਚੇ

ਕ੍ਰਮ ਨੰ	ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰਬਰ / ਮਿਤੀ	ਵਿਵਰਣ	ਮਾਤਰਾ	ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ	ਮੁੱਲ	ਮੁੱਲ	ਮੁੱਲ	ਮੁੱਲ
128)	453 21-2-23	ਸ਼੍ਰੀ ਬਿੰਦੂ ਕਮਾਰ ✓	4	33300	3330	150	3180	
129)		" ਪਵਨ ਕਮਾਰ ਕਮਰ ✓	"	42800	4280	150	4130	
130)		" ਫਿਰੋਜ਼ ਕਮਾਰ ✓	"	33300	3330	250	3330	
131)		" ਵਰਦੀ ਸਿੰਘ ✓	"	33300	3330	150	3180	
132)		" ਅਕਾਲ ਕਮਾਰ ਕਮਰ ✓	"	41600	4160	150	4010	
133)		" ਬਿਨੋਦ ਕਮਾਰ ✓	"	40400	4040	150	3890	
134)		" ਰਾਮ ਸੁੰਦਰ ✓	"	40400	4040	150	3890	
135)		" ਬਿੰਦੂ ਕਮਾਰ ✓	"	34900	3490	150	3340	
136)		" ਵਰਦੀ ਕਮਾਰ ਕਮਰ ✓	"	40400	4040	150	3890	
137)		" ਬਿੰਦੂ ਕਮਾਰ ✓	"	40400	4040	250	4040	
138)		" ਵਰਦੀ ਕਮਾਰ ✓	"	36100	3610	150	3460	
139)		" ਮੁਖੀ ਸਿੰਘ ✓	"	26800	2680	150	2530	
140)		" ਵਰਦੀ ਕਮਾਰ ✓	"	40400	4040	150	3890	
141)		" ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ✓	"	40400	4040	250	4040	

-1055-

552

महान विद्यालय अर्थात् विद्यालय

क्रमांक	संख्या	दिनांक	आविष्कार/अनुमोदित/संख्या	पदनाम	ग्रेड देस वारिज प्रमाणिका संख्या	युवाए अर्थात् न्यून आयुवा 6	युवाए अर्थात् ग्रेड आयुवा 7	युवाए अर्थात् आयुवा 8
1	481	21-2-23	श्री भद्रेश सिंहावर ✓	गणक अध्यापक	80900	8090	शून्य	8090
2	"	"	" निरिन गौड़ ✓	गणक अध्यापक	78500	7850	580	7350
3	480	21-2-23	" आनंद कुमार शिपाई ✓	महाविद्यालय गणक	126800	12680	580	12160
4	"	"	" सौमित्र प्रताप सिंह ✓	अवर अध्यापक	41100	4110	520	3590
5	"	"	" अजय कुमार सिंह ✓	अवर अध्यापक	41100	4110	520	3590
6	479	"	" विवेक सिंह ✓	स.स.स. सहा. अध्यापक	80900	8090	520	7570
7	"	"	" सुनील रजिज कुमार ✓	ऑडिटर	34900	3490	520	2970
8	478	"	श्री अशोक कुमार ✓	स्वायत्त निरीक्षक	50500	5050	520	4530
9	477	"	" राजेश सिंह ✓	सहा. अध्यापक	68000	6800	520	6280
10	"	"	" विद्यालय पाटण ✓	अध्यापक आठ	138500	13850	520	13330
11	"	"	" अरुण कुमार पाटण ✓	अध्यापक आठ	93800	9380	520	8860

1	2	3	4	5	6	7	8
39)	474 / 21-2-23	श्री अश्वि कुमार शर्मा ✓	श्री अश्वि	78500	7850	225	7850
40)	472 —————	श्री अश्वि कुमार शर्मा ✓	श्री अश्वि	80000	8000	520	7480
41)	459 " "	श्री अश्वि कुमार शर्मा ✓	श्री अश्वि	24900	2490	225	2490
42)	" " "	श्री अश्वि कुमार शर्मा ✓	श्री अश्वि	39200	3920	225	3920
43)	" " "	श्री अश्वि कुमार शर्मा ✓	श्री अश्वि	37500	3750	225	3750
44)	" " "	श्री अश्वि कुमार शर्मा ✓	श्री अश्वि	33300	3330	225	3330
45)	" " "	श्री अश्वि कुमार शर्मा ✓	श्री अश्वि	33300	3330	225	3330
46)	" " "	श्री अश्वि कुमार शर्मा ✓	श्री अश्वि	24900	2490	225	2490
47)	" " "	श्री अश्वि कुमार शर्मा ✓	श्री अश्वि	28000	2800	—	2800
48)	458 —————	श्री अश्वि कुमार शर्मा ✓	श्री अश्वि	22100	2210	150	2060
49)	" " "	श्री अश्वि कुमार शर्मा ✓	श्री अश्वि	19700	1970	150	1820
50)	" " "	श्री अश्वि कुमार शर्मा ✓	श्री अश्वि	19700	1970	150	1820
51)	" " "	श्री अश्वि कुमार शर्मा ✓	श्री अश्वि	22100	2210	225	2210
52)	" " "	श्री अश्वि कुमार शर्मा ✓	श्री अश्वि	27200	2720	225	2720

-10611 (554)

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ	ਦੇਸ਼ ਸੰਨ	ਦਿਨਾਂ	ਅਭਿਆਸ	ਪ੍ਰਕਾਰ	ਕੁੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ	ਸਰਕਾਰੀ	ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ	ਕੁੱਲ	ਸਰਕਾਰੀ	ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ	ਕੁੱਲ
183)	456	21-2-23	ਸਰਕਾਰੀ	ਸਰਕਾਰੀ	19700	1970	150	1970	150	1820	
184)			"	ਸਰਕਾਰੀ	19100	1910	150	1910	150	1760	
185)	455		"	ਸਰਕਾਰੀ	27200	2720	255	2720	255	2720	
186)			"	ਸਰਕਾਰੀ	29700	2970	150	2970	150	2820	
187)			"	ਸਰਕਾਰੀ	25600	2560	150	2560	150	2410	
188)			"	ਸਰਕਾਰੀ	32300	3230	150	3230	150	3080	
189)			"	ਸਰਕਾਰੀ	37500	3750	255	3750	255	3600	
190)			"	ਸਰਕਾਰੀ	39200	3920	255	3920	255	3920	
191)			"	ਸਰਕਾਰੀ	32300	3230	150	3230	150	3080	
192)			"	ਸਰਕਾਰੀ	33300	3330	150	3330	150	3180	
193)			"	ਸਰਕਾਰੀ	32000	3200	150	3200	150	3050	
194)			"	ਸਰਕਾਰੀ	22100	2210	255	2210	255	2210	

1063-

956

गणतंत्रिय विधानसभा

क्र.सं.	विकास क्षेत्र / तालुका / जिला	अभियंता / कार्यकारी अधिकारी	पद-नाम	प्रति वेतन सल्लाह प्रदान केत	प्रतिमास वेतन	प्रतिमास वेतन	प्रतिमास वेतन	प्रतिमास वेतन
113	445 21-2-23	गणतंत्रिय विधानसभा	अभियंता	26000	2600	2250	2600	2600
114	444 —	" " " " " "	—	25200	2520	2250	2520	2520
115	443 —	" " " " " "	अभियंता	18500	1850	500	1850	1850
116	442 —	" " " " " "	अभियंता	41600	4160	2250	4160	4160
117	441 —	" " " " " "	अभियंता	31400	3140	150	3140	2990
118	440 —	" " " " " "	अभियंता	26800	2680	2250	2680	2680
119	439 —	" " " " " "	अभियंता	34300	3430	150	3430	3280
120	438 —	" " " " " "	अभियंता	29300	2930	150	2930	2780
121	437 —	" " " " " "	अभियंता	24200	2420	500	2420	1900
122	436 —	" " " " " "	अभियंता	24900	2490	2250	2490	2490
123	435 —	" " " " " "	अभियंता	32000	3200	2250	3200	3200
124	434 —	" " " " " "	अभियंता	21500	2150	150	2150	2000

1	2	3	4	5	6	7	8
125	442 21-2-2023	MA Debit Bunt ✓	Debit Bunt	39200	39200	2150	39200
126	"	" H2O Bunt ✓	"	39800	39800	"	39800
127	"	" H2O Bunt ✓	"	30200	30200	"	30200
128	441	" H2O Bunt ✓	"	47600	47600	"	47600
129	"	" H2O Bunt ✓	"	46200	46200	"	46200
130	"	" H2O Bunt ✓	"	41600	41600	"	41600
131	"	" H2O Bunt ✓	"	32300	32300	150	37000
132	"	" H2O Bunt ✓	"	37000	37000	2150	34000
133	"	" H2O Bunt ✓	"	39200	39200	"	39200
134	"	" H2O Bunt ✓	"	37000	37000	2150	37000
135	"	" H2O Bunt ✓	"	35300	35300	150	33800
136	"	" H2O Bunt ✓	"	33300	33300	150	31800
137	"	" H2O Bunt ✓	"	37500	37500	2150	37500
138	"	" H2O Bunt ✓	"	39800	39200	"	39200
139	"	" H2O Bunt ✓	"	26800	26800	1500	25300

557

क्र.सं.	वसुधामास / दिनांक	वसुधामास / दिनांक	वसुधामास / दिनांक	वसुधामास / दिनांक	वसुधामास / दिनांक	वसुधामास / दिनांक	वसुधामास / दिनांक	वसुधामास / दिनांक	वसुधामास / दिनांक	वसुधामास / दिनांक
140	44 21-2-23	श्री शिव	श्री शिव	22400	22410	500	1720			
141	440	" श्री शिव	"	40400	4040	200	4040			
142		" श्री शिव	"	39200	3920		3920			
143	512 23.3.23	" श्री शिव	"	39200	3920	150	3770			
144		" श्री शिव	"	37500	3750	225	3750			
145		" श्री शिव	"	41600	4160	225	4160			
146		" श्री शिव	"	39200	3920	150	3770			
147		" श्री शिव	"	24900	2490	225	2490			
148		" श्री शिव	"	24900	2490		2490			
149		" श्री शिव	"	25600	2560		2560			
150		" श्री शिव	"	26800	2680		2680			
151		" श्री शिव	"	26800	2680		2680			
152		" श्री शिव	"	26800	2680		2680			

559 1000

	2	3	4	5	6	7	8
53	2011/2011.3.23	ग्राहक खाता ✓	Home	33300	3330	2000	3330
54		ग्राहक खाता ✓	—	24900	2490	—	2490
55		” फरदा ✓	—	24900	2490	—	2490
56	511 23.3.23	ग्राहक खाता ✓	—	33300	3330	—	3330
57		” खाता ✓	—	39200	3920	—	3920
58		ग्राहक खाता ✓	—	39200	3920	—	3920
59		” फरदा ✓	—	40400	4040	150	3890
60	509 23.3.23	” खाता ✓	—	24900	2490	—	2490
61		” फरदा ✓	—	24900	2490	—	2490
62		” ग्राहक खाता ✓	—	24900	2490	—	2490
63		” खाता ✓	—	24900	2490	—	2490
64		” खाता ✓	—	24900	2490	—	2490

Sl. No.	Particulars	1066	580	1066	580	1066	580
165	SA 2000 ✓	30600	3060	30600	3060	30600	3060
166	" 1000 ✓	30600	3060	30600	3060	30600	3060
167	" 1000 ✓	24900	2490	24900	2490	24900	2490
168	SA 2000 ✓	24900	2490	24900	2490	24900	2490
169	SA 2000 ✓	18000	1800	18000	1800	18000	1800
170	" 1000 ✓	56900	5690	56900	5690	56900	5690
171	" 1000 ✓	93800	9380	93800	9380	93800	9380
172	" 1000 ✓	22100	2210	22100	2210	22100	2210
173	" 1000 ✓	27200	2720	27200	2720	27200	2720
174	" 1000 ✓	19700	1970	19700	1970	19700	1970
175	" 1000 ✓	19100	1910	19100	1910	19100	1910
176	" 1000 ✓	26000	2600	26000	2600	26000	2600
	SA 2000	32000	3200	32000	3200	32000	3200

562

निर्माण कार्य की अग्रस्त प्रभावितों का विवरण।

क्र० वा०से०/दिनांक	धनराशि	कार्य का नाम	कार्य का विवरण
1 1330/30.04.22	7.89.800	श्री उपवीर सिंह भट्टाकर	वर्ष-36 हलवागरी गद्दी गांव में मुख्य भाग स्ट्रलाकिंग टर्मिनस कार्य।
2 1324/—	6.04.100	"	बाबाजी इन्फ्रा इन्फ्रा इन्फ्रा वर्ष-16 मिलन छुई का सीन्डरफरन।
3 1325/—	7.02.700	"	वर्ष-61 सिन्डर का सीन्डरफरन।
4 1326/—	9.38.100	"	श्री.के.एस. इन्फ्रा इन्फ्रा इन्फ्रा विद्युत नगर जोन में विद्युत नगर अकबरपुर का निर्माण।
5 1328/—	4.96.000	"	लोडिंग नगर में प्रमुख कारोबी से पानी हवादि तक भावा निर्माण।
6 1327/—	830.500	"	अग्नि नगर इन्फ्रा इन्फ्रा वर्ष-80 शालीमार अग्नि नगर-एम.एस.सिन्डर फर्न विस्तार कार्य।
7 1352/—	11.76.800	"	बारु स्टेशन इन्फ्रा इन्फ्रा वर्ष-25 लाजपत नगर में एच.2.37 जी.टी.रोड तक आर सी.सी.भावा।
8 1349/—	12.80.200	"	जी.एम.इन्फ्रा इन्फ्रा वर्ष-10 डी.एस.पुष्प. कारोबी फर्न के चारों ओर वाली व स्ट्रलाकिंग।
9 1330/—	41.49.800	"	बाबाजी इन्फ्रा इन्फ्रा वर्ष-16 ओरों में इन्फ्रा इन्फ्रा में अकबरपुर तक भावा निर्माण।
10 1351/—	28.25.100	"	वर्ष-75 लाजपत नगर की-एम.सिन्डर में वाली व स्ट्रलाकिंग।
11 1348/—	5.80.800	"	आकुली नगर इन्फ्रा इन्फ्रा वर्ष-4 हलवागरी की-एम.सिन्डर में चारों ओर वाली व फुलवागरी इन्फ्रा इन्फ्रा।
12 160/7.5.22	265.100	"	अन इन्फ्रा इन्फ्रा वर्ष-59 सिन्डरी स्टेशन में स्ट्रलाकिंग।
13 161/—	672.600	"	— " — कर्न में स्ट्रलाकिंग।

28	5/16-22	4,80,700	श्री. सचिवा बिन्दुसा	वर्ष-11 कायपोलि विद्यालय मन्सुमान अतिरिक्त उच्चतम कार्य
30	6/ - - -	395,500	" - - - - -	वर्ष-50 - - - - - सुसंगर सिविलीका उच्चतम कार्य
31	7/ - - -	7,35,300	लीसा कन्सुखान	वर्ष-38 - - - - - अरुजा में रेजि. पुस्तक कार्य।
32	8/ - - -	2,21,000	" ए.एच. कन्सुखान	ज्ञान कि कृष्ण श्रद्धा का जीर्णोद्धार कार्य
33	9/ - - -	93,16,700	रीवस इरिजा रोस्ट प्रेजलमेर	वर्ष-50 सिविली में गार्डन छोड़नी का निर्माण।
34	11/ - - -	18,91,000	वी.एस. कन्सुखान	बिभिन्न धानों पर ग्राम जेवर लगाने का कार्य।
35	14/ - - -	8,32,600	वी.के. कन्सुखर	वर्ष-21 शोबपुर बीजकन्द उद्योग के व्यापक से आर.सी.सी.नाला।
36	19/ - - -	4,13,200	शानुमयी कन्सुखान	वर्ष-51 सुसाप विहार ई.व्यापक के धानों पर की-कॉन्क्रीट आदि
37	20/ - - -	4,67,200	" - - - - -	वर्ष-21 सुखानी आर्टिफिशियल के धानों पर मध्यम
38	21/ - - -	11,26,600	" - - - - -	वर्ष-07 लाल खार्डर डेकी वाला पर क्विस्सि कार्य।
39	22/ - - -	5,86,400	" - - - - -	" - - - - -
40	66/3.6.22	96,40,600	सुनील गर्ग खेठे	वर्ष-17 अरिज प्रकृती के धानों पुस्तक आर.सी.सी.नाला।
41	296/15.6.22	17,59,700	आर.पी. क्विस्सि	अरुह सिराहा में क्विस्सि मार्ग तक सड़क सुधार कार्य।
42	854/18.6.22	22,71,600	लीसा कन्सुखे	वर्ष-21 शोबपुर मार्ग में सुकृष्णनाम में शीतल तक आर.सी.सी.नाला।

- 43 859/18.6.22 8.19.200 श्री 01 सीमा कन्सल्टिंग ऑडि-10 कोटा अकेकर पार्क का सर्वे किया।
- 44 860/— 9.96.200 " आकाश इंजीनियर्स ऑडि-62 एच.एच.डी.पी.डी. अकेकर।
- 45 1033/24.6.22 44.45.900 " शीम कन्सल्टिंग ऑडि-30 अकेकर के.डी.डी. और पैर एच.एच.डी.पी.डी. अकेकर।
- 46 1036/— 34.00.900 " आकाश इंजीनियर्स ऑडि-29 अकेकर के.डी.डी. अकेकर।
- 47 1071/30.6.22 21.69.900 " श्री.डी. सिवलिंग एच.एच.डी.पी.डी. अकेकर।
- 48 1577/14.7.22 5.53.000 " ए.के. कन्सल्टिंग ऑडि-92 रामपुरा विमान एकेकर।
- 49 830/21.7.22 44.94.900 " अकाश कन्सल्टिंग ऑडि-59 फुरना बस अकेकर।
- 50 831/— 19.64.800 " अकाश कन्सल्टिंग ऑडि-53 अकेकर।
- 51 944/23.7.22 67.23.600 " आकाश कन्सल्टिंग ऑडि-55 अकेकर।
- 52 962/25.7.22 5.73.800 " आकाश कन्सल्टिंग ऑडि-38 अकेकर।
- 53 963/— 84.34.100 " आकाश कन्सल्टिंग ऑडि-20 अकेकर।
- 54 969/18.7.22 8.04.900 " अकाश कन्सल्टिंग ऑडि-83 अकेकर।
- 55 969/25.7.22 21.28.100 " अकाश कन्सल्टिंग ऑडि-92 अकेकर।
- 56 968/— 29.16.800 " ————— ऑडि-66 अकेकर।

57	991/28.7.22	26,67,800	डी.के.एस. इन्फ्रा डायलि	वर्ष-18 कम्पोजिट विद्यालय अम्बरपुर का पीनिटोर कार्य
58	992/-	695,900	"	विजयनगर वर्ष-14 व 14 के मध्य सेन चौक से सतलुव अड्डाल तक फेंस।
59	1001/-	14,80,100	विपिन कन्सट्रक्शन	वर्ष-20 कम्पोजिट विद्यालय प्रभुवन-बाइपास सुदृढीकरण।
60	1007/-	10,32,600	आर.सी. कन्स्ट्रक्टर	वर्ष-20 कस्टर्डेड 30 सिं0 पुलई व अरम्भत कार्य।
61	1008/-	15,08,200	प्रेस कन्सट्रक्शन	वर्ष-18 कम्पोजिट विद्यालय रत्नपुर का सुदृढीकरण कार्य।
62	1010/-	37,65,300	एनके कन्स्ट्रक्टर	वर्ष-24 अटोमोबाइल निगम बालिका कोलेज का -वीनीकरण।
63	1012/-	27,46,100	आभाश इन्फ्रस्ट्रक्चर	वर्ष-37 विक्रम एनसेव का बाला निर्माण
64	1013/-	48,09,800	बालकजी इन्फ्रा इन्जीन	वर्ष-16 जोरटा ट्रांसफार्मर से अरुथ डीस तक बाला निर्माण।
65	1014/-	20,98,400	डी.के.एस. इन्फ्रस्ट्रक्चर डायलि	वर्ष-89 अग्नि-स डाल से डीम फर्म हाईड्रेंटिंग टोल का मुख्य शक निर्माण।
66	1018/-	1,03,42,700	प्रेस कन्सट्रक्शन	वर्ष-3,14 व 58 विजयनगर सगर चौक आर.सी.सी. बाला निर्माण।
67	1658/22.10.22	11,30,200	वसीड वासट्रक्शन	सिधनी विद्यालय अरम्भत व सौन्दर्यकरण कार्य।
68	1662/-	1494600	आस्था कन्सट्रक्शन	वर्ष-95 कृजा ग्रुप पाठ दिदीप का अतिरिक्त अरम्भत कार्य।
69	1663/-	31,28,300	प्रेस कन्सट्रक्शन	एम.बी. गार्ल्स स्कूल अरम्भत कार्य।
70	1664/-	75,11,800	दुर्गीत गार्ज एड कम्पनी	वर्ष-17 लिण्डन विद्युत आर्बिस फेसरी स्किमिंग।
71	1665/-	30,11,300	बी.सी. रिपलकान	मेरुडोस अड्डास से काद्य मार्ग तक ड्रवर्टिडर व सफ़ा सुधार।

72	1681/22-10-22	31,42,600	श्री अमन कन्सल्टिंग	वर्ष-19 सित्तवा नैर धंकी सै आन्ध्रविष्क, शरदा हिरन लै आर-सी-पी-आर।
73	1682/ - - -	46,99,500	" श्री एन इन्फ्रा. प्रजेक्ट	वर्ष-6 सक्ती वा सुधापठार्क व आरवा रिफोर्।
74	1683/ - - -	39,40,000	" - - -	वर्ष-28 र्वा कम्पाउण्ड व शिवराज नोएवा के एन्ड्रोल्ड आर-सी-पी-आर।
75	1684/ - - -	52,34,500	" आन्ध्रवी इन्फ्रा इन्फो	वर्ष-16 शेरश शंभुजार्क सै शेरश शेर लै आरवा रिफोर्।
76	1685/ - - -	20,30,600	" - - -	वर्ष-75 मातवल नार सी-6 इन्डियनड शरितो सै शरतम व एन्ड्र सुधावा
77	1699/ - - -	14,31,600	" एवाम कन्सल्टिंग	आरवा रिफोर् शेर एल्ड सै नरशेर लै शरश शेर नरवा।
78	1688/ - - -	14,61,900	" शरिन कन्सल्टिंग	शुरि-धंकी सै शं-1 कर लै एन्ड्र शरि शरश शेर करी।
79	1690/ - - -	11,95,300	" सी-एच-कन्सल्टी	सीसी एन सै विभिन्न शरतो एर शरश शेर लराने का करी।
80	1691/ - - -	45,91,600	" शरवा इन्फार्मेटिक्	वर्ष-52 धंकी शेर इन्ड्र एर सै धंश नार पी-डी-नेर आर सी-पी-आर।
81	1692/ - - -	21,82,600	" आन्ध्रवी कन्सल्टिंग	वर्ष-72 शंशरवी शेर शीनेश सै शरश आरवा लै आरवा रिफोर्।
82	1693/ - - -	20,98,200	" शरकोएवा कन्सल्टिंग	वर्ष-52 शेरन एन्वी सै शंवीर एन्वी के शरश लै शरिवा करी।
83	1704/ - - -	36,83,800	" सुनील शर एर कन्सो	वर्ष-19 शरिवा एन्वी के शरश आर-सी-पी-आर।
84	1706/ - - -	16,17,300	" आर शरिवा शरवी	वर्ष-85 मातवल नार एन-ए-239 सै पी-डी-नेर लै आरवा रिफोर्।
85	1708/ - - -	2,08,49,400	" शंश कन्सल्टिंग	वर्ष 3,14,58 शरवा-धंकी शं आर-सी-पी-आरवा रिफोर्।
86	1716/ - - -	11,34,900	" आर-पी-डिन्डर	शेर शरवा लै शंश सुधावा
87	529/22-12-22	24,15,300	" शरीर कन्सल्टिंग	शरिवा विधाण का शरकर करी।

1025

568

88	530/22-12-22	1315.800	श्री आर. जी. बिन्दरक	विठ्ठल मोटल से दुई ई दुनिया लठ आर. सी. सी. नाला मिमि।
89	545/—	1322.800	" शकुन्तरी कसदरुखान	वर्ष-77 एम. एस. डिपमिडि के सामने वकि मिमि।
90	550/—	42.30.700	" श्री जी. ए. ए. प्रोसेसर	वर्ष-60 रजिस्ट्रेशन डी. एरिया में एड्ड सुधार व नाला मिमि।
91	535/21.2-23	5.15.400	" मदिमा कसदरुखान	वर्ष-13 प्रांति डूकन का प्रोत्ति उच्चपन।
92	505/15-3-23	5.86.200	" सचिमबिलर्स	वर्ष-11 श्री नालेनी प्रांति भरमर कर्ण।
93	516/—	24.01.9700	" बालानी इन्जिनरिंग	वर्ष-49 अरिपत्र नगर में मसु डेबें व रजिस्त्र कर्ण।
94	614/22-3-23	18.89.900	" ए. एच. कसदरुखान	वर्ष-92 बरिमा इंगाना कल्याणरुय श्रीपालय व भरमर कर्ण।
95	869/21.3.23	11.00.800	" अकाशा इन्जिनरिंग	वर्ष-43 कडकड आडल में सी. सी. रोड व नाला मिमि।
96	939/—	1288.200	" चण्णसिंह मसुपर	वर्ष-94 सुभापुरी में आर. सी. सी. कर्ण।
97	940/—	1300.000	" पी. वी. ए. एस. सिंग	वर्ष-32 कृष्णा नगर महेन्ड मसुरे वाली प्रती में सफु माली कर्ण।
98	945/—	9.32.500	" कोरक बिजनेस	वर्ष-84 राजनगर कसदरुखान के पास रसते की भरमर।
99	951/—	904.500	" ———	एच. एस. सी. कार्जिक्ल के पास रसते की भरमर।
100	957/—	9.36.186	" डी. के. एच. इन्जिनरिंग	वर्ष-94 सुभापुरी में डिगर भरमर कर्ण।
101	963/—	13.38.600	" ———	वर्ष-65 कर्षिकर डी. डी. सिंगल एरिया में डिस कर्ण।

- 102 1013/31.3.23 9,24,300 श्री सुखदा देविसिंह आई-73 शहीदार अरि मी काली व सुखदाबित्री।
- 103 197/— "— 850100 श्री — "— आई-73 शहीदार अरि मी काली व सुखदाबित्री।
- 104 1046/— "— 1401500 श्री अरिंदर कान्हा आई-34 शहीदार श्री श्री.पी. अमल।
- 105 1053/— "— 853100 श्री यशदा-मदकाश्री आई-95 सुधीरवर-मन अरिरी श्री शैल वर सुखदा।
- 106 1056/— "— 1702500 — "— आई-60 अमन-परि श्री सुखदा सुखदा अरि।
- 107 1058/— "— 877300 श्री मरुत सुभा आई-70 जगदुपी श्री शैल वर सुखदा अरि।
- 108 1097/— "— 1200000 श्री श्री.पी. देवदास आई-47 शहीदार श्री देवदास अरिंदर श्री शैल वर सुखदा अरि।
- 109 1116/— "— 1606700 श्री श्री. देवदास आई-37 शहीदार अरिंदर श्री श्री.पी. वर सुखदा अरि।
- 110 1139/— "— 1000000 श्री अरिंदर कान्हा आई-17 शहीदार श्री श्री.पी. सुखदाबित्री व सुखदा अरि।
- 111 1140/— "— 1300000 श्री शहीदार देवदास आई-52 यशदाबित्री श्री श्री.पी. सुखदाबित्री व सुखदा अरि।
- 112 1146/— "— 1100000 श्री सुखदाबित्री सुखदाबित्री आई-42 यशदाबित्री श्री श्री.पी. सुखदाबित्री व सुखदा अरि।
- 113 1152/— "— 1173000 श्री सुखदाबित्री सुखदाबित्री आई-99 सुखदाबित्री श्री श्री.पी. अमल अरि।

(576)

7022

114	1249	91.3.23	900000	श्री मया अन्तो	चार्ज-31 डिसेंबर तार मं श्री. श्री. राजवत
115	1250	—	2381400	श्री पद्मेकर अन्तो	चार्ज-02 < कल्याणपूर मं राजवत मं श्री. श्री. राजवत (श्री. श्री. राजवत)
116	1251	—	1618600	—	चार्ज-01 श्री. श्री. राजवत मं श्री. श्री. राजवत अन्तो
117	1252	—	2000000	श्री. श्री. राजवत	चार्ज-67 श्री. श्री. राजवत मं श्री. श्री. राजवत अन्तो
118	1753	—	1021600	श्री. श्री. राजवत अन्तो	चार्ज-51 श्री. श्री. राजवत मं श्री. श्री. राजवत अन्तो
119	1759	—	992000	श्री. श्री. राजवत अन्तो	चार्ज-46 पद्मेकर अन्तो मं श्री. श्री. राजवत अन्तो
120	1761	—	1834500	—	चार्ज-62 श्री. श्री. राजवत मं श्री. श्री. राजवत अन्तो
121	1764	—	1209800	—	चार्ज-46 राजवत मं श्री. श्री. राजवत अन्तो
122	2048	—	2332600	श्री पद्मेकर अन्तो	चार्ज-58 राजवत मं श्री. श्री. राजवत अन्तो
123	2058	—	1000000	श्री पद्मेकर अन्तो	चार्ज-6 श्री. श्री. राजवत मं श्री. श्री. राजवत अन्तो
124	2065	—	1005200	श्री. श्री. राजवत अन्तो	चार्ज-1 श्री. श्री. राजवत मं श्री. श्री. राजवत अन्तो
125	2069	—	1198900	श्री. श्री. राजवत अन्तो	चार्ज-15 श्री. श्री. राजवत मं श्री. श्री. राजवत अन्तो
126	2070	—	1531000	—	चार्ज-72 श्री. श्री. राजवत मं श्री. श्री. राजवत अन्तो
127	2071	—	0508700	—	चार्ज-29 श्री. श्री. राजवत मं श्री. श्री. राजवत अन्तो

